

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE

कृष्णादास संस्कृत सीरीज

३८

श्रीवर-कृत

जैन-राजतरङ्गिणी

(तरंग ३ तथा ४)

(आलोचनात्मक भूमिका, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अध्ययन
तथा हिन्दी अनुवाद सहित)


लेखक

डॉ० रघुनाथ सिंह

एम. ए., एल. एल बी, पी-एच. डी., डी. लिट्.,

एफ. आर. ए. एस., (लन्दन)

खण्ड १



कृष्णादास अकादमी, वाराणसी

१९७७

प्रकाशक : कृष्णदास अकादमी, वाराणसी

मुद्रक : वर्तमान मुद्रणालय, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि० सं० २०३४

मूल्य : रु० १५०-००

© कृष्णदास अकादमी

पो० बा० नं० ११८

चौक, (चित्रा सिनेमा बिल्डिंग), वाराणसी-२२१००१ (भारत)

अपरं च प्राप्तिस्मानम्

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

के० ३७/९९, गोपाल मन्दिर लेन

पो० बा० ८, वाराणसी-२२१००१ (भारत)

फोन : ६३१४५

KRISHNADAS SANSKRIT SERIES

39



JAINA-RAJATARANGINI

of

SRIVARA

(Taranga III & IV)

(Translation with critical Introduction, historical.
cultural and geographical notes in Hindi)

By

Dr. Raghunath Singh

M. A., LL. B., Ph D., D. Litt.

F. R. A. S. (London)

Part II



KRISHNADAS ACADEMY

VARANASI-221001

© KRISHNADAS ACADEMY

Oriental Publishers & Distributors

Post Box No. 118

Chowk, (Chitra Cinema Building), Varanasi-221001 (INDIA)

First Edition

1977

Price Rs 150-00

Also can be had of

Chowkhamba Sanskrit Series Office

Oriental Publishers & Book-Sellers

Post Box No 8

K. 37/99, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)

PHONE : 63145

सर्वविधैहिकभोगासक्तिरहितानां,
दीनजनपरित्राणपरायणानां,
परमोदारचेतसाम्
अस्मत्पितृचरणानाम्
श्रीबटुकनाथसिंह महानुभावानां
स्मृतिहेतोरिदं
पुस्तकप्रसूनम्

संकेत-सूची

अ०	अध्याय	काम०	• कामन्दक
अक०	अकवर नामा	का०सू०	: कामसूत्र
अग्नि०	अग्निपुराण	काव्य०	काव्य रचना
अथ०	अथर्व वेद	कि०	किष्किन्धा काण्ड रामायण वा०
अनु०	• अनुशासन पर्व	कु०	कुमार सम्भव
अमर०	अमरकोश	कू०	: कूर्म पुराण
अयोध्या०	अयोध्या काण्ड रामायण • वा०	कैम्ब्रिज०	कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया
अरण्य०	अरण्य काण्ड रामायण वा०	ख०	खण्ड
अर्थ०	अर्थशास्त्र कौटिल्य	गी०	: गीत गोविन्द
अल्वेरुनी०	अल्वेरुनीज इण्डिया	गीता०	: भगवद् गीता
आ०	आदि पर्व	जै० मि०	जैनमिद्धान्त कोश
आ०पु०	आदिपुराण	जैन०	श्रीवर राज० लेखक
आई०-ई०	इण्डियन एपिग्राफिक	जोन०	जोनराज राज० लेखक
आइन०	आइने अकवरी जरेट	तवक्कात०	तवक्काते अकवरी
आजम०	वाक्याते कश्मीर	ता० रशीदी	मिर्जा हैदर दुघलात कृत
आप० ध०	आपस्तम्ब धर्मसूत्र	ता० हसन	तारीखे पीरहसन कश्मीर
आश्व०	आश्वमेधिक पर्व	तीर्थ०	तीर्थ सग्रह माहेदराम
ई० आई०	इपिग्राफिका इण्डिका	त्रि० सार	त्रिलोक सार
इण्ड०एण्टी०	इण्डियन एण्टीक्वेरी	दत्त०	जोगेशचन्द्र दत्त अनु० राज०
उ०	: उर्दू अनुवाद पीरहसन	दुर्गा०	: दुर्गाप्रसाद रा०
उत्तर०	उत्तरकाण्ड वा०	द्र०	द्रष्टव्य
उत्तर मी०	उत्तरमीमामा	द्रो०	द्रोण पव
उद्योग०	उद्योग पव	नाट्य०	नाट्यशास्त्र
ऋ०	ऋग्वेद	नारद०	: नारद स्मृति
ऋतु०	ऋतु संहार	निज्जर०	: पंजाब अण्डर सुन्तान
क०	कल्कत्ता मस्करण राज०	नृसि०	नृसिंह पुराण
कम्प्रि०	कम्प्रिहेन्सिव हिस्ट्री	नै०	नैपथ
कर्ण०	कर्ण पव	परम०	डा० आ० के, हिस्ट्री आफ मुसलिम
कलि०	कलिगताब्द		रूल इन इण्डिया
कल्हण०	कल्हण राजतरंगिणी लेख	परा०	परासर माधवीय
कश्मीर०	जी० डा० एम० सूफी	पाण्डु०	पाण्डुलिपी
का०	कादम्बरी	पीर०	: पीर गुलाम हमन ता० कश्मीर

पु०	: पुराण	रघु०	: रघुवंश
प्रा०	: प्रायश्चित्त सार	रत्नादी०	: तारीखे रत्नादी
फिरिश्ता	: मुहम्मद कासिम : त्रिगस	रा० स०	: राजतरंगिणी संग्रह : लेखक
फो०	: फोलियो	ला०	: वैली आफ कश्मीर : कारेस्त
ब०	: बम्बई संस्करण : राज०	लिंग०	: लिंग पुराण
ब० चा०	: बहारिस्तान चार्ही	लोक०	: लोकप्रकाश अमेन्ट : कश्मीर स०
बाल०	: बालकाण्ड रामायण : वाल्मीकि	लौ०	: लौकिक या सप्तपि वर्ष
बा०-रा०	: बाल्मीकि रामायण	वन०	: वन पर्व
ब्रह्म०	: ब्रह्म वैवर्त पुराण	वाइन०	: जी० टी० वाइन्स : ट्रेवेल्स
ब्रह्म०	: ब्रह्माण्ड पुराण	वाज०	: वाजसनेयी संहिता
बृहत्०	: बृहत् संहिता	वायु०	: वायुपुराण
भविष्य०	: भविष्य पुराण	विक्र०	: विक्रमांक देवचरित
भा०	: भागवत पुराण	विलसन	: हिन्दू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर
भीष्म०	: भीष्म पर्व	विष्णु०	: विष्णुपुराण
भृति०	: भृति हरिदातक त्रयम्	विष्णुवर्मो०	: विष्णु वर्मोत्तर पुराण
म०	: महाभारत	वैकट०	: क्रोनोलोजी ऑफ कश्मीर : वैकटाचालन
मत्स्य०	: मत्स्यपुराण	वक्ति०	: वक्ति संगमतन्त्र
मनु०	: मनुस्मृति	वा०	: वान्तिपर्व
महा०	: महावंश	शिगु०	: शिगुपाल वव
मा०	: मातंग लीली	शुक०	: शुक राजतरंगिणी : लेखक
मार्क०	: मार्कण्डेय पुराण	श्रीकण्ठ०	: श्रीकण्ठ चरित
माहा०	: माहात्म्य	समय०	: समयमातृका : अमेन्ट
माल०	: मालवकाग्नि मित्र	सभा०	: सभा पर्व
मुद्रा	: मुद्रा राजस	सुर्वा०	: सुर्वावतार
मूर०	: मूरक्राण्ट : ट्रेवेल्स इन हिमालयन प्रोविन्सिज आदि	वै०	: वैशेषिक दर्शन
मेघ०	: मेघदूत	ज०	: जकुन्तला नाटल
मोहबुल०	: मोहबुल हसन, कश्मीर अपडर मुस्तान्म	स्कन्ध०	: स्कन्ध पुराण
मौ०	: मौसल पर्व	स्तीन	: क्रोनिकल्स ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर
न्युनिख०	: न्युनिख पाण्डुलिपि : तारीखे कश्मीर	हर०	: हरचरित चिन्तामणि
याज्ञ०	: याज्ञवल्क्य स्मृति	हसन०	: हसन विन अली कश्मीरी
योगवा०	: योगवासिष्ठ रामायण	ह०व०	: हरिवंश पुराण
		है० मल्लिक	: हैदरमल्लिक चादुरा

नोट—? : ? : १४७ जहाँ पुस्तक का नाम नहीं है, उसे श्रीवर राजतरंगिणी समझना चाहिए ।

२ : १०१	तरंग दो
३ : ३६	तरंग तीन
४ : ११२	तरंग चार

राजतरंगिणी जहाँ केवल रा० संकेत है उसे कल्हण कृत राजतरंगिणी समझना चाहिए ।

विषय-सूची

तृतीय तरंग

हस्सन शाह

१

चतुर्थ तरंग

मुहम्मद शाह

१४०

उपसंहार

१

श्लोकानुक्रमणिका

६१

नामानुक्रमणिका

९२

पश्चिमोऽयं प्रणामः

राजतरंगिणी प्रणयन की कथा बेष हुई, और कथा बेष हुई मेरी सहवर्णिणी की। जैसे वह जीवन थी, केवल इम कार्य का समापन देखने के लिए। ज्योंही सातों खण्ड प्रकाशित हुए, वह भी प्रस्थान कर गयी परलोक को।

राजतरंगिणी की लहरों में डूबता-उतराता, भारत के पुस्तकालयों में चक्कर लगाता, काश्मीर भूमि के कोनो-कोनो में श्रद्धा, अपने पास जो कुछ था, व्यय हो गया। किसी विद्या से आर्थिक या किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। किसी विद्या मन्दिर से प्रोत्साहन नहीं मिला। किसी ने पूछा नहीं। क्या कर रहा हूँ? कैसे कर रहा हूँ? करने से क्या लाभ होगा? किसी सदयहृदय ने कुछ जानने की जिज्ञासा न की।

पैतृक सम्पत्ति की व्यवस्था मेरी स्त्री करती थी। इस काल में वही मेरी सहायक थी। मंगलक थी। अन्नपूर्णा थी। मैं घर बैठ गया। लेखनी, कागज, मसीपात्र एवं पुस्तकें मेरी साथी थी। इस लम्बे आठ वर्ष के काल में मेरी अपहृ पत्नी ने एक दिन भी शिकायत न की। मैं क्यों निठल्लू की तरह बैठा हूँ। घर पर भार बना हूँ। कुछ काम वाम नहीं करता। इतने कठिन परिश्रम के पश्चात् भी पुस्तकों ने आर्थिक लाभ होना तो दूर रहा, पुस्तकें छप जाय, यही बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने मेरा परिश्रम बेकार समझा। मैंने भी समझा। बेकारी में बैठकर, कुछ बेकार कार्य करना बुरा नहीं है।

एक बात का मुझे पश्चाताप है। मैं अपने जीवन में पत्नी को किसी प्रकार का मुख नहीं दे सका। वैभव नहीं दे सका। उसी पर आश्रित हो गया। इस काल में अपने छप्पन वर्ष के सक्रिय निष्कलंक राजनीतिक जीवन का कुछ लाभ न उठा सका। तिकड़म कर, किसी राज पद पर बैठ न सका। अपनी स्थिति अच्छी न बना सका। विरोधी दल में होने के कारण लोगों ने समझा। मेरा भी कुछ होगा। मैं संसद या विधान सभा में जाऊँगा। किसी ने मुझे पूछा नहीं। मैं भी आत्म सम्मान, स्वाभिमान न खाँकर राजनीतिक पद गौरव को नमस्कार करना ही अच्छा समझा।

मैं अकेला हो गया। निःसन्तान होने के कारण कोई भी सहारा नहीं था। दैनिक समस्याएँ, घर-गृहस्थी की समस्याएँ, कृषि तथा गृह के मकानों की समस्याएँ, विकराल रूप में सामने आने लगी जिसके कारण निश्चिन्त बैठा पढ़ता रहा, लेखनी विमता रहा, वह सहारा टूट गया। आधुनिक आयु विज्ञान इम महारे को बना न रख सका। प्रगति शील विज्ञान उसे बचा न सका।

जिसका उदय है। उसका अस्त है। जिसका जन्म है। उसको मृत्यु है। जिसका आदि है। उसका अन्त है। यह अमर वाणी अमर होकर रही। जीव अकल्प आता है। अकल्प जाता है। अकल्प रहता है। तथापि समाज अपने बन्धनों से उसे दुकेला बनाता है। प्रकृति बन्धन को छिन्न कर पुनः उसे अकेला बना देती है। मैं भी अकेला हो गया। केवल मृत्यु साथ देने वाली है। उसके आसरे बैठा हूँ।

उम मृत्यु का आभाम हो गया था। गल्प चिकित्सा के पश्चात् भी मृत्यु के आगमन की गति तीव्र होने लगी। वह द्वार पर आ गयी। देख रहा था। जो अभी शीत रही है। वह कल न बोलेंगी। जो आज जीवित था। वह कल न रहेगी। जो आज गति शील है। उसकी गति कल्प बन्द हो जायगी। जिसका अथक परिश्रम से सेवा मुश्रूपा कर रहा हूँ, उसे कुछ ही समय पश्चात् अग्नि को अर्पित करूँगा। वह भस्म की ढेर मात्र रह जायगी। गंगा की धारा में भस्म भी वह जायगी चाते मन में आते ही, मन उद्विग्न हो गया।

वोली बन्द हो गयी। उर्ध्व स्वास चलने लगी। पाद तल से शीत की दिशा उर्ध्व गामी हो गयी। पुतलियाँ कभी कभी चलती। मैंने झुककर उन पुतलियों में देखा। कुछ समय तक पुतलियों को आखों के एक कोने से दूसरे कोने तक चलते देखा। एक पुतली का चलना बन्द हो गया। मैंने उसके शरीर पर हाथ फेरा। वह चाह कर भी बोल न सकी। केवल नैन आर्द्र हो गये। मैं विचलित हुआ। समर्थ मानव कितना असमर्थ हो जाता है। मैं भी अपने मृत्यु काल में इसी प्रकार असमर्थ हो जाऊँगा। भाव आते ही भय मिथित चिंता घेरने लगी।

शरीर को निम्सारता का अद्भुत प्रदर्शन देखते हुए, अस्पताल में एकत्रित सग्वन्धियों शुभचिन्तकों स्वस्थ लड़े मानवों की ओर देखा। वे भी असमर्थ थे। कुछ कर नहीं पा रहे थे। ज्ञान, विज्ञान दोनों ही कथा शेष देस रहे थे। जीवित काल के सन्तोष प्रद शास्त्र वचन स्मरण करते थे। क्या मरणासन्न इसी प्रकार उन्हें स्मरण करता है ?

इस जगत में मिलते-जुलते, हँसते-विहँसते, धूमते-धामते, अपने अस्तित्व पर, मृतक के सम्मुख लोग क्यों गर्व करते हैं, यह एक विचित्र विडम्बना है।

वैराग्य, योग, दर्शन कर्मकाण्ड इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल नहीं हो सके हैं। मृत्यु के पश्चात् क्या होता है ? दार्शनिकों की कल्पना, योगियों की योग दृष्टि, वहाँ तक क्या जाती है ? कोई मरकर लौटा नहीं। काया त्याग कर गयी आत्मा आकर, कुछ बताने नहीं सकती। मृत्यु काल में जन्म ग्रहण करने के मध्य आत्मा या सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है ? क्या करता है ? क्रिया कलाप क्या होता है ? यह कड़ी लुप्त रहती है।

पूर्व जन्म की घटना बताने वाले शिशु या बालक या बालिकायें, इस लुप्त कड़ी पर, कुछ प्रकाश नहीं डालती। योग वासिष्ठकार ने अनेक प्रकार की कल्पनाएँ की हैं। अनुमान किया है। तर्क किया है। किन्तु वसिष्ठ भी मरकर प्रत्यक्ष कुछ कह नहीं सके। जो कुछ कहा अपने जीवन में कहे। अदृश्य शरी, परलोक की कल्पना कर कहा। तर्क भी तर्क में ही कटता है। अनेक धर्मों, सम्प्रदायों, मत, मतान्तरो एवं दर्शनों का इसीलिये उदय हुआ है।

अस्पताल में वह मृत्यु नहीं चाहती थी। बन्धन के नीचे मृत्यु नहीं चाहती थी। यह बात मृत्यु के पूर्व उसने लोगों से कहा था। प्रातः चार बजे से उर्ध्व स्वामा चली। डाक्टरों ने लोगों से कहा। घण्टा, दो घण्टा में मृत्यु हो जायगी। परन्तु वह सायंकाल साढ़े चार बजे तक उसी स्थिति में पड़ी रही। लोगों को ख्याल आया। वह घर पर मरना चाहती थी। लोग उसे घर लाये। घर आते ही दस मिनट पश्चात् प्राण पत्थरु पाँच बजकर दस मिनट पर १४ जून मन् १९७७ ई० क उड़ गये।

ऊँची चिन्ता की प्रज्वलित ज्वाला मणिकर्णिका घाटपर उसकी काया का रूप लीप करती उँची होती गयी। अकस्मात् लोगों ने देखा। वह ज्वाला में गंगाभिमुख बैठ गयी। पुनः ज्वाला में लिपटने लगी।

मैं खड़ा था। वह जल रही थी। श्मशान वैराग्य हुआ। शरीर में क्या लाभ ? जिमते साथ इक्कावन वर्षों तक रहा साथ क्यों न चला जाऊँ ? श्मशान में धधकती चिन्ता के समीप किञ्चित् मात्र मृत्यु भय नहीं लगा। बल्कि उत्साह बढ रहा था, रहस्य समझ रहा था। नारियाँ बैसे, किम भावावंश में, किम परिस्थितियों में उत्साह से सती हाती थी। इस प्रकार मेरी पत्नी लीलावती देवी को कथा मृत्यु काल से पाँच घण्टों के अन्दर शेष हो गयी। हम दस बजे रात्रि श्मशान से लौट आये।

यह पुस्तक मैंने अपने पिता को समर्पित किया है। पिताजी शुद्ध कृपक थे। कभी जीवन में गरम या ऊनी कपडा नहीं पहनने। खट्टर की धाती और मिरजियों ने जीवन व्यतीत कर दिया। जीवन पर्यन्त

किसी विवाद में नहीं पड़े। पहनने-खाने का शौक नहीं था। जो मिला खा लिया। नहीं मिला चुप होकर बैठे रहे। एक पैसे की सुरती में उनका एक मास व्यतीत हो जाता था। किसी को न तो कष्ट दिया और न उन्हें कष्ट मिला। मिथ्या भाषण एवं पाखण्ड से उन्हें चिढ़ थी। उनके यहाँ से कोई शायद ही विमुख होकर लौटा था। किसी से किसी प्रकार की न तो उन्होंने आशा की और न किसी को व्यर्थ की आशा दी।

उनसे कभी एक पैसा मैंने न लिया और न उन्हें कभी कुछ दिया। कभी मेरे विषय में उन्होंने जिज्ञासा नहीं की। मैं क्या लिखता, पढ़ता या करता हूँ। उनकी दृष्टि इस विषय में उदासीन नहीं निरपेक्ष थी। विदेह तुल्य थे। भगवान ने जीवन दिया था, शरीर दिया था। उसका वे जैसे निष्काम भाव से पालन कर रहे थे। उनकी मृत्यु के समय बहुत पूछा। उनकी क्या इच्छा थी। वे कुछ इच्छा प्रकट नहीं किये। उन्हें आजन्म किसी प्रकार की कामना नहीं हुयी।

वे कभी पूजा-पाठ, दर्शन एवं तीर्थ यात्राओं में न विश्वास किये और न कहीं गये। मनुष्य शरीर पाया था। शरीर उनका नहीं था। वह शरीर के नहीं थे। वे उस प्राण का, शरीर का, भगवत् प्रदत्त थाती का, जैसे पालन कर रहे थे। संसार के राग-द्वेष, भोग वासना से अलग आदर्श सच्चरित्र जीवन, एक परिश्रमी कृपक की तरह बिता दिये। उनका शुद्ध, निर्मल एक पत्नीव्रत, अमिथ्या भाषण, आज भी उनके ग्राम के लिये आदर्श है। उन्हें यह पुस्तक समर्पित करते गौरव का बोध करता हूँ।

काशी विश्वविद्यालय के सर्व श्री डॉ लल्लनजी गोपाल के, संस्कृत एवं डॉ० जी. डी. भटनागर के फारसी ज्ञान का लाभ उठाता रहा हूँ। पुस्तक प्रणयन में गत आठ वर्षों से श्री पशुपति प्रसाद द्विवेदी हमारे सहायक रहे हैं। उनके ज्ञान रुचि से लाभान्वित हुआ हूँ। संस्कृत विश्व-विद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष श्री डॉ०-लक्ष्मी नारायण तिवारी तथा उप पुस्तकाध्यक्ष श्री अच्युत नाथ झा तथा वहाँ के सर्व श्री जामवन्त मिश्र एवं झारखण्डे सिंह (भक्त राज) का आभारी हूँ। उनके कारण मुझे सरस्वती भवन में सरस्वती के दर्शन की सर्वदा सुविधा-मिलती रही है। काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष श्री हरिश्च शर्मा तथा उपपुस्तकाध्यक्ष श्री शिवनाथ राघव जी ने एक आदर्श पुस्तकाध्यक्ष रूप में पढ़ने की सुविधा के साथ, अलभ्य पुस्तकों को भी मुझे सुलभ कराया है। उक्त उदार सरल हृदय मान्य सज्जनों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

चौखम्भा संस्कृत सीरीज के श्री विठ्ठल दास एवं हिन्दी प्रचारक संस्थान के श्री कृष्णचन्द्र वेरी का आभारी हूँ, जिनके कारण सातों खण्ड प्रकाश में आ सके हैं। श्री महादेव चतुर्वेदी ने कल्हाण तथा शेष तरंगिणियों का प्रूफ चौखम्भा के श्री प्रेम नारायण शर्मा ने देखा है। प्रूफ ले जाने तथा लाने में सर्व श्री अकवाल नारायण सिंह, माधव प्रसाद शर्मा, एवं कृष्ण मुरारी सिंह विना संकोच कार्य किये हैं। वे धन्यवाद के पात्र हैं। हिन्दी की भूमिका तथा उपसंहार की मूल पाण्डुलिपी श्री डॉ० देवराज यादव प्राध्यापक उत्तर रेलवे आदर्श विद्यालय इण्टर कालेज ने देखी है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ।

महावीर तथा वर्द्धमान प्रेस काशी में सातों खण्ड मुद्रित हुए हैं। जिस आत्मीयता तथा उत्साह के साथ सर्वश्री वाबूलाल फागुल्ल तथा उनके पुत्र महावीर, राजकुमार एवं आनन्द ने कार्य किया है, उससे मुझे क्षण मात्र के लिये प्रतिभास नहीं हुआ कि वे व्यवसाय बुद्धि से कार्य कर रहे थे। सर्वदा यही अनुभव करता रहा जैसे वे मेरे परिवार के हैं। उन्होंने उसे अपना ही कार्य समझा। उनके उत्थान की कामना करते हुए, इस कार्य को कराने वाली प्रेरक शक्ति को पश्चिमोऽयं प्रणामः।

अथ

श्रीवरपण्डितकृता

जैनराजतरंगिणी

तृतीयस्तरंगः

तृतीय तरंग

मंगलाचरण^१ :

शिवायास्तु नमस्तस्मै त्रैलोक्यैकमहीभुजे ।

अशेषक्लेशनिर्मुक्तनित्यैश्वर्यदशाजुषे ॥ १ ॥

१. त्रैलोक्य^२ के एक महीभुज^३, उस शिव को नमस्कार है, जो अशेष^४ क्लेश से निर्मुक्त तथा नित्य ऐश्वर्य से युक्त है।

पाद-टिप्पणी :

१. (१) मंगलाचरण : नमस्कारात्मक है।

ग्रन्थ का मध्यगत मंगलाचरण है। मंगल प्रवण है।

(२) त्रैलोक्य : स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल लोक।

(३) महीभुज : राजा = स्वामी। विष्णु का विशेषण है।

(४) अशेष : अशेषता का अर्थ होगा— शेषरहित, पूर्णता, समग्रता। जिसमें कुछ बाकी नहीं बचता। 'अशेषेशमुपीमोषं भाष मरुनामि केवलम्' उद्भट। रामचन्द्रिका में महाकवि केशव लिखते हैं— विषमय यह गोदावरी अमृत को फल देति।

केशव जीवनहार को दुःख अशेष हरि लेत ॥

X X X

मिस रोम राजि देखत सुवेप।

विधि गनत मनो गुनगन अशेष ॥ गुमान ॥

(५) क्लेश : पतंजलि कृत योगसूत्र साधन पादसूत्र ३ में क्लेश की परिभाषा दी गयी है।

'अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। (३)

१. अविद्या, २. अस्मिता, ३. राग, ४. द्वेष एवं ५. अभिनिवेश पांच क्लेश हैं।

सांख्य में ही उन्हें क्रम से तमस (अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोह (राग), तामिस्र (द्वेष), अन्ध तामिस्र (अभिनिवेश) कहा गया है (सा०का० ४८)। साधनपाद सूत्र १२ में क्लेश मूल के विषय में चर्चा की गयी है। क्लेश जिसका मूल है, ऐसे कर्मों की वासना दृष्टादृष्ट जन्मों में भोगने योग्य होती है। क्लेशों से कर्म की वासनार्ये उत्पन्न होती हैं। उनसे जन्य वृक्ष उत्पन्न होता है। उस वृक्ष में जाति, आयु और योग तीन फल लगते हैं। उनमें सुख एवं दुःख स्वाद होता है। धर्म समाधि से क्लेश तथा शुक्ल, कृष्ण एवं मिश्रित अर्थात् पुण्य, पाप एवं पाप-पुण्य मिश्रित कर्मों से

भूतं यद् राज्यवृत्तान्तं वर्तमानं करोत्यलम् ।

स्वाग्योग्यप्रकारेण वन्द्यो योगीश्वरः कविः ॥ २ ॥

२. भूतकालीन जिस राज्य वृत्तान्त को अपनी वाणी की योग्यता से वर्तमान करता है, वह योगीश्वर कवि वन्दनीय है ।

रचना का उद्देश्य

प्रतिग्रहानुग्रहाप्ता भुक्ता यन्नृपजीविका ।

तद्वृत्तं स्वस्य निष्कृत्यै वक्ष्ये श्रीवरपण्डितः ॥ ३ ॥

३ जिस नृपति की जीविका का भोग किया, तथा प्रतिग्रह एव अनुग्रह प्राप्त किया, मैं श्रीवर पण्डित, अपने को ऋणमुक्त होने के लिये, उसका वृत्त वर्णन करूँगा ।

निवृत्ति हो जाती है—'तन क्लेश कर्म निवृत्ति' (कैवल्यपाद सूत्र ३०) । जिनके कारण दुःख होता है वही क्लेश है । ईश्वर की व्याख्या (समाधि-पाद सूत्र २४ में) की है—

'क्लेश कर्म विपाकाशपैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वरा ।' क्लेश, कर्म, विपाक एव आसय के सम्बन्धों से रहित पुरुषविशेष ईश्वर है ।

श्रीवर ने अशेष-क्लेश शिव के विशेषण रूप में प्रयोग किया है ।

कर्मों के फल का नाम विपाक है । कर्मों के सस्कारों का नाम आशय है ।

बौद्ध मान्यता के अनुसार क्लेश दस हैं—
१ लोभ, २ द्वेष, ३ मोह, ४ मान, ५ दृष्टि, ६ चिकित्सा, ७ स्थिति, ८ उद्भव्य, ९ अहीक, १० अनुताप ।

जैन मान्यता है—असद्वेद्यो दया पादित शरीर मानस दुःख सन्तापात् क्लिश्यन्त इति क्लिश्य माना । असाता वदनीय के उदय से जो दुःखी हैं, व क्लिश्यमान कहे जाते हैं (स० सि० ७ ११ ३३९ १०) । असद्वेद्योदयापादित शरीर मानस दुःख सन्तापात् क्लिश्यन्त इति क्लिश्यमाना—असाता-वदनीय कम के उदय से जो शरीर और मानस, दुःख से सन्तापित हैं, व क्लिश्यमान कहे जाते हैं (रा० वा० ७ ११ ७ ५३८ २७) ।

पाद-टिप्पणी

२ (१) कवि सर्वज्ञ = ब्रह्मा । आदिकवि वाल्मीकि है । महर्षि व्यास कवि वेधा है । कालिदास महाकवि है । वाणभट्ट रस समाहित कवि है । कवि असुरो के गुरु शुक्राचार्य की उपाधि है । कवि कर्म काव्य-रचना है । कवि के तीन वर्गीकरण है—१ सारस्वत-पूर्वजन्म का सस्कार या सरस्वती की कृपा, २ अभ्यासी-अपने जीवन में जो अभ्यास के कारण कवि बन जाता है, ३ औपदेशिक-मन्त्र, तन्त्रादि के प्रभाव से जो कवि बनता है । महाकवि केशवदास ने—१ उत्तम २ मध्यम तथा ३ अधम में कवि का वर्गीकरण किया है ।

उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरि रसलीन ।

मध्यम मानत मानुपनि, दोपनि अधम प्रवीन ॥

(कविप्रिया ४ २)

राजशेखर ने आठ वर्गीकरण किया है—१ रचना-कवि, २ शब्द-कवि, ३ अर्थ-कवि, ४ अलंकार-कवि, ५ उक्ति-कवि, ६ रस-कवि, ७ मार्ग-कवि, ८ शास्त्राय कवि (का०मो० अ० ५) ।

अपारे काव्यससारे कविरेक प्रजापति ।

यथास्ये रोचते विश्व तथेद परिवत्तते ॥

पाद-टिप्पणी

३ (१) उद्देश्य : बोध, कीर्ति तथा प्रयोजन है—आनन्दवर्धन कवि ने उसे बोध, कीर्ति तथा प्रीति-काव्य का प्रयोजन माना है ।

स्वदृग्दृष्टस्मृतक्षमाभृद्विपद्विभववैकृतैः ।
सेयं कस्य न वैराग्यं सूते राजतरङ्गिणी ॥ ४ ॥

४. अपने आँखों से देखे तथा स्मरण किये, राजाओं के विपत्ति, वैभव, आदि विकृतियों के कारण, यह राजतरङ्गिणी^१ किसमें वैराग्य नहीं पैदा करेगी ?

राज्यवृत्तानुरोधेन न काव्यगुणचर्चया ।
सन्तः शृण्वन्तु मद्राचः स्वधिया योजयन्त्वपि ॥ ५ ॥

५. काव्यगुण चर्चा के कारण नहीं, अपितु राज्यवृत्तान्त^१ के अनुरोध से, सज्जन लोग मेरी वाणी को सुनें और अपनी बुद्धि से जोड़ें ।

कायस्थोक्तिवदेवेयं कृता स्मृत्यै भविष्यताम् ।
दृष्ट्वेमां ललितं काव्यं कुर्वन्त्वन्येऽत्र पण्डिताः ॥ ६ ॥

६. कायस्थों की उक्ति के समान, भावी जनों की स्मृति के लिये, यह रचना की है । उसे देखकर, अन्य पण्डित उस पर, ललित काव्य^१ रचना करें ।

पाद-टिप्पणी :

४. (१) राजतरङ्गिणी : श्रीवर पुस्तक का शीर्षक राजतरङ्गिणी देता है ।

दोषी शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' । सर्वत्र सालंकारी, क्वचित् स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानिः ।'

पाद-टिप्पणी :

५. (१) राजवृत्तान्त = इतिहास । उक्त श्लोक से प्रकट होता है । श्रीवर का उद्देश्य राज्य-इतिहास लिखना था, न कि काव्य-रचना । प्रसंगवश यदि काव्य के तत्व आ गये हैं, तो वे उत्कर्षाघायक हैं ।

रसगंगाधर में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक को काव्य कहा है । इसके अन्तर्गत शब्दालंकार भी माना गया है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है । काव्यप्रकाश में काव्य के लक्षण—१. ध्वनि, २. गुणभूत, ३. व्यंग तथा ४. चित्र लिखा गया है । महाकाव्य तथा खण्डवद्ध काव्य का वर्गीकरण किया गया है । सर्गवद्ध महाकाव्य है । उसमें नायक—देवता, राजा, वीरोदात्त गुणसम्पन्न होना चाहिए । शांत, शृंगार एवं वीर रस की प्रधानता आवश्यक है । मध्य में करुणा तथा हास्यरस का भी मिश्रण अपेक्षित है । कम-से-कम आठ सर्ग होना चाहिए । इस दृष्टि से श्रीवरकृत राजतरङ्गिणी सर्गवद्ध काव्य है । उसका नायक राजा या सुत्तान है । इसमें प्रायः सभी रसों का समावेश हो गया है । द्र० : २ : २१५ ।

पाद-टिप्पणी :

६. (१) काव्य : दण्डी शब्द को काव्य मानते हैं—'शरीरं तावदिष्टार्थं व्यवच्छिन्ना पदावलिः' (काव्यादर्श) । किन्तु काव्यालंकार में भामह—'शब्दार्थो सहितौ काव्यम्'—अर्थात् शब्द एवं अर्थ सहित काव्य होता है । आनन्दवर्चन ने—'शब्दार्थयो साहित्येन काव्यम्' परिभाषा किया है । वामन ने—'सह-दयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्' लिखा है । मम्मट ने काव्य की परिभाषा किया है—'तद्

हस्सनशाह^१ (सन १४७२-१४८४ ई०)

ततः श्रीहस्सनो राजा व्यसनोज्झितवासनः ।

शेकन्दरपुरीं त्यक्त्वा पित्र्यां प्राशस्त्यसुन्दरम् ।

अगमज्जैननगरम् पितामहविनिर्मितम् ॥ ७ ॥

७ तत्पश्चात् राजा श्री हस्सन पिता की सिकन्दरपुरी^२ त्यागकर, प्राशस्तिपूर्ण एव सुन्दर पितामह द्वारा निर्मित, जैननगर^३ (नवशहर) गया ।

सिंहासनोपविष्टः स निर्मलाम्बरभूषणः ।

वभौ कुवलयानन्दी शशीवोदयपर्वते ॥ ८ ॥

८ निर्मल वस्त्र द्वारा भूषित, पृथ्वीमण्डल को आनन्दित करनेवाला, सिंहासन^१ पर बैठा हुआ, वह चन्द्रमा के समान शोभित हुआ ।

पाद-टिप्पणी

७ (१) हस्सन तवक्काते अकबरी के दोनो पाण्डुलिपियो मे शीपक गलत दिया गया है । एक मे सुल्तान 'हुसेन' नाम तथा दूसर मे नाम छोड दिया गया है (४४८ = ६७५) ।

समसामयिक घटनाएँ—सन् १४७५ ई० में वर-नेट तथा तवक्कसवरी का युद्ध तथा राजा एडवड चतुथ ने पुनरौज्य प्राप्त किया । मुहम्मद बुगरा ने सिन्ध पर आक्रमण किया । सन् १४७३ ई० में हुसेनशाह जौनपुर दिल्ली पर पहुँचा परन्तु पराजित होकर पलायन किया । सन् १४७४ ई० में जौनपुर के हुसेन ने पुन दिल्ली पर आक्रमण किया परन्तु पराजित होकर लौट गया । वगाल में इस समय शमशुद्दीन युसुफशाह सूबेदार था । उदय मवाड में राज्यच्युत हुआ और रायमल्ल राजा बना । मुहम्मद बुगरा ने द्वारका मन्दिर नष्ट किया । सन् १४७४ ई० में पुतगालियो ने केपडीवड द्वीप का पता लगाया । वहलोल लोदी ने जौनपुर राज्य पर विजय प्राप्त किया । सन १४७५ ई० में बर्मा से २२ भिक्षुओं का शिष्टमण्डल श्रीलका गया । सन् १४७६ ई० म जौनपुर के हुसेनशाह ने पुन दिल्ली पर आक्रमण किया परन्तु शिखेरा में पराजित होकर इटावा लौट गया । मुहम्मद तृतीय बहमनी ने तिल-

गाना पर आक्रमण किया । श्रीलका में भुवनेकवाहु चतुर्थ की मृत्यु हो गयी और पराक्रमबाहु सप्तम राजा हुआ । सन् १४७८ ई० में जौनपुर में पुन युद्ध हुआ । जौनपुर विजय कर, उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया ।

(२) सेकन्दरपुरी थीनगर । द्र० जैन० २ : ५, ४२, ३ ७ २०० ।

(३) जैननगर नवशहर । द्र० जौन० रा० ८६९, जैन : रा० १ ५ ४, १ ७ १९४, ३९८, २९७, १९९, ३२०, ४ १२० ।

फिरिश्ता लिखता है—सुल्तान ने अपनी राज-धानी नौशेहरा (नौशहर) में स्थापित किया (४७७) ।

पीर हसन लिखता है—सुल्तान हसनशाह ने बाप की वफात के बाद मलिक अहमद यतू की कोशिश से बहराम खाँ की मरजी के वरखिलाफ नौशहर के शाही महलात में हिजरी ८८० = विक्रमी १५३२ में तख्तशाही पर जलूस किया ।

पाद-टिप्पणी

८ श्रीवर ने राज्यग्रहण काल सप्तर्षि वर्ष ४५४८ वैशाख श्रीपचमी, श्रीदत्त कलि गताब्द ४५७३ = शक १३९४ = सप्तर्षि ४५४८ = सन् १४७२ ई० तथा राज्यकाल १२ वर्ष, ५ दिन देते

मल्लिकोऽथात्तदायुक्तो विधाय तिलकं स्वयम् ।

सौवर्णकुसुमैः

पूजामकरोन्नवभूपतेः ॥ ९ ॥

९. मल्लिक तथा आयुक्त^१ अहमद ने तिलक^२ (टीका) करके स्वयं स्वर्ण कुसुमों से नवीन राजा की पूजा की ।

हैं । पीर हसन विक्रमी १५३२ = हिजरी ८८० तथा राज्यकाल १२ वर्ष; मोहिदुल हसन ने राज्यग्रहण काल १४७२ ई० तथा तारीख रयीची में रोजर्स ने सन् १४८६ ई० = ८९१ हिजरी दिया है । फिरिस्ता सन् १४७३ ई० = ८७८ हिजरी देता है । तवक्काते अकबरी में समय नहीं दिया गया है । कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया में सन् १४७२ ई० = हिजरी ८७६ दिया गया है । राजतरंगिणी संग्रह में १२ वर्ष राज्यकाल दिया गया है । ३० : २ : ६; ४ : ६ ।

(१) सिंहासनारोहण : श्लोक द्रिष्ट है । निर्मल वस्त्र का भूषण राजा तथा निर्मल आकाश का भूषण चन्द्रमा सुगोमित होकर पृथ्वी को आनन्दित करता है । समासभेद के कारण श्लोक का दो अर्थ निकलता है । नीलान्वर (वस्त्र) से भूषित पृथ्वीमण्डल को आनन्दित करनेवाला वह राजा सिंहासन पर बैठा हुआ, उसी प्रकार सुगोमित हुआ, जैसे उदय पर्वत पर चन्द्रमा ।

तवक्काते अकबरी में सिंहासनारोहण के विषय में उल्लेख है—वह अपने पिता के मृत्यु के १६ दिन पश्चात अहमद यामू के प्रयत्न से सिंहासालङ्घ हुआ (४४८ = ६७५) ।

पाद-टिप्पणी :

९. (१) आयुक्त : फारसी में नाम अहमद येतू दिया गया है । पीर हसन : १८९ । अहमद येतू की कब्र छछबल में है । व्हारिस्तान गाही : पाण्डु० ५८ वी० में नाम मलिक अहमद येतू तथा तारीख हसन (पाण्डु० : २ : १०७ ए०) में मलिक अहमद येतू दिया गया है । निजामुद्दीन ने अहमद असवद दिया है । असवद का अर्थ फारसी में काल या

शक्तिमान है (गौहरे आलम पाण्डु० : १३५ वी०) । यह भी लिखा मिलता है कि उसे कुतबुद्दौला का खिताब मुल्तान हसनगाह ने दिया था । तवक्काते अकबरी में अहमद असवद नाम दिया गया है (४४८) । फिरिस्ता ने नाम अहमद अहू दिया है । (४७७) तवक्काते अकबरी में 'अहमद अहू' 'अहमद अबलवसद' तथा 'मुहम्मद अहू' नाम दिया गया है । फिरिस्ता के लीयो संस्करण में 'अहमद असवद' नाम दिया गया है । कर्नल ब्रिगस ने 'अहमद अहू' (४ : ४७७), रोजर्स तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया में नाम अहमद असवद दिया गया है (जे० ए० एस्० वी० ५४ : १०७; कैम्ब्रिज हिस्ट्री २८६) ।

(२) तिलक : हिन्दू राजाओं के समान कार्मर के मुसलिम राजाओं का अभिषेक मुसलिम तथा हिन्दू दोनों प्रथा के अनुसार होता था । इस अवसर पर हवन तथा तिलक किया जाता था ।

देवदर्शन, पूजा, विवाह, प्रस्थान, शुभ आगमन राज्याभिषेक के समय ललाट पर तिलक लगाने की प्राचीन प्रथा है । राज्यतिलक शब्द अभिषेक के समय तिलक लगाने की परम्परा दक्षिण-पूर्व एशिया के बौद्ध देशों तथा भारतीय राज्यों में प्रचलित थी । नेपाल, थाईलैण्ड जहाँ राजतन्त्र है, वहाँ राज्याभिषेक के समय पुरोहित तिलक लगाता है । तिलक लगाते ही राज्य का अधिकारी राजा मान लिया जाता था । चन्दन, केसर, कस्तूरी तथा कर्पूर मिश्रित तिलक लगाया जाता है । नुसलमान होने पर भी कर्मीर की पुरानी परम्परा के अनुसार मुल्तानों का अभिषेक तथा तिलक किया जाता था । तिलक सौभाग्य का प्रतीक एवं चिह्न है । सौभाग्यवती महिलायें अनिवार्य रूप से तिलक या चिन्दी लगाती हैं ।

रौप्यासनसमुद्धान्तः कृत्वा छत्रपिधानकम् ।

एकशेषतयेव श्रीररक्षद् वशभूषणम् ॥ १० ॥

१० लक्ष्मी ने रजतमय आसन^१ से आवृत एव छत्र का आवरण करके, एकमात्र शेष के कारण ही, मानो उस वशभूषण की रक्षा की ।

चित्र नवनृपस्यास्य मुखचन्द्रावलोकनात् ।

नागराननपद्मानां विकासः समपद्यत ॥ ११ ॥

११ आश्चय है, इस नवीन नृपति के मुखचन्द्र के अवलोकन से नागरिकों के मुखकमल जसित हो गये ।

अभिषेकक्रियारब्धहोमधूममिषाद् भुवः ।

हर्षेणैवोद्गतो राज्ञो मुखोच्छ्वास इवावभौ ॥ १२ ॥

१२. राजा के अभिषेक^१ के अवसर पर, किये जानेवाले होम धूम के व्याज से, मानो हर्ष उद्गत पृथ्वी का मुखोच्छ्वास ही शोभित हो रहा था ।

वाद्यमानोद्यतातोद्यतोद्यत्प्रतिस्वच्छलात् ।

सुप्रसन्नाः सुदेवस्य प्रोचुः पूर्णाशिपो दिशः ॥ १३ ॥

१३ बजाये जाते आतोद्य^१ से निकलती प्रतिध्वनि के व्याज से (मानो) प्रसन्न दिशायें शमी को पूर्णाशीप प्रदान कर रही थी ।

टिप्पणी

१० (१) आसन रजत आसन अर्थात् रजत

आसन था । राज्यसिंहासन सुवर्ण निर्मित था ।

पर अभिषेक होता था (जैन० २ ६) ।

न आसन दैनिक काय में सुल्तान के बैठने के

प्रयोग होता था । भारतीय मुसलिम सुल्तानों

बादशाहों का सिंहासन गोलाकार और घेरदार

होता था । यह चौकोर अठपहली अथवा

हली भी होता था । उस पर चढ़ने के लिए

मुख घेरा नहीं रहता था । शेष चारों ओर एक

ट से दो फीट का घेरा सतह से उठा रहता था ।

पन या सिंहासन पाशों पर रहता था । पृष्ठभाग

आसन से लगा एक दण्ड होता था । वह दण्ड

का आधार होता था । मन्दिरों में देवताओं के

आसन छत्र सहित इसी प्रकार से बनते हैं । इस

कारण के आसन के कारण राजा चारों ओर रजत

कठघरे से घिरा था । ऊपर छत्र से रक्षित था ।

पाद-टिप्पणी

१२ (१) अभिषेक होम । मुसलिम होने

पर भी हिन्दू रीति से भी अभिषेक किया जाता

था । द्रष्टव्य पाद टिप्पणी : जैन० २ ८ ।

पाद-टिप्पणी

पाठ 'सुदेवस्य' बम्बई ।

१३ (१) आतोद्य आघात द्वारा बजाने

वाले बाजों से तात्पर्य है । जैसे झांझ, मजोरा आदि ।

द्रष्टव्य ४ ११ । चार प्रकार के वाद्य—१ तत,

२ आनद्ध, ३ सुपिर, ४ घन है ।

चतुर्विधमिद वाद्य वादिनातोद्य नामकम् ।

(अमर० १ ७ ५)

× × ×

तत चैवावनद्ध च घन सुपिरमेव च ।

चतुर्विध तु विज्ञेयमातोद्य लक्षणान्वितम् ॥

(नाट्य-शास्त्र)

ध्वजमाला वभुर्दीर्घस्फुरद्रक्तपटाञ्चलाः ।

ज्वाला इव प्रतापाग्नेर्निर्गता नवभूपतेः ॥ १४ ॥

१४. दीर्घ एवं स्फुरित होते, रक्तपट^१ के अंचलोंवाली ध्वज^२ मालायें, नवीन राजा की निकली हुई, प्रतापाग्नि की ज्वाला सदृश शोभित हो रही थी ।

छायाकुसुमकार्यास्ता वभुः श्वेताः प्रविस्तृताः ।

चिरात् तरुणराजाप्त्या हर्षहासा इव श्रियः ॥ १५ ॥

१५. अत्यन्त विस्तृत एवं श्वेत वे (ध्वज मालायें) बहुत दिनों पर तरुण राजा की प्राप्ति से श्री^३ के हर्ष-हास सदृश शोभित हो रही थीं ।

कौशेयकोज्ज्वलाः सर्वे सेवका नवभूपतेः ।

स्फुरद्भाग्यतरङ्गस्य तरङ्गा इव तैश्च चन् ॥ १६ ॥

१६. नवीन राजा के कौशेय^१ वस्त्र से समुज्ज्वल, सब सेवक स्फुरित होते, भाग्य तरंग सदृश, शोभित हो रहे थे ।

पाद-टिप्पणी :

१४. (१) रक्तपट : श्रीवर के वर्णन से प्रकट होता है कि लाल झण्डियाँ लगायी गयी थीं । आज-कल भी समारोह के समय ध्वजा तथा डोरियों में लगाकर ध्वजमालायें तोरण की तरह लगाई जाती हैं । मुसलिम सुल्तान कश्मीर की इस प्राचीन परम्परा का पालन करते थे । ध्वजपट को झण्डा कहते हैं (रघु० : १२ : ८५) । पताकावाहक को ध्वजिन कहते थे ।

(२) ध्वज : पताका का दण्ड । सपताक तथा निष्पताक दो प्रकार के ध्वज होते हैं । ध्वजा परिमाण-भेद से आठ प्रकार के होते हैं—(१) जया, (२) विजया, (३) भीमा, (४) चपला, (५) वैजयंतिका, (६) दीर्घा, (७) विशारदा तथा (८) लोला । जया ध्वजा का परिमाण पाँच हाँय होता था । इस प्रकार प्रत्येक एक-एक हाय दूसरे से बड़ी होती जाती है । ध्वजा पर पताका या राजचिह्न

लगाया जाता था । ध्वजा पर लगे चिह्न के साथ समारोह में चलने की प्रथा थी । ध्वजा-पताका का एक साथ प्रयोग रूढ़ हो गया है ।

पाद-टिप्पणी :

१५. (१) श्री : समृद्धि, राजसत्ता, ऐश्वर्य, शोभा सौन्दर्य, गौरव, महिमा, धर्म, अर्थ एवं काम की समष्टि, विष्णु की पत्नि लक्ष्मी आदि अर्थ होता है ।

पाद-टिप्पणी :

१६. (१) कौशेय : सिल्क = रेशमी वस्त्र । (पंच० : १ : ९४; मनु० : ५ : १२०; कु० : ७ : ९; ऋतु० : ५ : ९; मृच्छ० : ५ : ३) । आज भी राजाओं, जमीन्दारों तथा अमीरों के यहाँ विवाह, यज्ञोपवीत तथा उत्सवों पर भृत्यों को वस्त्र देने की रीति है । राज्यों तथा जमीन्दारी विजय के पश्चात् यह रीति का निर्वाह कतिपय कुलीनों के घरों में सीमित हो गया है ।

कार्पासकपरीधानं यत्र यत्राभवत् पुरा ।

तत्र तत्रास्त तद्राज्ये कौशेयकव्ययो महान् ॥ १७ ॥

१७ पहले जहाँ-जहाँ पर कार्पासक^१ परिधान (सूती वस्त्र) होता था, वहाँ-वहाँ उसके राज्य में कौशेय (रेशम) का महान व्यय होने लगा ।

राज्यलाभे वसन्ताभे सूर्यस्येव महीपतेः ।

प्रत्यापहारकाः सर्वे दुष्टमेघा लयं ययुः ॥ १८ ॥

१८ वसन्तकाल में सूर्य के प्रताप को नष्ट करनेवाले दुष्ट मेघ, जिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार राज्यलाभ होने पर, राजा के प्रतापहारी सब लोग विनष्ट हो गये ।

रविः प्रदीप्तः कुरुते प्रकाशं

विभाति चास्मिन् सति सूर्यकान्तः ।

तस्मात् समुत्थः स च पावकोऽर्च्य-

स्तमोपहः किं न करोति कार्यम् ॥ १९ ॥

१९ प्रदीप सूर्य प्रकाश करता है, और इसकी उपस्थिति में सूर्यकान्त^१ मणि सुशोभित होता है, और उसमें समुत्थित, अर्चनीय, अन्धकार नाशक, पावक क्या कार्य नहीं करता ?

आसन् पितृपितृव्याद्या यत्कृते विफलश्रमाः ।

पौत्रेण हेलया प्राप्तं तद्राज्य गतकण्टकम् ॥ २० ॥

२० जिसके लिये पिता एवं पितृव्य आदि का श्रम विफल हो गया था, पौत्र ने कण्टक-रहित, उस राज्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया ।

पितुः पितामहस्यापि पितृव्यस्य च सपदः ।

भाग्यभाज नृपं प्रापुः सर्वाः सिन्धुमिवापगाः ॥ २१ ॥

२१ जिस प्रकार सभी नदियाँ सिन्धु^१ को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार पिता, पितामह तथा पितृव्य की सम्पत्तियाँ, भाग्यवान उस नृप को प्राप्त थी ।

पाद-टिप्पणी

१७ (१) कर्पासक कपास अर्थात् रूई या सूती वस्त्र (मनु० ३८ ३२६, १२ ६४) । इसका एक अर्थ कपास या रूई के सूत से बना वस्त्र होता है (याज्ञ० २ १७९) । कार्पास शब्द हिन्दी में प्रचलित है—

व्यापी है जिसमें विभा वलय में नीलाभ होते हैं, शित मेघखण्ड जिसमें कार्पास के पुत्र स्वेत प्रभा से ।
पाद-टिप्पणी •

१९ (१) सूर्यकान्त मणि सूर्य मणि =

तपन मणि = रविकान्त = सूर्याश्मा । एक प्रकार का स्फटिक या बिल्लीरी पत्थर । सूर्य के सम्मुख रखने से गरमी या उष्मा या आँच निकलती है (श० २ ७) । हिन्दी का पद है—

चन्द्र कान्ति अमृत उपजावै ।

सूर्य कान्ति में अग्नि प्रजावै ॥

पाद-टिप्पणी

२१ (१) सिन्धु = समुद्र श्रीवर ने गीता के निम्नलिखित श्लोक का भाव उक्त श्लोक में निहित किया है

आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं,

षड्दर्शनपरिचयं

सोऽग्रहीन्मत्सरोज्झितः ।

षड् दर्शनक्रिया

यस्मिन्नैकमत्यमिवाययुः ॥ २२ ॥

२२. मत्सर त्यागकर, उसने षड्दर्शन^१ का अध्ययन किया, जिसमें कि छहों दर्शनों की क्रियायें एक मत सहश हो गयी थीं ।

भूपतेरह्वदायुक्तो

नियुक्तः सर्वकर्मसु ।

साचिव्यं पुत्रसंयुक्तः पुण्योद्युक्तः सदाकरोत् ॥ २३ ॥

२३. राजा के सब कार्यों पर आयुक्त अहमद^१ नियुक्त हुआ, और पुण्योदत्त, वह पुत्र सहित, सदा सचिव का कार्य करता रहा ।

अथ प्रथममेवाह्वदायुक्तं मल्लिकं नृपः ।

सग्रामग्रामनाग्रामप्रमेयस्वामिनं व्यधात् ॥ २४ ॥

२४. राजा ने पहले ही आयुक्त^१ मल्लिक अहमद को ग्राम संग्राम^२ एवं नाग्राम^२ का स्वामी बना दिया ।

समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्
तदत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्ति माप्नोति न काम कामी । (२ : ७०)

इसका दूसरा अर्थ भी होता है । सिन्धु को यदि महानद सिन्धु मान लें तो काश्मीर की सब नदियों का जल समुद्र में सीधा न प्रवेश कर प्रथम सिन्धु महानद में प्रवेश करता है । सिन्धु महानद उस जल को सिन्धु अर्थात् समुद्र में पहुँचाता है ।

पाद-टिप्पणी :

२२. (१) षड्दर्शन : आस्तिक दर्शन—(१) सांख्य, (२) योग, (३) न्याय, (४) वैशेषिक, (५) मीमांसा और (६) वेदान्त तथा नास्तिक दर्शन—(१) चार्वाक, (२) अर्हत, (३) माध्यमिक, (४) योगाचार, (५) सौत्रांतिक तथा (६) वैभाषिक माने जाते हैं । एक मत से षड्दर्शन—(१) बौद्ध, (२) नैयायिक, (३) सांख्य, (४) जैन, (५) वैशेषिक तथा (६) जैमिनीय है । वैदिक अर्थात् आस्तिक दर्शन में कुछ विद्वान केवल चार दर्शन मानते हैं—(१) वैशेषिक, (२) सांख्य, (३) योग एवं (४) मीमांसा । इस मत के आचार्य वैशेषिक दर्शन के अन्तर्गत न्याय तथा मीमांसा में उत्तर (ज्ञान = वेदान्त) तथा पूर्व (कर्म) मीमांसा मानते हैं । एक मत के अनुसार मीमांसा

जै. रा. २

में, कुछ आचार्यों के अनुसार उत्तर एवं पूर्व मीमांसा के मध्य में मध्य या दैवी मीमांसा मानते हैं ।

दर्शन शब्द साभिप्राय है । चैतन्य शक्ति दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति के समान है । विना प्रतिबिम्ब दर्पण पापाणवत् है, उसी प्रकार विना ज्ञेयाकार के चैतन्य जड़ है । यदि दर्पण मलिन हो तो, उसमें किसी वस्तु का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार विना निर्मलता प्राप्त हुये, चैतन्य किंवा आत्मा का दर्शन नहीं होता (द्र० : ४ : ५०२) ।

पाद-टिप्पणी :

२३. (१) अहमद : बहारिस्तान शाही, (पाण्डु० : ५८ वी०), तारीख हसन (पाण्डु० : १०७ ए०) से मालूम होता है कि सुल्तान ने उसे वजीर बना दिया था । फिरिश्ता के अनुसार अहम अहू प्रधान मन्त्री बन गया (४७७) । प्रधान मन्त्री और वजीर का पद समकक्ष है । पीर हसन लिखता है—सुल्तान ने मलिक मुहम्मद यतू को जो छछ-वल में मदफून है मसनद वज्जारत पर बैठाया (१८९) ।

पाद-टिप्पणी :

२४. (१) आयुक्त : द्रष्टव्य : टिप्पणी : जोन० : २ : १७३, १८९ ।

पुत्रोऽस्य नौरुजायुक्तो द्वारपालादिकार्यभाक् ।

इक्षिकामभजद्राष्ट्र सग्रामविभवोजितः ॥ २५ ॥

२५ इस (मल्लेक अहमद) का पुत्र आयुक्त नौरुज^१, जो कि द्वारपाल^२ आदि का कार्य करता था, सग्राम के विभव से समुन्नत होकर, इक्षिका^३ राष्ट्र प्राप्त किया ।

पानलीलान्तरे तत्रप्रसादामृतवर्षिणा ।

येन दारिद्र्यदावाग्निः केषां न क्षपितः क्षणात् ॥ २६ ॥

२६ जिसने पान-लीला के अवसर पर, क्रिपामृत की वर्षा कर, क्षण भर में, किन् लोगों के दारिद्र्य-दावाग्नि को नष्ट नहीं किया ?

बहिर्देशस्थिते राशि बाल्ये यः सेवकोऽभवत् ।

स ताजिभट्टो मल्लेकमतः प्रापान्तरङ्गताम् ॥ २७ ॥

२७ बाहर देश में राजा के स्थित रहने पर, बाल्यकाल में जो सेवक था, (राजा का) वह मल्लेक^१ ताजभट्ट अन्तरग^२ हो गया ।

निग्रहानुग्रहव्यग्रः समग्रे राज्यविग्रहे ।

दत्तदूत्याधिकारेण राज्ञो जिह्वेव सोऽभवत् ॥ २८ ॥

२८ समग्र राज्य विग्रह^१ में निग्रह^२ एवं अनुग्रह^३ करने में वह दूत का अधिकार प्राप्त कर राजा की जिह्वा सदृश हो गया था ।

(२) सग्राम श्रीदत्त ने सग्राम को नाम-वाचक शब्द नहीं माना है । श्री कण्ठ कौल ने उसे नामवाचक माना है । तबक्कात अकबरी में उल्लेख है—सुल्तान ने अहमद आंसू को मलिक अहमद की उपाधि देकर, शासन प्रबन्ध उसके ऊपर छोड़ दिया (४४८ = ६७६) ।

(२) नाग्राम नागाम की जागीर अहमद को दी गयी ।

पाद टिप्पणी

२५ (१) नौरुज नौरुज को सुल्तान ने 'बहादुर मल्लिक की उपाधि से विभूषित किया । फारसी शब्द है । ईरानियों के फवरदीन मास का प्रथम दिन है ।

(२) द्वारपाल पराशियन इतिहासकारों के अनुसार यह पद अमीरेदर या हाजिवेदर था (तबक्कात अकबरी ४४८ एवं फिरिस्ता ४७७ = ६७६) । टर्की में इस पद का कपोची वशी कहते

है (द्र० ३ १८८, ३४६, ३६६) ।

(३) इक्षिका द्रष्टव्य टिप्पणी जैन० २ ११ एच परगना है । नाग्राम या नागाम परगना के उत्तर है ।

पाद-टिप्पणी

२७ (१) मल्लेक = मल्लिक । श्रीदत्त ने 'मरु' अनुवाद किया है ।

हाजी अर्थात् हँदरशाह के समय काश्मीर के बाहर किये हुये अभियानों में हसनशाह की ताजभट्ट ने सहायता किया था । ताजभट्ट को रानी का भी विश्वास प्राप्त था ।

(२) अन्तरग अन्तरग मंत्री = अन्तरग मित्र = घनिष्ठ मित्र = विश्वस्त या विश्वासपात्र तथा निजी सचिव अथ अभिप्रेत है ।

पाद टिप्पणी

२८ (१) विग्रह = युद्ध नीति के ६ गुणों

नृपतेर्यादि मत्सरात् सहाया
 रचयन्ति प्रमला मिथो विरोधम् ।
 कुपिता इव घातवः शरीर
 क्षपयन्ति प्रसभ महद्भिः राज्यम् ॥ ३६२ ॥

३६२ राजा के प्रबल सहायक, यदि मात्सर्यवंश परस्पर विरोध करते हैं, तो हठात् समृद्ध राज्य को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार कुपित घातु' शरीर को ।

ये सर्वकण्टकास्तीक्ष्णाः परेषां छिद्रकारिणः ।
 करभागामिर्वैतेषां ते तेऽप्यासन्नतिप्रियाः ॥ ३६३ ॥

३६३ जो सब कण्टक, तीक्ष्ण एव दूसरो के छिद्रकारी थे, वे (कण्टकप्रिय) ऊटो' के समान उन लोगो को अति प्रिय हो गये ।

पैशुनोपायनाद् भेद नयद्भिः प्रतिवासरम् ।
 चाक्रिकैः कृतसञ्चारैर्वैर प्रौढिमनीयत ॥ ३६४ ॥

३६४ पैशनोपायन (चुगुलखोरी) द्वारा प्रतिदिन भेद उत्पन्न करनेवाले सचरणशील, पड़्यन्तकारियो ने वैर को अत्यधिक बढ़ा दिया ।

उक्त यन्नैव केनापि स्वयुद्धया परिकल्पितम् ।
 तेषां तद्भृत्यपैशुन्य हृद्य काव्यमिवाभवत् ॥ ३६५ ॥

३६५ जिसको किसी ने नहीं कहा अपनी बुद्धि स परिकल्पित, उनके भृत्यो का पैशुण्य, उन लोगो के लिये, काव्य के समान आल्हादक हो गया ।

जैन० २ ३० ३० राज० ६ ८ । मुसलिम काल में तहसीलदार थे ।

पाद टिप्पणी :

३६२ (१) घातु घातु की उपमा श्रीवर ने ६३६ १ * ७ ६६, ११० तथा १८५ में दिया है । आयुर्वेद के अनुसार घातुयें ७ हैं—(१) रस, (२) रक्त, (३) मांस, (४) मूत्र, (५) अस्त्रि, (६) मग्ना और (७) गुरु । नाग्य एव पच पदार्थ का पचनर रस बनता है । उसका स्थान हृदय है । पचनियो द्वारा समस्त शरीर में पहुँचता है । रक्त स मांस बनता है । मांस स मूत्र, मूत्र स अस्त्रि, अस्त्रि स मग्ना और मग्ना स गुरु जाता है । वात,

पित्त एव कफ की सजा घातु से दी गयी है । पचभूत (आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) तथा पच पदार्थ (शब्द, स्पर्श, रूप रस, गन्ध) तन्मानाओं को भी घातु कहत हैं ।

मस अपन काश में घातु के विषय में लिखता है—

इलप्मादिरस्त्रियतादि महाभूतानि तद्गुणा ॥२६५॥

इन्द्रियाण्यदमविकृति शब्द यानिश्च घातव ॥२६६॥

पाद टिप्पणी

३६३ (१) ऊँट वरभ का अनुवाद ऊँट दिया है । वरभ हाथी व चन्वा को भी कहत है थोदत ने हाथी अनुवाद दिया है परन्तु कौटा नर्पति

हितं प्राणपणेनापि प्रभोः संपादयन्नयम् ।
महेश्वरवदेतस्मिन्नाभवद् भक्तिखण्डितः ॥ ३६ ॥

३६. प्राणपण से भी प्राणी के हितकर नीति सम्पादित करते हुए, गिव^१ के समान उसमें उसकी भक्ति खण्डित नहीं हुई ।

मठाग्रहारसदननिर्माणातिथिपूजनैः ।
नृपोपचारैः साफल्यमनैषीत् सर्वसम्पदः ॥ ३७ ॥

३७. मठ, अग्रहार, सदन निर्माण, अतिथि पूजन एवं नृप सेवन द्वारा (इसने) समस्त सम्पत्तियों को सफल बना दिया ।

कमलममलं दृष्ट्वा श्रीमत्स्वकोशविभूषितं
मथयितुमथ प्राप्तो यावन्मदान्मदवारणः ।
प्रकृतिमलिनस्तावन्मग्नः सपङ्कसरोवरे
श्रवणचपलो वद्धो याति क्षयं मधुपैः सह ॥ ३८ ॥

३८. श्रीमान् स्वकोप भूषित निर्मल कमल को देखकर (उसे) मद से नष्ट करने के लिये मतवाला हाथी^१ जल तक पहुँचता है, तब तक पंकिल सरोवर में मग्न प्रकृति^२ में मलिन श्रवण चपल^३ वह (हाथी) वाँव लिया जाता है, और मधुपों के साथ क्षय को प्राप्त होता है ।

अग्रान्तरे स वहामखानः पिशुनमोहितः ।
देशान्तरोद्यमं त्यक्त्वा युद्धायागान्मदोद्धतः ॥ ३९ ॥

३९. इसी बीच पिशुन^४ व्यामोहित, मदोद्धत वहराम खाँ देशान्तर^५ का उद्यम त्यागकर, युद्ध के लिये गया ।

पाद-टिप्पणी :

३६. (१) गिव : श्रीवर जैनुल आवदीन को भगवान का अवतार मानता था । हस्सन ग्राह को भी उसने गिव के समान माना है ।

पाद-टिप्पणी :

३८. (१) हाथी : इनका यह भी भावार्थ होगा—सब प्रकार से पूर्ण एवं सम्पन्न राजा को नष्ट करने के विचार में आया कोई दुष्ट राजा भी हाथी की तरह वाँव लिया जाता है, और अपने सहचरों के साथ नाश को प्राप्त होता है ।

(२) प्रकृति मलिन : स्वभाव से मलिन ।

(३) श्रवण चपल : सुनकर काम करनेवाला, कान का कच्चा व्यक्ति ।

पाद-टिप्पणी :

३९. (१) पिशुन : तबक्काते अकवरी में उल्लेख है—'उस समय कुछ पड्यन्त्रकारियों ने वहराम खाँ के पास जाकर उसे युद्ध की ओर प्रेरित किया', (४४८ = ६७६) ।

फिरिस्ता लिखता है—कुछ असन्तुष्ट लोग जो नवीन प्रगानन नापसन्द करते थे और राज्य परिवर्तन के कारण कुछ लाभ उठाना चाहते थे, वहराम खाँ को काश्मीर बुलाने के लिये राजी किया और कहा

त्वद्वलान्तरमेप्यामो वयं तव रणक्षणे ।
इति लेखैर्धृताशं तमकुर्वन् राजपूरुपाः ॥ ४० ॥

४०. तुम्हारे रक्षा के अवसर पर, हमलोग तुम्हारी सेना में आ जायेंगे, इस लेख द्वारा राज-पूरुपो^१ ने उसे आशान्वित किया ।

कर्णाभ्यन्तरतः शैलानुल्लङ्घय कटकोत्कटः ।
क्रमराज्यपुर प्राप्तः क्रमराज्यजिहीर्षया ॥ ४१ ॥

४१ उत्कट सैन्यबल वह कर्ण^१ के अन्दर से, पर्वतों को पारकर, क्रमराज्य^२ को जीतने की इच्छा से, क्रमराज्यपुर पहुँचा ।

कि वह वही आसानी से राज्य सिंहासन प्राप्त करने में सफल हो जायगा (४७७) ।

(२) देशान्तर दिगन्तर = काश्मीर से बाहर । द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी १ ७ ७७, १३९, १ ३ ११३, १ ५ ७६, १ ७ १७३ ।

पाद-टिप्पणी

‘त्वद्’ पाठ—वाम्बई ।

४० (१) राजपूरुप तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—‘कुछ अमीरों ने उसे पत्र लिखकर बुलवाया’ (४४८ = ६७६) ।

पीर हसन लिखता है—‘वाज फसादी लोग बहराम खाँ के पास गये और उसे जग के लिये आमामादा किया । चुनाव वाज उमरा ने उसे लिखकर बुलवाया’ (१८९) ।

पाद-टिप्पणी

४१. (१) कर्ण कण का तात्पर्य यहाँ स्पष्ट नहीं होता है । श्रीदत्त ने अनुवाद किया है कि ‘कण के भीतर से वह आया ।’ यहाँ स्थानवाचक माना गया है (पृष्ठ २१०) । श्रीकण्ठ कौल ने भी उसे नामवाचक शब्द माना है । फारसी इतिहासकारों द्वारा वर्णित ‘किर्मर’ अथवा ‘कर्मा’ प्रतीत होता है । श्रीवर ने सस्कृत-करण कर उसे कर्ण बनाया है । यह भी सम्भावना हो सकती है कि कर्ण कोई विशेष स्थान या मार्ग का

नाम था । अनुसन्धान अपेक्षित है । यह स्थान क्रमराज की सीमा, उसके समीप होना चाहिये, जहाँ बाहर से क्रमराज्य पहुँचा जा सकता है । फारसी इतिहासकारों ने ‘किर्मा’ और ‘किर्मर’ नाम दिया है । तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—बहराम खा ‘कर्मा’ की विलायत से लौट कर पर्वतों के मार्ग से किमराज (क्रमराज) की विलायत में पहुँचा (४४८ = ६७७) ।

(२) क्रमराज फिरिस्ता लिखता है—बहराम खा कुरमर के मार्ग से भारत से गुजरज (क्रमराज्य-कामराज) बिना किसी प्रकार के प्रतिरोध के आ गया (४७७) ।

पीर हसन लिखता है—बहराम खा जब क्रमराज की हृद्द में पहुँचा तो फौरन अलम मुखालफत बुलन्द किया ।

तवक्काते अकवरी की एक पाण्डुलिपि में क्रमराज के लिये ‘करमा’ तथा दूसर में ‘करहा’ तथा लिथो सस्करण में ‘करह’ लिखा गया है । ‘करमार’ शब्द लिथो सस्करण फिरिस्ता में लिखा गया है । कर्नेल ब्रिग्स ने ‘कुरमार’ (४ ४७७) तथा रोजर्स ने ‘कमराज’ शुद्ध नाम दिया है (जे० ए० एस० बी० ५४ १०८) । केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया में लिखा गया है—‘कमराज’ के दक्षिण ‘कम’ के पहाड़ियों में शरण लिया ।

तावन्मन्त्रियुतो राजा स्थितोऽवन्तिपुरान्तरे ।
तत्प्रत्यावृत्तिवार्तां तां श्रुत्वा तूर्णं न्यवर्तत ॥ ४२ ॥

४२. तब तक मन्त्रियों सहित राजा अवन्तिपुर^१ में स्थित रहा, और उसके प्रतिगमन की वार्ता सुनकर, शीघ्र लौट आया ।

राजा सुय्यपुरं प्राप्तः पितृव्यागमविह्वलः ।
आनीय सचिवान् सर्वान् सभान्तरिदमब्रवीत् ॥ ४३ ॥

४३. पितृव्य आगमन से विह्वल, राजा सुय्यपुर (सोपुर) पहुँचा, सब सचिवों को लेकर सभा मध्य यह कहा—

पितुः क्रमागतं राज्यं पुत्रस्येत्युचितं मम ।
कोऽयं पितृव्यो ज्येष्ठोऽपि कनिष्ठो निर्मितोद्यमः ॥ ४४ ॥

४४. 'पिता का क्रमागत राज्य, मुझ पुत्र के लिये ही, राज्य के लिये उचित है । ज्येष्ठ होने पर भी, राज्यप्राप्ति प्रयत्नशील, यह कनिष्ठ पितृव्य कौन होता है ?

अथवा वीरभोग्यायां भुवि कोऽयं नयो द्वयोः ।
युद्धेन विजयी यः स्याद् राज्यभाक् सोऽस्तु मण्डले ॥ ४५ ॥

४५. 'पृथ्वी के वीरभोग्या होने पर दोनों में यह कौन-सी नीति है ? युद्ध द्वारा जो विजयी हो वह मण्डल में राज्याधिकारी हो ।'

श्रुत्वेति नृपतेर्वाक्यं प्रत्युचुर्मन्त्रिनायकाः ।
ये तेऽप्यादमखानाद्यास्त्वदर्थं विधिना हताः ॥ ४६ ॥

४६. इस प्रकार राजा का वाक्य सुनकर, प्रमुख मन्त्रियों ने उत्तर दिया—'आदम ख़ाँ आदि को तुम्हारे लिये ही विधाता ने हत कर दिया ।'

पाद-टिप्पणी :

४२. (१) अवन्तीपुर : तबक्काते अकदरी में उल्लेख है—सुल्तान उस समय सैर के लिए दीनापुर गया हुआ था । वह समाचार सुनकर वह अपने चाचा से युद्ध करने के लिए (सुय्यपुर) सोपोर पहुँचा (४४८ = ६७७) ।

फिरिस्ता लिखता है—सुल्तान जो दीपालपुर की ओर आ गया था अपने चाचा पर आक्रमण करने के लिये शीवपुर (सोपोर = सुय्यपुर) बढ़ा (४७८) ।

तबक्काते अकदरी तथा फिरिस्ता दोनों का स्रोत इस घटना के सन्दर्भ में एक ही है । अन्तर केवल इतना है कि अवन्तीपुर के स्थान पर तबक्काते

अकदरी दीनापुर तथा फिरिस्ता ने दीपालपुर लिखा है ।

पार हसन लिखता है—सुल्तान इन दिनों वीना नगर की सैर को गया हुआ था । ज्योंही यह खबर सुनी वे-अख्तियार अपने चाचा का मुकाबला करने के लिये सोपुर पहुँचा (१८९) ।

पाद-टिप्पणी :

४३. 'सुय्य' पाठ—वन्दई ।

पाद-टिप्पणी :

४५. (१) वीरभोग्या : श्रीवर ने 'वीरभोग्या वसुन्वरा' भाव को उक्त श्लोक में प्रकट किया है (द्र० : २ : १८७) ।

कोऽयमल्पवल्स्ते स्याद् योद्धा स्थानपरिच्युतः ।

किं त्वद्यावसरो नास्ति समित्सुभयवेतनाः ॥ ४७ ॥

४७ 'अल्प सेनावाला, स्थान से परिच्युत, यह तुमसे क्या युद्ध कर सकता है ? किन्तु आज अवसर नहीं है । युद्ध में उभय दोनों (पक्षों द्वारा) वेतन ग्रहण करनेवाले—

अमुमेव मिलन्त्येते यदि किं क्रियते पुनः ।

तद्धृत्वा कोशसामग्रीमितो गत्वा बहिस्ततः ॥ ४८ ॥

४८ 'यदि, इसी (पक्ष) में मिल जाते हैं, तो क्या किया जायगा ? इसलिये कोश सामग्री लेकर, यहाँ से बाहर' जाकर, तत्पश्चात्—

देशमाक्रम्य नः कार्यं सिद्धयत्येवाचिराद् विभो ।

श्रुत्वेति मल्लिकः प्राह भूप तत्र सभान्तरे ॥ ४९ ॥

४९ 'देश पर आक्रमण करके, हे ! प्रभो ॥ शीघ्र ही हमलोगों का कार्य सिद्ध होगा ।' यह सुनकर, वहाँ सभा में मल्लिक ने राजा से कहा—

तिष्ठत्वत्र भवांस्तावन्मौनं मन्त्रिसभान्वितः ।

स्वकीयादमखानीयान् जेतुं त विसृजामहे ॥ ५० ॥

५० 'मन्त्रि सभा सहित आप तब तक यहाँ चुप स्थित' रहे, अपने में (आये) आदम खाँ के ही लोगों को, उसे जीतने के लिये भेज रहे हैं ।

ते चेज्जिता वयं यामः पुनः सर्ववलान्विताः ।

कोऽयं तत्सम्भ्रमः कस्य सहायः किं करोत्यसौ ॥ ५१ ॥

५१ 'यदि वे जीत लिये गये, तो हम लोग समस्त सेना के साथ चलेंगे । उससे यह भय कैसा ? उसका कौन सहायक है ? और वह क्या करेगा ?'

पाद-टिप्पणी

४८. (१) बाहर फिरिस्ता लिखता है कि मुल्तान के कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि काश्मीर से बाहर हिन्दुस्तान पर पहले आक्रमण किया जाय (४७८) ।

तवक्काते अकबरी में भी उल्लेख है—'कुछ लोगों ने मुल्तान को इस बात के लिये राजी कर लिया कि वह हिन्दुस्तान चला जाय किन्तु मलिक

अहमद आसू ने उसे युद्ध के लिये प्रेरित कर, हिन्दु-स्तान न जाने दिया (४४८ = ६७७) ।

पाद-टिप्पणी

५०. (१) स्थित : फिरिस्ता लिखता है—मलिक अहमद ने सलाह दिया तब तक चुप रहना चाहिये जब तक कि उसके चाचा की पीज उसे छोड़ न दे (४७८) ।

श्रुत्वेत्यादिमतं तेषां विविधं निश्चयोद्भिः ।
मल्लेकाहमन्त्रेण कर्तव्ये प्रत्यपद्यत ॥ ५२ ॥

५२. इस प्रकार उनके विविध मत को सुनकर, वह कुछ निश्चय नहीं कर सका, अतः मल्लेक अहमद की सलाह से कर्तव्य^१ निश्चित किया ।

पितुः पितामहस्याथ सैन्यं वृत्वा निजान्तिके ।
पैतृव्यान् सेवकान्स्वांश्च दत्त्वा तत्तद्वलान्वितान् ॥ ५३ ॥

५३. पिता (हैदरशाह) एवं पितामह (जैनुल आबदीन) के सैन्य को अपने पास रखकर, पितृव्य एवं अपने सेवकों को उसकी सेना के साथ करके—

सफिर्यडामरांस्ताजिभट्टादीन् व्यसृजन्तृपः ।
योद्धुं वहामखानाय मावरीदेशवासिने ॥ ५४ ॥

५४. फिर्य डामर सहित ताज^२ भट्टादि को राजा ने मावरी^३ देशवासी बहराम खान को युद्ध^३ के लिये भेजा ।

अथ स्वल्पवलानेतान् जेष्यामीति त्वराकुलः ।
तावद् वहामखानः स प्राप डुलपुरान्तरम् ॥ ५५ ॥

५५. थोड़े बल वाले इन सबों को जीत लूँगा, इस प्रकार शीघ्रता से आकुल होकर, वह बहराम खान डुलपुर^१ पहुँचा ।

पाद-टिप्पणी :

‘जिज्ञान’ पाठ—वम्बई ।

५२. (१) कर्तव्य : तबक्काते अकवरी में उल्लेख है कि सुल्तान ने मलिक अहमद के सलाह को पसन्द किया (४४८) ।

पाद-टिप्पणी :

५४. (१) ताजभट्ट : तबक्काते अकवरी में नाम ‘ताज वेहता’ दिया गया है (४४८ = ६७७) । फिरिस्ता नाम ताजभट्ट देकर, लिखता है—एक बड़ी सेना के साथ ताजभट्ट ने बहराम खाँ का सामना किया जबकि खाँ समझ रहा था कि काश्मीरी उसकी तरफ से युद्ध करेंगे (४७८) ।

तबक्काते अकवरी के एक पाण्डुलिपि में ‘मलिक ताजभत’ तथा लीथो संस्करण में मलिक ‘ताजलेव’ नाम दिया गया है ।

फिरिस्ता ने केवल ‘मलिक ताज’ लिखा है । कर्नल त्रिगस ने ‘मलिक ताजभट्ट’ (४ : ४७८) ।

जै. रा. ३

रोजर्स तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया में हसन के सेनापति का नाम नहीं दिया गया है ।

(२) मावरी : स्थान का अन्वेषण अपेक्षित है । मवुर (माहुरी) एक नदी है । मच्छीपुर परगना में बहती है । सम्भव है कि इसी अंचल की ओर जोनराज का संकेत है । मबऊर नहर भारत से उत्तर-पश्चिम सीमा पार पड़ता है परन्तु उससे यहाँ तात्पर्य नहीं प्रतीत होता । इसका इस प्रसंग में केवल उल्लेख मिलता है ।

(३) युद्ध : तबक्काते अकवरी में उल्लेख है—‘सुल्तान ने ताज वेहता को एक भारी सेना देकर बहराम खाँ से युद्ध करने के लिए भेजा (४४८ = ६७७) ।’

पाद-टिप्पणी :

५५. ‘डुल’ पाठ—वम्बई ।

(१) डुलपुर : तूलापुर = डूलीपुर = शालूरा

अनागतैः कृताश्वासैरपि राजमहत्तमैः ।
स्वात्मानं वञ्चितं मेने तन्निराशो नृपात्मजः ॥ ५६ ॥

५६. आश्वासन^१ देकर, न आनेवाले, राजपुरुषो से अपने को ठगा हुआ माना और उनसे निराश हो गया ।

तद्दिने राज्यलक्ष्मीः सा पितृव्यभ्रातृपुत्रयोः ।
द्वयोरसीत् समारूढा कोट्योः संदेहधीरिव ॥ ५७ ॥

५७ उस दिन वह राज्यलक्ष्मी पितृव्य एव भ्रातृपुत्र में उसी प्रकार थी, जिस प्रकार सन्दिग्ध बुद्धि दो विकल्पो में ।

चौरा इवान्धकारौधे द्वैराज्योपप्लवप्रियाः ।
तुतुपुश्चक्रवाडाद्यास्तंश्रुत्वा क्रमराज्यजाः ॥ ५८ ॥

५८ द्वैराज्योपद्रव^१ प्रेमी, क्रमराज्य के चक्रवाड आदि, यह सुनकर, उसी प्रकार तुष्ट हुये, जैसे अन्धकार पुञ्ज में चोर ।

अथ जैनगिरिं यावदाययौ तद्रणाकुलः ।
दूतस्तावत् समागत्य भूपतेरिदमब्रवीत् ॥ ५९ ॥

५९ उससे युद्ध करने के लिये आकुल हो, जब तक जैनगिरि^१ तक आया, तब तक भूपति के दूत ने आकर यह कहा—

से दो मील दक्षिण-पूर्व एक गाँव सोपोर सडक पर है । उत्तर परगना का सबसे दक्षिणी गाँव है । दगेरवारी स्रोतस्विनी के वाम तट पर स्थित है । गाँव में मसजिद है । धान की खेती होती है ।

फिरिस्ता के नाम 'लूलपूर' दिया है (४७८) । तवक्काते अकबरी में 'लूल' गाँव नाम दिया गया है (४४९) ।

पीर हसन लिखता है—दूसरी तरफ से ताजीभट्ट भी एक बड़ी भारी बजा के साथ मौजा तूलापूर में वहगम खाँ से लडने के लिए पहुँच गया (१८९) ।

तवक्काते अकबरी के एक पाण्डुलिपि में नाम 'लोलो' तथा दूसरे में 'लोलवी' दिया गया है । फिरिस्ता के लीयो सस्करण में नाम 'तूलापूर' दिया गया है । कर्नल ब्रिगस ने 'लोलोपुर' (४ ४७८) दिया है । रोजर्स तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया में स्थान का नाम नहीं दिया गया है ।

पाद-टिप्पणी

५६ (१) आश्वासन तवक्काते अकबरी में उल्लेख है—'बहराम खाँ को यह आशा थी कि सुल्तान के सैनिक उससे मिल जायेंगे किन्तु अन्त में कार्य इसके विरुद्ध हुआ (४४८-४४९ = ६७८)' ।

फिरिस्ता लिखता है—'काश्मीरी सेना उसकी सहायता करेगी इस आशा से घोर निराशा हुई (४७८) ।'

पाद-टिप्पणी

'चक्रवाड' पाठ—वम्बई ।

५८ (१) द्वैराज द्रष्टव्य पाद टिप्पणी १ ३ ८६ ।

पाद-टिप्पणी .

५९ (१) जैनगिरि द्रष्टव्य पादटिप्पणी जौन राज० . श्लोक ८७२ । सोपार (सुय्यपुर) के

देव वहामखानः सतनयो नयविच्युतः ।

युयुत्सुः समरे वद्धः करीव मदनिर्भरः ॥ ६० ॥

६०. 'हे ! देव !! मदभरे करी के समान, नीतिच्युत एवं युद्धेच्छुक वहराम खान पुत्र' सहित बांध (वन्दी कर) लिया गया ।

पतिते तद्रणोद्याने त्वद्वलोद्धतमानसे ।

तत्यजेऽनुचरैः खानः पौषे पर्णैरिव द्रुमः ॥ ६१ ॥

६१. 'उस रणोद्यान में, तुम्हारे उद्धत मनवाले सैनिकों के पहुँचने पर, पौष में पेड़ों को जिस प्रकार पक्षी त्याग देते हैं, उसी प्रकार अनुचरों ने खान को त्याग दिया ।

ततः संजयमेराद्या गर्जन्तः सैन्यनायकाः ।

दुष्टमेघा इवायाताश्चक्रुस्तच्छरवर्षणम् ॥ ६२ ॥

६२. 'तत्पश्चात् दुष्ट मेघ सदृश गरजते हुये, संजयमेर' आदि सैन्यनायक आकर, उसपर बाणवर्षा करने लगे ।

समीप था । जैनागिर एक नहर भी है । यह जैनागिर तहसील सोपोर को सिंचन करती है ।

तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'वहराम खाँ पराजित हो गया और जैनगिर ग्राम में आया' (४५० = ६७८) । 'काफ' को पुरानी फारसी में 'गाफ' के समान लिखा जाता था । इसलिए पाण्डुलिपि के 'जैनगिर' को 'जैनकिर' पढ़ लिया गया है । तवक्काते के लीयो संस्करण में 'रतनकर' लिखा गया है । फिरिस्ता के लीयो संस्करण में 'मरहनापुर' लिखा मिलता है । कर्नल ब्रिग्स ने 'जैनपूर' लिखा है (४ : ४७८) । रोजर्स तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया से इस विषय पर प्रकाश नहीं पड़ता ।
द्र० : ३ ७७; ८५, ९४ ।

पाद-टिप्पणी :

६०. (१) पुत्र : तवक्काते अकवरी में वहराम खाँ के पुत्र का नाम युसुफ खाँ दिया गया है । युसुफ खाँ का पिता वहराम खाँ की हत्या कर दी गयी, उसके पश्चात् तक भी युसुफ कारागार में जीवित रहा । हसनशाह ने अपने वसीयतनामा में लिखा था कि युसुफ खाँ विन वहराम खाँ, जो वन्दी है वह

मेरे पश्चात् सुल्तान बनाया जाय क्योंकि उसका पुत्र अल्पवयस्क था, अतः अपने पुत्र मुहम्मद खाँ को वलीअहद करने का आदेश दिया था (४५१ = ६८२) ।

पाद-टिप्पणी :

६१. (१) पौष : काश्मीर में शीतकाल के प्रारम्भिक काल पौष मास में पतझड़ हो जाता है । काश्मीर मण्डल ठूठे पल्लवहीन वृक्षों का समूह लगता है । भारत में पतझड़ चैत्र मास में ग्रीष्म आगमन के पूर्व होता है । भारतीय मानसून की वर्षा काश्मीर उपत्यका में नहीं होती । मानसून काश्मीर में प्रवेश करने के पूर्व अपनी नमी खो देता है । शीतऋतु में फारस के खाड़ी से हवा आती है । उस समय वर्षा तथा हिमपात होता है ।

पाद-टिप्पणी :

६२. (१) संजयमेर : सुल्तान हैदरशाह के वक्कारी कार्यों का संजयमेर प्रमुख साधन था । उसने सुल्तान के आदेश पर राजधानी में मण्डप मध्य सुल्तान के सम्मुख बँठे कोशेश हस्सन आदि की उसके साधियों के साथ हत्या कर दिया था । द्रष्टव्य : जैन०
२ : ७८ ।

धन्यास्ते श्लाघ्यमरणाः स्मरणाः स्वामिनः पुरः ।

स्मृतवामितप्रसादानां जीव यत् तृणवज्जहुः ॥ ६३ ॥

६३ 'स्मरणीय एव प्रशसनीय मृत्यु प्राप्त करनेवाले, वे लोग धन्य हैं, जो स्वामी के समक्ष अमित अनुग्रहो का स्मरण कर, तृणवत् प्राण त्याग कर दिये ।

तच्छुद्धये ऋणमवेक्ष्य मितप्रसादं

प्राप्ते क्षणे जहति ये निजजीवरत्नम् ।

शस्त्राणि पुष्पनिकरानिव संविदन्तो

धन्यास्त एव कतिचित् प्रभुसेवकेभ्यः ॥ ६४ ॥

६४ 'परिमित प्रसाद को ऋण मानकर, उसकी शुद्धि हेतु, जो लोग समय आने पर, शस्त्रों को पुष्प पुञ्ज सहज मानते हुये, अपना प्राण रत्न त्याग कर देते हैं, वे कुछ प्रभु सेवक धन्य हैं ।

अथो देवस्य माहात्म्य यत्तस्यैव रणे भटाः ।

शिरालमार्गपाद्या ये तद्भृत्याः प्रलयं ययुः ॥ ६५ ॥

६५ 'उस देव का महत्व ही है, जो कि युद्ध में उसके भृत्य शिराल', मार्गपति आदि भट नष्ट हो गये ।

इद चित्रतर यन्नः कटके कोऽपि नो मृतः ।

किंत्वस्मद्भटनिर्मुक्तशराग्रफलसधितात् ॥ ६६ ॥

६६ 'यह बहुत आश्चर्य है ! हमारे कटक में कोई भी नहीं मरा, किन्तु हमारे भट द्वारा छोड़े गये, वाण' के अग्रभाग से विद्ध—

निष्कण्टुं नाशकत् कोष्ठात् खड्गं खानो रणोद्यतः ।

तेनाफलायुधः खानो दीनस्त्वद्भटवेष्टितः ॥ ६७ ॥

६७ 'कोष्ठ (मियान) से खड्ग को रणोद्यत खान निकालने में भी समर्थ नहीं हो सका । इससे तुम्हारे भटों से घिरा हुआ, निष्फल आयुधवाला खान, दीन हो गया ।

पाद-टिप्पणी

६५ (१) शिराल इसका पुन उल्लेख नहीं मिलता परिचय अज्ञात है । 'शिराज' नाम का शिराल अपभ्रंश प्रतीत होता है ।

पाद-टिप्पणी

'सधितात्' पाठ-अशुद्धि ।

६६ (१) वाण पीर हसन लिखता है—

निहायत शदीद लडाई वाका हुई । इत्फाक से वहराम के मुंह पर एक तीर लग गया । जिमसे उसे शिकस्त नसीब हुई । शाही फौजों ने ताकुव करके, उसे मय उसके वेटे को गिरफ्तार कर लिया (१८९) ।

चितानल इवासारैर्मिथ्योष्मा समपद्यत ।

यावत् समेत्य हन्तुं तं प्रारभन् कृपया द्रुतम् ॥ ६८ ॥

६८. 'वर्षा से चितानल के समान, उसका उष्मा (तेज) व्यर्थ हो गया. जब तक मिलकर उसे मारना प्रारम्भ किये, कृपापूर्वक शीघ्र ही—

तं फ़िर्यडामरस्तावदरभद् वाहुपञ्जरे ।

भूः पङ्किलातिवृष्टिरिव द्विजाग्ने निःसहायता ॥ ६९ ॥

६९. 'तब तक जल्दी से फ़िर्य डामर' ने वाहु पंजर में उसे रक्षित कर लिया । पंजिल भूमि वति वृष्टि सम्मुख ब्राह्मण निस्सहायता—

मृत्युभीतिरिति प्राभूत् किं किं तस्य न दुःखदम् ।

शीतवातभयोद्विग्नाः मग्नाः केदारकर्दमे ॥ ७० ॥

७०. 'मृत्यु भय, इस प्रकार उसके लिये, कौन-कौन सी चीजें दुःखद नहीं हुईं ? शीत, वात एवं भय से उद्विग्न, क्षेत्र कर्दम में लिपटे—

त्यक्त्वा तं तद्भटा नग्ना गर्ताटा इव तेऽचलन् ।

अजितां सर्वसामाग्रीं पामरैः परिलुण्ठिताम् ॥ ७१ ॥

७१. 'नग्न, उसके वे भट, उसे त्याग कर गर्ताट' सहसा चले गये । अजित सब सामग्री पामरों द्वारा लूटीं गयीं—

साक्रन्दं च सुतं पश्यन्नश्यद्वैर्यः स विव्यथे ।

दध्यौ च क्व च मे भ्राता क्व भृत्याः क्व गृहादिकम् ॥ ७२ ॥

७२. 'तथा क्रन्दन करते पुत्र को देखकर, उसका धैर्य नष्ट होने लगा और वह व्यथित हुआ । इस प्रकार उसने सोचा—'मेरा भाई, भृत्य, घर आदि कहाँ है ?

ससुतः शत्रुभिर्वद्धः कं पृच्छामि करोमि किम् ।

वरं मरणमेवास्तु मा मास्तु मम जीवनम् ॥ ७३ ॥

७३. 'पुत्र सहित शत्रुओं द्वारा बद्ध मैं किससे पूछूँ ? क्या करूँ ? मरना ही अच्छा है । मेरा जीना—न-हो—न-हो ।

पाद-टिप्पणी :

६९. (१) फ़िर्य डामर : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : १ : १ : ९४; २ : २८, ७२; ३ : ५४ ।
पाद-टिप्पणी .

७१. (१) गर्ताट : श्रीवर ने अच्छे उपना दी है । युद्धकाल में वृष्टि हुई थी । खेतों में बिल बनाकर चूहे रहते हैं । पानी बरसने पर बिल में

पानी आ जाता है । चूहे बिल से निकल कर, इवर-उवर भागने लगते हैं । वे कीचड़ में लिपट जाते हैं । उसी प्रकार बहराम खाँ के भृत्य तथा सैनिक पानी बरसने के कारण भीगे तथा प्राण रक्षा हेतु खेत के कीचड़ों में लिपटे, इवर-उवर भागने लगे । गर्ताट का अर्थ चूहों के समान बिल में रहनेवाला होता है । द्र० : २ : २११ ।

फलित वचनं मेऽद्य यदुच्यते जनकेन तत् ।

धिङ् मां चिन्तामणित्यक्त्वा येन काचमणिः श्रितः ॥ ७४ ॥

७४ 'पिता' ने जो कहा, वह वचन आज मेरे लिये फलित हुआ । मुझे धिक्कार है, जिसने चिन्तामणि^२ त्याग कर, कांचमणि को अपनाया ।

इत्यादि निन्दन् स्वात्मानं पश्चात्तापहताशयः ।

जीवन्मरणमापन्नः खानः सप्रति वर्तते ।

पौपे तरुरिवोन्नग्नः फलपत्रत्रिवर्जितः ॥ ७५ ॥ कुलकम् ॥

७५. 'इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ, पश्चात्ताप से दुःखी मन, जीवित रहते, मरण ले प्राप्त, खान इस समय—उसी प्रकार नग्न हो गया है जिस प्रकार पौप मांस में फल-पत्र-रहित, ग्न' तरह ।

राज्य तव क्रमायातं दत्तं देवेन भुज्यताम् ।

फलितो धर्मविजयः सोऽयं भाग्यैर्महीपते ॥ ७६ ॥

७६ 'हे राजन ! देव (राजा-पिता) के द्वारा दिए गये इस क्रमप्राप्त राज्य को आप भोगिये, भाग्य से यह धर्म विजय फलित हुआ ।

किमन्यत्तस्य कर्तव्य यत्तत् तूर्णं समादिश ।

श्रुत्वेति नृपतिस्तुष्टो दत्त्वास्मै पारितोषिकम् ॥ ७७ ॥

७७ 'क्या करना है ? शीघ्र वह आदेश दीजिये ।' यह सुनकर राजा सन्तुष्ट हुआ और उसे पारितोषिक देकर—

पाद-टिप्पणी

७४ (१) पिता जैनूल आवदीन । द्रष्टव्य श्लोक १ ७ ९२ तथा १ ७ १७० । जैनूल आवदीन ने शाप दिया था—'वे मन्त्री तथा पुत्र नष्ट हो जाय, जोकि राज्यलोभी तथा हत्या के लिए इच्छुक हैं ।'

(२) चिन्तामणि द्रष्टव्य 'काच-चिन्ता मणि' उपाख्यान योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्द्ध सर्ग ८८ तथा लेखक की योगवासिष्ठ कथा पृष्ठ ४७९ द्रष्टव्य हैं ।

कल्पित रत्न हैं । उसके विषय में कहावत है कि उससे अभिलषित वस्तुएं प्राप्त होती हैं । जिसके पास होता है उसकी कामनायें पूण होती हैं । इसे दासंनिकों की मणि भी कहते हैं—काचमूल्यान विभीतो हन्त चिन्तामणिर्मया । शा० १ १२,— तदेकं लुब्धे हृदियेऽस्ति लब्धुं चिन्ता न चिन्तामणि-

र्मया चिन्तामणिमप्य नद्यम्—नै० ३ ८१; १ १४५ ।

रामचरित चिन्तामणि चारु ।

सत सुमन तिम सुभग सिंगारू ॥

(तुलसीदास)

पाद-टिप्पणी

आपन्न' पाठ—वम्बई ।

७५ (१) नग्न काश्मीर तथा उन स्थानों पर जहाँ तुपारपात नहीं होता, पतझड़ बसन्त अथवा चैत्र मास (माघ) में होता है, पादप नगे लगने लगते हैं परन्तु तुपारपात तथा शीत कटिबन्ध-प्रधान दशा में पौप मास में पतझड़ हो जाता है । इवेत् तुपार परिच्छादित वृक्ष भूमि नग्न काले दिखाई देते वृक्ष, उबठे सूख वृक्ष तुल्य दिखाई देते हैं ।

पाद-टिप्पणी

७७ 'यत्तत्तूर्णं' पाठ—वम्बई ।

जयवाद्यनिनादौथैः सर्वं बलमतोषयत् ।
अन्येद्युस्तद्भटा जैनगिर्या कटकवेष्टितम् ॥ ७८ ॥

७८. विजय वाद्य के निनादों से समस्त सेना को प्रसन्न किया । दूसरे दिन उसके भट जैनगिर^१ में सेना से घिरे हुए—

बहामखानमानिन्युः ससुतं भूपतेः पुरः ।
संग्रामविजयोत्सिक्तं सत्कर्तुं स्वभटव्रजम् ॥ ७९ ॥

७९. पुत्र सहित, बहराम खाँ को राजा के सामने ले आये । युद्ध-विजय से गर्वयुक्त अपने सेना समूह को सत्कार करने के लिए—

सहर्षो राजधानीं तामारुरोह नरेश्वरः ।
उच्चावचोक्तिमुखरपौरान्तगतं नतम् ॥ ८० ॥

८०. सहर्ष राजा उस राजप्रासाद पर आरोहण किया । उच्चावच (अच्छी-बुरी) बातें करते नागरिकों के बीच स्थित, नत—

भूमे रन्ध्रमिवेक्षन्तं लज्जया च भयेन च ।
रणक्षणभटन्यस्तहस्तध्वस्तविभूषणम् ॥ ८१ ॥

८१. लज्जा एवं भय से मानो भू-छिद्र को देखते, युद्धकाल में भटों द्वारा हाथ रखने से नष्ट आभूषण वाले—

दयालुनीचदत्तात्मजीर्णवस्त्रवगुण्ठितम् ।
मुखलग्नेषुभेदोद्यद्रक्ताक्तधृतवेष्टनम् ॥ ८२ ॥

८२. दयालु निम्न जन द्वारा दिए गये, जीर्ण वस्त्र से अवगुण्ठित, मुख पर लगे बाण^१ के घाव से निकलते रुधिर-सिक्त वस्त्र को धारण किये—

पाद-टिप्पणी :

७८. (१) जैनगिर : द्र० : जोन० : ८७२,
जैन० : ३ : ५९ ।

फिरिस्ता लिखता है—बैराम खाँ पराजित हो गया और जैनपुर भाग गया । दोनों पिता-पुत्र बन्दी बनाकर सुल्तान के सम्मुख लाये गये (४७८) ।

पाद-टिप्पणी :

७९. (१) बहराम खाँ : तबक्काते अकबरी में उल्लेख है—'लोलो (नोलापुर) ग्राम में घोर युद्ध हुआ और बहराम खाँ पराजित होकर जैनपुर

नामक ग्राम में पहुँचा । शाही सेनाओं ने उसका पीछा कर उसे बन्दी बना लिया । उसके मुख पर एक बाण लगा था और उसकी चीजें तथा सामग्री नष्ट-भ्रष्ट हो गयीं और वह बड़ी शोचनीय दशा में सुल्तान के पास लाया गया (४४९ = ६७८) ।

पाद-टिप्पणी :

८२. (१) बाण : आदम खाँ भी जम्मू के राजा की तरफ से लड़ता हुआ मुख पर बाण लगने से घायल होकर मर गया था । दैव की विचित्र गति

अलक्ष्मीवीक्षित दूरात् पितृव्यं क्षणमैक्षत ।
भाग्योर्जितस्य भूर्भर्तुरग्रे बद्धः समात्मजः ।
दीनात्मा ददृशे पौरैः स्थिराः कस्य विभूतयः ॥ ८३ ॥

८३ अति दरिद्र पितृव्य को दूर से ही (राजा) ने एक प्रबुद्ध भाग्यशाली, राजा के सम्मुख पुत्र सहित बंधे दीनात्मा, उसे पुरवासियो ने देखा । किसकी विभूतियाँ स्थिर रहती हैं ?

लोभाक्रान्तधियो विवेकमुचितं मुञ्चन्ति यन्मोहिता
भुक्ता या मनसापि दर्पकचितास्त्यक्तुं न शक्याः स्वयम् ।
सन्तापाय भवन्ति सन्ततमलं नीताः परैश्चेद् बला-
न्मा मा सन्तु भवेऽत्र हन्त चपला वेश्या इवैताः श्रियः ॥ ८४ ॥

८४ गर्विले एव लोभाक्रान्त बुद्धिवाले लोग, जिससे मोहित होकर, उचित विवेक त्याग देते हैं, एकबार भोगी जाने पर भी मन से जिसका स्वयं त्याग नहीं किया जा सकता, यदि बलात् अन्यो (शत्रुओ) द्वारा ग्रहण कर ली जाय, तो निरन्तर सन्तापप्रद होती हैं, इस प्रकार दुःख है, वेश्या सदृश चपल ये सम्पत्तियाँ (श्री) इस लोक में न हो-न हो ।

उपेक्षितः पिता तादृगस्वास्थ्ये स्वार्थलिप्सया ।
ज्येष्ठोऽप्यादमखानः स बाधितोऽपाययुक्तिभिः ॥ ८५ ॥

८५ उस अस्वस्थावस्था में भी, स्वार्थलिप्सा के कारण, उपेक्षित किया गया तथा ज्येष्ठ भी, वह पिता आदम खान, इसके द्वारा अपाय^१ युक्तियों से बाधित किया गया ।

दुराशयापरो भ्राता धियोऽसाध्या मयेक्षणात् ।
राज्यलोभाद् भ्रातृसुते तास्ता द्रोहधियः कृताः ॥ ८६ ॥

८६ दुराशय भ्राता ने राज्य-लोभ से भ्रातृ-पुत्र पर, तत्-तत् प्रकार से द्रोह बुद्धि की ।

अधैतेन फलं प्राप्तं तदधर्मविनिश्चयात् ।
दृष्ट्वा बद्धं तमानीत खानमित्यवदज्जनः ॥ ८७ ॥

८७ उसके अधर्म का विचार कर, 'आज इसने फल प्राप्त किया', बंधे खान को देखकर इस प्रकार लोगो ने कहा ।

है । जैनुल आबदीन के ज्येष्ठ पुत्र आदम खाँ तथा कनिष्ठ बहराम खाँ दोनों वाण से ही घायल हुए थे । मझला पुत्र हाजी खाँ काश्मीर का सुल्तान बना । वह भी पैर फिलजने के कारण गिर पड़ा और मर गया । तीनों ही पुत्रो को स्वाभाविक मृत्यु

नहीं हुई थी ।

पाद-टिप्पणी

८५ (१) अपाय अनिष्टकर = हानिकर ।
सहारक करणापाय विभिन्न वर्णया—रघु० ८ . ४२,
काय सनिहितापाय—हि० ४ . ६५ ।

केऽप्यूचः स पितुः शापाद् विमूढः समपद्यत ।
तथाहि तं पिता जातु पितृद्वैधे रहोऽब्रवीत् ॥ ८८ ॥

८८. कुछ लोग कहते थे—'यह पिता के शाप से विमूढ हो गया था, जैसा कि किसी समय पिता से विवाद होने पर पिता^१ ने उससे एकान्त में कहा—

राज्यं त्वदग्रजाभ्यां मे नाशितं वैरतो मिथः ।
तत्राप्यनिष्टौ द्वावेव मम चिन्ताज्वरप्रदौ ॥ ८९ ॥

८९. 'तुम्हारे दोनों ज्येष्ठ भाइयों ने पारस्परिक वैर से मेरा राज्य नष्ट कर दिया, उसमें भी दोनों ही मेरे लिए अनिष्ट एवं चिन्ता ज्वरप्रद है ।

तदेतौ विनिवार्याहं युक्त्या देशसुखाशया ।
त्वामेव वर्धयिष्यामि त्वं मदेकाश्रयो भव ॥ ९० ॥

९०. 'अतः मैं युक्तिपूर्वक इन दोनों को निवारित कर, देश के सुख की आशा से, तुम्हीं को वर्धित करूँगा, तुम केवल मेरे ही आश्रय में रहो ।'

श्रुत्वेति ग्राह तं नाहं ज्ञातुचेद् भ्रातरं त्यजे ।
यतो ज्येष्ठोऽस्ति मे द्विष्टो द्वयोः किं स करिष्यति ॥ ९१ ॥

९१. यह सुनकर उससे (जैनुल आबदीन से) कहा—'मैं कभी भाई का त्याग नहीं करूँगा । क्योंकि मुझसे द्वेष रखने वाला, जो ज्येष्ठ है, वह हम (दोनों) का क्या करेगा ?'

श्रुत्वेत्याहाग्रजं हन्तुं त्वयेच्छुस्त्वां स रक्षति ।
प्राप्तप्राधुणहस्तेन भुजङ्गमिव वेश्मगम् ॥ ९२ ॥

९२. यह सुनकर उसने कहा—'आगत पहने (अतिथि) के हाथ घर के साँप के समान अग्रज (भादम खान) को मारने के लिए तुम्हें चाहनेवाला, वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है ।

सिद्धकार्यः सपुत्रः स वाधते यदि का गतिः ।
तच्छ्रुत्वा संस्कृतज्ञः स श्लोकेनेत्युत्तरं ददौ ॥ ९३ ॥

९३. 'कार्य सफल होने पर, पुत्र सहित, वह यदि पीड़ित करेगा, तो कौन-सा उपाय रहेगा ?' यह सुनकर, संस्कृतज्ञ उसने श्लोक से इस प्रकार उत्तर दिया—

पाद-टिप्पणी :

८८. (१) पिता-पुत्र-संवाद : श्रीवर ने उक्त श्लोक ८७ से ९६ की घटना श्लोक १ : ७ : ८८ से १ : ७ : ९७ में लिखी हैं । उसी संवाद की ओर संकेत करता है ।

जै. रा. ४

एक ही घटना एवं विषय को दो विभिन्न परिस्थितियों में कविवर श्रीवर किस प्रकार रखता है, यह उसका कवि-सामर्थ्य प्रकट करता है ।

पाद-टिप्पणी :

९१. 'द्विष्टो' पाठ-वम्बई ।

विद्यातीर्थे श्रुतपरिचिताः साधवः सत्यतीर्थे
 गङ्गातीर्थे सकलमुनयो योगिनोऽध्यात्मतीर्थे ।
 लज्जातीर्थे कुलयुवतयो दानतीर्थे वदान्या
 धारातीर्थे धरणिपतयः किल्विपं क्षालयन्ति ॥ ९४ ॥

९४ 'विद्यातीर्थ पर शास्त्रज्ञ, सत्यतीर्थ पर साधुजन, गंगातीर्थ पर सब मुनिजन, अध्यात्म-
 तीर्थ पर योगी, लज्जातीर्थ पर कुल-युवतियाँ, दानतीर्थ पर वदान्य (उदार) एव धारा तीर्थ
 पर धरणीपति, पाप को प्रच्छालित करते हैं ।'

तदाकर्ण्यब्रवीद् राजा सक्रोध त दुराशयम् ।
 बहुधा युद्धदृष्टोऽसि नाह यत्रास्मि तत्क्षमः ॥ ९५ ॥

९५ यह सुनकर, क्रोधपूर्वक राजा ने उस दुराशय से कहा—'बहुत बार युद्ध में तुम्हें
 देखा है, जहाँ कि मैं युद्ध के लिए समर्थ नहीं था—

वराकः खड्गधारार्थो तत्र त्वमसि दर्पितः ।
 किं वच्युत्पाटने योग्ये नेत्रे पश्यामि दुर्धियः ॥ ९६ ॥

९६ तथा दोन एव खगधारा चाह रहा था, वहाँ तुम बहुत घमण्डी थे । क्या कहूँ ? दुष्ट-
 बुद्धि तुम्हारे उत्पाटन के योग्य नेत्रों को देख रहा हूँ ।

तदेक एव नष्टस्त्व भवेः सानुशयोऽचिरात्
 इत्युक्तमस्मिन् पित्रा यत् तदद्य फलित वचः ।
 तं वीक्ष्येति कथा लोकः स शोकोऽप्यकरोन्मिथः ॥ ९७ ॥
 इति ब्रह्म खान पराजय ।

९७ 'अत शीघ्र ही नष्ट एव पश्चात्ताप युक्त होंगे ।' 'इस प्रकार इसके लिये पिता ने
 जो बात कही, वह बात आज फलित हुई ।' यह कहकर, उसे देखकर, लोग परस्पर शोक प्रकट
 करने लगे ।

यथोचितैर्दानमानैस्तोपयित्वा निज बलम् ।
 तस्मिन्नेव दिने राजा तुष्टो नगरमाययौ ॥ ९८ ॥

९८ यथोचित दान मान से अपने सैन्य को सन्तुष्ट कर, उसी दिन राजा प्रसन्न होकर,
 नगर चला गया ।

पाद टिप्पणी

९४ (१) धारा खगधारा = तलवार की
 धारा । किसी काटने वाले उपकरण की तेज धार
 को धारा कहते हैं—तजित परशुधारया मम—

रघु० ११ ७८ ।

पाद टिप्पणी

९७ पाठ "तमीक्षेति" कलकत्ता, 'तमीक्ष्येति'
 बम्बई के स्थान "त वीक्ष्य" रखा गया है ।

वद्धं रिपुं समादाय नौकारूढं सुतान्वितम् ।
श्रीजैननगरे राजावासे स्वे बन्धने व्यधात् ॥ ९९ ॥

९९. पुत्र^१ सहित बँधे, शत्रु को नौकारूढ कर, ले आया और जैननगर में उसी के राजा-वास के अन्दर बन्धन^२ में रख दिया ।

जननी नृपतेः प्रीता दर्शनामृतहर्षणा ।
अमन्यत रणोत्तीर्णं पुनर्जातमिवात्मजम् ॥ १०० ॥

१००. दर्शनामृत हर्षित, प्रीतियुक्त राजा की माता अपने पुत्र के रण से लौटने पर, उसका पुनर्जन्म माना ।

शङ्कितो यौनसंबन्धाद् भूपतिः कतिचिद्दिनैः ।
रुषावतारसीहादीन् कारागारान्तरे व्यधात् ॥ १०१ ॥

१०१. यौन सम्बन्ध कारण शंकित, राजा ने थोड़े ही दिनों में क्रोध से अवतार सीह^१ आदि को कारागार में रख दिया ।

पापो मल्लिकजाजः स पञ्चगह्वरदेशजः ।
पुनश्चाटुकतन्त्रेण तत्तदायासकार्यभूत् ॥ १०२ ॥

१०२. पञ्चगह्वर देशोत्पन्न वह पापी मल्लिक जाज पुनः चाटुकारिता से तत्-तत् प्रकार से कष्टप्रद हुआ ।

पादटिप्पणी :

‘राजावास’ पाठ—वम्बई ।

९९. (१) पुत्र : बहराम खां के पुत्र का नाम नहीं दिया गया है । किन्तु उसका नाम युसुफ था । वह जिस समय बन्दीगृह से छूटा, उसी समय मार डाला गया था ।

(२) बन्धन : तबक्काते अकबरी में उल्लेख है—‘सुल्तान ने आज्ञा दिया कि पिता और पुत्र को बन्दी बना दिया जाय (४४९ = ६७८) ।’

पाद-टिप्पणी :

१०१. (१) अवतार सीह : अवतार सिंह इसका उल्लेख पूर्व तथा पश्चात् पुनः नहीं मिलता ।

इसके विषय में कुछ जानकारी श्रीवर नहीं देता । जोनराज ने एक अवतार भोल्ल का उल्लेख किया है । परन्तु दोनों के समयों में लगभग सवा सौ वर्षों का अन्तर है (जोन० : श्लोक : २७७, ४१८) । अवतार भोल्ल की कन्या लक्ष्मी थी । वह सुल्तान शहाबुद्दीन की पत्नी थी ।

पाद-टिप्पणी :

‘जाजः’ पाठ—वम्बई ।

१०२. (१) पञ्चगह्वर : वर्तमान पंजगव्वर उपत्यका तथा खसो का निवासस्थान है । राजानक रत्नकण्ठ ने स्वयं अपने हस्तलिपि से गह्वर को गरभारपुर माना है । पंजगव्वर स्थानं बुदिल क्षेत्र में है । (द्र० : ४ : २१२ तथा जोन० : श्लोक १३२) ।

उत्कोचमुद्रादानादिप्रपञ्चाञ्चितवञ्चनः ।

सुसंचयकृता येन देशोऽशोपो विलुण्ठितः ॥ १०३ ॥

१०३ मञ्चय करनेवाले जिसने उत्कोच, (घूस) मुद्रा—दान आदि प्रपचो से सम्पूर्ण देश को लूट लिया ।

अभिमन्युप्रतीहारः स्वतन्त्रो मन्त्रिमण्डले ।

स देवसरसि स्वाम्यमभजद् बलदपितः ॥ १०४ ॥

१०४ मन्त्रिमण्डल से स्वतन्त्र एव बलगवित, वह प्रतिहार अभिमन्यु देवसर^२ का स्वामो बन गया ।

लोत्रप्रतिग्रहक्षेत्रदत्तबुद्धिः पदे पदे ।

लुब्धः स निजमात्मानमनाशीर्भाजनं व्यधात् ॥ १०५ ॥

१०५ वह लोभी पद-पद पर लूट का सामान लेकर तथा क्षेत्रो मे हकावट डाल कर, अपने को आक्रोप का भाजन बना लिया ।

शङ्कयो राजगृहासन्नः पितृव्यो बन्धनस्थितः ।

त्वय्यन्यत्र स्थिते कोऽपि नीत्वा द्वैराज्यमाचरेत् ॥ १०६ ॥

१०६ 'राजगृह के निकट बन्धन मे स्थित पितृव्य शकनीय है, तुम्हारे अन्यत्र रहने पर, कोई (उसे) लेकर द्वैराज' करने लगे ।'

इत्यादि प्रेरितोऽनेन नेयबुद्धिर्नरेश्वरः ।

क्रुद्धो बहामसानाय नेत्रोत्पाटनमादिशत् ॥ १०७ ॥

१०७ इस प्रकार इसके द्वारा प्रेरित, चञ्चल बुद्धि राजा का क्रुद्ध होकर, बहामस का नेत्रोत्पाटन करने के लिए आदेश दिया ।

पाद-टिप्पणी

१०३ 'देशा' पाठ—बम्बई ।

पाद टिप्पणी

१०४ (१) अभिमन्यु तबकाले अकबरो में नाम जैन वद्र (४४९ = ६७८), तारीख हसन मे जैन पदर, अन्य स्थान पर, ऐन वद्र उसे लिखा गया है ।

(२) देवसरस द्रष्टव्य टिप्पणी जोनराज दलोक ३३० । यह परगना दिवसर है । देवसरस का उल्लेख नीलमतपुराण (१२८३ १४९५, २८४, १४९६ दलोकों) में किया गया है । मराज में अनन्तनाग जिला है । विशाऊ नदी क दक्षिण तटवर्ती

काश्मीर उपत्यका के दक्षिण-पश्चिम है । तहसील का केन्द्र कुलगाम है । धान की खेती इस क्षेत्र में अच्छी होती है ।

पाद-टिप्पणी

१०५ 'ग्रह' पाठ—बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

'त्वय्यन्त्र' पाठ—बम्बई ।

१०६ (१) द्वैराज द्रष्टव्य टिप्पणी
१ ३ ८६, ३ ५८, ४ ६२१ ।

पाद-टिप्पणी

१०७ (१) नेत्रोत्पाटन मुसलिम शासन

तस्य तूलाचिते नेत्रद्वये तप्तां शलाकिकाम् ।
जैनराजानको लौहीं दृङ्नाशार्थमदापयत् ॥ १०८ ॥

१०८. जैन राजानक ने दृष्टि नाश करने के लिए, उसके रुई भरे दोनों नेत्रों में, तप्त लौह शलालिका^१ डलवा दिया ।

नैर्घृण्यमक्षिहर्तुर्यत् कृष्टाक्षस्य च या व्यथा ।
द्वयं न शक्यते वक्तुं यथार्थं मादृशां गिरा ॥ १०९ ॥

१०९. नेत्र हर्ता की निर्दयता और नेत्र निकाले जाने की व्यथा, उन दोनों का यथार्थ वर्णन, हमारे जैसे लोगों की वाणी नहीं कर सकती ।

दुर्नीतिमवदन् केचित् केचिदीश्वरजृम्भितम् ।
प्राक्कर्मपाकमपरे नीचसङ्गमथापरे ॥ ११० ॥

११०. कुछ लोगों ने इसे दुर्नीति, कुछ लोगों ने राजगर्व, अन्यो ने पूर्व कर्म का परिपाक, और दूसरों ने नीच का संगम कहा ।

केचिद्विभववैशस्यं कातरत्वमथापरे ।
तदन्यंकरणं श्रुत्वा कोऽप्यवाच्यगिरोऽब्रवीत् ॥ १११ ॥

१११. कुछ लोगों ने विभव का विनाशभाव, अन्य लोग कातरता तथा कोई उसे अन्या किया जाना सुनकर, अनिर्वचनीय वाणी कहे ।

काल में विरोधियों का आँख फोड़ देना, आँख निकाल लेना, साधारण बात थी । दिल्ली के बादशाहों की भी आँखें उन्हीं गद्दी से उतारकर, फोड़ी जाती थी । भारतेतर मुसलिन राष्ट्रों में भी यह क्रूर प्रथा प्रचलित थी । दिल्ली के मुगल बादशाह फरखशियर की भी आँखें फोड़कर, उसे कारागार में डाल दिया गया था ।

पीर हुसन लिखता है—'शाही हुकम के मुताबिक उसकी आँखों में लोहे की गरम सलाहियाँ फेर दी गयी' (१८९) । द्र० : ३ : १३२ ।

पाद-टिप्पणी :

१०८. (१) शलालिका = शलाका : सलाई : एक नोकदार शल्योपकरण ।

तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—कुछ समय

उपरान्त बहराम खाँ की आँखों में सलाई फिरवा दी गयी (४४८ = ६७८) ।

फिरिस्ता लिखता है—'सुल्तान ने आज्ञा दी कि उसकी आँखें निकाल ली जायें' (४७८) ।

शलाका का इसी अर्थ में पुरासाहित्य में उल्लेख मिलता है—अज्ञानान्वस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाया । चक्षुःलन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः ।
॥ शिक्षा० ५८ ॥

पाद-टिप्पणी :

१०९. 'नैर्घृण्यम्' तथा 'हर्तु' पाठ—ब्रम्हई ।

पाद-टिप्पणी :

११०. 'दुर्नीति' पाठ—ब्रम्हई ।

मानुष्यं मास्तु तच्चेत्स्याद् वरं प्राकृतवेश्मनि ।

राजगेहेऽस्तु मा जन्म कस्यापीति न कोऽवदत् ॥ ११२ ॥

११२ किसी का जन्म मनुष्य योनि में न हो, यदि वह हो, तो साधारण घर में होना अच्छा है, राजवंश में न हो, इस प्रकार किस ने नहीं कहा ?

स्फूर्जद्भाग्यसमुद्भवन्नवनवप्रोल्लाससंपत्सुखः

प्रायो वेत्ति विभुर्विनोदकलया काल विशालं क्षणम् ।

दौर्भाग्योदितदुर्गतेः स्मृतनिजप्राच्यप्रकर्षोन्नते-

स्तस्य प्राप्तमहाभयस्य स भवेत् स्वप्नोऽपि कल्पोपमः ॥ ११३ ॥

११३. भाग्योद्रेक के कारण उत्पन्न होते, मित्त नवीन-नवीन प्रोल्लास एव सम्पत्ति सुख का अनुभव करनेवाला समर्थ व्यक्ति, विनोद-लीला में लम्बे समय को ही क्षण मानता है। और दुर्भाग्य के कारण दुर्गति प्राप्त तथा अपने पुराने भाग्योत्कर्ष का स्मरण करनेवाले, महा भयग्रस्त व्यक्ति को, वह (क्षणिक) स्वल्प भी कल्प सदृश लगता है।

अयःशृङ्खलवद्वाङ्घ्रिः सोऽन्धस्तत्रैव बन्धने ।

स्मरन् विभवसामग्रीमनयच्छेषमायुषः ॥ ११४ ॥

११४. लौह शृङ्खला से बद्ध पद, वह अन्ध वही बन्धन में, विभव सामग्री का स्मरण करने हेतु, शेष आयु व्यतीत किया।

नायं गीतैर्विना जातु वर्तते स्म गृहान्तरे ।

इत्येव तस्य सारावा झिल्लयो जागरणं व्यधुः ॥ ११५ ॥

११५ वह घर में बिना गीतों के कभी नहीं रहता था, इसीलिए मानो शब्द करती झिल्लियाँ, उसका जागरण किये रहती थी।

योऽभूच्छय्यागृहे नित्यं सर्वाङ्गे सेवकैर्वृतः ।

अभूवन् केवलं तस्य भृत्याश्चटकमत्कुणाः ॥ ११६ ॥

११६ सेवागृह में जिसका सर्वांग सेवकों से सेवित रहता था, अब उसके भृत्य केवल चटक (पक्षी) एवं मनकुण (खटमल) हो गये थे।

वितानावलयो यस्य बभूवुर्दुर्लभाःसुरैः ।

दृष्टास्त एव तद्गेहे लूतातन्तुविनिर्मिताः ॥ ११७ ॥

११७ दुर्लभ वस्तुओं में जिसकी वितान पक्ति बनी रहती थी, वे ही उसके रहने के स्थान पर, मकड़ों के जालों से विनिर्मित हुए देखे गये।

यदृषुः कोमलं पट्टतूलशय्यामभूषयत् ।

तदा तत्तस्य भूपृष्ठेऽशयिष्ठादृष्टविष्टरम् ॥ ११८ ॥

११८. जिसका कोमल शरीर पट्ट (रेखम) और रुई की गय्या को भूषित करता था, उस समय उसका शरीर बिना विस्तर के भू-पृष्ठ पर चायन करता था ।

दीयतां दीयतां तस्य वाणी या त्यागिनः श्रुता ।

विपत्क्षणेन सैवाभूत् तत्तद्वस्तुपयाचने ॥ ११९ ॥

११९. उस त्यागी की 'प्रदान करो-प्रदान करो'—वह जो वाणी सुनी गयी थी, विपत्ति के समय वही वाणी; तत्-तत् वस्तुओं की याचना में सुनी गयी ।

गतं स्वाम्यं हता भृत्याः प्राप्तः परिभवो नवः ।

बन्धनं शृङ्खलाबन्धैर्नेत्रोत्पाटनतो व्यथा ॥ १२० ॥

१२०. स्वामित्व नष्ट हुआ, भृत्य नारे गये, नया पराभव प्राप्त हुआ, शृंखलाबद्धों से बन्धन मिला, नेत्रोत्पाटन से व्यथा हुई ।

इत्येवैकः स्मरन् दुःखं सोऽन्धो राजसुतरिचरम् ।

नाज्ञासीत् स्वात्मनस्तुल्यमपरं प्राक्कथास्वपि ॥ १२१ ॥

१२१. इस प्रकार वह अन्धा राजपुत्र चिरकाल तक अपने दुःख को स्मरण करते हुए, पुरानी कथाओं में भी अपने समान किसी को नहीं माना ।

कोशोज्ज्वलं कमलमेक्ष्य नवं समन्ता-

दस्मिन् रमेऽहमिति तुष्यति चञ्चरीकः ।

दोषानुषङ्गमधिगम्य निवद्धमूर्ति-

स्तत्रैव नाशमुपयाति विधौ विरुद्धे ॥ १२२ ॥

१२२. सब ओर से कोशोज्ज्वल एवं नवीन कमलों को देखकर—'मैं इसमें क्रीडा करूँगा'—यह सोचकर, चञ्चरीक प्रसन्न होता है । दोष-अवगुण का संसर्ग प्राप्त होने पर, निवद्धमूर्ति वह विघाता के विरुद्ध होने पर उसी में नष्ट हो जाता है ।

पाद-टिप्पणी :

१२२. (१) दोष : दोष शब्द यहाँ विरुद्ध है । इसका सामान्य अर्थ दोष-अवगुण तथा दूसरा अर्थ रात्रि होता है ।

संस्कृत साहित्य में कमल के प्रति प्रेमियों का अति राग के कारण, उसमें बन्ध होकर, मर जाना बहूत वर्णन किया गया है । कमल क्षिप्त रहता है । प्रेमर उसमें डूब जाता है । मूर्च्छा के साथ क्रम

की पंखुड़ियाँ बन्ध हो जाती हैं । कमल के मोह के कारण, प्रेमर पंखुड़ियों को काट कर, बाहर नहीं निकल पाता । हाथी जाता है, वह कमल का मृगाल बन्ध उखाड़ देता है । पृथ्वी सहित मृगाल-बन्ध का जाता है । पृथ्वी में बैठे प्रेमर भी कमल के साथ ही अपनी लीला समाप्त कर देता है । भारतीय साहित्य में कवियों ने इस कथा को अनेक प्रकार से वर्णन किया है ।

राजवासः स्वलीलायं निर्मितस्तेन यः स्वयम् ।

स एव बन्धनायाभूत् को वेत्ति भवित्त्व्यताम् ॥ १२३ ॥

१२३. अपने लीला के लिये, उसने स्वयं जिस राजवास को बनवाया था, वही उसके बन्धन के लिए हुआ । भवित्त्व्यता को कौन जानता है ?

इत्थं वर्षत्रयं तावदनुभूतमहाव्यथः ।

अस्थिशेषतनुः क्लेशात् तस्मिन्नेव क्षयं ययौ ॥ १२४ ॥

१२४ इस प्रकार तीन वर्षों तक महान् दुःख अनुभव कर, दुःख से अस्थि-पजर शेष मात्र शरीर, वह कष्टपूर्वक उसी में विनष्ट हो गया ।

देशकालमनालोच्य चैरं यः कुरुतेऽरिभिः ।

स नश्यत्यचिरेणैव शौर्यश्रीमण्डितोऽपि सन् ॥ १२५ ॥

१२५ देश काल का बिना विचार किये, जो शत्रुओं से वैर करता है, वह शौर्य-श्री से सम्पन्न होने पर भी, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।

अभिमन्युप्रतीहारस्तत्तच्छौर्यमदोद्धतः ।

आयुक्तपक्षं प्रबलं नासहिष्ट स निष्ठुरः ॥ १२६ ॥

१२६ तत् तत् शौर्यं मद से उद्धत एव निष्ठुर, वह प्रतीहार अभिमन्यु प्रबल आयुक्त के पक्ष को सहन नहीं किया ।

पाद टिप्पणी

१२४ (१) तीन वर्ष यह समय सन् १४७५ ई० होना चाहिए ।

पीर हसन लिखा है—उसकी आँखों में लोहे की गरम सलाइयाँ फेंक दी गयी । जिससे तीन दिन के बाद उसकी वफात हो गयी (पीर हसन १८९) ।

पुत्र सहित बहराम खाँ बन्दी था । केवल बहराम खाँ की मृत्यु हुई थी । पुत्र बच गया था ।

फिरिस्ता ने उल्लेख किया है कि तीन दिन पश्चात् आँख फूटने के बहराम खाँ मर गया (४७८) । यह गलत है । कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया (भाग ३, पृष्ठ २८५) तथा पीर हसन फिरिस्ता का अनुकरण करते लिखते हैं कि तीन दिन पश्चात् मर गया । प्रमाण की तुला पर ठीक नहीं उतरता । तबक्काते अकबरी में स्पष्ट लिखा है—'वह तीन वर्ष तक बन्दी रह कर मृत्यु को

प्राप्त हुआ (४४९ = ६७८) ।

तारीखे हसन (पाण्डु० १०७ बी०) में स्पष्ट उल्लेख है कि वह तीन वर्ष पश्चात् बन्दी अवस्था में मर गया । थीवर का ही मत ठीक है कि बहराम खाँ तीन वर्ष पश्चात् बन्दी अवस्था में मर गया ।

तबक्काते अकबरी में सहशाल तथा फिरिस्ता के लीखो सस्करण में 'सहरोज', कर्नल ब्रिगम तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया में तीन दिन, रोजर्स के मत के अनुसार 'वह तीन वर्ष जेल में रह कर मर गया ।' (जे० ए० एस० बी० ५४ १०८) ।

पाद-टिप्पणी

'मदो' पाठ—बम्बई । बम्बई एव कलकता में 'अयुक्त' दिया गया है । प्रसंग में आयुक्त रखना उचित है ।

१२६ (१) अभिमन्यु तबक्काते अकबरी में

स्वातन्त्र्येण स्फुरत् प्राग्वत् स्फुरद्वाक्शरताडनम् ।

दर्पादायुक्तपक्षस्य सूचीवाक्षिगतोऽभवत् ॥ १२७ ॥

१२७. पहले के समान स्वतन्त्रतापूर्वक स्फुरित होता हुआ, और दर्प से वाक्शर का ताड़न करनेवाला, वह सूची की तरह आयुक्त पक्ष के आँखों में गड़ने लगा ।

उपायान् कुर्वता तांस्तांच्छन्नकोपेन मन्त्रिणा ।

वन्द्ध्युं तं मल्लिकेनात्र नावाप्यवसरः क्वचित् ॥ १२८ ॥

१२८. उसे वाँध लेने के लिए तत्-तत् उपायों को करनेवाले प्रच्छन्न कोप मन्त्री मल्लिक ने यहाँ पर कोई अवसर नहीं पाया ।

एकदा तद्गृहं गत्वाश्वस्तं श्रीविजयेश्वरे ।

तद्विया नृपती रानधान्यन्तस्तमवन्धयत् ॥ १२९ ॥

१२९. एक बार राजा उसकी बुद्धि से श्री विजयेश्वर उसके घर जाकर, अस्वस्थ उसे राजधानी के अन्दर बँधवा लिया ।

अभिमन्युः स्वयं ख्यातः पाण्डवाद्याश्च तत्सुताः ।

शृगालवत्तदाभूवन् धिगिच्छां विविधां विधेः ॥ १३० ॥

१३०. अभिमन्यु (प्रतीहार) स्वयं प्रख्यात हुआ, किन्तु पाण्डवादि उसके पुत्र, उस समय शृगाल सदृश हो गये थे । विधाता की विविध इच्छा को धिक्कार है ।

यस्याहवे मुखमवेश्य महागजेन्द्रा

दूरं प्रयान्ति त्रलिनः सशिलीमुखौघाः ।

दर्पाद्विशेष्यदि न निर्मितकूटयन्त्रं

कस्तं निरोद्धुमलमुत्सहते मृगेन्द्रम् ॥ १३१ ॥

१३१. युद्ध में जिस बली के मुख को देखकर, शिलीमुख (भ्रमण = वाण) समूह सहित महा-गजेन्द्र^१ दूर भाग जाते हैं, यदि वह दर्पपूर्वक (निर्मित) कूटयन्त्र^२ में न प्रवेश करे, तो कौन उस मृगेन्द्र को पकड़ने का उत्साह करेगा ?

उल्लेख है—जैनवद्र ने जो सुल्तान जैनुल आवदीन का वजीर तथा मलिक अहमद आसू से युद्ध करने का साधन बना था, वहराम खाँ को अन्धा बनवाने का प्रयत्न किया (४४९) ।

पाद-टिप्पणी :

१२९. 'राज' पाठ—वम्बई ।

जै. रा. ५

पाद-टिप्पणी :

१३१. (१) गजेन्द्र : भावार्थ है कि बली सिंह को देख कर, भ्रमर सहित बड़े-बड़े हाथी भाग जाते हैं, वह सिंह यदि गर्व के कारण जाल में न फँस जाय, तो उसे कौन पकड़ सकता है ? इसी प्रकार युद्ध में जिस राजा के सम्मुख बड़े-बड़े गज या वीर टिक नहीं

सपुत्रं हृतसर्वस्वं वद्ध्वा नौकान्तरे ततः ।

ताजिभट्टः समानीय कारागारान्तरेऽक्षिपत् ॥ १३२ ॥

१३२ ताजभट्ट ने सर्वस्व हरण कर, पुत्र सहित उसे नौका में बांध कर वहाँ से लाकर, कारागार में डाल दिया ।

यादृग् बहामखानाय कारयन्नुपतेरसौ ।

वर्षेणैकेन तादृक्षं नेत्रोत्पादनमन्वभूत् ॥ १३३ ॥

१३३ इसने जिस प्रकार राजा को प्रेरित कर, बहराम खाँ का नेत्रोत्पादन कराया, एक ही वर्ष में स्वयं नेत्रोत्पादन का अनुभव किया ।

यादृग् बहामखानस्य व्यथाभूदतिदुःसहा ।

अविन्दत् तादृशीं सोऽपि वक्तुं नान्येन शक्यते ॥ १३४ ॥

१३४ बहराम को जैसी अति दुःसह व्यथा हुई थी, उसने भी वैसी व्यथा का अनुभव किया, वह दूसरे द्वारा नहीं कही जा सकती ।

सकते थे । बाणों का चोट खाये, बाणों सहित भाग जाते थे, वही यदि स्वाभिमान के कारण, पड्यन्त्र में न फँस जाय, तो उसे कौन बन्दी कर सकता है ?

(२) कूटयन्त्र सिंह अथवा शेर को फँसाने के लिए दो प्रकार के उपाय प्रचलित थे और हैं । पहला तो साधारण यह है कि भूमि खोद दी जाती है । गहरा गड्ढा हो जाता है । ऊपर तृण आदि बिछा दिया जाता है, जिससे मारूम होता है कि समय भूमि है । उस पर कोई पशु बाँध दिया जाता है । शेर शिकार समझ कर उस पर दूटता है । उसके वेग के कारण ऊपर का तृणादि द्वारा निर्मित छाजन टूट जाता है । सिंह गड्ढे में गिर कर फँस जाता है ।

दूसरा उपाय उसे कठघरे या पिजड़े में फँसाने का अपनाया जाता है । चूहेदानी में जैम चूहा रोटी का टुकड़ा देख कर, घुमता है और खटका के गिरने से चूहेदानी का द्वार बन्द हो जाता है । चूहा फँस जाता है । इसी प्रकार शेर को फँसाया जाता है । बड़ा भारी कठघरा बनाया जाता है । उसमें शिकार बाँध या रख दिया जाता है । शेर शिकार के लोभ में

कठघरे में प्रवेश करता है । खटका छूट जाता है । कठघरा का द्वार बन्द हो जाता है । शेर फँस जाता है ।

पाद-टिप्पणी

१३३ (१) नेत्रोत्पादन आँख फोड़ना = आँख निकालना = अन्धा कर देना । तबककाले अकवरी में उल्लेख है—'सुल्तान हसन ने उसे (अभिमन्यु) को बन्दी बना लिया और संयोग से जिस दिन बहराम खाँ को अन्धा बनाया गया था उसी दिन उसकी आँखों में सलाई फिरवाई गयी (४४९ = ६७९) ।

पीर हसन लिखता है—शाह ने जैन पडर को गिरफ्तार कर लिया और उमी मलाई, जिसे बहराम खाँ को अन्धा किया गया था, जैन पडर के आँखों में भी फेर दी गयी । वह भी तीन साल कैद में रह कर, वफात पाया' (पीर हमन १८९) श्रीवर का अभिमन्यु प्रतीहार ही परशियन इतिहासकारों का जैन पडर है ।

रोजर्स लिखता है कि 'उसी सलाई में जैनवद्र अन्धा किया गया है, जिसे बहराम खाँ अन्धा किया

यस्मिन्नेव दिने यस्मिन् मासे विप्रियमातनोत् ।

तस्मिन्नेव दिने तस्मिन् मासे सोऽपि समासदत् ॥ १३५ ॥

१३५. जिस मास एवं जिस दिन^१ वह अप्रिय कार्य किया था, उसी मास, उसी दिन वह भी दुःख प्राप्त किया ।

सोऽपि वर्षद्वयं भुक्त्वा सपुत्रो नरकव्यथाम् ।

वहामखानवद्वद्धो व्यसनान्तर्व्यपद्यत ॥ १३६ ॥

१३६. यह भी पुत्र सहित दो वर्ष^१ तक, नरक-व्यथा भोग कर, बहराम खाँ की तरह बँधा हुआ दुःख में ही मर गया ।

अद्यैव मद्दृशौ घन्ये याभ्यां मत्कुलवैरिणः ।

सर्वस्वहरणं दृष्टं मरणं जैनभूपतेः ॥ १३७ ॥

१३७. 'आज ही मेरी आँखें घन्य हुईं, जिन्होंने मेरे कुल के वैरी जैन भूपति का सर्वस्व हरण एवं मरण देखा ।'

इत्यूचे निष्ठुरं यत्स दुष्टात्मा कृतलुण्ठनः ।

तदुक्तिफलमापासौ तयोर्नाशोऽभवत् फलम् ॥ १३८ ॥

१३८. इस प्रकार लुण्ठनकारी, उस दुष्ट आत्मा (अभिमन्यु) ने जो निष्ठुर बात कही थी, उस कहने का फल वह पाया और उन दोनों का फल नाश हुआ ।

गया था । हिदायत हुसेन ने एनवदर लिखा है । यद्यपि पूर्व पाठ में जैनवद्र मिलता है (६७८ : द्र० : ३ : १०६) ।

(२) एक वर्ष : यदि बहराम खाँ की मृत्यु सन् १४७५ ई० में मान ली जाय, तो यह समय सन् १४७६ ई० होगा ।

पाद-टिप्पणी :

१३५. (१) दिन : आश्चर्य है, प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं का होते हुये भी श्रीवर कल्हण एवं जोनराज के समान वर्ष, दिन, मास का उल्लेख नहीं करता । पता लगाना कठिन हो जाता है कि घटनाओं का समय क्या था ? कल्हण एवं जोनराज ने सपरिश्रम एवं अनुसन्धान के साथ इतिहास रचना की थी । श्रीवर ने अपने समय की घटनाओं का भी समय खोज कर, देने का कष्ट नहीं किया है ।

पाद-टिप्पणी :

१३६. (१) दो वर्ष : यदि बहराम की मृत्यु

सन् १४७५ ई० तथा अभिमन्यु का नेत्रोत्पाटन सन् १४७६ ई० मान लिया जाय, तो मृत्यु का समय १४७८ ई० निश्चित होता है ।

तवक्काते अकवरी में उल्लेख है कि तीन वर्ष उपरान्त वन्दीगृह में उसकी मृत्यु हो गयी (४४९-६७९) । किन्तु अन्य फारसी इतिहासकारों ने दो वर्ष पश्चात् ही मृत्यु की बात लिखता है (तारीख हसन पाण्डु० : १०७ वी०) ।

पीर हसन तीन वर्ष लिखता है—तीन वर्ष पश्चात् मृत्यु हुई ।

पाद-टिप्पणी :

१३७. (१) जैन भूपति = जैनुल आवदीन : श्रीवर ने जैन० : १ : १ : १२८ में वर्णित घटना की ओर संकेत किया है । अभिमन्यु प्रतिहार ने हाजी खाँ का समर्थन सुल्तान जैनुल आवदीन के विरोध में किया था (द्रष्टव्य १ : ७ : २०२) ।

चिन्तितं जैनभूपेन सपन्नं नैव यत्पुरा ।
हेलयास्याद्य पौत्रेण कृतमित्यवदज्जनः ॥ १३९ ॥

१३९ 'पहले जैन भूपति ने जिस कार्य को सोचा भी नहीं था, आज उसके पौत्र ने बना-यास ही कर दिया—' ऐसा लोगो ने कहा ।

यत्कर्तुमिच्छति परापचयं मनुष्य-
स्तेनैव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः ।

शृङ्गं विभर्ति हरिणः पररन्ध्रबुद्ध्या
शाङ्गीकृतं तदिषुभिर्हरते तमेव ॥ १४० ॥

१४० मनुष्य जिसके द्वारा दूसरे का अपकर्ष करना चाहता है, उमी नियम से उसका भी विनाश होता है, हरिण दूसरे को दु ख देने के विचार से शृग धारण करता है, वही धनुष निर्माण किये जाने पर, बाणो द्वारा उसी का विनाश करता है ।

दृष्टो रम्यश्चिरगुपवने वंशवाटो जनैर्यो
नानावर्णैस्तृणगणगुणैर्भूषितो भूरिपत्रः ।

तत्रान्योन्याहननजननात् तादृगभ्युत्थितोज्ज्व-
र्येनैकान्तादुपवनगतं सर्वमेव प्रनष्टम् ॥ १४१ ॥

१४१ लोगो ने चिरकाल तक, उपवन मे रम्य वंश वाट (बाँस का बाग) देखा, जो कि नाना वर्ण के तृणगण के गुणो से भूषित एव प्रचुर पत्रवाला था । उमी मे परस्पर सर्घर्ष से इस प्रकार की आग उठी, जिसके कारण एक ओर से, उपवनगत सब कुछ नष्ट हो गया ।

या कारकसभा रम्याभवन्मौलमहीभुजाम् ।
अचिरेणैव कालेन सर्वा स्वप्नोपमाभवत् ॥ १४२ ॥

१४२ मौल' राजाओ की जो सुरम्य कारक (कार्यकारिणी) सभा थी, वह सब थोडे ही समय मे स्वप्नोपमा हो गयी ।

पाद-टिप्पणी

१४१ (१) उक्त श्लोक तथा १ ७ २७३ श्लोक समान हैं । उनका अर्थ एव भाव भी समान हैं । उक्त श्लोक ३ १४० म केवल गण शब्द श्लोक १ ७ २७ में उससे अधिक हैं ।

पाद-टिप्पणी

१४२ (१) मौल . पुराने राजाओं, बहुत

दिनो से चली आती प्रथा, प्राचीन काल से पदारूढ आनुवशिक अर्थ है (मनु० ७ ५४) । इसका अर्थ पुराना या क्रमागत मन्त्रो भी होता है (रघु० १२ १२, १४ १०, १८ ३८, १९ ५७) । दूसरा अर्थ मुसलिम राजाओ में भी किया जा सकता है ।

क्रष्टुं मल्लिकजादोऽयमन्धजं खानमिच्छति ।

राज्यार्थमिति केनापि राज्ञोऽग्रे पैशुने कृते ॥ १४३ ॥

१४३. 'यह मल्लिकजाद राज्य हेतु अन्ध (बहरान हां) पुत्र खान को पक्ष में करना चाहता है—' इस प्रकार किसी के द्वारा राजा के समझ पिशुनता किये जाने पर—

सर्वस्वहरणं कृत्वा कारायां वन्धुमादिशत् ।

श्रुतेन तेन तद्द्विष्टो न कः सौख्यं समासदत् ॥ १४४ ॥

१४४. सर्वस्व हरण कर, कारा में डालने का आदेश दिया, उसे सुनकर, कौन उसका द्वेष सुली नहीं हुआ ?

आक्षेपैरजिता यद्वत्तेन श्रीन्यायवर्जिता ।

तद्दक्षेपतस्तस्मान्नीता राजाधिकारिभिः ॥ १४५ ॥

१४५. जिस प्रकार अन्यायपूर्वक आक्षेपों से सम्पत्ति अर्जित की थी, उसी प्रकार राजा के अविकारियों ने अक्षेपपूर्वक उससे ले लिया ।

उत्कोचमुद्रादानादितत्तदायासकारणात् ।

स विपत्पतितो नाभूत् कस्यापि करुणावहः ॥ १४६ ॥

१४६. उत्कोच मुद्रा लेना आदि तत् तत् प्रकार से कष्ट देने के कारण, उसके विपत्ति में पड़ने पर भां, उस पर किसी को दया नहीं आयी ।

कदर्यहस्ते क्षणसौख्यनिष्ठं

विगत्यगुह्यं प्रसभं धनं यत् ।

कष्टेन निर्याति तदेव कृष्टं

गुर्नाभगे लिङ्गमिव प्रविष्टम् ॥ १४७ ॥

१४७. अगनात्र के लिये सुखकर अगुह्य, जो वन कृपण के हाथ में चला जाता है, वही गुर्नाभग में प्रविष्ट लिंग सद्भा, खींचे जाने पर कष्ट से निकलता है ।

एकैकं संचितं वस्तु क्रष्टुं कष्टेन तत्करात् ।

नियुक्तैः पीडनं कृत्वा विलान्तर्गतसर्पवत् ॥ १४८ ॥

१४८. नियुक्त लोगों ने पीड़ा देकर, बड़े कष्ट से ही उसके हाथ से एक-एक संचित वस्तु को उसी प्रकार निकाला, जैसे बिल में गया सर्प ।

पाद-टिप्पणी :

१४५. (१) आक्षेपों : अर्थ उद्बन्धी, अथवा नारसीद कर सम्पत्ति प्राप्त करना है ।

पूर्णनापितमल्लेकजादाद्या हृतसंचयाः ।

बन्धनस्थाश्चिरं भूत्वा ते सर्वे प्रमयं ययुः ॥ १४९ ॥

१४९ जिनकी सम्पत्ति हर ली गयी थी, वे पूर्ण^१ नापित मल्लेकजादा^२ आदि चिरकाल तक, बन्धन में रहकर, सब मर गये ।

तत्तद्राज्याहिताकाङ्क्षिकुले तस्य क्षयावधिः ।

शापः श्रीजैनभूपस्य प्रसारितभुजोऽभवत् ॥ १५० ॥

१५० उस जैन भूपति का वह विनाशकारी शाप, राज्य का अहित चाहनेवाले लोगो के कुल पर हाथ फैलाया ।

मन्त्रै राज्याविवर्धनं कुरुत भोः सत्यं ब्रुवे मन्त्रिणो

नाशं स्वामिनि कुर्वतां नहि सुखं स्याद्वः परत्रेह च ।

यैर्यैर्जैनमहीपतावपकृतं पुत्रैर्नु भृत्यैर्नु वा

तैर्लब्धं फलमीदृशं तदहिता मात्सर्यधीस्त्यज्यताम् ॥ १५१ ॥

१५१ हे मन्त्रियो ! सत्य कहता हूँ । अपने मन्त्रो^१ से राज्यावर्धन करो, स्वामी का नाश करनेवाले तुम लोगो को इस लोक में अथवा उस लोक में सुख नहीं हो सकता । जिन-जिन पुत्रो तथा भृत्यो ने जैन महीपति का अपकार किया था, उन लोगो ने इस प्रकार फल पाया, अतः अहित कारी मात्सर्य बुद्धि त्याग दो ।

अन्येऽप्युच्चावचास्तस्य सेवका ये तदाभवन् ।

तदनिष्टकराः सर्वे तद्वत्तेऽपि प्रमिम्यरे ॥ १५२ ॥

१५२ दूसरे भी उसके ऊँचे-नीचे, जो उस समय अनिष्टकारी सेवक थे, वे सब भी उसी प्रकार नष्ट हो गये ।

पाद-टिप्पणी :

१४९ (१) पूर्ण नापित फारसी इतिहास-कारों ने नाम पूनी तथा लूली दिया है । द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० २ ५२ ।

(२) मल्लेकजादा • यह भी पड्यन्त्र का आरोप लगाकर बन्दी बनाया गया और बन्दीगृह में ही मर गया । इसके विषय में विशेष ज्ञातव्य कुछ नहीं है ।

पाद-टिप्पणी

१५० 'राज्याहिता' पाठ-बम्बई रचना उचित है ।

पाद-टिप्पणी

पाठ-बम्बई । इस श्लोक में 'पुत्रैर्नु भृत्यैर्नु' के स्थान पर 'पुत्रैर्नु, भृत्यैर्नु' अर्थ सगत है ।

१५१ (१) मन्त्र अर्थ—मन्त्रणा, सलाह, तथा मन्त्र शक्ति है । द्रष्टव्य पाद टिप्पणी • रा० ४ ५०२ तथा रा० ४ ५९९, जोन० राज० १७७-२६०, ५१५, ५९१ ।

यावद्वसति वसन्तस्तावद्विलसन्ति संततं भृङ्गाः ।

तस्मिन्निष्टे नष्टे भ्रष्टच्छाया न चेष्टन्ते ॥ १५३ ॥

१५३. वसन्त ऋतु तक रहता है, तब तक निरन्तर भ्रमर विलसित होते हैं, उस इष्ट के नष्ट हो जाने पर, आश्रय रहित, वे चेष्टा नहीं करते ।

पूर्वं जैननृपः सैदनासीरादीन् समागतात् ।

पैगम्बरान्वये जातान् पूज्यान् ज्ञात्वा महागुणात् ॥ १५४ ॥

१५४. पहले जैन नृप ने बाये हुए सैद नासीर आदि को पैगम्बर के वंश^१ में उत्पन्न पूज्य एवं महागुणी जान कर—

श्रोत्रासनकरस्पर्शदर्शितातुलसत्कृतीन् ।

स्वसुतादानमानेन यांस्तान् राष्ट्राधिपान् व्यधात् ॥ १५५ ॥

१५५. उन्नतासन प्रदान कर तथा करस्पर्शादि से अतुल सत्कार किया और जिन्हें अपनी पुत्री प्रदान कर, सम्मानपूर्वक राष्ट्राधिप बना दिया ।

तेभ्यः सैदज्यमालादीन् राजा ज्ञात्वा तरङ्गितान् ।

प्रत्यमुञ्चत् तदा देशाद् तत्सञ्चयमवञ्चयन् ॥ १५६ ॥

१५६. राजा ने उनके प्रति सैद जनाल आदि को उपद्रवी जानकर, सम्पत्ति से वंचित कर, उस समय देश से निकाल दिया ।

स सैदनासिरो घन्यो गण्यो धुरि मनीषिणाम् ।

यो विचार्यायतिं राशिं सति देशान्तरं ययौ ॥ १५७ ॥

१५७. वह सैद नासीर मनीषियों में घन्य, गण्य एवं अग्रणी था, जो उत्तरकाल का विचार कर, राजा के रहते देशान्तर^२ चला गया ।

पाद-टिप्पणी :

१५३. 'द्वि' 'नं' पाठ—दृष्टव्य ।

पाद-टिप्पणी :

१५४. (१) पैगम्बर : ऋषि फारसी है ।
कथं ईश्वरीय वृत्त या पयंवर होता है । यहाँ इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब से तात्पर्य है ।

(२) वंश : द्रष्टव्य पाद टिप्पणी : १ : ७ :
४७ । सैय्यद वंश की कन्या बोवा खातून सुल्तान जैनुल आबदीन की रानी थी । जैनुल आबदीनका पौत्र सुल्तान हसनसाह था ।

सैय्यद नासिर के पुत्र मेय्या हसन को बहुरूप की जागीर दी गयी थी । सुल्तान जैनुल आबदीन के काल में सैय्यद पैगम्बरवंशीय होने की ख्याति के कारण काश्मीर में उनका बादर, सम्मान था । वे पूज्य माने जाते थे (द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी जैन० : २ : १९) ।

पाद-टिप्पणी :

'धुरि' पाठ—दृष्टव्य ।

१५७. (१) देशान्तर : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ३ : ३९ ।

सुतोपनयनाद् राज्ञः सुचिरं यैर्नृपायितम् ।

बहुरूपादिराष्ट्राधिपत्यनित्यसुखोज्ज्वलैः ॥ १५८ ॥

१५८ राजा के पुत्रों से विवाह के कारण बहुरूप^१ आदि राष्ट्राधिपत्य के नित्य सुख को भोगनेवाले जो चिरकाल तक नृपवत् आचरण करते रहे ।

इतस्ततो भ्रमन्तस्ते केचिद्दिल्लीपुरं ययुः ।

केचिद्विभवलोभेन पुनर्निष्कासिता अपि ।

नारमन्त वहिर्देशे माघे मधुकरा इव ॥ १५९ ॥

१५९ वे लोग इधर-उधर घूमते हुए, कुछ दिल्लीपुर^१ चले गये और कुछ लोग वैभव-लोभ के कारण, निष्काशित होने पर भी, भारत देश में माघ के मधुकर के समान सुखी नहीं रह सके ।

प्राप्ता ये परदेशजाः कणभुजो देशेऽत्र संपद्युता

गर्भोत्थादिव विस्मृतात्मचरिताः कुर्युः प्रजापीडनम् ।

ते तत्पापभरेण नष्टविभवा निष्कासिताः स्वामिना

गच्छन्ति हृदकृष्टमत्स्यतुलनां तज्जीवनाशाकुलाः ॥ १६० ॥

१६० कणभोगी^१ विदेशी, जो इस देश में आये, सम्पत्ति युक्त हो गये, गर्भ से निकले हुए के समान आत्मचरित भूल गये और प्रजा पीडन करने लगे । इस पाप-भार से उनका वैभव नष्ट हो गया, स्वामी द्वारा निष्काशित कर दिये गये और सरोवर से निकाले गये मत्स्य के समान प्राण-नाश के भय से व्याकुल हो गये ।

राजानकैष्ठकुरैश्च तैर्मार्गपतिभिः सह ।

निबद्धयौनसंबन्धकृतैक्यो मल्लिकोऽभवत् ॥ १६१ ॥

१६१ मल्लिक, उन राजानको^१, ठक्कुरों^२ एव मार्गपतियों^३ के साथ यौन सम्बन्ध कर, एक हो गये ।

पाद टिप्पणी

रूपादि पाठ-बम्बई ।

१५८ (१) बहुरूप वीरु परगना द्र०
२ १९, ४ ६१५ ।

पाद-टिप्पणी

१५९ (१) दिल्लीपुर इसका अर्थ वतमान दिल्ली है । योगिनीपुर नाम भी दिल्ली के लिये जैनराज ने प्रयोग किया है (श्लोक ३८४, ४४१) ।

पाद-टिप्पणी

१६० (१) कणभोगी कण का अर्थ अनाज

का दाना या चावल की खुद्दी होता है । विदेश से आनेवाले संथ्यद आदि गरीब थे । उन्हें भर पेट अच्छा अन्न भी नहीं मिलता था । वे अनाज के टूटे दानों तथा चावल के कण, जो अत्यन्त गरीबों का भोजन है, करते थे । किन्तु काश्मीर में आने पर उन्हें राजाशय एव सम्पत्ति प्राप्त हो गयी थी । वे जनता का शोषण करने लगे थे ।

पाद-टिप्पणी

१६१ (१) राजानक द्रष्टव्य पाद-
टिप्पणी जैन० राज० १ १ ८८ ।

सर्वतन्त्राधिकारेण राजतन्त्रमखण्डितम् ।
ताजिभट्टाय मल्लेको मुष्टिबद्धमिवाकरोत् ॥ १६२ ॥

१६२. मल्लिक ने ताजभट्ट के लिये सर्व तन्त्राधिकार^१ द्वारा राजतन्त्र को अखण्डित एवं मुष्टिबद्ध कर लिया ।

पुत्रीकृतोऽयं सद्वंशयो मदाज्ञास्मात् स्फुरत्यलम् ।
इति तस्याक्षमिष्टादौ मल्लेकः स्फूर्जितं न कम् ॥ १६३ ॥

१६३. पुत्रीकृत यह सद्वंशीय है, इसके कारण मेरी आज्ञा स्फुरित होती है, अतः मल्लेक ने उसके स्फूर्जित को क्षमा नहीं किया ।

स्वसारं वीक्षते स्वल्पं मार्गेशोऽपि ज्यहांगिरः ।
स्वसारं सैदनिर्मुक्तिदत्तपत्राङ्कितां व्यधात् ॥ १६४ ॥

१६४. मार्गेश जहाँगीर ने अपनी बहन की प्रतिष्ठा में कमी देखकर, उसे सैयिदों से निर्मुक्ति-पत्र (तलाकनामा) दिलवा दिया ।

तन्मार्गेशाग्रजां राजानुमतेन प्रसन्नधीः
अभ्यर्थ्य ताजिभट्टाय मल्लेकस्तामदापयत् ॥ १६५ ॥

१६५. राजा के अनुमोदन से निर्मल-बुद्धि मल्लेक ने प्रार्थना करके, मार्गेश^१ की उस बड़ी बहन को ताजभट्ट को दिला दिया ।

ज्यहांगिरोऽपि मार्गेशः क्षितिपालानुरोधतः ।
स्वाग्रजार्पणमेतस्मै चक्षमे नयदक्षधीः ॥ १६६ ॥

१६६. क्षितिपाल के अनुरोध से नीति में चतुर-बुद्धि मार्गेश जहाँगीर भी अपनी बड़ी बहन को इसे समर्पित करने में समर्थ हुआ ।

(२) ठक्कुर : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : पाद-टिप्पणी :

जैन० : राज० : १ : १ : ४४ तथा जोन० :
राज० : श्लोक ६८८ एवं ७१६ ।

१६३. 'मद्वंश्यः' 'मदाज्ञा' पाठ-वम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

(३) मार्गपति : माग्ने : द्रष्टव्य : पाद-
टिप्पणी : १ : १ : ८८ ।

१६४. 'ज्यहांगिर' पाठ-वम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

पाद-टिप्पणी :

'राजानुमतेन' पाठ-वम्बई ।

१६२. (१) सर्वतन्त्राधिकार : द्रष्टव्य :
पाद-टिप्पणी : जैन० : राज० : १ : १ : ९४ तथा
१ : ३ : ४१ । पीर हसन लिखता है कि ताजीभट्ट
को मीरलशकर नियुक्त किया गया (पीर हसन :
१९०) ।

१६५. (१) मार्गेश = जहाँगीर : जहाँगीर की
बड़ी बहन की शादी ताजभट्ट से हुई थी ।

पाद-टिप्पणी :

१६६. 'ज्यहांगिरः' पाठ-वम्बई ।

चञ्चरीका इवोद्यानं कुल्या इव महोदधिम् ।

भाग्यभाजं समायान्ति कलत्राणि च संपदः ॥ १६७ ॥

१६७ उद्यान मे चञ्चरीको के समान, महोदधि मे कुल्याओ' के समान, स्त्रिया एव सम्पत्तिर्था भाग्यशाली के पास जाती है ।

तां मार्गेशकुलोद्यानकल्पवल्लीं फलप्रदाम् ।

तैः संपूर्णगुणैः पूर्णा भट्टो लक्ष्मीमिवासदत् ॥ १६८ ॥

१६८ मार्गेश के कुलोद्यान की कल्पवल्ली', जो कि फलप्रद एवं उन सम्पूर्ण गुणो से पूर्ण थी, भट्ट ने उसे लक्ष्मी के समान प्राप्त कर लिया ।

सैदनिष्कासनं नैव संपन्नं जैनभूपतेः ।

हेलयैवास्य पौत्रेण कृतमित्यवदज्जनः ॥ १६९ ॥

१६९ 'जैन भूपति सैद निष्कासन को नहीं सम्पन्न कर पाया, इसके पौत्र ने अनायास ही कर दिया'—ऐसा लोगो ने कहा ।

कृते निष्कटके देशे मल्लिकाह्वदसन्ततः ।

प्रतिष्ठारसिको राजा तत्सभा च तदाभवत् ॥ १७० ॥

१७० देश के निष्कटक कर दिये जाने पर, उस समय मल्लिक अहमद से प्रभावित राजा प्रतिष्ठा' के प्रति रसिक हो गया और उसकी सभा भी वैसे ही हो गयी ।

विवाहोत्सवसद्वेश्मनाद्ययात्रादिमङ्गलान् ।

नापरामग्रहीच्चिन्तां सौराज्यसुखितो जनः ॥ १७१ ॥

१७१ सौराज्य से सुखी लोगो मे विवाहोत्सव, सुन्दर, भवन, नाटक, यात्रा आदि मंगल कार्यों के अतिरिक्त दूसरी चिन्ता नहीं होती थी ।

पाद-टिप्पणी

१६७ (१) कुल्या = नहर = सरिता ।

ज्येष्ठ बहन से सात्पर्य है (जोन० राज० . श्लोक १६९) ।

पाद-टिप्पणी

१६८ (१) कुलोद्यान = कल्पवल्ली कोटा रानी के सम्बन्ध में जोनराज ने इसी विशेषण का प्रयोग किया है । श्रीवर ने उसे यथावत अपने पद में अपना पद मानकर लिख दिया है । वास्तव में यह शब्दावली जोनराज की ही है । यहाँ जर्हागीर की

पाद-टिप्पणी

१७० (१) प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का अर्थ यहाँ, गृह, मठ, शाला, भुवन आदि निर्माण किंवा स्थापना से लगाना चाहिए ।

(२) सभा : सभा का अभिप्राय दरवार से है ।

पञ्चाशद्वत्सरे राजा निर्ममे निर्ममेहितः ।

दिहामठे नदीप्रान्ते राजधानीं मनोहराम् ॥ १७२ ॥

१७२. राजा ने पचासवें वर्ष कठोर अव्यवसाय करके, दिहामठ में नदी तटपर मनो-रम राजधानी निर्मित की ।

घन्याहमन्या किं शून्या इत्येवाम्बुनि विम्बिता ।

स्फुरच्चतुष्पिकाहस्तैर्चृत्यतीव दिवानिशम् ॥ १७३ ॥

१७३. 'मैं घन्य हूँ। शून्य अन्य क्या है?' इसलिये मानो जल में प्रतिविम्बित होकर, स्फुरित होते स्तम्भ रूप हाथों से नाच रही थी ।

मद्वंश्येन कृता केनापीदृशीति दिदृक्षया ।

स्वर्णच्छत्रच्छलाद्यस्याः प्राप्तो व्योम्नो दिवाकरः ॥ १७४ ॥

१७४. 'किसी मेरे वंशज ने इसे वनवाया है'—यह देखने की इच्छा से, जिसके स्वर्ण छत्र के व्याज से, आकाश में मानों दिवाकर आ गये थे ।

यत्कारुक्लृप्तक्रोणस्थदारुगारुडमूर्तिभिः ।

त्रस्ताश्चरन्तो नायान्ति पक्षिणस्तन्नभोऽध्वना ॥ १७५ ॥

१७५. जिसके शिल्पियों द्वारा निर्मित कोनों पर स्थापित, दारुमय गरुड मूर्तियों के कारण त्रस्त होकर, विचरण करती पक्षियाँ आकाश के उस मार्ग से नहीं जाती थीं ।

गोल्खातोनाभिघा रानी माता दिदेव देवता ।

विशालां धर्मशालां साप्यकरोन्मद्रसाख्यया ॥ १७६ ॥

१७६. दिहा के समान देवता गोल्खातून नाम की रानी जो राजमाता थी, उसने भी मदरसा नाम से विशाल धर्मशाला का निर्माण कराया ।

पाद-टिप्पणी :

१७२. (१) पचास : सप्तपि अथवा लौकिक सम्बत् ४५५० = कलि० ४५७५ = सन् १४७४ ई० = गक १३९६ = सम्बत् विक्रमी० १५३१ ।

(२) दिहामठ : श्रीनगर का दिदमर मुहल्ला (ढ० : ३ : १८४, ४ : १२५) ।

पाद-टिप्पणी :

१७४. 'मद्वंश्येन' पाठ-दम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

१७५. 'कलृप्त' पाठ-दम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

१७६. (१) दिहा : काश्मीर की रानी तथा शासिका (सन् ९८०-९८१ से १००३ ई०) द्रष्टव्य : ख० : ६ : ३३२-३६८ ।

(२) गोल्खातून : गुल्खातून । परशियन इतिहासकार भी यह स्वीकार करते हैं कि गुल्खातून हिन्दू रीति-रिवाज मानती थी । वह काश्मीर की मुसलिम रानियों में बहुत ऊँचा स्थान रखती है । वह हैदरशाह की पत्नी तथा हुसन की माता थी ।

यत्प्रवेशे नृपस्तुष्टो मात्रा सह समागतः ।
पक्षमेकं व्यधाद् भूरिव्ययशालिमहोत्सवम् ॥ १७७ ॥

१७७ माता के साथ आकर, जहाँ पर प्रवेश करने से, राजा सतुष्ट हुआ और एक पक्ष तक बहुत व्ययशाली महोत्सव होता रहा ।

प्रतिष्ठामर्धनिष्पन्नां निर्लोद्ध्यानुचितां नृपः ।
नगरे पितृपुण्यार्थं खानगाहं विनिर्ममे ॥ १७८ ॥

१७८ राजा ने अर्ध निष्पन्न प्रतिष्ठा को निर्लुण्ठित कर, नगर में पिता के पुण्य के लिये खानगाह^१ निर्मित किया ।

कुलोद्धरणनागस्य तटभूमौ महीपतिः ।
वह्निदग्धं नव चक्रे राजवासं मनोरमम् ॥ १७९ ॥

१७९ राजा ने कुलोद्धरण नाग^१ के तटभूमि पर, वह्निदग्ध राजवास को नवीन एवं सुन्दर बनाया ।

विजयेशनदीप्रान्ते राजवेश्म नवीकृतम् ।
भाति भातिशयान्मध्यरत्न हारावलेखि ॥ १८० ॥

१८० विजयेश मे नदी तट पर, नवीन कृत, राजगृह अतिशय कान्ति के कारण, हारावली के मध्य रत्न के समान, शोभित हो रही थी ।

छत्रं यत्र स्फुरत्पत्र वितस्ताम्बुनि विम्बितम् ।
प्रेक्ष्य तुष्टैः सुरैर्मुक्तमिव सौवर्णपङ्कजम् ॥ १८१ ॥

१८१ जहाँ पर स्फुरित, पत्र से युक्त छत्र, वितस्ता जल में प्रतिबिम्बित होता था, जिसे देखकर, सन्तुष्ट देवों ने मानो सुवर्ण कमल मुक्त किया था ।

भाति सुय्यपुरे राजधानी राजविनिर्मिता ।
पुरातनीं पराकीर्णां हसतीव सुधासिता ॥ १८२ ॥

१८२ राजा द्वारा निर्मित राजधानी सुय्यपुर में शोभित हो रही थी, और सुधासित (सफेदी) होकर, मानो वह शत्रुपूरित पुरानी (राजधानी) का हाम कर रही थी ।

पाद-टिप्पणी

वर्थ होता है ।

१७७ 'मात्रा सह' पाठ-बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

पाद-टिप्पणी

१७९ (१) कुलोद्धरण नाग द्रष्टव्य १ .

'निर्लोद्ध्या' पाठ-बम्बई ।

६ : ३ ।

१७८ (१) खानगाह फारसी शब्द खान-

पाद-टिप्पणी

काह है । फकीरों तथा साधुओं के निवास का स्थान

१८०. 'राजवेश्म' पाठ-बम्बई ।

राज्ञा कृतैरनेकाक्षे स्वोद्याने राजवेश्मभिः ।
यद्दर्शनादनेकाक्षो नूनं स्वमभिनिन्दति ॥ १८३ ॥

१८३. अनेकाक्ष^१ उद्यान में राजा ने राजगृहों को बनवाया था, जिसे देखने से इन्द्र अपने को ग्रहणीय मानते थे ।

प्रतिष्ठा विहिता राज्ञा नवा या निजमण्डले ।
अन्यास्ता वर्णिता नात्र ग्रन्थगौरवतो मया ॥ १८४ ॥

१८४. राजा ने अपने मण्डल में नवीन जो प्रतिष्ठायें की, यहाँ मैंने ग्रन्थ विस्तार के कारण वर्णन नहीं किया है ।

दिदामठेऽह्नदायुक्तः कृतातुलगृहावलिः ।
मसोदाहजिरोदारशिलाभित्तिविराजितम् ॥ १८५ ॥

१८५. दिदामठ^१ में अतुल गृहावलियों के निर्माता, आयुक्त अहमद ने मसोद (मसजिद) हुजिरा^२—

खानगाहेति विख्यातं घर्मवासं विनिर्ममे ।
येन नानादिगायाततत्तत्पथिकशालिना ॥ १८६ ॥

१८६. खानगाह नामक प्रसिद्ध घर्मवास का निर्माण कराया, नाना दिशाओं से आये पथिकों से भरे, जिसके कारण—

दिदामठपुरं सर्वं ययौ नेत्राभिरामताम् ।
प्रवेशे नृपमानीय पष्टिलक्षकृतव्ययम् ॥ १८७ ॥

१८७. सम्पूर्ण दिदामठपुर^१ नयनाभिराम हो गया । प्रवेश के समय राजा को लाकर, साठ लाख व्यय पूर्वक—

पाद-टिप्पणी :

‘नेकाक्षेः’ पाठ-बम्बई ।

१८३. (१) अनेकाक्ष : काश्मीर का एक परगना अनेछ (अनन्तनाग) है । श्री दत्त ने ‘अपने उद्यान’ अनुवाद किया है । पृष्ठ : २२५ । सम्भव है, अनेकाक्ष (एक परगना) में यह उद्यान रहा हो । ध्वनि-साम्य के आधार पर मेरा यह मत है । अनन्तनाग को इस्लामावाद भी कहते हैं अतएव वह अनेछ परगना है । अवुल फजल के परगनों की तालिका में ‘इतेह’ नाम दिया गया है ।

पाद-टिप्पणी :

१८५. (१) दिदामठ : श्रीनगर का दिदमर

मुहल्ला ।

(२) हुजिरा : मैं समझता हूँ कि यह ‘हुजरा’ शब्द का संस्कृतकरण है । मसजिद की उस कोठरी को कहते हैं, जहाँ एकान्त में बैठकर मुसलमान ईश्वर की आराधना करते हैं । आजकल धार्मिक साधना के प्रति उत्साह न रहने के कारण उसमें मसजिद की चटाई, विछौना आदि सामान रखा जाता है ।

पाद-टिप्पणी :

१८७. (१) दिदामठपुर : श्रीनगर का दिदमर मुहल्ला ।

दत्त्वा सतिपुपग्राम सत्र यत्रावतारितम् ।
शाहाभिधास्य भार्यापि मठ सुकृतकर्मठम् ॥ १८८ ॥

१८८ सतिपुप^१ प्रदान कर, जहाँ पर सत्र चला दिया, शाहा^२ नाम की उसकी भार्या पुण्य-
शाली मठ का—

खेरीविषयमार्गान्तनिर्ममे सप्रतिग्रहम् ।
तत्पुत्रो नौरुजापुत्रतः कृत्वा धर्ममठ नवम् ॥ १८९ ॥

१८९ खेरी विषय मार्ग में प्रतिग्रह सहित निर्माण कराया । उसके पुत्र नौरुज आयुक्त ने
नवीन धर्म मठ का निर्माण करके—

नगरात् क्षिप्तिकां यावच्छैलसेतु नव व्यधात् ।
तद्द्वीपे सति यो हन्ति सर्वेषां पुरवासिनाम् ॥ १९० ॥

१९० नगर से क्षिप्तिका^१ तक नवीन प्रस्तर सेतु का निर्माण कराया, सब ओर जलकीर्ण
हो जाने पर वह समस्त पुरवासियों के—

स्तम्भनिर्मितदीर्घाश्मसेतुबन्धकुतूहलम् ।
भ्रातरावपि तौ धन्यावन्यौ रिगकनूथकौ ॥ १९१ ॥

१९१ स्तम्भ निर्मित दीर्घ सेतुबन्ध का कोतूहल नष्ट करता था । रिगक तथा नूथक
नाम के दोनों भाई भी धन्य हैं—

व्यधातां क्रमराज्यान्तर्मठौ सौधमनोहरौ ।
ताजिमद्गोषपि भूपालबाल्लभ्यविभवोजितः ॥ १९२ ॥

१९२ जिन्होंने क्रमराज्य^१ में सौधो से सुन्दर दो मठ बनवाये । राजा की प्रियपात्रता के
वैभव से उजित ताजमद्ग ने भी—

पाद-टिप्पणी •

१८८ (१) सतिपुप स्थान का निश्चित
पता नहीं है । केवल यही उल्लेख मिलता है ।
अनुसन्धान अपेक्षित है ।

(२) शाहा अहमद आयुक्त की स्त्री ।
किसी स्रोत से अभी तक और प्रकाश नहीं पडा
सका है ।

पाद टिप्पणी

१९० (१) क्षिप्तिका श्रीनगर स्थित कुट-

कुल नहर (द्र० १ ३ ८, ४ : १०७) ।

पाद-टिप्पणी

'रिगक' पाठ-वम्बई ।

१९१ (१) रिगक काश्मीर में नामो के
अन्त में 'क' प्रायः जोड़ देते हैं । यह शैली अब बदल
रही है । परशियन इतिहासकारो ने नाम केवल रिग
लिखा है । वे प्रायः अन्तिम अक्षर 'क' को छोड़
देते हैं ।

करालविषये जैनपुरीमध्ये मठं व्यधात् ।
कुञ्जदीनपुरीमध्ये चक्रेश्वरचरणां नवाम् ॥ १९३ ॥

१९३. कराल^१ देश बीच कुञ्जपुरी^२ में जैनपुरी^३ के मध्य में एक नवीन मठ का निर्माण कराया । प्रस्तर रचना की—

इन्द्रोऽपीक्षेत तां सोऽपि भवेत् कर्मकुतूहली ।
एदराजानको राजवस्त्रशोभाधिकारभाक् ॥ १९४ ॥

१९४. जिसको कि इन्द्र भी यदि देखते, तो उन्हें भी ऐसा कर्म करने का कौतूहल हो जाता । राज वस्त्र शोभा का अधिकार एद राजानक ने—

खानगाहं स निर्वर्त्य वलाढ्यमठकान्तरे ।
नवः पितृविहारान्ते निजजन्मभुवोऽन्तरे ॥ १९५ ॥

१९५. वलाढ्य मठ^४ के अन्दर खानकाह^५ निर्मित कर अपनी जन्मभूमि में पितृ विहार^६ के निकट—

पाद-टिप्पणी :

१९३. (१) कराल : अद्विन जिला । प्राचीन नाम अर्द्विन है । रानव्यार नदी का दक्षिणी तटवर्ती अंचल है । विघांका नदी के दक्षिणभागीय अंचल तक विस्तृत है (द्र० : ४ : ४५७) ।

(२) कुञ्जपुरी = कुञ्जुद्वीन पुर : इस समय यहाँ पर श्रीनगर को दो मूहल्ले लंगर वृद्धा तथा पीरहाजी मूहल्ले स्थित है । मुलतान कुञ्जुद्वीन अपने नामांकित मूहल्ले में ही वस्त्र किया गया था । वह कन्न पीरहाजी मूहल्ले के जियारत के समीप है । पाँचवे तथा छठे पूल के बीच है । राजकीय समित स्थान है । द्रष्टव्य : पाद टिप्पणी : जोन० : राज० : श्लोक० ५२७ : जैन० : राज० : १ : ३ : ८० : १ : ४ : १४५, १९७; ३ : १९२ ।

(३) जैनपुरी : जैनपुरी उत्र के पूर्व पादमूल में बची गाँव है । गोनारिल्य राजा द्वारा स्थापित अप्रहार वस्त्रिक का अपभ्रंश है । (द्र० : जोन० : श्लोक ८६४) ।

पाद-टिप्पणी :

१९५ (१) वलाढ्य : श्रीनगर का वर्तमान बल्दीभर मुहल्ला ।

(२) खानकाह : शुद्ध फारसी शब्द खानकाह है । साधुओं तथा फकीरों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं ।

(३) पितृविहार : पिता द्वारा निर्मित खानकाह । नकदरों के पास मसजिद तथा खानकाह निर्माण कराने की परिपाटी नव्यकाल में थी । कुलीनता तथा समृद्धि का परिचायक थी । सम्भव है पिता के मकदरा या मज्दार के पास उसने यह निर्माण कराया था । इससे यह भी प्रतीत होता है कि एद राजानक सम्भव कुटुम्ब का व्यक्ति थी । कुटुम्ब राजानक वंश था और कालान्तर में इस्लाम स्वीकार कर लिया था ।

येन लोकातिहृच्चक्रे विहारः सुगृहोज्ज्वलः ।

मठाग्रहारमस्जेदाविहारगृहपंक्तिभिः ॥ १९६ ॥

१९६ लोगो की पीडा को हरनेवाला, सुन्दर गृहो से उज्वल नवीन विहार बनाया । मठ, अग्रहार, मसजिद, विहार एव गृह पंक्तियों से युक्त—

त्रिंशद्विंशः प्रतिष्ठास्ता मण्डले येन कारिताः ।

सर्वदर्शनसपन्नप्रतिपादितदक्षिणे ॥ १९७ ॥

१९७. तीस-बीस प्रतिष्ठायें मण्डल में करायी थी । सर्व-दर्शनो (धर्म) से सम्पन्न जनों को दाक्षणा प्रदान कर—

प्रतिहार्यक्षणे येन कौटिरेका व्ययीकृता ।

स फ़िर्यडामरो जैननगरे सत्रसुन्दरम् ॥ १९८ ॥

१९८ जिमने द्वार प्रवेश के अवसर पर, एक करोड़ व्यय किया, उस फ़िर्य डामर ने जैन-नगर^२ में सत्रो^३ से सुन्दर—

मसोदाहजिरोदारं खानगाहं विनिर्ममे ।

ह्यातखातोना राजवल्लभा विभवोज्ज्वला ॥ १९९ ॥

१९९ मसोद (मसजिद) हुजिरा नामक सुन्दर खानकाह का निर्माण कराया । सुन्दर वैभव युक्त राजवल्लभा ह्यात खातोना^४ (ह्यात खातून) ने—

पाद-टिप्पणी

‘सत्र’ पाठ-बम्बई ।

१९८. (१) द्वार प्रवेश प्रचलित शब्द गृही प्रवेश है । एदराजानक पूर्व हिन्दू मंस्कार के अनुसार गृही प्रवेश उत्सव सम्पन्न किया था ।

(२) जैननगर - द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० १०५ ४ आदि ।

(३) सत्र वह स्थान जहाँ अनार्थों तथा अस-हायों को भोजन बाँटा जाता है । सत्र का समानार्थक शब्द सदावर्त है । कौटिल्य के अनुसार मरुस्थल, संकर स्थान, दलदल, पर्वत, नदी, घाटी, ऊँची-नीची भूमि, नाव, गाय, शकट, ब्यूह तथा रात्रि इनकी गणना सत्रो में होती है ।

पाद-टिप्पणी

१९९ (१) ह्यात खातून : ह्यात खातून संय्यद हसन की कन्या थी । ह्यात नाम है । खातून विशेषण है । खातून का अर्थ शिष्ट महिला होता है । उसका विवाह सुल्तान के साथ हुआ था । सुल्तान उससे बहुत प्रेम करता था । ह्यात खातून से सुल्तान को पुत्र रत्न मुहम्मद हुआ था । मुहम्मद-शाह शाहमीर वश का ग्यारहवाँ सुल्तान हुआ था ।

तत्कालीने अकबरी में उल्लेख है—सुल्तान को ह्यात खातून से एक पुत्र था, जो मँथियद वशज थी । (४५० = ६८०) पुत्र का नाम मुहम्मद खा था । वह वृद्धि हेतु ताजीभट्ट के सरक्षण में रख दिया गया था ।

मृगवाटाभिधे स्थाने मठं दग्धं नवं व्यधात् ।

मोमारखातोना राजमहिषी स्वधनैर्नवम् ॥ २०० ॥

२००. मृगवाट^१ नामक स्थान पर जले हुये मठ का नव-निर्माण किया । मोमरा खातून^२ नाम की राजमहिषी ने अपने धन से—

राजधान्यन्तिके जैननगरे स्वमठं व्यधात् ।

जयरालाभिधा राजपुरीराजान्वयोदिता ॥ २०१ ॥

२०१. राजधानी के निकट जैननगर^१ में अपना नवीन मठ बनाया । राजपुरी राजा के वंश में उत्पन्न जयराला^२ (जयमाला) ने—

शेकन्दरपुरग्रान्ते खानगाहं नवं व्यधात् ।

श्रीजैननगरे यस्य मसोदाहजिरादयः ॥ २०२ ॥

२०२. सिकन्दरपुर के निकट नवीन खानकाह निर्मित कराया । जैननगर में पुण्य एवं कीर्ति से मनोहर मसोद (मसजिद) हुजिरा (हुजरा) आदि—

भान्ति प्रतिष्ठा यत्रैताः पुण्यकीर्तिमनोहराः ।

कर्मपत्यधिकारस्थो नापितः फेरठक्कुरः ॥ २०३ ॥

२०३. पुण्यकीर्ति से सुन्दर प्रतिष्ठायें शोभित होती हैं । कर्मपति के अधिकार पर स्थित नापित फेर ठक्कुर^१ ने—

पाद-टिप्पणी :

२००. (१) मृगवाट : स्थान का अनुसन्धान अपेक्षित है ।

(२) खातोना = खातून : तुर्की शब्द है । सन्ध्यात्री अथवा गिष्ट महिला अर्थ होता है ।

पाद-टिप्पणी :

२०१. (१) जैननगर : ३० १ : ५ : ४ ।

(२) जयराला = जयमाला : श्रीवर ने (जैन : २ : १४५) वर्णन किया है कि राजपुरी के राजा जयसिंह ने अपनी भगिनी का विवाह सुस्तान के साथ जिस समय वह राजपुत्र था, कर दिया था । वहाँ नाम नहीं दिया गया है । जयमाला का मुसलिम नाम नहीं दिया गया है । सन्देह हो सकता है कि विवाह होने पर भी उसने इस्लाम स्वीकार किया था या नहीं ? इस

चै. रा. ७

प्रकार का विवाह प्रचलित था । उसे फासिद विवाह कहते हैं । यह भी सम्भावना है कि जयमाला ने अपना नाम बदलकर इस्लाम ग्रहण विवाह के समय किया होगा । काश्मीर में अनेक सुल्तानों के रानियों के हिन्दू नाम मिलते हैं । उनके द्वारा खानकाह तथा मसजिद निर्माण कराना, इस बात की सम्भावना प्रकट करता है कि वह मुसलमान धर्म स्वीकार कर चुकी थी ।

पाद-टिप्पणी :

२०२. 'नगरे', 'यस्य' पाठ—द्वन्द्वै ।

पाद-टिप्पणी :

२०३. (१) फेर ठक्कुर : पूर्ण के समान यह भी नापित अर्थात् नाई था । उत्तर भारत में नापित लोग, अब भी ठक्कुर कहे जाते हैं । 'नाऊ ठक्कुर' ग्रामीण प्रचलित नाम उत्तर प्रदेश तथा विहार में प्रचलित है ।

विजयेशनदीपारे मठ चारुतरं व्यघात् ।

सय्यभाण्डपतिश्चक्रे विहारं विजयेश्वरे ॥ २०४ ॥

२०४. विजयेश्वर नदी के पार बहुत सुन्दर मठ बनवाया । सय्य भाण्डपति^१ ने भी विजयेश्वर में विहार बनवाया—

यो धर्मसङ्गद्युपकृद् बौद्धमार्ग इवावभौ ।

प्रासाद लक्ष्ममेराद्या भ्रातरोऽस्य वणिग्वराः ॥ २०५ ॥

२०५ जो धर्म संघादि का उपकारी होने के कारण बौद्ध मार्ग सदृश शोभित हो रहा था । इसके भ्राता लक्ष्म^२ मेर आदि श्रेष्ठ, वणिको ने—

पाद टिप्पणी

२०४. (१) भाण्डपति • भाण्डपति का अर्थ सौदागर भी होता है । इसका केवल यही उल्लेख मिलता है । वह बौद्ध था अतएव उसका राजपदाधिकारी उस समय होना कठिन था । माह्य देश (लद्दाख) का उल्लेख श्रीवर ने (१ ४ ५०) किया है । सम्भव है सय्य वही का निवासी या सौदागर या व्यापारी था । लद्दाख से ऊन, पश्मीना काश्मीर आता था । तिब्बत से भी ऊन एवं पश्मीनों का आयात होता था । लद्दाखी व्यापारी व्यापार करते थे । सय्य भी उसी प्रकार एक व्यापारी था । श्लोक २०४ में उसके भ्राता लक्ष्य को वणिक लिखा गया है । अतएव सय्य वणिक किंवा व्यापारी या सौदागर था ।

श्रीदत्त ने भाण्डपति का अनुवाद न कर मूल सय्य भाण्डपति ही नाम दिया है (दत्त० पृष्ठ ३ भाग २ २२७) । भाण्डागाराविकृत का अर्थ स्टोर या भण्डार या कोष का रक्षक पदाधिकारी किया गया है । भाण्डारिक का अर्थ कोष अथवा राजकीय भण्डार या स्टोर का पदाधिकारी है ।

(२) सय्य श्रीवर का यह वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । भारत में उन दिनों बौद्ध धर्म तथा सघ का लोप हो गया था । केवल आसाम और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बौद्ध थे । उसका पुनरुत्थान रूस पर जापान की विजय मन् १९०४—

१९०५ ई० के पश्चात् बीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक से आरम्भ हुआ है । आज से पाँच शताब्दी पूर्व काश्मीर में बौद्ध थे । उनका सघ था । इससे प्रकट होता है कि नेपाल के समान काश्मीर से बौद्ध धर्म का लोप नहीं हो गया था । उसकी जड़ जनता में जमी थी । बौद्धों के चिरत्न बुद्ध, धर्म तथा संघ हैं । श्रीवर ने बुद्ध, सघ एवं धर्म चिरत्नों का उल्लेख किया है । इससे प्रकट होता है कि श्रीवर को बुद्ध धर्म का ज्ञान था । उस समय काश्मीर में बुद्ध धर्म का लोप नहीं हुआ था । एक ही कुल में बौद्ध तथा हिन्दू दोनों मतानुयायी रहते थे । परस्पर विवाह सम्बन्ध होता था । आज भी सिखों तथा हिन्दुओं में विवाह सम्बन्ध होता है ।

पाद-टिप्पणी

पाठ-बम्बई ।

२०५ (१) बौद्ध सघ श्रीवर का यह वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । भारत में केवल आसाम तथा पूर्वीय बंगाल के कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त उन दिनों बौद्ध धर्म का लोप हो गया था । आज से पाँच शताब्दी पूर्व बौद्धधर्म काश्मीर में प्रचलित था । यह महत्वपूर्ण सूचना श्रीवर देता है ।

(२) लक्ष्म • यह श्लोक दो कारणों से महत्वपूर्ण है । सय्य भाण्डपति लक्ष्म का भाई था । एक भाई बौद्धधर्मानुयायी था तथा दूसरा हिन्दू । एक भाई ने सघ तथा दूसरे ने गणेश का मन्दिर निर्माण कराया

भीमस्वामिगणेशस्य व्यधुः शैलमयं नवम् ।

तद्गणेशालयं दृष्ट्वैवोन्नतं सुधया सितम् ॥ २०६ ॥

२०६. भीमस्वामी^१ ने गणेश का शैलमय नवीन प्रासाद बनवाया । उन्नत एवं सुधा से स्वेत, उस गणेशालय^२ को देखकर ही—

था । इससे प्रकट होता है एक ही घर में हिन्दू तथा बौद्धमतानुयायी हो सकते थे । जापान, चीन आदि में ईसाई धर्म के प्रचार के पश्चात् एक ही घर में एक व्यक्ति बौद्ध, दूसरा शिन्तो, तीसरा कन्फ्यूमस तथा चौथा ईसाई रूप में रहता है ।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 'भैर' शब्द है । हिन्दू लोग भी अपने नाम के साथ मुसलिम अल्ल लगाना आरम्भ कर दिये थे । कालान्तर में चलकर उनके वर्ग किंवा उपजाति का सूचक हो गया । बंगाल में 'खां' बंगालियों की उपजाति है । पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में अनेक भूमिहारों की पदवी खा है । खान शब्द जातिसूचक न होकर पदसूचक है । काश्मीर में खजांची, सर्राफ, मुन्शी, वस्त्री, आदि फारसी शब्द नामों की उपाधि के साथ प्रचलित हो गये थे । हिन्दुओं ने उन्हें स्वीकार कर लिया था । प्रारम्भ वे पेशे को प्रकट करते थे । कालान्तर में उपजाति एवं वर्ग के द्योतक हो गये । इस व्यक्ति का केवल यहीं उल्लेख मिलता है । वस्त्री महिवाल भूमिहार ब्राह्मणों एक वर्ग है । कुछ अब उन्हें गोत्र मानने लगे हैं ।

पाद-टिप्पणी :

२०६. (१) भीमस्वामी : भीमस्वामी की पूजा अभी तक हरि पर्वत किंवा सारिका शैल के दक्षिण मूल के समीपवर्ती शैलखण्ड पर होती है । मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ । यह स्थान सम्राट अकबर द्वारा निर्मित सारिका दुर्ग वच्छ दरवाजा के समीप है । स्थान जियारत मकदूमशाह के समीप है । यहाँ तक सड़क चली आती है । भीमस्वामी गणेश का स्थान छाया हुआ है । मन्दिर के अन्तर्गत एक भीमकाय शैल-शिला सिन्दूर-मण्डित है । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : रा० : ३ : ३५२ लेखक ।

(२) गणेशालय : मुसलिम शरियत के अनुसार मुसलिम राज्य में नवीन मन्दिर निर्माण वर्जित है । पुराने देवस्थानों की मरम्मत हो सकती है । सुल्तान के परदादा सिकन्दर बुतशिकन तथा पर-पितृत्व अलीशाह के समय नवीन मन्दिर निर्माण काश्मीर में नहीं हो सकता था । परन्तु सुल्तान के दादा जैनुल आवदीन ने सहिष्णु नीति अपनायी थी । सुल्तान के पिता ने भी हिन्दुओं को पीड़ा पहुँचायी थी । हसनशाह के समय जैनुल आवदीन की नीति का अनुकरण किया गया । हिन्दुओं को कुछ स्वतन्त्रता मिली थी ।

भारत में भोपाल आदि मुसलिम रियासतों में सन् १९४७ ई० में आजादी मिलने तथा राज्यों के भारत में विलय के पूर्व मन्दिरों या देवस्थानों का निर्माण वर्जित था । भोपाल शहर के अन्दर पहला मन्दिर स्वर्गीय श्री युगल किशोर विरला ने राज्य के भारत संघ में विलय के पश्चात् निर्माण कराया था ।

गणेश के पर्यायवाची शब्द (१) विनायक, (२) विघ्नराज, (३) द्वैमातुर, (४) गणधिप, (५) एकदन्त, (६) हेरम्ब, (७) लम्बोदर तथा (८) गजानन हैं । और भी पर्यायवाची नाम विघ्नेश, परशुपाणि, गजास्य, आखुग, सूर्य कर्ण, मोरेश्वर, गणपति, चित्तामणि, गिरिजात्मज, वल्लालेश्वर, गजमुख । इनके अवतार की कल्पना की गयी है—कृतयुग में सिंहाखण्ड विनायक, त्रेता में मयूराखण्ड मयूरेश्वर, द्वापर में गजानन तथा कलि में अश्वाखण्ड घूम्रकेतु है । गणेश को ओंकार रूप माना गया है । प्रणव का अर्थ ओंकार है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तुरीया चारों अवस्थाओं का द्योतक ओंकार है । ओंकार लेखन एवं गजमूर्ति में भी साम्य है । देवताओं के

द्वेषान्म्लेच्छमुखं चित्रं भवत्येवासितं नतम् ।

अन्येऽप्युच्चावचा वेश्मप्रतिष्ठा विविधा व्यधुः ।

याभिः स्वर्गोपमं भाति मण्डलं वेश्ममण्डितम् ॥ २०७ ॥

२०७ आश्चर्य है, मानो द्वेष के कारण म्लेच्छों का मुख कृष्ण और विनत हो गया । अन्य भी छोटे-बड़े विविध गृहों की प्रतिष्ठायें की, जिनसे वेश्म-मण्डित वह मण्डल स्वर्ग सदृश सुशोभित होता था ।

देशेऽस्मिन् विभवो भवन् कति नते यैः सञ्चयार्थे वयः

संनीतं न ततो मृतैरुपहृताप्येकाकिनी काकिनी ।

सोऽहं लब्धपदः करोमि यदि नो धर्मं प्रतिष्ठादिभी

रिक्तोयाम्यमुतोऽचिरादिति मतिः पुण्यात्मनोजायये ॥ २०८ ॥

२०८ इस देश में ऐसे कितने वैभवशाली हुये, जो सचय हेतु आयु व्यतीत किये और मरने पर पास में लायी जाने पर भी एक काकिनी (कौडी) भी नहीं ले जा सके । अतः यदि पद प्राप्त कर 'मैं प्रतिष्ठा आदि द्वारा धर्म नहीं करूँगा तो शीघ्र ही वहाँ से रिक्त चला जाऊँगा' ऐसी मति पुण्यात्मा जनो की उत्पन्न होती है ।

क्रोपोदीपे नरेन्द्रस्य वेगादपि समुत्थिते ।

द्विपामधोगतिर्जाता न तु तद्वेश्मनां क्वचित् ॥ २०९ ॥

२०९. राजा के क्रोध रूपी उदीप (वाढ) समुत्थित होने पर भी शत्रुओं की अधोगति हुई, उनके वेश्मों की कही नहीं ।

योऽभूद् राजविरुद्धानां दण्डस्तद्गृहलोठनम् ।

तद्राज्जे प्रभविष्णूनां तद्विकल्पोऽगलद्दृष्टः ॥ २१० ॥

२१० राजा के विरुद्ध प्रभावशाली जनो के घर लूटने का, जो दण्ड था, उसके राज्य में वह निकल गया ।

यज्ञ विनाश करनेवाले पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न पाँच विनायकों में एक है (वन० २२१ ११) ।

पाद-टिप्पणी

२०७ "चित्रम्" पाठ-बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

पाठ-बम्बई ।

२०८ (१) काकिनी काकिणी = काकिणिका = कौडी । सिक्का के रूप में प्रयुक्त होनेवाली कौडी है । यह पण की चौथाई होती थी । यह एक सिक्का भी होता था, जो बीस कौडी या चौथाई पण के बराबर होता था । वजन में यदि प्रयुक्त किया

जायगा तो एक काकिणी का वजन चौथाई मासा के बराबर होगा ।

पाद टिप्पणी

२०९ (१) वेश्म = सुल्तान लोग नाकुश होने या राजद्रोह, पश्यन्त्र, अनुशासनहीनता पर अपराधियों की सम्पत्ति जब्त कर लेते थे । मकान जमींदोज कर दिया जाता था । किन्तु हुसन सुल्तान के समय अपराधियों को दण्ड दिया जाता था । उनके निवास-स्थानों के नष्ट अथवा गिराने की प्रथा बन्द हो गयी थी ।

किमन्यद्वेरमनिर्माणव्यसने शाख्युपद्रवात् ।

जाता वनभुवः शून्या द्विषां वसतयो यथा ॥ २११ ॥

२११. और क्या कहे ? गृह निर्माण के व्यसन में पेड़ों के काटने के कारण वन भूमि, उसी प्रकार शून्य हो गयी, जिस प्रकार शत्रुओं की वस्तियाँ ।

श्रीतोरमाणदीनारान् निष्प्रचारानवेत्य च ।

द्विदीनारी नागमयी नवा तेन प्रवर्तिता ॥ २१२ ॥

२१२. तोरमान^१ के दीनारों का अभाव जानकर, उसने नाग^२ युक्त नवीन द्वि-दीनारी^३ प्रवर्तित किया ।

पञ्चविंशतिको योऽभूत् पुराणस्ताम्रनिर्मितः ।

किञ्चिद्दूनीकृतश्चाभूद् द्रव्याप्राचुरलक्षणात् ॥ २१३ ॥

२१३. ताम्र निर्मित वह पुराना पचीस मूल्य^१ वाला दीनार द्रव्य (द्रव्य-सामान) की कमी के कारण कुछ मूल्य कम हो गया ।

पाद-टिप्पणी :

२१२. (१) तोरमान : राजतरंगिणी में दो तोरमानों का उल्लेख मिलता है । प्रथम तोरमान निहिर कुल का पिता था । हूण था । द्वितीय तोरमान कश्मीर के राजा तुंजान का पुत्र था । उसका ज्येष्ठ भ्राता हिरण्य था । हिरण्य तथा तोरमान दोनों युवराज थे । दोनों ने शासन किया था । तोरमान ने ज्येष्ठ भ्राता के रहते हुए भातृ हिरण्य के प्रचुर मुद्रा का निवारण कर, स्वनामोक्ति दीनार प्रवर्तित किया था । हिरण्य ने भ्राता को स्वनामोक्ति मुद्रा प्रवर्तित करने के कारण, कारागार में डाल दिया । उसकी गर्भवती रानी अंजना से दो पुत्र हुए थे । तोरमान ने उसे एक कुलाल के घर अपनी स्त्री तथा पुत्रों को आश्रय लेने के कहा । कुलाली ने पुत्रों का धर्म किया । तोरमान कुलालर में कारागार से छूटा और कुछ समय पश्चात् त्रिवेण्ड द्वी

था । द्र० : पाद-टिप्पणी : राज० : ३ : १०३-१२४ ।

(२) नाग : कश्मीर में नागों (जरनों) का बहुत महत्व है । उनके दैनिक जीवन तथा अनेक प्रचलित-अप्रचलित गायकों का अंग है । कश्मीरी नागों में जीव मानते थे । मुसलिम-बहुल कश्मीर में आज भी वारणा है कि कश्मीर के नागों में जीव है । मुद्रा पर नाग टंकित करना उक्त संस्कार का द्योतक है ।

(३) द्वि-दीनारी : आज से ६० वर्ष पूर्व तकहवा अर्थात् २ पैस का एक सिक्का चलता था । इसी प्रकार दो दीनार का सिक्का था ।

पाद-टिप्पणी :

२१३ : (१) मूल्य : पचीस मूल्य का अर्थ पचीस गन्डा लगाना चाहिए ।

मुक्तामणिं नृपतिमौलिषु योग्यमूर्तिं
 या वर्धयत्युपनतेन पयोधरेण ।
 सा पावनी शुचिरुचिर्जननी सुमुख्या
 सगच्छते न चिरकालमनेन साकम् ॥ २१४ ॥

२१४ नृपो के मस्तक पर स्थापन योग्य, रूपवाले, मुक्ता मणि' को प्राप्त पयोधर से, जो वर्धित करती है, वह पावनी शुचि सुमुखी जननी चिरकाल तक इसके साथ नहीं रहती थी ।

सा शुक्तिकास्य जननी जमनीतचित्ता ।
 साध्वीय तिष्ठति चिर वरभुक्तिकामा ॥ २१५ ॥

२१५ तरल तरंग राजा के क्षोप बड़वाग्नि के विकृत होने पर, जो प्रतिबन्ध के लिये निरन्तर सिन्धु वेला सदृश थी ।

शैशवे स्वपयो दत्त्वा राजा सवर्धितो यया ।
 गोलखातोनास्य जननी साकस्मात् त्रिदिव गता ॥ २१६ ॥

२१६ जिसने शैशवकाल में अपना दूध देकर इस राजा को सम्बर्धित किया, वह इसकी माता गोलखातोना' (गुल खातून) अकस्मात् दिवगत हो गयी ।

पाद-टिप्पणी

२१४ (१) मुक्ता मुक्ता अर्थात् मोती बन जाने पर मुक्ता निकाट कर सीप फेंक दिया जाता है । मुक्ता उत्पन्न करनेवाले सीप के समान माता जो ऐसे उन्नत व्यक्ति राजा को उत्पन्न करती है, वह भी उसके साथ चिरकाल तक नहीं रहेगी ।

पाद-टिप्पणी ।

२१५ उक्त श्लोक श्री कण्ठकौल ने मूल पाठ का न मानकर पाद-टिप्पणी में दिया है । यह श्लोक बम्बई सस्करण के २१५वें के पश्चात् मुद्रित है । बम्बई सस्करण में उसकी सख्या न देकर उसे कोष्ठ में रखा गया है । जिसका तात्पर्य है कि दुर्गाप्रसाद जी ने उसे मूल न मानकर प्रक्षिप्त श्लोक माना है ।

कलकत्ता सस्करण न उस श्लोक का तीन पक्ति के श्लोक २१३, २१४ तथा २१५ का अन्तिम पक्ति २१५ माना है । अतएव इसका अनुवाद कलकत्ता सस्करण के अनुसार एक ही श्लोक मानकर

दिया गया है ।

बम्बई सस्करण में इस श्लोक के अन्त में 'इति वा पाठ' मुद्रित है । यहाँ उसे स्थान नहीं दिया गया है । कलकत्ता सस्करण में २१४वें श्लोक के पद के साथ 'इति का पाठ' दिया गया है । इस प्रकार बम्बई में श्लोक २१५ के प्रक्षिप्त श्लोक के पश्चात् तथा कलकत्ता में २१४ के साथ ही मुद्रित है । कलकत्ता तथा बम्बई दोनों सस्करणों में यह श्लोक है अतएव यहाँ भी दिया गया है ।

पाद-टिप्पणी

२१६ (१) गोलखातून शुद्ध फारसी शब्द गुलखातून है । हैदरशाह की रानी थी । उसका अर्थ पुष्प एव गुलाब का फूल होता है । खातून शब्द तुर्की है । अर्थ साम्य एव शिष्ट महिला है । गोल शब्द फारसी है । अथ-मूर्ख, मूढ़ तथा अनाड़ी होता है । जो राजमहिषी के नाम के साथ पद-पर्यादा

कोपौर्वविकृते

राज्ञस्तरङ्गतरलात्मनः ।

सततं प्रतिवन्धाय सिन्धोर्वैलेव याभवत् ॥ २१७ ॥

२१७. कोप रूपी वड़वानल के विकृत होने पर, तरंगों से चंचल आत्मा इस राजा को रोकने के लिये, जो सिन्धु वेला (तट) के समान थी ।

तां हिन्दुकसमाचारगतपत्ररविप्रभाम् ।

स्मृत्वा सरुदिताक्रन्द्रं शुशोच सकलो जनः ॥ २१८ ॥

२१८. हिन्दुओं के आचार रूपी कमल के लिये, रवि प्रभा सदृश, उसे स्मरण कर, सब लोग उस (गोलखातून) के लिये रुदन-क्रन्दनपूर्वक शोक किये ।

तया वियुक्तस्तत्कालं राजा कृष्णाम्बराम्बरः ।

दिनश्रियेव पद्मोऽभूद् दुःखसंकुचिताननः ॥ २१९ ॥

२१९. उस समय उस (माता) से वियुक्त कृष्णाम्बर^१ धारी राजा का मुख दुःख से उसी प्रकार संकुचित हो गया जिस प्रकार दिन श्री^२ के बिना पद्म ।

को देखते हुए, नहीं हो सकता । अतएव शब्द गुल-खातून ही है । द्र० : ३ : १७५ ।

पाद-टिप्पणी :

२१७. 'को' पाठ-ब्रम्हई ।

पाद-टिप्पणी :

२१९. 'म्बराम्बर' पाठ-ब्रम्हई ।

(१) कृष्णाम्बर : हिन्दुओं में स्वेत वस्त्र तथा ईसाइयों में काला वस्त्र शोक का चिह्न माना जाता है । ईसाई लोग शोक प्रकट करने के लिए वाम हाथ में कोट या परिधान के ऊपर काली पट्टी बाँध लेते हैं । स्त्रियाँ काला वस्त्र धारण करती हैं । हमें स्मरण है कि ब्रिटेन के राजा पंचम जार्ज की मृत्यु के समय सरकारी सभी कर्मचारी बाहु पर कोट, कमीज या कुरता के ऊपर काली पट्टी लगा लिये थे । यह मातम का चिह्न माना जाता है । ईसाई जाति में मृत्यु का रूप काला माना गया है । पुरानी गाथाओं में जल्लाद काला वस्त्र धारण कर, प्राणदण्ड की सजा देते थे ।

यूरोपीय राजवंश एवं कुलीन स्त्रियाँ शोक-शूचक आभूषण, रत्न, नीलम आदि धारण कर, शोकयुक्त सामाजिक कार्यों में भाग लेती थीं ।

मुसलिम नियम के अनुसार काला वस्त्र धारण करना शोक का चिह्न नहीं है । यहूदियों में काला वस्त्र शोक का चिह्न माना गया है । यहूदी परम्परा एवं रीति-रिवाज कालान्तर में ईसाई एवं मुसलमान कुछ कम-ज्यादा मानने लगे थे । अतएव पुरातन वाइविल में वर्णित आचार संहिता ईसाई तथा मुसलमान आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं ।

(२) दिनश्री : दिन की श्री प्रकाश है । प्रकाश लोप होने पर काला अन्धकार होता है । प्रकाश में कमल खिल उठता है । निर्मल पंखुड़ियाँ मुकुलित होती हैं । रात्रि आते ही पंखुड़ियाँ सिमट जाती हैं । उस समय कमल के बाहर की पंखुड़ियाँ जो श्यामल या आसमानी होती हैं, कमल की उज्ज्वलता पंखुड़ियों में बन्द कर कमल का आवरण रात्रि के समान बना दी जाती है ।

ग्राहयित्वांशुकं शुद्धं व्यतीते दिनसप्तके ।
सन्वयं मल्लिको राज्ञो व्यधाद् दुःखनिवारणम् ॥ २२० ॥

२२० सात दिन^१ बीतने पर मल्लिक ने शुद्ध वस्त्र ग्रहण कराकर व्ययपूर्वक (दानादि द्वारा) राजा का दुःख निवारण किया ।

शाहाभदीनपुर्यन्तनोंसेतुं विपुलं नवम् ।
तद्धनेनादिशत् कर्तुं तत्पुण्यद्वयै महीपतिः ॥ २२१ ॥

२२१. राजा ने उस (माता) के पुण्य समृद्धि के लिये, उसके धन द्वारा शाहाभदेनपुरी (शादीपुर) के अन्दर नवीन विशाल नवका (नाव) सेतु (पुल) बनाने का आदेश दिया ।

अभूत् सैदान्वये जाता वल्लभा या महीपतेः ।
ह्यातखातोना राज्ञी प्रेमाश्वासविलासभूः ॥ २२२ ॥

२२२ सैद वश मे उत्पन्न प्रिय रानी ह्यात खातोना^१ जो कि राजा के प्रेमाश्वास की विलास-भूमि थी ।

पदार्थान् घोषभूपादिपरिवारसमन्वितान् ।
अनन्यरसिको राजा तस्यै सर्वं समर्पयत् ॥ २२३ ॥

२२३ अनन्य रसिक राजा ने गृह, भूषणादि परिवार समन्वित पदार्थों को उसे समर्पित किया ।

तयैक्यैव राजेन्दुः स सुन्दरगुणश्रिया ।
अविन्दत् परमानन्दं मालत्येव मधुव्रतः ॥ २२४ ॥

२२४ मालती से, मधुव्रत (भ्रमर) सदृश, सुन्दर गुणश्री युक्त, उस अकेली से ही, वह राजेन्द्र परमानन्द प्राप्त किया ।

पाद-टिप्पणी

२२० (१) सात दिन सात दिन तक शोक मनाने का कोई धार्मिक प्रतिबन्ध नहीं है । यह लोकाचार है । शोककाल तीन दिन का होता है । उसे तीजा कहते हैं ।

पाद-टिप्पणी

२२२ (१) ह्यात खातून ह्यात शब्द अरबी है, अर्थ जीवन या जिन्दगी है । सुल्तान मुहम्मद-शाह शाहमोर वश के ११वें सुल्तान की माता थी ।

वह पिता हसनशाह की मृत्यु के पश्चात् ८ वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था । सैय्यद हसन की कन्या ह्यात खातून थी (तवक्काते अकबरी ४५० = ६८०) । द्र० ३ १९८ ।

पीर हसन लिखता है—हसनशाह के ह्यात-खातून दुरतर सैयिद हुसेन बिन सैयिद नासिर वैहकी से दो लडके पैदा हुए, एक मुहम्मद खान और दूसरा हुसेन खान । मुहम्मद खान ने ताजीभट्ट के बीबी के दूध से परवरिश पायी और हुसेन खा मलिक महमद यैतू की गोद में पला (१९०) ।

विभवे सति भवति भवे कस्यचिदेवेप्सितो लाभः ।

वर्षति मेघे कृषिकृत् कोऽपि मणिं मौक्तिकं लभते ॥ २२५ ॥

२२५. संसार में वैभव होने पर भी किसी को ही, अभीप्सित लाभ होता है। मेघ की वर्षा पर, कोई (एक) कृषक मौक्तिक मणि प्राप्त करता है।

महाराज्यां महीभर्तुरस्यां राजसुतोऽजनि ।

यस्य महादखानाख्यामकरोन्मौसुलोचिताम् ॥ २२६ ॥

२२६. इसी महारानी से राजा को एक राजपुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका मौसलो (मुसलिमो) चित नाम महाद^१ रखा।

ततः पूर्वाधिकप्रीते ताजिभट्टे स भूपतिः ।

स्वसुतं रक्षणयादात् सिन्धुरिन्दुमिवेश्वरे ॥ २२७ ॥

२२७. तत्पश्चात् रक्षा के लिये अपने पुत्र^१ को (उस) राजा ने पहले से अधिक प्रिय ताजी भट्ट को उसी प्रकार दिया, जैसे सागर ने शिव को शशि^२।

चतुःपश्चाशवर्षेऽथ वैशाखे नरनायकः ।

पुत्रजन्मोत्सवानन्दमभजद् व्ययसुन्दरम् ॥ २२८ ॥

२२८. वैशाख चौवनव^१ वर्ष राजा सुन्दर व्यय करके पुत्र जन्मोत्सव का लाभ उठाया।

पाद-टिप्पणी :

२२६. (१) महाद : शाहमीर वंश का ११वां सुल्तान था। हसनशाह का ज्येष्ठ पुत्र था। यह काश्मीर का पाँच वार सुल्तान १४८४ ई० से सन् १५३० ई० के मध्य हुआ था।

पाद-टिप्पणी :

२२७. (१) पुत्र = मुहम्मद खान : फिरिस्ता लिखता है कि मम्मद खां को सुल्तान ने मलिक ताजभट्ट के संरक्षकत्व में रख दिया (४७८)।

तबक्काते अकवरी में नाम मुहम्मद दिया गया है—'सुल्तान ने उसका नाम मुहम्मद रखा और उसे मलिक यारी (ताजभट्ट) को शिक्षा हेतु सौंप दिया (४५०-६८०)।

सुल्तान के तीन पुत्र मुहम्मद, हुसेन तथा युसुफ थे।

जै. रा. ८

पीरहसन लिखता है—हसन शाह के हयात खानुन दुख्तर सैय्यद हुसेन विन सैय्यद नासिर वैहकी से दो लड़के पैदा हुए। एक मुहम्मद खां और दूसरा हुसेन खां। मुहम्मद खां ने मलिक ताजी वट की वीची के दूध से परवरिश पाई और हसन खां मलिक अहमद यतू की गोद में पला (१९०)।

(२) शशि : अमृतमन्यन द्वारा चौदह रत्नों में एक चन्द्रमा की उत्पत्ति सागर से हुई थी। शिव के भाल पर चन्द्रमा, जिसके कारण शिव का नाम चन्द्रमौलि पड़ा है। यदि सागर चन्द्रमा को न उत्पन्न करता तो किस प्रकार शिव को उसकी प्राप्ति होती ?

पाद-टिप्पणी :

२२८. (१) चौवनवां वर्ष : सप्तमि ४५५४ = सन् १४७८ ई० = विक्रमी संवत् १५३५ = शक संवत् १४००।

विदग्धचर्चरीपालनर्तकीनटगायनान् ।

उद्दिश्य त्यागरसिकैर्न कैवैश्रवणापितम् ॥ २२९ ॥

२२९ विदग्ध चर्चरीपालो^१, नर्तकी एव नट गायको के प्रति, त्यागरसिक किन लोगो ने कुबेर^२ की तरह आचरण^३ नहीं किया ।

पट्टकौशेयवस्त्राप्ती राज्ये श्रीजैनभूपतेः ।

सामन्तसचिवादीनामासीत् सत्कारसिद्धये ॥ २३० ॥

२३० जैन राजा के राज्य में सत्कार सिद्धि के लिये सामन्त सचिव आदि को पट्ट^१ कौशेय वस्त्र की प्राप्ति होती थी ।

तद्राज्ये विभवोदारव्यये सा प्राकृतालयात् ।

उत्सवे चर्चरीपालनटाद्यैः प्रापि तैरपि ॥ २३१ ॥

२३१ उसके राज्य में उदार वैभव व्यय वाले, उत्सव में उन चर्चरीपाल, नट आदि लोगो ने भी वह (कौशेय वस्त्रादि) सामान्य लोगो के घर से प्राप्त किया ।

स्फीतराजश्रिया प्रीतो नृपतिर्नवयौवनः ।

आनीतगीतविन्द्वर्थः संगीतरसिकोऽभवत् ॥ २३२ ॥

२३२ प्रचुर राजश्री से प्रसन्न नवयुवक नृपति गीतवेत्ता वर्ग को लाकर, संगीतरसिक हो गया ।

पाद-टिप्पणी

२२९ (१) चर्चरीपाल तालियाँ बजाकर समूह में गाने वाले के लिये सम्भवत इस शब्द का प्रयोग किया गया है । चर्चरीपाल का एक भेद भी है । चर्चरी गान वसत में गाया जाता है । इसे फाग या चाँचर कहते हैं । कबीरदास के 'चाँचर' गीत चौराहो पर गाने वाले लोक गीत है । चाँचर तथा 'चर्चरी' रूप का उल्लेख पालि महा व्याकरण में मिलता है । आजकल कब्राली ताली बजा-बजाकर खुले आम बाजारो तथा उत्सवो पर गायी जाती है । तेरहवी शताब्दी से पूव लाख प्रचलित गीत है । जिनदत्त सूरि ने इस गीत का स्वीकार किया था । बारहवी शताब्दी में आगरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में चर्चरी गीत खूब गाया जाता था । कालिदास तथा श्रीहर्ष के नाटको में 'चर्चरी' का उल्लेख है । कुछ टीकाकारों ने इसे 'चाँचर' खेल लिखा है ।

(२) कुबेर : विश्रवस ऋषि के पुत्र तथा रावण के विमातृ भ्राता थे । इनकी माता का नाम इलविला था । विश्रवकर्मा से सुवर्ण लका का निर्माण कराया था । रावण ने लका में कुबेर को निकाल दिया । इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इन्हें उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया था । विश्रव के धनेश्वर माने जाते हैं । यह एकाक्ष है । तीन पैर है । आठ दात है । देवता होने पर भी इनकी पूजा नहीं होती ।

(३) आचरण सब लोगो ने उत्सव करने वालो को प्रचुर धन दिया ।

पाद-टिप्पणी

२३० (१) पट्ट शिरोवेष्टन, पगडी, रगोन साफा, रेशमी पगडी, डुपट्टा, से तात्पर्य है ।

पाद टिप्पणी

२३२. (१) संगीत - जैनुल आबदीन के समान उसका दरवार संगीतज्ञों से भरा रहता था ।

संगीतज्ञज्यहाङ्गेरमार्गेशाद्याः सुखोचिताः ।

तारका इव चन्द्राग्रे व्यरुचन्त सभासदः ॥ २३३ ॥

२३३. सुखोचित संगीतज्ञ जहाँगीर मार्गेश आदि सभासद, चन्द्रमा के समक्ष तारकाओं के समान गोभित होते थे।

कृष्णचन्द्रावलीराजरूपाभिनयनैपुणात् ।

राज्ञे वरनटा नाट्यात् तदर्शनकुतूहलम् ॥ २३४ ॥

२३४. श्रेष्ठ नटों ने कृष्ण, चन्द्रावली^१, राजरूप अभिनय करके राजा में उसे देखने का कौतूहल उत्पन्न कर दिया।

प्रलम्बकृतकश्मश्रुदन्तभ्रूविक्रियाञ्चलैः ।

तारानुसारितद्भावनाटयहास्यकथाक्रमैः ॥ २३५ ॥

२३५. लम्बे कृत्रिम दाढ़ी-मूँछ, दाँत, भ्रू की विकृतियों से एवं ताल के अनुसार उस भाव के नाट्य, हास्य, कथाक्रमों से—

अनेकमुख्यवाद्यैश्च प्राणिभाषानुकारकैः ।

भण्डिमापण्डितो भण्डो मूर्तो हास्यरसोऽभवत् ॥ २३६ ॥

२३६. अनेक प्रमुख वाद्यों तथा प्राणियों की भाषा का अनुकरण करने वालों से भण्डिमा (भडैती) में निपुण, भाँड़ मूर्तिमान हास्य रस हो गया था।

दूर दूर से संगीतज्ञ उसके यहाँ आते थे। सुल्तान सवका आदर मत्कार करता था। उसके दरबार में १२०० संगीतविद् थे (वहारिस्तान गाही : पाण्डु० : ५८ वी० तथा हैदर मल्लिक पाण्डु० : १२३ वी०)

पार हसन लिखता है—‘दारह सौ हिन्दुस्तान के गवैये मुलाजिम रखे हुए थे। रात-दिन रंग-रेलियों और चंग और खाव के चुनने में मसहक रहता था’ (१९१)।

संगीत—(१) स्वन (२) राग (३) ताल (४) नृत्य (५) भाव (६) कोक एवं (७) हस्त का समाहार मानते हैं। प्रायः विद्वान् (१) गान (२) वाद्य (३) नृत्य को संगीत की संज्ञा देते हैं। गीत एवं वाद्य को श्राव्य संगीत तथा नृत्य को दृश्य संगीत कहते हैं। संगीत के भेद मार्ग तथा देशी

हैं। शिव के सम्मुख भरत मुनि ने संगीत विद्या का परिचय दिया था। उसके पद्य प्रदर्शक ब्रह्मा थे। इस संगीत की संज्ञा मार्ग है। देवानुसार लोग जो गाते, बजाते एवं नाचते हैं, उसे देशी कहते हैं।

पाद-टिप्पणी :

२३४. (१) चन्द्रावली : कृष्ण पर अनुरक्त चन्द्रभानु की कन्या। कृष्ण-चन्द्रावली आख्यान पर आधारित नाटक से तात्पर्य है। संस्कृत में एक नाटक है।

श्रीदत्त ने चन्द्रावली का अनुवाद चन्द्रमा की पंक्ति किया है। ‘कृष्ण’ पाठ मानकर दत्त ने अनुवाद किया है।

मल्लाहस्सननामापि पितुरभ्यधिको गुणी ।
प्रथमं दशतन्त्रीकां मोदवीणामकारयत् ॥ २३७ ॥

२३७ पिता से अधिक गुणो मल्ला (मुल्ला) हस्सन (हसन) भी पहले दश तन्त्रियों की मोद वीणा^१ बनाया ।

भाषाभिगीतसामग्रीं पारसीगीतकौशलम् ।
तुम्बवीणाधरः सोऽहं नृपाज्ञप्तीऽप्यदर्शयम् ॥ २३८ ॥

२३८ राजा के आदेश पर, तुम्ब वीणाधारी मैंने भी पारसी गीत को कौशल पूर्वक भाषा गीत सामग्री प्रदर्शित किया ।

गाथागीतप्रियो राजा स्वयं संस्कृतपद्यवित् ।
नादशंसामयं श्लोकं रागालप्त्येममब्रवीत् ॥ २३९ ॥

२३९ गाथा गीत प्रिय संस्कृत^१ पद्यवेत्ता राजा ने स्वयं नाद प्रशंसा मय यह श्लोक राग पूर्वक कहा—

पाद-टिप्पणी

'तन्त्रिका' पाठ-वम्बई ।

२३७ (१) मोदवीणा बारह तन्त्रियों की वीणा की सजा मोदवीणा से मध्ययुग में दी जाती थी। वीणा में लोहे के तीन तथा पीतल के चार तार लगे रहते हैं। लोह तार को पक्का तथा पीतल तार को कच्चा कहते हैं। सातों तारों को कसने और ढीला करने के लिए सात खूंटियाँ लगी रहती हैं। भिन्न-भिन्न देवताओं के हाथों में भिन्न-भिन्न वीणाएँ रहती हैं। यथा—महादेव के हाथ में लम्बी, सरस्वती के हाथ में कच्छपी, नारद के हाथ में महती, विश्वावसु के हाथों में बृहती, तुम्बरू के हाथ की वीणा को कलावती कहते हैं। वरुण व उदयन क हाथों में घोषवती वीणा दिखायी गयी है। त्रितन्त्री किन्नरी, विपची, रजनी, शारदी, रुद्र, नारदेश्वर आदि। सबकी आकृति बनावट एवं स्वर में थोड़ा अन्तर है।

पाद-टिप्पणी :

२३८. (१) तुम्ब वीणा . जिस वीणा में

तुम्बा लगा रहता है उसे तुम्ब वीणा कहते हैं। कद्दू पर बनी वीणा तुम्ब वीणा कही जाती है। तुम्बी जितनी बड़ी होगी, ध्वनि उतनी ही मधुर तथा गम्भीर होगी।

सभी वीणाओं में तुम्ब लगा नहीं होता था। आजकल तुम्ब वीणा ही प्रचलित है। तीते-कद्दू को सुखाकर, उसका ऊपरी भाग काट कर, वीणा बनायी जाती है। तुम्बी का कमण्डल भी बनना है।

पाद-टिप्पणी

२३९ (१) संस्कृत सुल्तान अपने प्रपितामह जैनुल आबदीन के समान भाषाविद था। शाहमीर वंश में और काश्मीर में जैनुल आबदीन तथा सुल्तान हसन शाह ही दो मुल्तान ऐसे हुए हैं, जो स्वयं विद्वान्, लेखक तथा साहित्यिक हुए हैं। वह पर-शियन काश्मीरी तथा संस्कृत जानता था। वह संस्कृत में पद्य-रचना करता था। गीत बनाता तथा स्वयं गाता था।

शुष्का येन समुल्लसन्ति तरवो वश्या भवेयुर्मृगा
पत्रे चावतरन्ति दैवतगणा जल्पन्त्यदृष्टा अपि ।
यो दुःखे च सुखे च मूर्खविदुषोर्बालस्य वृद्धस्य वा
प्रायः प्रीतिकरो ममास्तु सततं श्रीनादनामा रसः ॥ २४० ॥

२४०. 'जिससे तरु समुल्लसित होते हैं, मृग वश में हो जाते हैं, देवता गण, पत्र में उतरते हैं, और अदृष्ट भी कह देते हैं, जो कि मूर्ख, विद्वान्, बालक या वृद्ध के दुःख-सुख में प्रीतिकर होता है, वह श्रीनाद^१ नामक रस^२ मेरे लिये प्रिय हो ।'

श्रव्यकण्ठे नृपो गीत्वा रागैकालप्तितो बहून् ।
रागान् समोच्चगीतांश्च सारचर्यान्नस्तदाकरोत् ॥ २४१ ॥

२४१. उस समय राजा ने मधुर कण्ठ से राग के एक आलाप से बहुत से राग वाले सम^१ एवं ऊँचे गीत गाकर, हम लोगों को चकित कर दिया ।

पाद-टिप्पणी :

२४०. (१) श्रीनाद : नाद विद्या का नाम संगीत शास्त्र है । 'नद्' धातु से नाद की व्युत्पत्ति हुई है । 'नदति इति नादः' नदन या आनन्द दायक ध्वनि नाद है । मधुर कर्णप्रिय ध्वनि का अभिप्राय नाद है । नाद संगीत का प्राण है । उससे रसात्मक अनुभूति होती है । संगीत से उत्पन्न शुद्ध आनन्द को ईश्वर का दूसरा रूप किंवा नाद ब्रह्म मानते हैं—ॐ नादब्रह्मणे । प्रणव रूप से साधनाकर मानव आनन्द तत्त्व की प्राप्ति करता है—'मद्भक्तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।' संगीत आचार्यों के अनुसार आकाशस्थ अग्नि एवं मरुत् के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है । संगीतदर्पण का मत है । आत्मा द्वारा प्रेरित होकर, चित्त देहज अग्नि पर आघात करता है । प्राण वायु का स्थित स्थान ब्रह्म ग्रन्थि है । अग्नि ब्रह्मग्रन्थिगत प्राण को प्रेरित करता है । प्राण की गति ऊर्ध्व हो जाती है । नाभि स्थान में वह अति सूक्ष्म, हृदय में सूक्ष्म, कण्ठ प्रवेश स्थान में पुष्ट, शीर्ष स्थान में अपुष्ट एवं मुख में कृत्रिम नाद उत्पन्न करता है । संगीत दामोदर के मत से नाद तीन प्रकार का होता है । मुख से उत्पन्न प्राणिभद, वीणादि वाद्यों से उत्पन्न अप्राणि-

भव एवं वंशी से उत्पन्न नाद उभय संभव होता है । नाद ही गीत, स्वर रागादि का मूल कारण है । जगत् नादात्मक है । परज्योति या ब्रह्म स्वरूप है । नाद अनाहत एवं आहत होता है । अनाहत नाद केवल योगी श्रवण कर सकते हैं । नाद आकाश का गुण है । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नादमय है । दहराकाश में अनाहत नाद की अनुभूति होती है । आहत नाद अव्यक्त नाद का व्यक्त रूप है । परस्पर आघात से इस नाद की उत्पत्ति होती है ।

(२) रस : यहाँ नाद रस का अर्थ संगीत रस है । अलंकार शास्त्र के अनुसार काव्य में नवरसों की मान्यता है—(१) शृंगार, (२) हास्य, (३) करुण, (४) रौद्र, (५) वीर, (६) भयानक, (७) विभत्स, (८) अद्भुत् एवं (९) शान्त । कुछ विद्वान् शान्त को रस नहीं मानते । क्योंकि शान्त रस मन को भावशून्य अवस्था है । निर्वेद मन का कोई विकार नहीं है । कुछ विद्वान् नवों रसों में वात्मल्य रस को भी जोड़कर रस, की संख्या दस मानते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

'समोच्च' पाठ—वम्बई ।

२४१. (१) सम : संगीत में वह स्थान जहाँ

अथ गायनवृन्दं तत् प्रवेशय ममाग्रतः ।

गीताङ्गाधिपतेराशामदान्मे नृपनायकः ॥ २४२ ॥

२४२ राजा ने—'गायक वृन्द को मेरे सम्मुख प्रविष्ट करो—' इस प्रकार मुझ गीताङ्गाधिपति को आदेश दिया ।

आनीय स्थापिताः सर्वे नामग्राहं निवेद्य च ।

ते ते वहावदेनाद्याः सर्वाद्या वृन्दनायकाः ॥ २४३ ॥

२४३ सबवाद्य सहित वहावदीन आदि वृन्दनायको को स्थापित कर, नाम ग्रहण पूर्वक सबको निवेदित किया ।

निर्दोषकण्ठसञ्जातमञ्जुलध्वनिरञ्जकाः ।

अधीतगीतवद्वात्तमात्तद्रवकमट्टकाः ॥ २४४ ॥

२४४ निर्दोष कण्ठ से, निर्गत ध्वनि से, रजक एव अभीत^१ गीत का गायन कर, लोगो को द्रवित करने वाले—

शिक्षाकारादयः पञ्च स्वप्रपञ्चातिचञ्चलः ।

अमुञ्चन् पञ्चव्याजात् पञ्चेपुरससञ्चम् ॥ २४५ ॥

२४५ अपने प्रपञ्च म अति चञ्चल पञ्च सख्यक शिक्षाकार आदि पञ्चम स्वर^१ के व्याज से पञ्च बाण सचय का प्रसार किये ।

गीत बजाने वाले का सिर या हाथ आप से आप हिल जाता है । यह स्थान ताल के अनुसार निश्चित होता है । ताल के अनुसार स्थान का निश्चय होता है । तिताले में दूसरे ताल पर, चौताले में पहले ताल पर सम होता है । वाद्यो का आरम्भ एव गीत तथा वाद्यो का अन्त सम पर होता है । गान एव वाद्य के मध्य में भी सम-सम बराबर आता रहता है ।

पाद-टिप्पणी

२४२ तत पाठ—बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

पाठ—बम्बई ।

२४४ (१) अभीत बम्बई सस्करण में उक्त श्लोक सख्या २४५ है । 'शिक्षाकारादयः'—श्लोक सरया २४४ है । इस प्रकार एक श्लोक का इस सस्करण में व्यतिक्रम अर्थात् उलटफेर हो गया है ।

पाद-टिप्पणी

२४५ (१) पञ्चमस्वर सर ग म प द नी में यह पाँचवाँ स्वर 'प' है । स्वर कोकिल के अनुरूप माना गया है । स्वर का वण-ब्राह्मण, रग-श्याम, देवता-शिव, रूप-इन्द्रतुल्य एव स्थान क्रीच द्वीप है । इसकी मूच्छनाएँ—(१) यमली, (२) निर्मली तथा (३) कोमली हैं । भरतमुनि के अनुसार उच्चारण में वायु—(१) नाभि, (२) ऊरु, (३) हृदय, (४) कण, (५) मूर्धा स्थानों में स्पर्श करती है । सगीत दामोदर—(१) प्राण, (२) अपान, (३) समान, (४) उदान, (५) व्यान वायु एक साथ लगती है । अतएव स्वर का नाम पञ्चम है । भैरव राग का पुत्र है । एक मत है कि हिंडोल राग का पुत्र है । दूसरा मत है कि वसन्त एव ललित राग के योग से बना है । तीसरा मत है कि हिंडोल, गान्धार एव मनोहर के योग से बना है । गान का समय शरद-

संगीतज्ञं नृपं तं ते श्रुत्वैवं तत्समुत्सुकाः ।

गीते शब्दगुणाः पञ्चदशसङ्ख्या स्थितिं व्यधुः ॥ २४६ ॥

२४६. इस प्रकार, वे शब्द गुण संगीतज्ञ राजा को सुनकर, उसके प्रति समुत्सुक होकर, गीत^१ पन्द्रह की संख्या में स्थित हो गये ।

केदारगौडगान्धारदेशभङ्गालमालवाः ।

कर्णाटा गायना राज्ञो रागाश्चाप्यस्फुरन् पुरः ॥ २४७ ॥

२४७. राजा के समक्ष कर्णाट के गायकों ने केदार^१ गौड़, गान्धार^२, देश^३, बंगाल^४ तथा मालव^५ राग स्फुरित किया ।

ऋतु प्रातःकाल है । इसकी छः रागनियाँ—(१) विभाषा, (२) भूपाली, (३) कर्णाटी, (४) बड-हंसिका (५) मालवी एवं (६) षटमंजरी है । कल्लिनाय के अनुसार रागनियाँ—(१) त्रिवेणी, (२) स्तम्भतियि, (३) आभीरी, (४) ककुभ, (५) वरारी तथा (६) सौवीरी है । एक मत है कि यह ओडव जाति का राग है । (१) ऋषभ, (२) कोमल, (३) पंचम एवं (४) गान्धार स्वरों को इसमें वर्जित मानते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

२४६. (१) गीत : वातु एवं मात्रा युक्त वाक्य की संज्ञा गीत से कही गयी है । वैदिक एवं लौकिक दो प्रकार के गीत होते हैं । वैदिक गीत साम है । सामवेद गीत पूर्ण है । मार्ग एवं देशी दो प्रकार के लौकिक गीत होते हैं । राग एवं रागनियाँ मार्ग के अन्तर्गत तथा दादरा, ठप्पा, गजल, कञ्जाली, कजरी आदि देशी हैं । दन्द्र एवं गातृ दो गीत के भेद हैं । वाद्यों से गीतों के जा स्वर उदय होते हैं, उन्हें गातृ तथा मनुष्यों के कण्ठों से उद्भूत गीत कहते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

२४७. (१) केदार : मेवराज का चौथा पुत्र है । रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है । प्राचीन केदार राग के आरोही स्वर है—

स म ग म प नि स ।

अवरोही स्वर है—

सं नि प म ग रे स ।

(२) गौड़ : यह राग अब प्रचलित नहीं है । हृदय कौतुक में उल्लेख मिलता है ।

(३) गान्धार : श्रीराग का पुत्र है । गाने का समय तीसरा प्रहर तथा संख्या काल है । कान्हड़ा गौड़, केदार गौड़, नारायण गौड़, रीति गौड़ आदि अनेक भेद हैं । इस राग का गृह, अंग एवं न्यास स्वर गान्धार का था । इसके ऋषभ, निषाद, वैवत, अधिकतर रूप में प्रयुक्त होते थे । सात स्वरों में तीसरा स्वर 'ग' है । श्रुतियाँ रौंड़ी और क्रोधा है । जाति—वैश्य, रंग—सुवर्ण, देवता—सरस्वती, ऋषि—चन्द्रमा, छंद—त्रिष्टुभ, दिन—मंगल, ऋतु—स्थान, दानां हाय, आकृति—अग्नि, सन्तान—हिडोला राग, अविहार—शात्मली द्वीप, रस—कृष्ण, उत्पत्ति । वायु नाभि से उठकर, कण्ठ एवं शीर्ष में स्पर्श कर, अनेक गन्धों को ले जाने वाली वायु से होती है । स्वर वकरे की बोली से लिया गया है । शुद्ध एवं कोमल दो भेद होते हैं । एक दण्ड से पाँच दण्ड तक गाया जाता है । एक मत से भैरव तथा दूसरे मत से दीपक राग का पुत्र है । इसकी मूर्च्छनाएँ—(१) नन्दा, (२) विदिशाखा, (३) सुमुषीर, (४) विचित्रा, (५) रोहिणी, (६) सुप एवं (७) अलापिनी है । अवि-प्लता—शिव हैं ।

(४) देश : प्रातःकाल एक दण्ड से पाँच दण्ड

मदनोदीपिता रात्रौ नव्यभाव्यदशोज्ज्वलाः ।

अशोभन्तानुगा रात्रौ लासिका दीपिका अपि ॥ २४८ ॥

२४८ रात्रि में मदनोदीपित एव नवीन भावी, दशा से समुज्ज्वल राजा की अनुगामिनी नर्तकिया एव दीपिकाएँ शोभित हो रही थीं ।

रत्नमालादीपमालारूपमालाङ्किताभिधा ।

अकुर्वल्लामिका लास्यं हावभावमनोहरम् ॥ २४९ ॥

२४९ रत्नमाला दीपमाला, रूपमाला, नाम्नी लासिकाएँ हाव भावसे मनोहर नृत्य की ।

दिन चढ़ने तक गाया जाता है । यह राग परज, सोरठ एव सरस्वती के योग से बनता है । दीपक का पुत्र है । इसका आरोही स्वर—स रे म प नि स तथा अवराही स नि ध प म ग र स है ।

(५) वगाठ . द्रष्टव्य पादटिप्पणी : जैन०

१ १ . २५ । यह राग लुप्त हो गया है । पुण्डरीक विट्ठल अकबर के दरबार में थे । उन्होंने सद्‌राग बन्दोदय लिखा है ।

(६) मालव द्रष्टव्य पादटिप्पणी जैन०

मालव गौड मेल का राग है । यह आधुनिक भैरव सा है । सत्रहवीं शताब्दी के हृदय नारायण ने 'हृदय कौतुक' ग्रन्थ में इसका वर्णन किया है । वर्णन अस्पष्ट है । मालवराग के रूप का वर्णन मिलता है । माला, हरित वस्त्र एव कुण्डलधारी सगीत शाला म स्त्रियों के साथ वैठा चित्रित किया गया है ।

इसकी रागनिर्या—(१) धनाश्री, (२) मालश्री, (३) रामकीरी, (४) सिधुडा, (५) आसावरी तथा (६) भैरवी है । कुछ विद्वान् इसे पाडव तथा कुछ सम्पूर्ण जाति का राग मानते हैं । पाडव मानने वाले इसमें मध्यम स्वर वजित मानते हैं । रात्रि में १६ से २० दण्ड तक गाया जाता है । मालव-गौड अकर राग है । इसमें पचम स्वर नहीं लगता । प्राचीन मालव का स्वर ग्राम म, घ, नि, स, रि, ग, म है । इस राग का उपयोग वीर रस में किया जाता है ।

पाद-टिप्पणी

२४८ (१) दीपिका उक्त श्लोक में श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है । मदन का अर्थ काम

तथा मदन काष्ठ दोनों होता है । दशोज्ज्वल में दशा का अर्थ बत्ती तथा दशा होगा । मदन काष्ठ से उद्भूत ज्योति उज्ज्वल होती है । नर्तकियों की भी दशा समुज्ज्वल थी । दीपिका का अर्थ दीपक या दीप स्तम्भ एव रागिनी होता है । दीपिका एक रागिनी का नाम है । हिंडोल राग की पत्नी मानी जाती है । प्रदोष काल में गायी जाती है ।

पाद-टिप्पणी

'रूप' पाठ—वम्बई ।

२४९ (१) लासिका . नर्तकी, वेश्या, स्वेच्छा-चारिणी अर्थ होता है । उपरूपक है । परन्तु यहाँ पर नर्तकी विशेषतः लास्य नृत्य पारगत के लिये शब्द का प्रयोग किया गया है ।

लास्य नृत्य में प्रेम के विकास की अनेक भाव भंगिमाओं तथा अवयवों के संचालन से वह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, जिसमें नृत्य द्वारा नतकी के कोमल एव ललित भावों का उद्दीपन किंवा स्पन्दन प्रकट होता है । स्त्रियों के नृत्य को लास्य कहते हैं । शिव एव पार्वती ने प्रथम सयुक्त नृत्य किया था । शिव नृत्य की सज्ञा ताण्डव एव पार्वती का लास्य हुई । लास्य छुरित तथा यौवत होता है साहित्य दर्पणानुसार इसके दस भंग—(१) गेयपद, (२) स्थित पाठ, (३) आसीन, (४) पुष्प गणिका, (५) प्रच्छेदक, (६) त्रिगूढ, (७) सैधवाख्य, (८) द्विगूढक, (९) उत्तमोत्तम एव (१०) युक्त प्रयुक्त होते हैं ।

झम्पाकम्पाकुलाग्रप्रसरसरसताधारसर्वाङ्गहार-
प्रारब्धाशास्यलास्योत्तरतरललसद्वावभावानुभावा ।

उत्कण्ठाकारिकण्ठोद्गतसतततस्फीतगीतप्रपञ्चा

पात्रीयंरम्यगात्री लसति सतिलका क्रीदृशी रत्नमाला ॥ २५० ॥

२५०. झम्पा, कम्पा से आकुल, अग्रसर होती, सरसता की धारा से सर्वांगों से मनोहारिणी, प्रारम्भ किये गये, अभिलषित नृत्य के अनन्तर तरल शोभायमान होते, हाव भाव एवं अनुभावसे पूर्ण, उत्कण्ठा उत्पन्न करने वाले, कण्ठसे निकले निरन्तर, प्रसृत प्रचुर गीत प्रपञ्चों वाली, तिलक एवं रत्नों की माला से युक्त सुरम्य शरीर वाली, यह पात्री कैसी भली लग रही है।

गुणिसदवृणदात्री

प्रेक्षकानन्ददात्री

नवकरणविधात्री

रूपलावण्यघात्री ।

कलितललितगात्री

शुद्धसङ्गीतगात्री

गुणगणमणिपात्री

रूपमालैव पात्री ॥ २५१ ॥

२५१. गुणियों को मद तथा प्रेक्षकों को आनन्ददात्री, नवीन लयों की विधात्री, रूप-लावण्य की घात्री, सुललित गात्री (शरीर), शुद्ध संगीत, गुणगण मणि पात्री, केवल रूपमाला पात्री थी।

पद-टिप्पणी :

२५०. (१) झम्पा : उछल-कूद । कंचन कुच के झुकि अंपत चन्द झलकत झाई । (अ० पृ० ३४९) ।

(२) कम्पा : हिलना, डुलना, कम्पन या धर-धराहट—कम्पन किंचित्प्रतिगृह्य मूर्ध्नः (रघु० : १३ : ४४) सिर हिला या मोड़कर ।

(३) हाव : परिभाषा की गयी है—ग्रीवा रेचक संयुक्तो भूनेत्रादिविकासकृत् । भावादीपत् प्रकाशो यः स हाव इति कथ्यते । (साह० द० १२७) पुरुषों की रत्यात्मक भावनाओं को उत्तेजित करता है । रंगरेली, मधुर भाषण—हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दृशि विकारविशेषाः । (शि० : १० : १३) ।

(४) भाव : नाना प्रकार के संवेगों एवं भावों को अपने इन्द्रियों किंवा अवयवों द्वारा प्रकट करना है द्र० १ : ४ : ११ ।

जै. रा. : ९

(५) अनुभाव : दृष्टि संकेत आदि उपयुक्त लक्षणों द्वारा भाव प्रकट करना । 'भावं मनोगतं साक्षात् स्वगतं व्यंजयति येतेऽनुभावा इति ख्याता यथा भूभ्रंग कोपस्यव्यंजकः (साहि० : द० १६२)

पाद-टिप्पणी :

दात्री, दात्री, बम्बई ।

२५१. (१) लय : लय का स्वरूप आवृत्ति-मूलक होता है । उसकी व्याप्ति दिक् एवं काल दोनों में होती है । गायन, वादन एवं नृत्य को सूत्रबद्ध लय करता है । लय—(१) द्रुत (२) मध्यम तथा (३) विलम्बित होता है । संगीत में नृत्य, गीत एवं वाद्य की समता या मेल है । यह समता नृत्य शील के हस्त, पाद, कण्ठ तथा मुख से प्रकट होती है । संगीत दामोदर के अनुसार हृदय, कण्ठ और कपाल लयके स्थान माने गये हैं । कुछ आचार्यों ने लय के द्विपदी, लतिका एवं झल्लिका इत्यादि अनेक भेद माने हैं । वह समय जो किसी स्वर को निकालने में लगता है । गीत गाने के तर्ज, वृत्त या ढंग से भी

यस्या मुखं हिमरुचिर्ननु यद्विधात्रा
 संपूर्णपर्वमवशेषतथात्र मुक्तः ।
 आशयानतामुपगतोऽस्य रुचायमास्ते
 नासाग्रमौक्तिकमिपादमृतस्य बिन्दुः ॥ २५२ ॥

२५२ जिसका मुख चन्द्र ही है, जिसमें विधाता ने पूर्ण चन्द्र की सम्पूर्ण कान्ति यहाँ रख दी, इस (मुख) की कान्ति से शुष्क हुआ, अमृत बिन्दु ही मानो नासिकाग्र पर स्थित, मौक्तिक के व्याज से शाभित हो रहा है ।

आसां कर्णालिकप्रोतलम्बिमुक्ताफलच्छलात् ।
 मुखेन्दोनिर्गता नूनं लावण्यामृतबिन्दवः ॥ २५३ ॥

२५३ इन (नर्तकियों) के कर्ण एव शिर पर गुथे, लटकते, मुक्ताफल के व्याज से लगता है कि मुख चन्द्र से लावण्यामृत की बूँदें ही निकल पड़ी है ।

अर्थ लगाया जाता है । लय की परिभाषा की गयी है--

क्रियान्तर विश्रान्तिर्लय स त्रिविधो मतः ।
 द्रुतो मध्यो विलम्बश्च द्रुत शीघ्रतो मतः ॥

—स० रत्ना० ५ ४४

द्विगुणद्विगुणो ज्ञेयो तस्मान्मध्यविलम्बितो ॥

५ ४५

तत कला कालकृते लय इत्यभिमज्ञानि ।

त्रयो लयास्तु विज्ञेया द्रुत मध्य विलाम्बित ॥

भरत ना० शा० ३१ : ५

य कालो वतते मध्ये कलयोर्लय एव स ।

लीङ् धातो इरेषणार्थत्वादिह लघ्वन्तरेण य ॥

आश्लेषो लयनात् सोऽत्र लयशब्देन गीयते ।

ते लयास्त्रिविधा ज्ञेया द्रुतमध्यविलम्बिता ॥

स० राग० वाद्य रत्न कोश । पृ० १०२

पाद-टिप्पणी

पाठ-बम्बई ।

२५२ (१) मौक्तिक नासिका विवर किंवा दोनों रन्धों के मध्य वाली दिवाल में छिद्र कर एक मोती गुया बुलाक पहना जाता है । वह ऊपरी ओष्ठ

के मध्य झूलता है । आजकल इसका प्रचलन समाप्त हो गया है । पुराने चित्रों में स्त्रियाँ बुलाक पहने चित्रित की जाती थी । उसमें एक मोती लगी रहती थी । अमृत समुद्र से निकला था । मुक्ता भी समुद्र से निकलता है । अमृत का रंग उज्ज्वल होता है । मुक्ता भी उज्ज्वल होता है । अमृत बिन्दु में पानी रहता है । इसी प्रकार मोती में भी आव या पानी होता है । जिस मोती में पानी नहीं होता, वह सीप तुल्य है । केवल भस्म बनाने के काम आता है । यहाँ पर इसीलिये बुलाक के मुक्ता की उपमा अमृत बिन्दु से दी गयी है ।

पाद-टिप्पणी

२५३ (१) मुक्ताफल काली वेणी में श्वेत गुथी मोती हरित वृक्ष में लगे फल के सदृश लग रहे थे । स्त्रियाँ कानों तथा शिर पर भी मुक्ता के गुच्छे धारण करती हैं । कमनीय कलेवरधारिणी नारी की इस अनुपम शोभा का वर्णन करते, मुक्ता गुथे और झूलते इस प्रकार प्रतीत हाते रहे हैं, जैसे नवयौवना सुन्दरी का लावण्य बिन्दु मोती बनकर, निकल आया था । द्र० रघु० ६ , २८, १६ ६२, कु० १ १३

इत्यादि शंसां कुर्वाणो नृपतिर्नवयौवनः ।
लीलामित्रैः समं ताभ्यो मद्यपात्रमगाहत ॥ २५४ ॥

२५४. इस प्रकार प्रशंसा करते हुए, नवयुवा राजा ने लीला मित्रों के साथ उन (नर्तकियों) से मद्य पात्र ग्रहण किया ।

तत्तत्कलापरिचये कविवाक्प्रपञ्चे
पञ्चेषुसंचयनिभासु वराङ्गनासु ।
संगीतचर्वणविधौ वसुधानृभोगे

धन्या नृपाः प्रतिदिनं व्यसनं भजन्ते ॥ २५५ ॥

२५५. तत् तत् कलाओं के परिचय में तथा कवि वाक्प्रपञ्च में, पञ्च वाण^१संचय सदृश, वाराङ्गनाओं में, संगीत स्वाद विधि एवं पृथ्वी के भोग में, धन्य नृप प्रति दिन व्यसन सेवन करते हैं ।

श्रुत्वा दिगन्तरात् कीर्तिं राज्ञः कर्णामृतप्रदाम् ।
गीतकाव्यकलाख्यातः पवारकदनोऽभ्यगात् ॥ २५६ ॥

२५६. दिगन्तर से राजा की कर्णामृतप्रद कीर्ति श्रवणकर, गीत काव्य कला में प्रख्यात पवार-कदन आया ।

पाद-टिप्पणी :

२५४. (१) लीला मित्र : साथ के खिलाड़ी या साथ खेलने वाला मित्र सनूह ।

पाद-टिप्पणी :

२५५. (१) पञ्चवाण : कामदेव के पाँच वाण या धर—(१) सन्मोहन (२) उन्मादन (३) स्तम्भन, (४) शोषण तथा (५) तापन । कामदेव के पाँच पृष्य—(१) कमल (२) अशोक (३) आम (४) नव-मल्लिका (५) नीलोत्पल ।

(२) वाराङ्गना : नारी, योषिता, वनिता, गणिका, तथा वेश्या अर्थ होता है ।

पाद-टिप्पणी :

२५६. (?) पवार कदन : पवार जातिवाचक तथा कदन व्यक्तिवाचक नाम है । श्री दत्त ने पवार कदन को एक नाम माना है । यह श्लोक ३ : २६० के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है । पवरिया लोग

छोटी सारंगी बजाते और गीत गाते हैं । उनका गीत प्रबंध काव्य की तरह होता है । उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर अंचल में पवरिया या पौरिया, जन्म, विवाह आदि के पश्चात् कम से कम तीन व्यक्ति के गोल में बाते हैं । गृहद्वार के सन्मुख बैठकर गाने लगाते हैं ।

श्रीवर ने दिगन्तर शब्द पवार कदन के लिये लिखा है । वह काश्मीरी नहीं था । काश्मीर के बाहर से आया था । जैतूल आवदीन के समय संगीत कला में काश्मीर की ख्याति थी । खालियर आदि सुदूर स्थानों से संगीतज्ञ काश्मीर आते थे । इसी प्रकार काश्मीर के बाहर से पवार कदन या कदन काश्मीर आया था । गिरवर कवि की उक्ति है—
साईं इन न विरोविए गुरु, पण्डित, कवि, पार ।

वेटा वनिता पौरिया यज्ञ करावन हार ॥

पवार शब्द परमार का अपभ्रंश तथा क्षत्री एवं परमार वंशीय राजाओं के लिए आता है परन्तु यहाँ पर पौरिया गायकों से ही अभिप्राय है ।

गायतः सोऽनुगीतानि स्वकृतानि सभान्तरे ।

तुष्टो महीपतिस्तस्मै व्यधात् कनकवर्षणम् ॥ २५७ ॥

२५७ सभा मे स्वनिर्मित, अनुगीत^१ करते, उस गायक से सन्तुष्ट होकर, राजा ने उसे प्रचुर सुवर्ण प्रदान किया ।

प्रबन्धगीतचतुरः कदाचित् स नृपाग्रगः ।

अगायत् सर्वलीलाख्यं प्रबन्धं देशभाषया ॥ २५८ ॥

२५८ प्रबन्ध गीत^१ मे दक्ष, वह किसी समय राजा के समक्ष सर्व लीला^२ नामक प्रबन्ध देशी भाषा^३ मे गाया ।

पाद-टिप्पणी

२५७ (१) अनुगीति एक मात्रिक छंद है । गीत के पश्चात् गाया हुआ गीत । पवरिया लोग समयानुसार घर के वंश, स्त्री, पुरुषों का नाम जानकर छन्द बना बनाकर गाते हैं । पवरिया का भाष्य भेरा अनुमान मात्र है । इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है ।

पाद-टिप्पणी

२५८ (१) प्रबन्ध गीत प्रबन्ध काव्य श्रव्य प्रबन्ध का एक भेद है । यह पद्यबद्ध तथा सर्गबद्ध कथात्मक काव्य होता है । प्रबन्ध काव्य कथा काव्य के निकट है । उनकी शैली अलंकार तथा उनमें रसात्मक कथा होती है । प्रबन्ध गीत की शैली से भी गाया जाता है । शाङ्गदेव का प्रबन्ध के विषय म मत है—सज्ञात्रय निबद्धस्य प्रबन्धो वस्तु रूपकम् । निबद्ध के तीन नाम पाश्र्वदेव देते हैं—वस्तु, प्रबन्ध एव रूपक निबद्ध ।

षडर्गों तथा चतुर्धातुओं द्वारा प्रबद्ध होता है । अतएव गीत लक्षण कोविद इसे प्रबन्ध कहते हैं । राग मे आरोपण हेतु होने के कारण सज्ञा रूपक दी गयी है । उद्वेग्राह आदि चार धातु तथा षडग जिस प्रबन्धो मे बास करते हैं, उसका नाम वस्तु है ।

(२) सर्वलीला इस नामका कोई पबन्ध काव्य उस समय रहा होगा । इसका अभी तक पता

नही चला है । विश्व के किसी पुस्तकालय में पाण्डु-लिपि भी पुस्तक की नही मिलती । भाषा से अर्थ हिन्दुस्तानी किंवा हिन्दी नही लगाना चाहिए । हिन्दुस्तानी भाषा का स्पष्ट उल्लेख श्रीवर ने २१४ में किया है । देशी भाषा का अर्थ काश्मीरी से यहाँ तात्पर्य है ।

‘सर्वगोचर देश भाषा’ का उल्लेख तेरहवीं शताब्दी मे शितिकण्ठ के महानम प्रकाश में मिलता है । संस्कृत पठित तथा बोल चाल की भाषा थी । परन्तु चौदहवीं शताब्दी में काश्मीर में मुसलिम आवादी और अरबी तथा फारसी के राजकीय प्रभुत्व के कारण संस्कृत से विगडकर काश्मीरी भाषा ने एक नवीन रूप ले लिया । मुसलिम काल में देव-भाषा संस्कृत के स्थान पर, काश्मीरी भाषा लोकदर्शन एव लोक संस्कृत की भाषा बन गयी थी । सन् १४५० ई० में जो श्रीवर का काल था, उसमें ‘वाणासुर वध’ मे सर्वलीला काश्मीरी भाषा का रूप मिलता है । यह हरिवंश पुराण में वर्णित उपा एव अनिरुद्ध की प्रणय गाथा पर आधारित है । खण्ड काव्य है । उसमें हसन शाह की प्रशस्ति है । श्रीवर की मृत्युता इन ग्रन्थो के कारण और प्रमाणित हो जाती है कि भाषा में ग्रन्थ लिखने की परम्परा प्रचलित हो गयी थी ।

अनभिज्ञतया राज्ञः पृष्टोऽहं तस्य लक्षणम् ।

तूर्णं भरतशास्त्रादेः सोदाहरणमब्रवम् ॥ २५९ ॥

२५९. अनभिज्ञता के कारण, राजा ने उसका लक्षण मुझसे पूछा । शीघ्र ही मैंने भरत शास्त्र^१ आदि का उदाहरण देकर कहा—

पदपाठस्वरैस्तैस्तु

तालरागैर्मनोहरम् ।

श्रुत्वा पडङ्गं तं मत्तो राजाभूदुदिताशयः ॥ २६० ॥

२६०. उन पद, पाठ, स्वरों एवं ताल रागों से पडङ्ग^१ युक्त उसे (गीत) सुनकर, उदार हृदय राजा मत्त हो गया ।

इस भाषा का आदि काल सन् १२५० ई० से १४०० ई० माना जाता है । सन् १३३९ ई० में काश्मीर में शाहमीर राज वंश की स्थापना हुई । उसके पश्चात् फारसी एवं अरबी शब्द प्रचुर संख्या में काश्मीर की लोक भाषा में प्रवेश करने लगे । इस भाषा में श्री गितिकंठ का महानय प्रकाश, छुम्म सम्प्रदाय, लल्ला ख के वाख, नन्द ऋषी के अर्थात् नुदर्थेश के श्लोक तथा अन्य ऋषियों अर्थात् उपदेशों के पद हैं । ऋषि परम्परा मुसलिम सन्तों की परम्परा थी, जो किसी कारण वश हिन्दू से मुसलमान हो गये थे । इस काल की रचना में संस्कृत छंदों की झलक स्पष्ट दिखायी देती है । छम्म सम्प्रदाय में काश्मीरी सूत्र अधिक मिलते हैं ।

श्रीवर का समय काश्मीरी भाषा का प्रवन्ध काल है । यह काल पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शती में माना गया है । सुलतान जैनुल आवदीन के समय संस्कृत के स्थान पर फारसी राजभाषा बन रही थी । संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद फारसी तथा देगी भाषा में होने लगा था । जनता मुसलिम बहुल थी । इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत जोरों के साथ स्थान छोड़ने लगी और उसका स्थान देगीभाषा तथा फारसी ने ले लिया । हिन्दुओं की धार्मिक भाषा संस्कृत एवं मुसलमानों की अरबी होने के कारण मुसलमान संस्कृत पढ़ना छोड़ने लगे । सिकन्दर वृत्तचक्र के समय (१३८०-१४२०)

जवर्दस्ती मुसलमान बनाये गये हिन्दू, जिनकी भाषा संस्कृत थी, उसे छोड़ नहीं सके थे । परन्तु उनकी सन्तानों के लिये संस्कृत के प्रति कोई आकर्षण नहीं था । वे फारसी अथवा देगी भाषा तक ही अपना पठन पाठन सीमित कर दिये थे ।

पाद-टिप्पणी

२५९. (१) भरत शास्त्र = नाट्य शास्त्र : द्रष्टव्य : पादटिप्पणी : रा० : ४ : ४२३ । नृत्य, गीत एवं अभिनय की विद्या भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है । ब्रह्मा ने अनिष्टावतार ग्रहण कर नाट्य उपवेद की रचना की थी । इसे गन्धर्व वेद भी कहते हैं । ब्रह्मा ने भरत को नृत्य, वाद्य, गीतादि की शिक्षा दी थी । उसी के आधार पर जगत् उपकारार्थ भरत ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी ।

पाद-टिप्पणी

२६० (१) पडङ्ग . संगीत के पद + अंग है—(१) स्वर, (२) विरह, (३) पद, (४) तेनक, (५) पाठ एवं (६) ताल । कुछ लोगों का मत है कि (१) स्वर, (२) ताल, (३) नृत्य, (४) भाव, (५) कोक और हस्त इनके समाहार को संगीत कहते हैं । वेद के ६ अंग—(१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छन्द एवं (६)

तद्गीतस्याङ्गवैकल्यं ज्ञात्वा मामब्रवीदिदम् ।

गीतदर्पभृता वादं कुर्वन्नेन सभान्तरे ॥ २६१ ॥

२६१ उसके गीत का अंग वैकल्य^१ जानकर, महाराज (राजा) ने मुझसे यह कहा,—
'गीत का दर्प करने वाले इसके साथ सभा मध्य वाद करो,—'

तथेत्युक्ते महाराजो द्वयोर्वादमकारयत् ।

सभायां विहिते वादे गीतग्रन्थावलोकनात् ॥ २६२ ॥

२६२ स्वीकृति देने के पश्चात् महाराज ने वाद (शास्त्रार्थ) कराया । सभा में वाद किये जाने पर, एव गीत ग्रन्थों के अवलोकनान्तर—

श्रुत्वा प्रबन्धान्मत्तः स साश्चर्यो गदनोऽभवत् ।

अहो काश्मीरिकोऽपीदृक् चतुरः सर्वशास्त्रवित् ॥ २६३ ॥

२६३ मुझसे प्रबन्धों को सुनकर, वह गदन आश्चर्य युक्त हो गया—'अहो ! काश्मीरी भी, तुम ऐसे सर्व शास्त्र वेत्ता एव चतुर हो ?'—

इत्युक्त्वालिङ्ग्य मां मे त्व गुरुरित्यब्रवीत् स्फुटम् ।

कौशेयकपरीधानप्रसादानन्दिताशयम् ।

अकरोन्मां नृपस्तूर्णं तद्वादजयरञ्जितः ॥ २६४ ॥

२६४ इस प्रकार कहकर, मेरा आलिङ्गन कर—'तुम मेरे गुरु हो'—यह सुस्पष्ट कहा । उस शास्त्रार्थ के विजय से प्रसन्न राजा ने शीघ्र ही मुझे कौशेय वस्त्र प्रसाद में प्रदान कर, परमानन्दित किया ।

ज्योतिष । शरीर के ६ अंग १, २) दो पैर (३, ४) दो हाथ (५) सिर (६) घड । दूसरे मत से (१) हृदय, (२) शिर (३) शिखा (४) नेत्र, (५) कवच तथा (६) अस्त्र । गाय से प्राप्त होने वाली ६ वस्तुएँ—
(१) गोमूत्र, (२) गोबर, (३) गोदुग्ध (४) गोघृत, (५) गोदधि, (६) गोरोचन ।

पाद-टिप्पणी

२६१ 'तद्-अंग' बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

२६३ (१) गदन श्लोक सख्या २५४ में वर्णित 'कदन' ही 'गदन' है । व्यक्तिवाचक नाम

है । श्रीदत्त ने 'कदन' तथा 'गदन' को एक ही व्यक्ति माना है ।

(२) काश्मीरी श्रीवर ने अपने जीवन के विषय में तीन परिचय इस प्रसंग में दिया है । प्रथम वह सुल्तान के संगीत विभाग का अध्यक्ष था । स्वयं संगीत पारंगत था । दूसरा उसने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के साथ ही, संगीत शास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया था । वह इतना विद्वान् था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति से संगीत के अंग-प्रत्यंगों पर वाद करने के लिये सक्षम था । तीसरा वह महाकवि के साथ संगीतज्ञ होने के नाते सुल्तान का संगीत गुरु

घोषाः स्वोत्पत्तितोषा गतिगुणचतुराः पीवराङ्गास्तुरङ्गाः
स्फीतं यज्ञोपवीतं कनकमणिचितं द्रव्यमन्यच्च भव्यम् ।
वस्त्रोद्द्योताश्च पोता निजवपुषि धृता वस्त्रयोगाः सभोगा
राजा श्रीहस्सने प्रसभमिह मयि श्रीवरे किं न दत्तम् ॥ २६५ ॥

२६५. उत्पत्ति पूर्ण गृहों, गति एवं गुणों में उत्तम पीवरांग, (हृष्ट-पुष्ट) तुरंगों, कनक एवं मणि से युक्त प्रचुर यज्ञोपवीत एवं अन्य भव्य द्रव्य तथा वस्त्रों से शोभित पोत और अपने शरीर पर धृत भोगसहित वस्त्रों को (देकर), इस प्रकार राजा हस्सन ने बलात् मुझ श्रीवर को क्या नहीं दिया ।

नयज्ञः शंसदेनोऽभृन्मन्त्री चालाभदेनकः ।
वीरः शाहाभदेनः स कुद्ददेनो विवेचकः ॥ २६६ ॥

सुल्तानों का मूल्यांकन :

२६६. शंसदीन (शाहमीर) नयज्ञ (नीतिज्ञ), अलाभदीन (अलाउद्दीन) मन्त्री, शाहावदीन (शिहाबुद्दीन) वीर, एवं वह कुद्ददेन (कुतुबुद्दीन) विवेचक हुए ।

श्रीशेकन्दरशाहोऽपि यवनेन्द्रमतप्रियः ।
आलिशाहोऽभवद् दाता श्रीमान्जैनमहीपतिः ॥ २६७ ॥

२६७. श्री शेकन्दर (सिकन्दर वृत्तशिकन) यवन धर्म प्रेमी, और आलिशाह (अली शाह) दाता हुआ । श्रीमान् जैन (जैनुल आवदीन) भूपति—

सर्वशास्त्रप्रियः सर्वभाषाकाव्यविचक्षणः ।
राजा हैदरशाहः स तन्त्रीवाद्यविशारदः ॥ २६८ ॥

२६८. सर्वशास्त्र प्रेमी तथा सर्व भाषा के काव्यों में विचक्षण था । राजा हैदर शाह वीणा एवं तन्त्री वाद विशारद था ।

संगीतनिपुणः सोऽयं हस्सनेन्द्रो नरेश्वरः ।
एकैकगुणत्राहुल्या प्रसिद्धा नृपमण्डली ॥ २६९ ॥

२६९. राजा हस्सनेन्द्र संगीत में निपुण था । इस प्रकार एक-एक गुण से पूर्ण प्रसिद्ध नृप मण्डली को—

भी था । स्वयं गाता था । वह जैनुल आवदीन, काव्य रसिक एवं संगीतज्ञ थे ।

हैदर शाह तथा सुल्तान हसन के साथ गा चुका पाद-टिप्पणी :

था । काश्मीर के उक्त तीनों ही सुल्तान स्वयं २६७. 'मत' पाठ-दम्बई ।

मण्डलेऽस्मिन् जनैर्दृष्टेत्यवोचन्नुपतेः सदा ।

श्रुत्वा राज्ञो महागीतं रागालप्तिमनोहरम्

श्रीज्यहाङ्गिरभागेशमुख्याः पादौ ब्रवन्दिरे ॥ २७० ॥

२७० इस मण्डल मे लोगो ने देखा । इस प्रकार सर्वदा राजा की सभा कहती थी । राग^१, आलाप^२ से मनाहर, राजा के महागीत को सुनकर, श्री जहाँगीर मार्गेश प्रमुख लोगो ने उसकी पाद वन्दना करते थे ।

देशेऽस्मिन् परवञ्चनात् प्रकुरुते लोको यदा संचय

तत्तद्धर्मविपर्ययेण च भजन् स्वाचारनिःसारताम् ।

उत्पातैर्विविधैस्तदा समुदिताः संपीडयन्ति प्रजा

दुर्वात्यानलदाहदुर्हिममहाशैत्यस्वभेदाभयाः ॥ २७१ ॥

विपत्ति का कारण

७१ इस देश मे जब लोग प्रवचना द्वारा (धन) संचय करते और तत्-तत् धर्म विपर्यय के कारण अपनी मायावी निस्सारता प्रकट कर देते हैं, उस समय विविध प्रकार के उपद्रवो से उत्पन्न, तूफान, अग्निदाह, प्रचण्ड हिमपात से घोर शीत एव रोगादि प्रजा को पीडित करते है ।

पाद-टिप्पणी

२७० (१) राग भरत मुनि के अनुसार—(१) भैरव (२) कौशिक (३) मालकोत्त (४) हिंडोल (५) दीपक (६) श्री तथा (७) मेघ है । ब्रह्म एव सोमेश्वर के मत मे—(१) श्री (२) वसत (३) पचम (४) भैरव (५) मेघ एव (६) नट नारायण है । नारद संहिता के अनुसार—(१) मालव (२) मल्लार (३) श्री (४) वसत (५) हिंडोल (६) कर्णाटक है ।

स्वरभेद से राग—(१) सम्पूर्ण—जिसमें सभी स्वर लगते है । (२) पाडव—केवल ६ स्वर लगते है । (३) ओडव में पाँच स्वर लगते है । दो स्वर वजित है ।

मतग के मत से राग—(१) शुद्ध (शास्त्रीय) (२) सालक अन्य राग की छाया छलकती है अथवा दो रागों के योग से जो बनत है । (३) सकीर्ण अनेक रागों के योग से बनते है । इसे शकर राग भी कहते है ।

रागो के ऋतु, समय, पहर, निश्चित स्वर क्रम या मरगम होते है । भरत मतानुसार प्रत्येक राग की पाँच रागनिर्या तथा सोमेश्वर मतानुसार ६ रागनिर्या होती है । प्रत्येक राग के आठ पुत्र तथा आठ पृत्रियाँ है ।

महादेव के पच मुख से पचराग (१) श्री (२)

वसत (३) भैरव (४) पचम और (५) मेघ निकले है । पादती के मुख से (६) नटनारायण राग निकला है ।

(२) आलाप सगीत के सातों स्वरो का साधन—तान । गाने का एक अंग तान है । अनुलोम एव विलोम गति से गमन, मूर्च्छना आदि द्वारा राग या स्वर का विस्तार किया जाता है । विविध विभागों में स्वर को खींचते है । लय का विस्तार यथा आलाप करते है ।

जब सातों स्वर के आरोही अथवा अवरोही क्रम में एक या दो स्वरो को छोड देते है, तब मूर्च्छना शुद्ध तान का रूप धारण कर लेती है । षडज ग्राम में पाडक (छ स्वरो की) तानें २८ और मध्यम ग्राम में पाडव तानें २१ होती है । कुल मिलाकर पाडक तानें ४९ होती है । षडज ग्राम में औडुक (पाँच स्वरो की) तानें २१ होती है । मध्यम ग्राम में औडुव तानें १४ होती है । कुल मिलाकर औडुव तानें ३५ होती है । पाडक और औडुव दोनों मिलाकर (४९ + ३५) = ८४ शुद्ध तानें होती है ।

आलाप में राग का तिरोभाव नहीं होता । रागा लाप तथा रूपका लाप दो भेद है । रागालाप में अपन्यास स्वरो पर विश्रान्ति नहीं होती । रूपकालाप में अपन्यास स्वरो पर विश्रान्ति होती है ।

कदाचित् पौरवणिजो गोवधं नगरान्तरे ।

आजन्महिन्दुकाचाराश्चक्रुमौसुलवब्लभाः ॥ २७२ ॥

२७२. किसी समय, जन्म से हिन्दू आचारवाले, पौर वणिकों ने जो मौसुल (मुस्लिम) वल्लभ थे, नगर में गोवध^२ किया ।

यत्र गावो हता भुक्तैस्तन्मासैस्तैदुराशयैः ।

स विहारः स नगरः शुद्धयै चाग्नौ स्वमक्षिपत् ॥ २७३ ॥

२७३. उन दुराशायों ने जहाँ पर गाय की हत्या की थी और उनका मांस खाया था, वह विहार, वह नगर, शुद्धि हेतु स्वयं को अग्नि में डाल दिया ।

अथ नैऋतदिग्वातो जातोत्पातशताचितः

अकस्मादुदभूद् देशे प्रत्यूहापातदुःसहः ॥ २७४ ॥

२७४. देश में अकस्मात् सैकड़ों उत्पात से युक्त, विघ्नपात से दुःसह, नैऋत्य दिशा की वायु उठी ।

आरम्भ एव कोऽप्येतं श्लोकं सनुर्विपश्चित्

गणरात्रं समालोच्य दुर्वातं तं महादभुतम् ॥ २७५ ॥

२७५. विद्वान् के किसी पुत्र ने प्रारम्भ में ही कई रातों तक, उस महा अद्भुत दुर्वात को देखकर, यह श्लोक पढ़ा—

खरवर्णेन मेघेन चन्द्रवर्णेन भानुना ।

नैऋतेनातिवातेन हा प्रजे क्व गमिष्यसि ॥ २७६ ॥

२७६. खर^१ वर्ण के मेघ, शशि वर्ण के सूर्य से युक्त, और नैऋत्य^२ के इस अतिवात के कारण हे प्रजा ! कहाँ जाओगी ?

पाद-टिप्पणी :

२७२. (१) पौर वणिक : पूर्वकालीन हिन्दू वणिक धर्म परिवर्तन कर मुसलमान हो गये थे ।

(२) गोवध : गोवध का यहाँ प्रथम उल्लेख मिलता है । ब्र० : ४ : ५०, ५०४ ।

पाद-टिप्पणी :

२७३. पाठ—वम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

२७४. (१) नैऋत्य : दक्षिण-पश्चिम दिशा से तात्पर्य है । अरव सागर से मानसून और हवा जो उठती है, वह सीधे शिवालिक पर्वतमाला से टकराती है और कांगड़ा तथा हिमाचल प्रदेश में वर्षा

जै. रा. १०

होती है । यह हवा काश्मीर तक पहुँचते-पहुँचते जल अथवा नमी-रहित हो जाती है । शीत ऋतु में साइक्लोन उठता है । उन्हें काश्मीर में गर्दवाद हवा कहते हैं । यह हवा भूमध्य सागर से उठती है । फारस की खाड़ी से नमी उठाकर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सीमान्त उत्तर पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा पंजाब से होती काश्मीर में प्रवेश करती है । इनसे पंजाब तथा काश्मीर उपत्यका में वर्षा होती है । जम्मू में इनका प्रवेश पीर पंजाल के कारण नहीं होता । जो कुछ थोड़ी हवा जम्मू पहुँच जाती है, उसमें नमी कम होती है ।

पाद-टिप्पणी :

२७६. (१) खर : श्लिष्ट शब्द है । खर का

वत्सरे षष्पञ्चाशे प्रववेशपुरान्तरे ।

गोसौनिकाषणोषान्तादकस्मादुद्भूच्छिखी ॥ २७७ ॥

२७७ पंचपनवें वर्ष प्रवेशपुर के अन्दर गौ-सैनिकी (गो-वधिकी) के आपणो (बाजारी) के समीप से अकस्मात् अग्नि उत्पन्न हुई ।

मारीतटैकपार्श्वस्था

गुलिकावाटिकावधिः ।

क्षणान्नगरभूर्दाहाद्

दग्धारण्यमिवाभवत् ॥ २७८ ॥

२७८ मारी^१ तट के एक भाग में स्थित, वह (अग्नि) गुलिका वाटिका^२ तक फैल गयी । क्षण भर में नगर की भूमि दाह से दग्ध, अरण्य सहश हो गयी ।

भूर्जत्वग् वायुनोद्धृता ज्वलन्ती सजवागता ।

बृहन्मस्जेदाच्छ्रान्तः पपातोत्पातदूतिका ॥ २७९ ॥

२७९ बृहन्मसजिद^३ से वायु द्वारा उडायी गयी, जलती हुई भोजपत्र त्वक, बड़ी तेजी से सत्र में आ गिरी जो उत्पात-दूतिका थी ।

अर्थ घना = अमगल, क्रूर तथा गधा होता है । खर संवत् होता है । साठ सवत्सरो में वह पचीसवाँ सवत् है । इस सवत्सर में बहुत उपद्रव होते हैं ।

(२) मेघ नैऋत्य दिशा से जुलाई मास में मानसून की हवा अरब सागर से उठती, काश्मीर पहुँचती है । शीत ऋतु में (जनवरी से अप्रैल) हवा पश्चिम उत्तर से काश्मीर में प्रवेश करती है ।

पाद-टिप्पणी :

२७७ (१) पंचपनवें सप्तमि ४५५५ = सन् १४७९ ई० = विक्रम १५३६ = शक १४०१ = कलि गताब्द ४५८० ।

पाद-टिप्पणी

पाठ—बम्बई ।

२७८ (१) मारी मर नहर = मार नहर प्राचीन नाम महासरित है ।

(२) गुलिका वाटिका यह स्थान श्रीनगर शहर में गोजवार स्थान है । (काश्मीरी रामायण भूमिका पृष्ठ १) ए० एम० वी० सन् १९३० सस्करण ।

पाद-टिप्पणी

२७९ (१) बृहन्मसजिद जामा मसजिद काश्मीर की प्रसिद्ध भव्य इमारत है । सिकन्दर बुत-शिकन ने इसका निर्माण कराया था । सन् १४७९ ई० में भयंकर अग्निदाह में जल गयी थी । इसके साथ ही साथ खानकाह मुअल्ला भी जल गया था । सुल्तान ने दोनों स्थानों का जीर्णोद्धार कराया था । (बाकियाते काश्मीर पाण्डु० ३६ बी०, तारीख हसन . पाण्डु १ १३० ए० तथा बी०, सैय्यद अली तारीख काश्मीर ३९-४० ।)

पीर हसन लिखता है—हिजरी ८८५ में सिकन्दरपुर और अलाउद्दीनपुर में कहर खुदा की आग लगकर, इकतीस मुहल्ले और तखमीनन् दस हजार घर जल गये । मसजिद जामा और खानकाह मुअल्ला दोनों मशबल नूर हो गये । सुल्तान ने इन दोनों मुतबरक मुकामों की दोबारह तामीर पर, हिम्मत का हाथ बढाकर, पहले से भी ज्यादा नकश व निगारी और दीवारों के खतूत और किताब के जरिये, रौनक और जीनत बढ़ायी ।

प्रसारिता चतुर्दिक्षु यत्र भित्तिः सुधासिता ।

श्रीशेकन्धरभूर्भर्तुर्मूर्ता कीर्तिरिवाभवत् ॥ २८० ॥

२८०. जहाँ पर चारों दिशाओं में सुधासित^१ (चूने से लिपी) भित्ति फैली हुई थी, जो कि राजा श्री शेकन्धर (सिकन्दर बुतशिकन) की मूर्तिमती कीर्ति सदृश थी ।

व्यधाद् यदन्तर्जनता प्राणीता पुनरुत्थिता ।

त्वङ्गतसरोवरोत्तुङ्गततरङ्गावलिभङ्गिताम् ॥ २८१ ॥

२८१. जिसके अन्दर प्रणत^१ एवं पुनः उत्थित जनता, बहते सरोवर के उत्तुङ्ग तरंग वलियों की भंगिमा सदृश लग रहे थी ।

पाद-टिप्पणी :

२८०. (१) सुधासित : जामा मसजिद चौकोर भव्य इमारत है। दिवालें ऊँची हैं। उनमें गवाक्ष लगे हैं। भीतर चीड़ तथा देवदार के बड़े-बड़े शहतीरों के खम्भा लगे हैं। उन पर छाजन टिकी है। दिवाल आज भी चूने से पोती जाती है।

पाद-टिप्पणी :

२८१. (१) प्रणत-उत्थित : मसजिद में नमाज पढ़ते समय सिजदा (प्रणत) करने और उठने की (क्रियाम) सुन्दर उपमा श्रीवर यहाँ समुन्द्र की लहर से देता है। इस श्लोक को समझने के लिये नमाज प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना चाहिए।

नमाज के पूर्व अज्ञां दी जाती है। दोनों कानों में उगली डालकर मसजिद का मुखज्जिन अज्ञां देता है। अज्ञां नमाज पढ़ने के लिये लोगों को बुलाया या आह्वान होता है। वह नमाज के समय की सूचना है। अज्ञां के लगभग पन्द्रह मिनट पश्चात् लोग मसजिद में एकत्रित होकर, नीयत बाँधते हैं, जमात में खड़े हो जाते हैं। इमाम सक्के आगे खड़ा होता है। पश्चिम कावा की ओर सबका मुख रहता है। अल्लाहो अकबर कहकर दोनों हाथों को कानों तक उठा कर छाती पर नाभि के पास हाथ बाँध लेते हैं। शिया लोग खुले हाथ नमाज पढ़ते हैं। उनका हाथ झूलता रहता है। नमाज में एक क्रियाम (खड़ा होकर पढ़ना) एक 'रुकअ' झुककर पढ़ना तथा दो सजदा किया जाता है।

सिजदा में मस्तक भूमि पर टेक दिया जाता है। कुछ क्षण पश्चात् घुटनों के बल बैठ जाते हैं। पुनः सिजदा में माथा टेकते हैं। खड़ा होते हैं। एक रुकअस नमाज एक बार खड़े होकर बैठने तक होती है। एक रुकअत में दो सिजदे और एक रुकअ एक रुकअत में एक क्रियाम एक रुकअ और दो सजदा होते हैं। सिजदों के उपरान्त घुटनों के बल बैठ जाते हैं। पहले दायीं और बायीं ओर मुँह फेरते हैं फिर बायीं ओर। तत्पश्चात् दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ माँगते हैं। इस प्रकार नमाज की दो रुकअत पूर्ण होती है। जुमा की नमाज के पूर्व इमाम भाषण देता है। उसे खतवा कहते हैं। शिया लोगों के यहाँ वाज अर्थात् उपदेश या खुतवा नमाज के पश्चात् होता है।

श्रीवर ने नमाज पढ़ना देखा था। उसने विशाल जनसमूह में लहर की उठने की तुलना क्रियाम, सम होने से रुकअ तथा नीचे जाने की तुलना सिजदा से किया है।

श्रीवर ने जुमा तथा ईद की नमाज का उल्लेख करता है। जुमा की नमाज सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। यह मध्याह्न १२ तथा १ बजे के बीच होती है। जुमा के दिन कारवार आधा दिन बन्द रखा जाता है। पैगम्बर साहब का उपदेश है कि जुमा की नमाज के पश्चात् रोज़ा के लिये निकले। जुमा की नमाज में खुतवा पढ़ा जाता है। नमाज केवल अज्ञान के बाद पढ़ी जाती है।

ईद की नमाज सूरज ढलने के पहले अर्थात् १२ बजे दिन के, पूर्व पढ़ी जाती है। इसके नमाज

मन्त्रपाठोद्यतं यत्र यवनानां कदम्बकम् ।
गुञ्जन्मधुपगर्भाब्जसहस्रमिव राजते ॥ २८२ ॥

२८२ जहाँ पर मन्त्र पाठ के लिये उद्यत, यवनो का समूह गूँजते' भीरो से युक्त, गर्भवाले सहस्रो कमल समूह सहस्र शोभित हो रहा था ।

चतुर्दिग्द्वारनिर्गच्छच्छुक्रवारागता जनाः ।
कुर्वन्ति भूगतम्लेच्छतदहनिर्गमभ्रमम् ॥ २८३ ॥

२८३ शुक्रवार' को आये चतुर्दिक द्वार से निकलते लोग भूगत' म्लेच्छो के उस (कयामत) दिन निकलने का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे ।

यन्मध्योच्चचतुःस्तम्भदम्भाद् विधिदिदृक्षया ।
चतुष्पादिव तद्धर्मः प्राप्तो भास्युज्झितस्थितिः ॥ २८४ ॥

२८४ जिसके मध्य उन्नत चार स्तम्भ (मीनार) के व्याज से व्यक्त स्थिति चतुष्पाद' उनका धर्म ही विधि देखने की इच्छा से आकर शोभित हो रहा है ।

म केवल दो रकअ तथा चार सिजदा होता है । प्रत्येक सिजदा के पूर्व घुटने के बल बैठकर भूमि पर माथा टेकते हैं । दोनों हाथ की हथेली जमीन पर लगी रहती है । यह बैठना योग के वज्रासन तुल्य होता है ।

प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ने की हिदायत है । फजर सुबह की नमाज में दो रकअत, जहर में चार रकअत असर में चार रकअत, मगरिव में तीन रकअत और एशा में चार रकअत नमाज फर्ज जाती है ।

(२) त्वङ्गत्सरो 'तवत्सगरो' पाठ लिखने की गलती से हो गया है । त्वङ्गत्सरो पाठ ठीक है ।

पाद-टिप्पणी

उक्त श्लोक कलकत्ता तथा बम्बई संस्करणों का २८२ वाँ श्लोक है ।

२८२ (१) गूजता नमाज में अरलाहो अकबर की गूज के साथ सिजदा करते तथा उठते हैं । यह आवाज गूँजती है । उसकी तुलना भीरों के गूजने से शीवर ने किया है ।

पाद-टिप्पणी

२८३- (१) शुक्रवार जुमा की नमाज । कया है कि कयामत के दिन मानव का ईश्वर न्याय करेगा । मृतकों का पुनरुत्थान होता है ।

शुक्रवार का दिन मुसलमानों में अच्छा माना जाता है । इस दिन मरना भी अच्छा मानते हैं ।

(२) भूगत गड़े लोग कयामत अर्थात् हश्र या महाप्रलय के दिन जैसे कब्रों से निकले आ रहे थे । मुसलमान, ईमाई तथा यहूदी मान्यता के अनुसार सृष्टि के अन्तिम दिन सत्र गड़े मुर्दे कबरो से निकलकर खड़े हो जायेंगे और ईश्वर के सम्मुख उनका इन्साफ होगा ।

पाद-टिप्पणी

२८४ (१) चतुष्पाद धर्म का चार पद अर्थात् धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं शासन (नारद - १ १०) । याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति के अनुसार— अभियोग, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय चतुष्पाद है (याज्ञ० २ ८) । कात्यायन के अनुसार चतुष्पाद अभियोग, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया है । द्र० १ ३ १७ ।

स्वर्णछत्रच्छलाद्यत्र मायाकर्णनकौतुकात् ।
कर्ण दातुमिवाभ्यर्णं भजन् भाति दिवाकरः ॥ २८५ ॥

२८५. जहाँ पर स्वर्ण छत्र के व्याज से माया सुनने के कौतूहलवश दिवाकर कान^१ लगाने के लिये ही मानो निकट आया शोभित होता था ।

तन्महासदनं व्याप्तगगनं रचनाद्भुतम् ।
म्लेच्छदर्शनराजार्थं रक्षादुर्गाश्रियं ददत् ॥ २८६ ॥

२८६. आकाश तक व्याप्त अद्भुत रचना से युक्त वहाँ महासदन म्लेच्छ के दर्शन-(घर्म) के राजाओं^१ के लिये रक्षा दुर्ग के सदृश शोभित हो रहा था ।

कुर्वन् कल्पाग्निनिर्दग्धविश्वज्वालावलिभ्रमम् ।
क्षणमात्रात्तदा यातं भित्तिमात्रावशेषताम् ॥ २८७ ॥

२८७. कल्पाग्नि से निर्दग्ध विश्व की ज्वाला पुञ्ज का भ्रम करते हुए, (वह) क्षणमात्र में भित्तिमात्र अवशेष रह गयी ।

निमित्तजा विद्या यस्यां म्लेच्छा कुर्वन्ति भक्तितः ।
एधामहोत्सवाद्येषु गणशो मिलिताः सदा ॥ २८८ ॥

२८८. एधा^१ (ईद) महोत्सव आदि के अवसर पर गणशः मिलकर म्लेच्छ लोग जिससे सदैव भक्तिपूर्वक नैमित्तिक^२ विधियाँ सम्पन्न करते थे ।

पाद-टिप्पणी :

२८५ (१) कान : अज्ञा देने के समय दोनों कानों के छिद्र लंगली से बन्दकर लिये जाते हैं । वजू के वक्त प्रत्येक मुसलमान कुहनियों तक हाथ धोता है । मुख व नाक आदि साफ करता है । कान पर भी हाथ फेरता है । वजू के पश्चात् नमाज की जमाअत में खड़े होने पर, सर्वप्रथम दोनों हाथों से दोनों कानों का स्पर्श किया जाता है । श्रीवर इसी ओर संकेत करता है ।

पाद-टिप्पणी :

२८६. (१) राजा : राजा का पाठभेद वाज भी मिलता है । श्री दत्तने अनुवाद किया है कि म्लेच्छ राजदर्शन राजाओं के समर्थन हेतु वह दुर्ग सदृश शोभा दे रहा था । उसने राज पाठ माना है । यदि वाज पाठ मान लिया जाय तो अर्थ भिन्न हो

जायगा । वाज शब्द का अर्थ घर्मोपदेश मजहबी नसीहत, उपदेश तथा सीख = नसीहत है । मुल्ला अथवा इमाम नमाज पढ़नेवालों को उद्बोधित करता है । 'यदि नवाज का तात्पर्य लगाया जाय तो नमाज पढ़ना होगा । श्रीवर बृहन्मसजिद की उपमा एक दुर्ग से देता है । जिस प्रकार दुर्ग में सेना तथा राजा निर्भय एवं रक्षित होकर कार्य करता है, उसी प्रकार मसजिद के अन्दर रक्षित तथा भयरहित मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जहाँ उनका घर्म मसजिद प्रकार से रक्षित है ।

पाद-टिप्पणी :

२८७. 'यात' पाठ-बम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

२८८. (१) ईद : ईद का शाब्दिक अर्थ हर्ष, आनन्द, खुशी है । शब्द अरबी है । यह शब्द ऊद से बना है । जिसका अर्थ प्रतिद्वर्ष आनेवाला होता

अभूद्ग्रहामखानीयपञ्चावासादिभिर्गृहैः ।

सताण्डवचटत्कारं तैः खाण्डववनायितम् ॥ २८९ ॥

२८९ बहराम खा के पच आवास आदि गृह ताण्डव एवं चटत्कार (चटकना) शब्द पूर्वक खाण्डव वन की तरह आचरण किये ।

ज्वलद्भूर्जत्वचो याता वितस्तासलिलान्तरम् ।

दग्धा जलगता नावाः शेकुः शमयितुं न याः ॥ २९० ॥

२९० जलते भोजपत्र वितस्ता सलिल मे गिरे, जहाँ पर जलगत नावे जल गयी, उन्हे बुझाया नहीं जा सका ।

है । ईद दो पर्वों का नाम है । एक इदुल फित्र अर्थात् बकरा ईद है । यह जीहिज्जा की दसवी तारीख को पडती है । यह शब्द अरबी है । दूसरी इदुल अज्हा है । यह रमजान के रोजा रखने के पश्चात् प्रथम शाबाल को मनायी जाती है । इसमें सेवई पकाने तथा खिलाने की प्रथा है । इन प्रार्थनाओं में दो रुकअत नमाज तथा वाज अर्थात् धर्मोपदेश होता है । प्राय यह नमाज शहर के बाहर बने खुले मैदान में बनी मसजिद ईदगाह में पढी जाती है ।

शिया मुसलमान एक तीसरी ईद भी मनाते हैं । इसे ईद गदीर कहते हैं । यह नाम मक्का मुअज्जमा तथा मदीना मुनवरा के मध्य एक तालाब के नाम पर आधारित है । शिया लोगों का विश्वास है कि उक्त सरोवर पर आकर पैगम्बर साहब ने कहा था- जिस किसी का भी मैं पूज्य हूँ, उसका पूज्य अली भी है । गदीर शब्द अरबी है । उसका अर्थ होता है वह जल जो नदी में बाढ आने के समय नदी से निकल कर कही जमा हो जाता है । इस पानी के एकत्र होनेवाले को गदीर कहते हैं ।

(२) नैमित्तिक विधि - नमाज ।

पाद-टिप्पणी -

२८९ ताण्डव शिव का प्रसिद्ध नृत्य है । पुरुषों के उद्धत या उग्र नृत्य की सजा ताण्डव से दी

गयी है । उस नृत्य का सम्बन्ध भैरव तथा बीरभद्र से है । शिव का यह नृत्य स्मशान में देवों तथा भूत-पिशाचों के साथ उद्धत रूप से होता है । ताण्डव नृत्य आकार की अष्ट किंवा दशभुज शिव की मूर्तियाँ एलोरा, एलिफेन्टा, भुवनेश्वर आदि में शिला पर उत्कीर्ण हैं । दक्षिण भारत में वह नृत्य तथा शिव की ढली कास्य प्रतिमा अत्यन्त लोकप्रिय हैं । उसे नटराज कहते हैं । कुछ लोग नन्दी को इसका प्रवर्तक मानते हैं । एक मत है कि ताण्डव नामक ऋषि ने सर्वप्रथम इसकी शिक्षा दिया था (द्रष्टव्य १ ४ १०) ।

(२) खाण्डव : कुरुक्षेत्र का एक प्राचीन वन है । महाभारत तथा तैत्तरीय आरण्यक में इसका उल्लेख मिलता है । यह वन इन्द्र द्वारा रक्षित था । अर्जुन एवं कृष्ण की सहायता से अर्जुन के बाण से अग्नि ने प्रकट होकर वन का दाह किया था । इन्द्र-प्रस्थ नगर इसी भूमि पर बसाया गया था । वन दाह के समय तक्षक नाग की पत्नी का अर्जुन ने वध किया था (आदि० २२३-२२५) । यह आदि-पर्व का एक अवान्तर खाण्डवदाहपर्व है (आदि० : २२१-२२६) ।

पाद-टिप्पणी

२९० 'याता' पाठ-वम्बई ।

पुरपत्तनघोषेषु तदुपल्लववायुना ।
सहस्रसंख्या वेश्मौघास्तद्दिने उज्वलुर्न के ॥ २९१ ॥

२९१. पुर, पत्तन^१ एवं घोषों^२ में उस विप्लव वायु से, उस दिन सहस्र संख्यक कौन से गृह पुंज नहीं जल गये ।

उत्पातवातजातोर्मिमहापद्मसरोन्तरे ।
शतसङ्ख्या दिने तस्मिन् किराताः प्रलयं ययुः ॥ २९२ ॥

२९२. उत्पात वात से उत्पन्न तरंगों के कारण महापद्म सरोवर में उस दिन शत संख्यक किरात^३ नष्ट हो गये ।

वर्णाचारविपर्यासः स मासः कुजवत्सरः ।
पुरश्रीविहितोद्वासे निवासक्षयकार्यभूत् ॥ २९३ ॥

२९३. मंगल वर्ष^१ का वह मास वर्णाचार^२ का विपर्यास एवं पुरश्री के निर्वासन हो जाने पर, निवासक्षयकारी हुआ ।

अथवा पूर्वकर्तृणां जाते पुण्यक्षये सति ।
नवीनकर्तृनिर्माणक्रीत्यर्थं कुरुते विधिः ॥ २९४ ॥

२९४. अथवा पूर्व कर्ताओं के पुण्यक्षय हो जाने पर नवीन कर्ताओं के निर्माण कीर्ति हेतु विधि (इस प्रकार) करता है ।

पाद-टिप्पणी :

२९१. (१) पुर-पत्तन : श्रीदत्त ने सुरपत्तन पाठ मानकर अनुवाद किया है । परन्तु पुर-पत्तन ही ठीक है (पृष्ठ : २३७) । पुर एवं पत्तन में अन्तर है । पुराकाल में पत्तन का अर्थ नगर होता था । कालान्तर में नगरों के नाम के साथ पत्तन जोड़े जाने लगे—आलरापाटन, नग्गीपत्तन, विजगापत्तन, मछलीपत्तन । आधुनिक समय में पत्तनों के समान नगरों का नाम तातानगर, सरदारनगर आदि जोड़ा जाने लगा है । पुर-पत्तन से बड़ी इकाई होती है । पुर आधुनिक सिटी तथा पत्तन टाउन के समान थे ।

(२) घोष : आभीर पल्ली = ग्वालों की

वस्ती अथवा पशुपालकों की आवादी से तात्पर्य है ।

पाद-टिप्पणी :

२९२. (१) किरात = कर्तव्य । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : ५ : ५८ ।

पाद-टिप्पणी :

२९३. (१) मंगल वर्ष : मंगल एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज में आ जाता है तो उसे मंगल वर्ष कहते हैं । मंगल का एक वर्ष ३६० दिनों का होता है ।

(२) वर्णाचार : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश एवं शूद्र वर्णों का शास्त्र-विहित तथा लौकिक आचार ।

निर्मिता तादृशी राज्ञा सा महासदनस्थितिः ।

पुण्यश्रीरिव या स्फीता विभाति नगरान्तरे ॥ २९५ ॥

२९५. राजा ने उस महासदन की स्थिति निर्मित की थी, जो नगर में स्फीत पुण्यश्री सदृश शोभित हो रही थी ।

अचिरात् सा पुरी दग्धा नवीकृतगृहा वभौ ।

भूपं तरुणमेवैक्ष्य विहिता तरुणी प्रिया ॥ २९६ ॥

२९६ शीघ्र ही दग्ध उस पुर के गृह नवीन कर दिये गये और वह तरुण राजा को देख-कर, प्रिय तरुणी सदृश शोभित हो रही थी ।

भूपालदुर्व्यसनजाः प्रभवन्ति दोषा

नाशाय यद्यपि हिमाध्वनि मण्डलेऽस्मिन् ।

अन्योन्यमन्त्रिवरवरैरमुत्थदोषो

राज्यं समस्तमपि नाशयति क्षणेन ॥ २९७ ॥

२९७ हिममार्ग इस मण्डल में यद्यपि भूपालो के दुर्व्यसन से उत्पन्न दोष नाश करने में समर्थ होते हैं, किन्तु परस्पर मन्त्रियों के बैर से समुत्थित दोष क्षणमात्र में समस्त राज्य को नष्ट कर देते हैं ।

शक्तिस्फीतं समुदयलसत्सप्तधात्वङ्गभङ्ग

घत्ते नित्यं यद्यपि सुभगं सर्वकार्यक्षमत्वम् ।

दोषा वातादय इव महामन्त्रिणोऽन्योन्यदुष्टा

यत्रैते स्युर्गलति न चिराद् देहवत् तत्र राज्यम् ॥ २९८ ॥

२९८ समुदय से शोभित 'सप्त धातु' या अग^३ से युक्त शक्ति समृद्धि, सुभग (राज्य या शरीर) यद्यपि सर्वकार्य में सक्षम रहता है, किन्तु जहाँ पर वातादि दोष सदृश परस्पर द्वेषी महामन्त्री होते हैं, वहाँ राजदेह के समान शीघ्र ही गल जाते हैं ।

अत्रस्थैः सर्वदा रक्ष्यः स्वभेदः प्रभविष्णुभिः ।

चार्वाकाणामिवैषां हि भय न परलोकतः ॥ २९९ ॥

२९९ यहाँ के नृपति सर्वदा अपना भेद रक्षित रखें, क्योंकि चार्वाको^१ के समान इन लोगो को परलोक से भय नहीं होता ।

पाद-टिप्पणी

२९८. (१) सप्त धातु सात धातुओं से शरीर रचना हुई है—(१) पित्त, (२) रक्त, (३) मास, (४) वसा, (५) अस्थि, (६) मज्जा, (७) शुक ।

(२) सप्त अग . राज्य के सप्त अग—(१)

स्वामी, (२) अमात्य, (३) राष्ट्र या जनपद, (४) दुर्ग, (५) कोश, (६) दण्ड (सेना) तथा (७) मित्र (द्र० . १ : ७ . ११०, ४ . १४) ।

पाद-टिप्पणी :

२९९ (१) चार्वाक . नास्तिक जडवाद के प्रतिनिधिक आचार्य हैं । बृहस्पति के शिष्य थे ।

ललितादित्यदेवोक्तामिति नीतिं लिलङ्घय ये ।

मिथो वैरं प्रकुर्वन्ति ते नश्यन्तीह मन्त्रिणः ॥ ३०० ॥

३००. ललितादित्य देव की कहीं, इस नीति^१ का उल्लंघन कर, परस्पर वैर करते हैं, वे मन्त्री यहाँ नष्ट हो जाते हैं ।

मलाएसाकदर्यावखानादीनां विरोधतः ।

स्वभेदजर्जरं राज्यं दृष्टं श्रीजैनभूपतेः ॥ ३०१ ॥

३०१. मुल्ला ईसाक^१, दर्याव^२ खान आदि ने विरोध के कारण स्वभेद से जर्जर हुए, राज्य को जैनभूपति के राज्य समान देखा ।

तदाप्रभृति तेनैव दृष्टे नाशेऽत्र मण्डले ।

मन्त्रिणो नैव कस्यापि मत्सरो विरमत्ययम् ॥ ३०२ ॥

३०२. उसके द्वारा इस मण्डल के नाश देखे जाने पर, तभी से किसी का यह मत्सर समाप्त नहीं हुआ ।

अहो द्वेषपिशाचोऽयं रूढो राजसभाशये ।

केनापि मन्त्रिणा नैव जीयते सर्वनाशकः ॥ ३०३ ॥

३०३. आश्चर्य है सर्वनाशक यह द्वेष पिशाच, राजसभा में उत्पन्न हुआ और कोई मन्त्री (उसे) जीत (दबा) नहीं सका ।

वृहस्पति सूत्र जड़वाद का ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ केवल प्रत्यक्ष प्रमाण तथा ऐहिक सुख को ही परम श्रेय मानता है । चार्वाक के अनुसार केवल भौतिक जगत ही सत्य है । पंचमहाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु को ही सत्य मानते हैं । आकाश तत्त्व को नहीं मानते । उनका मत है कि केवल चार तत्त्वों से समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है । आत्मा का अस्तित्व अलग नहीं है । चार भूतों के मिलने के कारण चैतन्य उत्पन्न होता है । मृत्यु पश्चात् जीव नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती । स्वर्ग-नरकादि केवल कवियों की कपोल कल्पनायें हैं । राजा ही परमेश्वर है । कर्मकाण्डादि पुरोहितों के जीविका के साधन हैं । भस्मीभूत देह का पुनरागमन नहीं होता ।

जै. रा. ११

पाद-टिप्पणी :

३००. (१) नीति : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी रा० : ४ : ३४२-३५९ । ललितादित्य के इच्छापत्र या वसीयतनामा की ओर संकेत किया गया है ।

पाद-टिप्पणी :

३०१. (१) ईसाक : इशाहाक या इस्तहाक अरबी नाम का अपभ्रंश है । इस्तियाक का भी अपभ्रंश हो सकता है । सम्भावना इशाहाक की ही अविक है ।

(२) दर्याव : फारसी शब्द दरयाव का अपभ्रंश है । दरियाव अर्थात् नदी के लिये दर्या शब्द प्रचलित है । इसका उल्लेख १ : ७ : ५२ श्लोक में आया है ।

रोगो हतप्रयोगो व्यालो वा धृतमहाविषज्वालः ।

नाग्निस्तादृग् भयकृत् प्रकृतिविरोधो यथा देशे ॥ ३०४ ॥

३०४ असाध्य रोग, महाविष, ज्वाला युक्त सर्प अथवा अग्नि, इतना भयकारी नहीं होता, जितना कि इस देश में मन्त्रियों का द्वेष भयकारी हुआ है ।

अत्रान्तरेऽह्मदायुक्तो युक्तोऽपि नयसम्पदा ।

अधीर इव नाशाय नेयबुद्धित्वमग्रहीत् ॥ ३०५ ॥

३०५ इसी बीच नीति सम्पत्ति से युक्त अहमद आयुक्त भी अधीर सदृश विनाश के लिये नेय^१ बुद्धित्व अंगीकार कर लिया ।

एकदा पितरं पुत्रा विजने नौरुजादयः ।

इत्युबुद्धूषणां ताजिमट्टीयां विभवासहाः ॥ ३०६ ॥

३०६ एक समय विभव को न सह सकनेवाले, नौरुजादि पुत्र अपने पिता से एकान्त में ताजभट्ट के दोषों को इस प्रकार कहे—

निग्रहानुग्रहैकाग्रः समग्रे मन्त्रिमण्डले ।

उग्रो भट्टः प्रजायासैर्देशनाशाय वर्धितः ॥ ३०७ ॥

३०७ 'समग्र मन्त्रिमण्डल में निग्रहानुग्रह, एकाधिकारी, उग्र वह भट्ट प्रजा पीडन द्वारा देश नाश के लिये वर्धित हो रहा है—

तत्रापि दुग्धपितृता राजसूनोर्नृपास्पदे ।

अग्रे ययौ समायोगः सोऽयं दाहाय दुःसह ॥ ३०८ ॥

३०८ नृपास्पद में राजपुत्र के पालन-पोषण का भी अधिकार, उसे (दुग्धपिता-ताजभट्ट) प्राप्त है, यह दु सह योग महान् दाहप्रद है ।

राज्ञीराजावदश्चास्मै सेनानीरयमेव हि ।

प्रबलं बाधते ह्यस्मान् यदि नाय प्रणाश्यते ॥ ३०९ ॥

'३०९ राजा एवं रानी के अनुकूल है, यही सेनापति भी है । यदि यह नष्ट नहीं किया जाता, तो हमलोगों को बहुत कष्ट देगा ।'

पाद टिप्पणी

३०५ (१) नेय जो व्यक्ति अपने बुद्धि में काम करना त्याग देता है तथा दूसरों के सकेत पर यन्त्रवत कार्य करता है, उसकी सजाभूट किंवा नेय बुद्धि से दी जाती है । यहाँ नेय शब्द का प्रयोग बुद्धि के विशेषण रूप में किया गया है । जिसका अर्थ

चपल बुद्धित्व अर्थात् सहज इधर-उधर होनेवाली बुद्धि है ।

यथा—“भूढ परप्रत्ययनेयबुद्धि”

पाद-टिप्पणी

३०८ 'दु' पाठ-बम्बई ।

इत्याकर्ण्य सुतैरुक्तं वैगुण्यादवलोक्य च ।
पुत्रीकृतेऽपि मल्लिकेस्ताजिमदृष्टे व्यरज्यत ॥ ३१० ॥

३१०. इस प्रकार पुत्रों की बात सुन और उसे दोषभाव से देखकर, पुत्र रूप में स्वीकृत भी ताजमदृष्टे से मल्लिके (अहमद) विरक्त हो गया ।

राज्याङ्गानि समस्तानि योऽरक्षत् समया दृष्ट्वा ।
प्राक्पुण्य संक्षयात् सोऽपि शनैरासीत् सखलन्मतिः ॥ ३११ ॥

३११. जिसने समदृष्टि से समस्त राज्यांगों की रक्षा की थी, पूर्व पुण्यभाव के नष्ट हो जाने पर, क्रमशः उसकी वृद्धि स्वल्पित हो गयी ।

स्वार्थं परित्यज्य विभोर्हितं ये
कुर्वन्ति तत्कार्यकृतावधानाः ।
विनाशकाले समुपस्थिते ते
भवन्त्यकस्माद् विपरीतचेष्टाः ॥ ३१२ ॥

३१२. जो लोग स्वार्थ त्याग कर, स्वामी का हित करते हैं और उसके कार्य के लिये सावधान रहते हैं, विनाश काल उपस्थित होने पर, वे लोग अकस्मात् विपरीत चेष्टा करने लगते हैं ।

इति चिन्ताकुलस्तांस्तानुपायान् मल्लिकोऽकरोत् ।
अथैकदाब्रवीद्राज्ञः सभायां मल्लिकः क्रुधा ॥ ३१३ ॥

३१३. इस चिन्ता से व्याकुल मल्लिक तत्-तत् उपायों को करने लगा । एक समय राजा की सभा में मल्लिक ने क्रोध से कहा—

पाद-टिप्पणी

३१०. (१) पुत्रीकृतः दृष्टव्यः : पाद-टिप्पणी :
जैन : ३ : १६२ ।

(२) विरक्त = उदासीन : पीर हसन लिखता है—इसी अर्थाना में मल्लिक अहमद एतू और ताजी-मदृष्टे के अकरंजी वाका हो गयी जिससे एक दूसरे की मुद्दालिखत पर कम्बरवस्ता हो गये । वदई सबद अराकीन सल्लनत के ना वैन भी निजा और जगड़ा पड़ गया (१९०) ।

पाद-टिप्पणी :

३११. (१) राज्यांग : (१) स्वामी (२)

अमात्य. (३) जनपद या राष्ट्र. (४) दुर्ग, (५) क्रोध,
(६) दण्ड या सेना तथा (७) निद्र ।

पाद-टिप्पणी :

३१३. 'प्रभविष्णु रवं राजो दूरीकार्यः कथा-
विद्यां—'प्रभाव्यालो इति राजा से किस वृद्धि से दूर किया जाय ।'

उक्त श्लोक की उक्त प्रथम पंक्ति कल-
कता संस्करण में नहीं है । परन्तु वन्दई संस्करण में
उक्त श्लोक यथावत् है । श्री कण्ठ कौल का मत
वन्दई संस्करण से मिलता है । अनेक पाण्डुलिपियों
में नहीं है । कुछ में है । अतएव विषय को विवादा-
स्पदन बनाने के लिये इसे पाद टिप्पणी में रखकर
अनुवाद कर दिया गया है ।

राज्येनाप्तेन किं राजन्नाक्रान्ता बाह्यभूः परैः ।

चिन्ता कस्यापि नैवास्ति यावत्सर्वं प्रणश्यति ॥ ३१४ ॥

३१४. 'हे राजन् । राज्य प्राप्त करने से क्या लाभ है, जब कि शत्रुओं ने बाहर की भूमि को आक्रान्त कर लिया है । किसी को चिन्ता नहीं है, जब तक सब नष्ट हो रहा है—

वरं स्वयमहं यामि तदाज्ञा दीयतां विभो ।

इति श्रुत्वाब्रवीत् ताजिभट्टस्त साहसोत्सुकः ॥ ३१५ ॥

३१५ 'इसलिये हे प्रभो । अच्छा है कि मैं स्वयं जाऊँ अत आज्ञा दे ।' यह सुनकर साहसोत्सुक ताजभट्ट ने उससे कहा—

यात्रायै दीयताराज्ञा सेनानीर्मत्परोऽधिकः ।

तच्छ्रुत्वा सर्वसामग्रीं दत्त्वा मल्लिकचोदितः ॥ ३१६ ॥

३१६ 'राजा यात्रा (युद्ध) के लिये आज्ञा दे । इस समय मेरे अतिरिक्त और कौन श्रेष्ठ सेनानी है' यह सुनकर मल्लिक प्रेरित राजा ने सर्वसामग्री देकर—

राजा त कटकोपेतं बाह्यदेश व्यसर्जयत् ।

भीत्या प्रीत्या च नीत्या च जग्मुस्तमनु सेवकाः ॥ ३१७ ॥

३१७ सेना सहित उसे बाहर भेज दिया । भीति-प्रीति-नीति के कारण सेवक उसके पीछे—

मधुषा इव गर्जन्तो यातु मधुकरेश्वरम् ।

राजप्रक्रियया रम्यं दृष्ट्वा त व्ययशालिनम् ॥ ३१८ ॥

३१८ उसी प्रकार गरजते हुए चले, जिस प्रकार गूँजते मधुष, मधुकरेश्वर (नायक) के पीछे चलते हैं । राजप्रक्रिया से सुन्दर उसे व्ययशाली देखकर—

नृपा राजपुरीयाद्या बभूवुर्विस्मिताशयाः ।

अन्येऽप्यज्यभदेवाद्याः समस्ताः मद्रमण्डले ॥ ३१९ ॥

३१९ राजपुरी आदि के नृप विस्मित हो गये । मद्रमण्डल में दूसरे अज्यभ (अजय) देव आदि समस्त लोग—

पाद-टिप्पणी

३१५, 'स्वयं' पाठ-बम्बई ।

पाद-टिप्पणी .

३१७ (१) सेना : पीर हसन लिखता है—
ताजिभट्ट ने एक बड़े भारी लश्कर के साथ बागियों के सरकोबी की गरज से चढायी किया (१९०) ।

पाद-टिप्पणी

३१८ (१) भीति आशका, भय, त्रास ।

पाद-टिप्पणी :

३१९ (१) राजपुरी राजौरी । तबककाले अकबरी में उल्लेख है—मलिक अहमद बजीर होने पर मलिक यारीभट्ट, जो उसका प्रिय था, एक

तत्तारखानमुत्सृज्य

तुष्टास्तमुपतस्थिरे ।

तदुपोद्वलिता मद्राः क्षुद्रा विद्रावितारयः ॥ ३२० ॥

३२०. सन्तुष्ट होकर, तातार खां^१ को छोड़कर उसके पास आ गये। उनका समर्थन पाकर क्षुद्रमद्रों ने शत्रुओं को पलायित कर दिया—

देशं तत्तारखानीयं सोपद्रवमचीकरन् ।

दहन् शृगालकोटादौ मस्जेदां खाननिर्मिताम् ॥ ३२१ ॥

३२१. और तातार^१ खान के देश को उपद्रव युक्त कर दिया। शृगालकोट^२ आदि में खान निर्मित मसजिद को जलाते हुए—

वड़ी सेना के साथ दिल्ली की दिशा की ओर राजौरी होते हुए भेजा (४४९ = ६७९-६८०) ।

(२) अजयभदेव = अजयदेव : तबक्काते अकवरी में नाम अजवदेव दिया गया है। उसमें उल्लेख है—‘जम्मू के राजा अजयदेव ने वहाँ पहुँचकर यारी (ताजभट्ट) से भेंट किया’ (४४९) ।

पीर हसन लिखता है—‘अजवदेव राजा जम्मू ने भी पंजाव पर हमला करने के लिये ताजीभट्ट की इमदाद के लिये अपनी फौजों के साथ कर दी (१९०) ।

डोगरी निवन्धावली में जम्मू के एक राजा अजवदेव का नाम लिखा गया है। हमीरदेव के दो पुत्र अजवदेव तथा हासलदेव थे। हासलदेव की सन्तानें सलाथिये राजपूत कहलाये। अजवदेव का राज्यकाल ३१ वर्ष दिया गया है।

फरिश्ता का अभिप्राय मालूम होता है कि मलिक यारीभट्ट ने राजा जम्मू की सेना को सहायता दिया जो पंजाव पर आक्रमण कर रही थी। उसने क्षेत्र को लूट कर स्यालकोट नगर को नष्ट किया। कर्नल ब्रिगस (४ : ४७८) लिखते हैं—आक्रमण राजा जम्मू की प्रेरणा पर हुआ था। राजा का नाम अजीतदेव था। वह मित्र सेना का सेनापति था। वह तातार खां से पराजित हो गया था। जम्मू में घुस आया था, स्यालकोट के नगर को नष्ट किया था। वह काश्मीर सेना के सेनापति का नाम मलिक ताजभट्ट देता है। रोजर्स ने नाम यारीभट्ट दिया है।

उसका मत है कि राजा जम्मू की सहायता के लिये तातार खां के विरुद्ध भेजा गया था, जो काश्मीर की सीमा पर उपद्रव कर रहा था। उन्होंने पंजाव के कुछ भागों को लूटपाट कर स्यालकोट के नगर को नष्ट किया था। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (२८५) में लिखा गया है कि हसनशाह ने यारीभट्ट के नेतृत्व में एक सेना राजा जम्मू से सहयोग के लिये भेजा था कि पंजाव के उत्तरीय क्षेत्रों में लूटपाट करें, जहाँ कि तातार खां लोदी, जो कि सैनिक कौलीन्य का प्रतीक था, और जिसका अध्यक्ष दिल्ली का बहलोल लोदी था। स्यालकोट का नगर लूटा गया और मलिक यारीभट्ट ने लूट का सामान लेकर स्वयं अपना एक दल बना लिया।

पाद-टिप्पणी :

‘तदु’ पाठ—बम्बई ।

३२०. (१) तातार खां : तबक्काते अकवरी में उल्लेख है—मलिक यारी (ताजभट्ट) बहुत बड़ी सेना लेकर, उसकी सहायतार्थ पहुँचा और तातार खां से जो देहली के वादशाह की ओर से पर्वत के अंचल तथा पंजाव की विलायत का हाकिम था, युद्ध किया और उसकी समस्त विलायत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया (४४९-६८०) । किन्तु श्रीवर तातार खां से युद्ध का उल्लेख नहीं करता ।

पाद-टिप्पणी :

३२१. (१) तातार खां : पीर हसन लिखता है—वादशाह देहली की तरफ से पंजाव का हाकिम

सामान्यकुलजोऽप्येव निःसारोऽनुमितो जनैः ।

अचिन्त्यकृतकार्यासीत् स्वामिस्नेहप्रभावतः ॥ ३२२ ॥

३२२ सामान्य कुलोत्पन्न इसको लोगो ने निस्सार (क्षुद्र) माना । यह स्वामी के स्नेह प्रभाव के कारण अविचारित कार्य करनेवाला था ।

पुरपत्तनघोषादीननयत् स्मृतिशेषताम् ।

प्रतापस्तस्य तत्कालं तीक्ष्णांशोरिव दुःसहः ॥ ३२३ ॥

३२३ पुर, पत्तन, घोषा आदि को स्मृतिशेष कर दिया । उस समय सूर्य के समान उसका प्रताप दुःसह हो गया था ।

तत्तद्धिल्यादिदेशस्थराजलोकभयं व्यघात् ।

करदीकृत्य सामन्तांस्तत्साहसनिष्ठुरः ॥ ३२४ ॥

३२४ दिल्ली आदि देश में स्थित राजसमूह को भय प्रदान किया । तत्-तत् साहसपूर्ण कार्यों को करने के कारण निष्ठुर उससे सामन्तों को कर-प्रद बनाकर—

तातार खा ताजीभट्ट से मुकाबिला के लिये सियाल-कोट के हद्द में पहुँच गया । फरीकैन में निहायत खूरेजी जग हुई । उसमें तातार खाँ को शिकस्त हुई । ताजीभट्ट ने उसके मुल्क को बरबाद कर डाला और साथ ही शहर स्यालकोट भी खराब कर दिया (१९०) ।

(२) स्यालकोट सियाल कोट सागल = शाकल इस समय यह पश्चिमी पाकिस्तान में है । प्राचीन नाम साकल है । (मिनान्दर) राजा मिलिन्द की शीतकालीन राजधानी थी । शाकल मद्र देश की राजधानी थी । राजा मिहिर कुल की भी राजधानी थी । मद्रराज शल्य का दुर्ग था । पूर्वकाल में अशोक द्वारा निर्मित २०० फिट ऊँचा यहाँ स्तम्भ था ।

तबकाते अकबरी में उल्लेख है ताजीभट्ट ने— 'स्यालकोट नगर को नष्ट कर दिया (४४९ = ६८०) ।'

बहारिस्तान शाही, तारीख हैदर मल्लिक में

उल्लेख मिलता है कि ताजभट्ट ने स्योलकोट, जो बहलोल लोदी के अन्तर्गत था लूटा । (बहारिस्तान शाही पाण्डु० ५९ ए० तथा पाण्डु० हैदर मल्लिक १२३ बी० तथा १२४ ए०) ।

पाद-टिप्पणी .

३२३ (१) घोषा भ्वालो की बस्ती । प्रचलित नाम एव जाति घोषी, पूर्वकालीन यादव, पशुपालक या अहीर है ।

पाद-टिप्पणी

३२४ (१) दिल्ली जब बहलोल लोदी पञ्जाब का गवर्नर था, तातार खा ने सुना तो एक बड़ी सेना लेकर, काश्मीर पर आक्रमण करने के लिये चला । उसने कुछ गाँवों पर पर्वतमूल में अधिकार कर लिया । किन्तु मार्ग की दुर्गमता के कारण अग्रसर न हो सका (बहारिस्तान शाही पाण्डु० ५९ ए० बी, हसन० पाण्डु० १२३ ए०, हैदर मल्लिक पाण्डु० १२३ बी० १३४ ए०) ।

स्वदेशं प्रत्यगात्तूर्णं पूर्णस्तुरगसम्पदा ।
स्वामिकार्यवशान्मन्त्री पुत्रं पश्यति शत्रुवत् ॥ ३२५ ॥

३२५. तुरग सम्पत्ति से पूर्ण होकर, शीघ्र ही अपने देश लौट गया। स्वामी के कार्य के कारण पुत्र को भी शत्रु समझता है--

शत्रुमप्यतिवैराहं पुत्रवत् परिरक्षति ।
इत्यादिनीतिमुल्लङ्घ्य मल्लिको दैवमोहितः ॥ ३२६ ॥

३२६. और अति वैर के योग्य शत्रु का भी पुत्र के समान रक्षा करता है। इन सब नीतियों का उलंघन कर दैव-मोहित मल्लिक--

तदुत्कर्षासहस्तस्य दर्पनाशोद्यतोऽभवत् ।
सबलो वाघते सर्वान् बाल्लभ्यादिति शङ्कितः ॥ ३२७ ॥

३२७. जो कि उसका उत्कर्ष नहीं सह सकता था, उसका दर्प नाश करने के लिये उद्यत हो गया। राजप्रिय होने के कारण सबल यह सबको दुःख देगा, इस प्रकार शंकित होकर--

मल्लिकस्तं प्रति क्रुद्धो भूषं द्वेषमजिग्रहत् ।
अत्रान्तरे सुतो राज्ञः कनीयान् होस्सनाभिधः ॥ ३२८ ॥

३२८. क्रुध मल्लिक ने उसके प्रति राजा को द्रोहयुक्त कर दिया। इसी बीच राजा का कनिष्ठ पुत्र होस्सन--

पयोदानाय मल्लिकनौरुजाय समर्पितः ।
तेन श्रुतेन तद्भूपविधेयत्वविसूत्रितः ॥ ३२९ ॥

३२९. पालन-पोषण हेतु मल्लिक नौरुज को समर्पित कर दिया गया। यह सुनकर उसकी राज विधेयता विसूत्रित हो गयी।

आगच्छन् कटक्रे भट्टो ययौ मन्दप्रतापताम् ।
तस्य सेनागतस्याथ नेयवुद्धिर्नृपेश्वरः ॥ ३३० ॥

३३०. सेना में आते हुए भट्ट का ताप प्रताप मन्द हो गया था। चंचल बुद्धि राजा ने सेना में आये उसका--

पाद-टिप्पणी :

३२७. (१) नाश : तबक्काते अकवरी में उल्लेख है—कुछ शत्रुता मल्लिक यारीभट्ट तथा मल्लिक अहमद में उत्पन्न हो गयी। वे एक दूसरे का नाश करने पर तुल गये थे (४५०-६८०)। रोजर्स तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री दोनों में उल्लेख किया है कि दोनों दलों में निरन्तर संघर्ष होता रहता था।

पाद-टिप्पणी :

३२८. (१) होस्सन : तबक्काते अकवरी में उल्लेख है—'उसने (सुल्तान) ने अपने दूसरे पुत्र का नाम हुसेन रखकर, मल्लिक नूर विन मल्लिक अहमद को दे दिया। ताकि वह उसका पालन-पोषण करे (४५०-६८०)।

सत्कारं चोदितं तस्मै नाकरोद् विरसीकृतः ।

अथ तस्यापकाराय मल्लिकः स्वयमक्षमः ॥ ३३१ ॥

३३० उत्तम सत्कार नहीं किया । क्योंकि वह उसके प्रति विरक्त कर दिया गया था और मल्लिक उसका कार्य करने में असमर्थ था ।

दध्रे गतानां सैदानां पुनरागमने मतिम् ।

यदोया तनया राजंस्तव पुत्रवती प्रिया ॥ ३३२ ॥

३३२ उसने गये हुए सैदो (सैय्यदो) के पुन आगमन के प्रति विचारशील हो गया— 'हे राजन् ! जिसकी पुत्रवती पुत्री आपकी प्रिया है—

रक्ष्यः श्वशुरपक्षः स कथं नानीयते त्वया ।

इत्यादि प्रेरणाद्राज्ञो राजाराधनतत्परः ।

सोपधीन् व्यसृजल्लेखान् सैदाण्डिल्लीशमण्डले ॥ ३३३ ॥

३३३ 'उस रक्षणीय श्वसुर पक्ष को क्यों नहीं ला रहे हो ?' इस प्रकार की प्रेरणा देकर, राजसेवा में तत्पर उसने प्रवचनापूर्ण लख दिल्लीश^१ मण्डल में सैय्यदो^२ के पास भेजा ।

तस्यैवेति प्रभवति जनो दुर्नयैर्दूषणाद्यै-

रेतद्वुद्धया नयति न वयः स्वं कथं गाढमूढः ।

सर्वा पृथ्वीं जयति न कथं तन्त्रमन्त्रोजितोऽसा-

वित्याशङ्क्यो भवति पुरुषो भाग्नभाग् यावदास्ते ॥ ३३४ ॥

३३४ जब तक पुरुष का भाग्य प्रबल रहता है, तब तक उसी के लोग दुर्नीति-दूषण आदि के कारण ही, प्रभावशाली होते हैं, इस बुद्धि से वह मूढ, अपनी आयु व्यतीत क्यों नहीं करता और तन्त्र-मन्त्र से प्रवृद्ध होकर, वह समस्त पृथ्वी को क्यों नहीं जीत लेता, इस प्रकार वह शकनीय होता है ।

अपकृत्य पुनः सैदान् यदानयति मल्लिकः ।

तेन स्यात् सर्वनाशोऽस्येत्यवदत् तीक्ष्णधीर्जनः ॥ ३३५ ॥

३३५ 'मल्लिक सैय्यदो का अपकार करके, पुन जो दुल्ल रहा है, इसमें इसका सर्वनाश सम्भव है'—यह तीक्ष्ण^१ जनो ने कहा ।

पाद-टिप्पणी

'ढि' पाठ-बम्बई ।

३३३ (१) दिल्लीश वहलोल लोदी (सन् १४५१-१४८९ ई०) दिल्ली का सुल्तान था । इस उल्लेख से पता चलता है कि सैय्यद लोग दिल्ली में निवास करते थे ।

(२) सैय्यद तबकाल अकबरी में उल्लेख

है—सुल्तान ने सैय्यद नासिर, जो कि सुल्तान जैनुल आबदीन का विश्वासपात्र था । दरबार में अपने ऊपर प्राथमिकता देता था । उसे सुल्तान हसन के आदेशानुसार काश्मीर से निर्वासित कर दिया गया था और वह किसी स्थान को चला गया था, उसे बुलवाया गया (४५० = ६८१) ।

पाद-टिप्पणी

३३५ (१) तीक्ष्ण श्रोत ने अनुवाद विन्द-

सैदानयनवृत्तान्तं बुद्ध्यवा श्रीफिर्यडासरः ।

गृहं गत्वाऽह्लादायुक्तं युक्तमित्यब्रवीद् वचः ॥ ३३६ ॥

३३६. सैय्यियों के आगमन का वृत्तान्त जानकर, फिर्य डामर घर जाकर, अहमद आयुक्त से यह उचित ही कहा—

ताजिभट्टो विधेयोऽयं भृत्यवद् वर्तते त्वयि ।

तदेतं रक्ष युक्त्यास्य विधाय मदशातनम् ॥ ३३७ ॥

३३७. 'अनुवर्ती यह ताजभट्ट आपके प्रति स्वयं भृत्यवद् व्यवहार करता है, अतएव युक्ति से इसका मद दूर कर, इसको रक्षा करो ।

मा प्रवेशय सैदांस्त्वं दुर्घरान् देशकण्टकान् ।

तुरुष्कपुष्कलाश्वासान् यत्नान्निष्कासितानपि ॥ ३३८ ॥

३३८. 'तुम दुर्घर (प्रबल) देश के कण्टक, तुरुष्को के लिये पुष्कल^१ (अत्यधिक) आश्वास^२ (सहायक) एवं यत्नपूर्वक निष्कासित भी इन सैय्यियों को मत प्रवेश कराओ ।

एकनाशार्थमिच्छा चेत् सर्वनाशस्तदागते ।

पोतैकहेतोश्चैत्यस्य ज्वलनं किं समर्प्यते ॥ ३३९ ॥

३३९. 'यदि एक के नाश की इच्छा है, तो उनके आने से सर्वनाश ही होगा, एक पोत (पक्षि-शावक) के लिये चैत्^१ (गूलर = औदुम्बर = अंजीर) में क्या आग लगायी जाती है ?

क्षण जन' (सगेत्तियस) किया है परन्तु कल्हण एवं जोनराज ने तीक्ष्णों का अर्थ वच कर्म करनेवाले अथवा हत्यारों से लगाया है । यहाँ अर्थ तीक्ष्णमति या दूरदर्शी होगा क्योंकि तीक्ष्ण शब्द का यहाँ विशेषण है (जोन० : श्लोक ३०५, ५१७) । तीक्ष्ण का एक अर्थ निराश व्यक्ति भी होता है । (काणे० : घर्म० : ६३६) द्र० : ३ : १७६, ४ : २५ ।

मंत्र कोश में तीक्ष्ण के संदर्भ में लिखा है—
विपाजिलो हामिसरे तीक्ष्णमस्त्री खरे त्रिपृ ।

अलिङ्गरे मेह नांशे रत्ने जादिगलस्तने ॥२१५॥

पाद-टिप्पणी :

३३६. 'बुद्ध्यवा' 'य' पाठ-बम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

३३८. (१) पुष्कल : श्रीदत्त ने 'पुष्कर' एवं 'आश्वास' को जातिवाचक शब्द मानकर अनुवाद किया है—तुरुष्क सैय्यियों पुष्कर आश्वासादि को
जै. रा. १२

मत बुलाओ वे शक्तिशाली और देश के लिये कण्टक हैं ।'

पुष्कल का अर्थ प्रचुर, अत्यधिक तथा बहुत होता है—भक्षितेनापि भवता नाहारो मम पुष्कल :
हि० : १ : ८४; मनु० : ३ : २७७ ।

(२) आश्वास : प्रोत्साहन, सन्तोष, भरोसा तथा रक्षा या सुरक्षा का वचन देना होता है—तदिदं द्वितीयं हृदयाश्वासनम्-श० : ७ । नामवाचक शब्द नहीं है ।

पाद-टिप्पणी :

३३९. (१) चैत् : शब्द श्लिष्ट है । अर्थ चैत्य तथा गूलर वृक्ष दोनों होता है । पोत का अर्थ घर तथा पक्षी का वच्चा होता है । एक गृह के लिये क्या समस्त चैत्य (देवस्थान) में आग लगायी जाती है । गूलर वृक्ष पर बैठे एक छोटे पक्षी के वच्चे को मारने के लिये क्या पूरे गूलर वृक्ष में आग

नूनं सपुत्रभृत्यस्य नाशो न भविता चिरात् ।

यत् सैदानयने बुद्धिर्जाता भाग्यविपर्ययात् ॥ ३४० ॥

३४०. 'निश्चय ही पुत्र सहित भृत्य का नाश शीघ्र ही होनेवाला है, भाग्य विपर्यय के कारण जो यह सैय्यदो के लाने की बुद्धि उत्पन्न हुई है—

कृतापकारान् सैदांस्तानानिनीपुर्भवान् यदि ।

विपद्युष्टिं क्षिप स्थाल्यां सान्नायां तत् स्वमृत्यवे ॥ ३४१ ॥

३४१ 'यदि आप अपकारी उन सैय्यदो को लाने की इच्छा करते हैं, तो अन्नभरी थाली में एक मुट्टी विष डाल दीजिए, यह अपने ही मृत्यु की कारण होगी ।

मद्वची गृह्यते सत्यं जम्भन्येन त्वया न तत् ।

विपत्तौ स्मरणीयं स्यान्मयि लोकान्तरं गते ॥ ३४२ ॥

३४२ 'बुद्धिमान तुम मेरी सच्ची बात नहीं ग्रहण करते, तो मेरे परलोक चले जाने पर, विपत्ति में स्मरणीय होगी ।'

श्रुत्वेति मल्लिकः प्राह किं कुर्वन्ति मयि स्थिते ।

एकदा ज्ञातसामर्थ्याच्चाटुकारा भवन्ति नः ॥ ३४३ ॥

३४३ यह सुनकर मल्लिक ने कहा—'मेरे स्थित रहते (वं) क्या करेंगे ? एक बार सामर्थ्य जान जाने पर, चाटुकार हो जायगे ।'

तथेत्युक्त्वा गते तस्मिन् जम्भन्यत्वादृणादृते ।

सैदानयनसङ्कल्पात्न मनाग विरराम सः ॥ ३४४ ॥

३४४. (इसके) बुद्धिमत्ता के कारण, ऋण रहित होकर, उसके चले जाने पर, वह सैय्यदो के लाने के सकल्प से थोड़ा भी विरत नहीं हुआ ।

ज्ञातायतित्वादुपदिष्टमिष्टै-

गृह्णाति वाक्यं न हि नष्टचेष्टः ।

कष्टे निविष्टः स हि वक्ति शोका-

द्विड् मामतिष्ठ न हितोपदेशे ॥ ३४५ ॥

३४५. भविष्य जानने के कारण, इष्टजन्तो का उपदेश वाक्य नष्ट चेष्टा वाला व्यक्ति निश्चय ही ग्रहण नहीं करता और कष्ट पड़ने पर शोक से कहता है—'मुझे धिक्कार है । मैंने उस उपदेश को नहीं माना ।'

लगा दिया जाना उचित है ? एक पक्षी बच्चे की रक्षा के लिये गूलर फल स्थित कोटि-कोटि कीटाणुओं को मारना ठीक होगा ?

पाद-टिप्पणी :

३४१. (१) विष : भावार्थ है । सैय्यदो को

बुलाने की अपेक्षा थाली के भोजन में विष मिलाकर और खाकर आत्महत्या करने के समान है ।

पाद-टिप्पणी .

३४५. 'हा' पाठ-बम्बई ।

ततो लेखान् समालोच्य तस्योत्कण्ठितमानसाः ।

हंसा इवाययुः सैदाः कृतपक्षपरिग्रहाः ॥ ३४६ ॥

३४६. तत्पश्चात् उसके लेखों को देखकर, उत्कण्ठित मानस^१ सैय्यिद हंसों के समान अपना पक्ष परिग्रह कर आ गये ।

अथ प्रथममेवेह स मेयाहस्सनोऽग्रणीः ।

अग्र्याप्तनौरुजायुक्तयुक्तो भूपाग्रमाययौ ॥ ३४७ ॥

३४७. यहाँ विश्वस्त नौरुज आयुक्त सहित अग्रणी वह मेय (मिया) हस्सन^१ पहले राजा के सम्मुख आया ।

विहितान्योन्यकं शंसन् मल्लिकोऽस्मै प्रसन्नधीः ।

खोयाश्रमं प्रदेशं तं स्वकीयं स समार्पयत् ॥ ३४८ ॥

३४८. परस्पर प्रशंसा करते हुए, उस मल्लिक ने प्रसन्न होकर, अपना वह खोयाश्रम^१ प्रदेश, उसे समर्पित कर दिया ।

यत् सैदहस्सनेनापि सिद्धादेशाधिकारिता ।

तस्य तेनैव नाशार्थं सिद्धा देशाधिकारिता ॥ ३४९ ॥

३४९. सैय्यिद हसन ने जो सिद्धादेशाधिकारिता^१ प्राप्त की थी, उसके नाश के लिये देशाधिकारिता सिद्ध हुई ।

क्रमात् समागतैः सैदैराक्रान्ते मण्डले वलैः ।

आभ्यन्तराश्च बाह्याश्च काश्मीरास्तत्रसुर्जनाः ॥ ३५० ॥

३५०. क्रम से आये वली सैय्यिदों से मण्डल के आक्रान्त हो जाने पर, आभ्यन्तरीय एवं बाह्य काश्मीरी जन त्रस्त हो गये ।

पाद-टिप्पणी :

३४६. (१) मानस : मानस यहाँ श्लिष्ट है । मानस का अर्थ मन तथा मानसरोवर दोनों होता है । मानसरोवर की ओर हंस एक साथ समूह में जाते हैं । इसी प्रकार सैय्यिद लोग भी अपने पक्ष के लोगों के साथ समूह काश्मीर में प्रवेश करने लगे ।

पाद-टिप्पणी :

३४७. (१) मेया हस्सन : तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'तदुपरान्त उसने (सुल्तान ने) सैय्यिद हसन वल्द सैय्यिद नासिर को जो ह्यात खातून का पिता था, देहली से बुलवाया और अधिकारों की

बागडोर उसके हाथों में दे दी (४५०-६८१) ।

पीर हसन लिखता है—सुल्तान ने सैय्यिद हसन वल्द सैय्यिद नासिर को जो ह्यात खातून का बाप था, देहली से बुलवाया (१९०) ।

पाद-टिप्पणी :

३४८. (१) खोयाश्रम : द्र० क० रा० : ८ : २६९८ । खुय्यहोम परगना है । उलर लेक का उत्तरी तटवर्ती अंचल तथा उपत्यका, जो यहाँ से आरम्भ होती है । द्र० : ४ : ६२७ ।

पाद-टिप्पणी :

२४९. (१) सिद्धादेश : द्र० : ४ : २०२ ।

सैदांस्तरङ्गितान् दृष्ट्वा तुरङ्गाद् भूपतेर्मतात् ।
 नृप जायाविधेयत्वात् तद्विधेयक्रमागतः ।
 सपुत्रः सोऽहदायुक्तो बभूवानुशयाकुलः ॥ ३५१ ॥

३५१. तुरग से तथा राजा के प्रियपात्रता से सैय्यदो को तरंगित देखकर, स्त्री के अधीन नृपति और उसके वश में स्थित पुत्र सहित अहमद आयुक्त पश्चात्ताप से आकुल हो गया ।

पश्चाद्भवेद्या मनुजेषु बुद्धिः
 कार्ये कृते सा प्रथम यदि स्यात् ।
 मित्रार्पितश्रीः परिभूतशत्रु-
 र्नको भवेत् संततसौख्यभागी ॥ ३५२ ॥

३५२. कार्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात्, जो मनुष्यो में बुद्धि हो जाती है, यदि वह पहले ही, तो मित्र को सम्पत्ति अर्पित कर, शत्रुओं को परिभूत करके, कौन निरन्तर सतत सुख का भोगी नहीं हो जाता ?

अथ सैदाः स्वतन्त्रास्ते कलत्रहरणेच्छया ।
 बन्धन ताजिभट्टाय कर्तुमैच्छंश्छलैपिणः ॥ ३५३ ॥

३५३ छल ढूँढने वाले स्वतन्त्र वे (सैय्यद) उसकी (ताजभट्ट) की स्त्री का अपहरण करने की इच्छा से, उस (ताजभट्ट) को बन्धन में डाल देने की अभिलाषा किये ।

एकदानिष्टमाकर्ष्य स्वात्मनः सैदचिन्तितम् ।
 मल्लेकसदनं प्रायात् ताजिभट्टो भयाकुलः ॥ ३५४ ॥

३५४ एक बार सैय्यद चिन्तित, अपना अनिष्ट सुनकर, भयाकुल ताजभट्ट मल्लिक के घर गया ।

सैदविस्फूर्जितं दृष्ट्वा साशङ्कः सोऽभवद्यदा ।
 स फिर्यडामरो वृद्धस्तत्कालं प्रमयं ययौ ॥ ३५५ ॥

३५५ सैय्यदो की दहाड देखकर, जब वह सशक्त हुआ, उसी समय वृद्ध फिर्य डामर मर गया ।

प्रतिहार्यादिसुकृतैरिह वा परदुर्लभाम् ।
 य एकः सकलश्लाघ्यामलब्धान्त्यक्षणे क्रियाम् ॥ ३५६ ॥

३५६ प्रतीहारी आदि सुकृता (पुण्यो) से इस लोक अथवा परलोक दुर्लभ, सर्वजन प्रशसनीय, सत् क्रिया को अन्तिम क्षण में वह नहीं प्राप्त कर सका ।

तच्छ्रुत्वा नृपतिस्तूर्णं क्रुद्धः सैदप्रतारितः ।

रोद्धुं तद्व्यसृजज् जोनराजानकमुखान् भटान् ॥ ३५७ ॥

३५७. यह सुनकर सैय्यिदों द्वारा प्रतारित राजा क्रुध हो गया, अतएव शीघ्र उसे बन्दी बनाने के लिये जोनराजानक प्रमुख भटों (सैनिकों) को भेजा—

स्वगृहे स्थाप्यतां वद्धो हतस्वो दत्तरक्षकः ।

इत्युक्तो मल्लिकस्ताजिभट्टं तेभ्यः समार्पयत् ॥ ३५८ ॥

३५८. 'घन अपहृत कर, वान्धकर, रखवाली में, उसे उसके घर में ही रखो'—राजा ने आदेश दिया । ऐसा कहे जानेपर, मल्लिक ने ताजभट्ट^१ को सैनिकों के अधीन कर दिया ।

तथैव स्थापितो वद्धः पुण्यशेषतयात्मनः ।

कालं वृच्या कृताप्यायः सकुटुम्बोऽत्यवाहयत् ॥ ३५९ ॥

३५९. अपने पुण्य शेष के कारण, उस प्रकार से बन्दी कर रखा गया, वह वृत्ति द्वारा कुटुम्ब सहित तृप्त होकर, समय व्यतीत किया ।

भूर्यथव्ययपुण्यः स वद्धोऽपि स्वगृहान्तरे ।

सकुटुम्बः सुखं तस्थौ मराल इव मानसे ॥ ३६० ॥

३६०. प्रचुर घन व्यय रूप पुण्यशाली, वह अपने घर में बन्दी होने पर, मानस में मराल सह्य कुटुम्ब में सुखपूर्वक रहा ।

विभवे दानभोगं यः करोति सुकृतेच्छया ।

एतद्भ्रष्टः समाप्नोति भूयस्तद् ताजिभट्टवत् ॥ ३६१ ॥

३६१. जो सुकृत की इच्छा से विभव का दान-भोग करता है, वह इससे रहित होने पर, पुनः उसे ताजभट्ट की तरह प्राप्त करता है ।

एवं मल्लेकाह्वदेन परोद्रेकासहिष्णुना ।

ध्वस्तप्राया व्यधीयन्त सर्वे ते प्रभविष्णवः ॥ ३६२ ॥

३६२. इस प्रकार दूसरे की उन्नति न सह सकनेवाले मल्लिक अहमद ने उन सब प्रभाव-शाली लोगों को ध्वस्तप्राय कर दिया ।

पाद-टिप्पणी :

३५७. 'जोन' पाठ-बन्दी ।

पाद-टिप्पणी :

३५८. (१) ताजभट्ट : तबक़ाते अकबरी में चलेख है—सैय्यिद हसन ने सुल्तान को काश्मीरियों

के विरुद्ध कर दिया । उसके प्रयत्न से अत्यधिक मलिकों की हत्या कर दी गयी । मलिक यारी (ताजभट्ट) बन्दी बना लिया गया (४५०) ।

पीर हसन लिखता है—सुल्तान ने मलिक ताजी बट को भी कैद कर डाला (१९०) ।

कृतापकारी सैदेभ्यो भागिनेयप्रणाशनात् ।

ज्यहाङ्गिरोऽपि मार्गेशो मल्लिके शङ्कितोऽभवत् ॥ ३६३ ॥

३६३ भागनेय का विनाश करने के कारण, सैय्यदो का अपकारी जहाँगीर मार्गेश' भी मल्लिक से शकित हो गया ।

सर्वाधिकारसामग्री स्वपक्षस्य समर्पिता ।

प्रतीहारादिवीरेन्द्राः स्वार्थबुद्ध्या विनाशिताः ॥ ३६४ ॥

३६४ सर्वाधिकारी सामग्री अपने पक्ष को दिया था, और स्वार्थ बुद्धि से प्रतीहारादि श्रेष्ठ वीरो को नष्ट कर दिया था ।

इत्यादिदूषणै राजा मल्लिके विरसोऽभवत् ।

रक्षत्युक्त्या स्वमात्मान कदाचित् कृतदर्शनः ॥ ३६५ ॥

३६५ इन सब दोषों के कारण राजा मल्लिक से विरक्त हो गया । युक्तिपूर्वक अपनी रक्षा करता हुआ, कदाचिद् दिखायी देनेवाला —

नैकत्रावस्थितिस्तिष्ठन् स्वराष्ट्रान्तःस्थितिं व्यधात् ।

अथागात् कुसुमक्रीडां कर्तुं सैदसमन्वितः ॥ ३६६ ॥

३६६ एकत्र न स्थित रहकर अपने राष्ट्र में स्थित रहा । राजा सैय्यद सहित, कुसुम क्रीडा करने के लिये—

भवनोपवन राजा शक्रश्चैत्ररथं यथा ।

विधाय लीलां पुष्पाणां नौकायातो महीपतिः ।

मार्गेशनौरुजायुक्तः पानलीलां व्यगाहत ॥ ३६७ ॥

३६७ भवनोपवन में उसी प्रकार गया जिस प्रकार इन्द्र चैत्ररथ' में पुष्प लीला करके, नौका से आकर, महीपति ने मार्गेश नौरुज के साथ पान लीला की ।

पाद टिप्पणी

३६३ (१) जहाँगीर मार्गेश कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया (२८५) में उसे माकू जाति का नेता लिखा है । यह भ्रामक है । जहाँगीर माकरी' के स्थान पर तदवकाते अकबरी में 'जहाँगीर वाकरी' लिखा गया है । द्र० ३ २३१ ।

पाद-टिप्पणी

३६६ (१) चैत्ररथ कुबर के उद्यान का

नाम चैत्ररथ है । चित्ररथ ने उद्यान का निर्माण कराया था अतएव नाम चैत्ररथ पड़ गया । इसका स्थान इलावरुष के पूर्व में है । (भाग० ३ २३ ४०, ५ १६ १४, ९ १४ २५, मत्स्य० : २७ ४, विष्णु० ४ ६ ४८, वायु० ३६ ११, ४२ १५, ४७ ६, ६९ १३७, ९१ ६, विष्णु० २ २ २५) ।

सर्वे परस्परं क्षीवास्तत्तद्वाचानुवन्धिनः ।

ते वृष्णाय इवान्योन्यं चक्रुर्वाक्छुरताडनम् ॥ ३६८ ॥

३६८. नदमत्त वे सब लोग, परस्पर तत् तत् प्रकार से शब्द प्रयोग करके, वृष्णियों के समान एक दूसरे पर, वाक् वाण प्रहार करने लगे ।

क्षोभे प्रवृद्धे क्रुद्धोऽथ त्यक्तमस्तकवेष्टनः ।

अगात् कर्तुमुपालम्भं नृपो मल्लिकमन्दिरम् ॥ ३६९ ॥

३६९. इस प्रकार क्षोभ बढ़ जाने पर, क्रुद्ध राजा शिरोवेष्टन (पगड़ी) त्यागकर, (नंगे शर) उलहना देने के लिए, मल्लिक के यहाँ गया ।

प्रसादितोऽपि स प्राप राजधानीं क्रुधान्वितः ।

पुत्रदुर्नयजः शोको मल्लिकस्य च मानसम् ॥ ३७० ॥

३७०. प्रसन्न क्रिये जाने पर भी, वह राजा क्रोधान्वित राजधानी गया, और पुत्र की दुर्नीति से उत्पन्न शोक, मल्लिक के हृदय में प्रवेश किया ।

अन्येद्यूरहितास्तस्य राजा विरलमानसः ।

रक्ष्यो नायुक्तपक्षो मे युक्तमित्यब्रवीद्रहः ॥ ३७१ ॥

३७१. दूसरे दिन उदासीन (विरल मानस) राजा ने उसके शत्रुओं से एकान्त में यह कहा—
'आयुक्त पक्ष मेरे द्वारा रक्षा योग्य नहीं है ।

अवश्यमेव छिद्रं तं समासाद्य विरोधिनः ।

अपकाराय संनद्धा देहे दोषा इवाभवन् ॥ ३७२ ॥

३७२. अवश्य ही यह छिद्र (दुर्बलता) पाकर, विरोधी अपकार के लिये, देह में दोष के समान तैयार हो गये ।

राज्ये योसोभखानं चेत् कुर्युः किं क्रियते त्वया ।

एभ्यो नीत्वा तदन्यस्मै देहेनं रक्षणाय भोः ॥ ३७३ ॥

३७३. 'हे ! राजन् !! योसोभखानं' को राज्यासीन कर देंगे, तो तुम क्या करोगे ? अतः उसको इनसे लेकर, रक्षा के लिये दूसरे को दे दो ।'

तथेत्युक्त्वा नृपोऽन्येद्युर्जोनराजानकं द्रुतम् ।

विन्यस्य रक्षणे युक्त्या मल्लिकात् खानमग्रहीत् ॥ ३७४ ॥

३७४. 'ठीक है'—कहकर, राजा ने दूसरे दिन रक्षा के लिये, जोनराजानक को नियुक्तकर, युक्ति से मल्लिक से खान को ले लिया ।

पाद-टिप्पणी :

३७३. (१) योसोभ खान : युसुफ खान ।

मल्लिक अहमद आयुक्त राजा के सबसे कनिष्ठ पुत्र युसुफ का संरक्षक था । युसुफ शब्द बरबी है ।

पुत्रं विन्यस्य भूपाग्रे तद्दिने स्वगृहस्थितः ।

अपकर्तास्मि शत्रूणां प्रातरित्यब्रवीत् प्रियाम् ॥ ३७५ ॥

३७५. पुत्र को राजा के समक्ष रखकर, उस दिन घर रहकर—'प्रातः शत्रुओं का अपकार करूँगा'—अपनी स्त्री से कहा ।

अत्रान्तरे मार्गपतिर्नृपाहूतो बलान्वितः ।

स्वराष्ट्रात् साहसोद्युक्तो नगरे तूर्णमाययौ ॥ ३७६ ॥

३७६ इसी बीच राजा के बुलाये जाने पर, सेना सहित एव साहस युक्त, मार्गपति (जहाँगीर) अपने राष्ट्र से शीघ्र नगर में आया ।

प्रातः श्रुत्वाथ मल्लिकः सबलोऽगान् नृपान्तिकम् ।

रुपा निवृत्तो रुद्धोऽपि चिल्लया दक्षिणस्थया ॥ ३७७ ॥

३७७ प्रातः यह सुनकर, क्रोध से भरा वह मल्लिक सेना सहित, दक्षिण स्थित चील्ह पक्षी द्वारा अवरोध करने पर भी, नृपति के पास गया ।

पादाभ्यां ताडयन् वक्षो गच्छतोऽस्य तुरङ्गमः ।

भविष्यत्स्वामिविरहाच्छुचेवाश्रुमुखोऽभवत् ॥ ३७८ ॥

३७८ जाते हुए, इसका अश्व पैरो से वक्षस्थल ताडन (मारते) करते हुए, स्वामी के भावी विरह के शोक से ही मानो अश्रुमुख हो गया ।

तत्कालोदितसूर्यार्चिःसङ्क्रान्तिज्वलितायुधः ।

नृपाज्ञप्तोऽपि मार्गेशः ससैन्योऽविशदङ्गनम् ॥ ३७९ ॥

३७९ तत्काल उदित सूर्य के किरणों के सम्पर्क से प्रज्वलित (चमकते), आयुध युक्त, नृपादेश प्राप्त, मार्गेश सेना सहित प्रागण में प्रवेश किया ।

पाद-टिप्पणी

३७७ (१) चील्ह चील्ल = चिल्ल । चील पक्षी का दाहिने तरफ से मार्ग काट देना, अशुभ मानते हैं जैसे विल्ली का मार्ग काटना । काश्मीर में अपशकुन माना जाता है । रामायण में वर्णन है कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय, खर के सम्मुख चील्ह आकाश में आ गये थे । हिन्दू आज भी चील्ह का मकानों पर बैठना अशुभ मानते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

३७८ (१) अश्व : यदि घोड़ा चलते समय

अपना पैर उठा-उठाकर छाती से लगा ले या पीटने लगे अथवा रोने लगे, तो वह अपशकुन माना जाता है । घोड़े का रोना अपशकुन होता है । इसका अनुभव मैंने भी किया है । मरे पास एक्का-घोड़ा था । एक समय उसके आँख से आँसू निकलने लगा । कुछ ही समय पश्चात् सईस का देहावसान हो गया । अश्व का अकस्मात् गिरना भी अशुभ माना जाता है (अरण्य० : २३ . २) ।

अन्योन्यस्पर्धया तत्र द्वयोः प्रविशतोस्तदा ।

संनद्वयो राजधानी ययौ संभ्रमलोलताम् ॥ ३८० ॥

३८०. उस समय परस्पर स्वर्वापूर्वक सन्नद्ध, दोनों के वहाँ प्रवेश करने पर, राजधानी संभ्रम से चंचल हो उठी ।

सशस्त्रोऽयं प्रविष्टः किमित्यामुक्तः स भाङ्गिलम् ।

अदापयज् ज्यंसराय मार्गेशाय नृपः क्रुधा ॥ ३८१ ॥

३८१. इसने सशस्त्र क्यों प्रवेश किया, इसलिये आयुक्त ने क्रोध से भांगिल^१ प्रदेश-राजा स जंसर^२ मार्गेश को दिला दिया ।

तावन्निर्गत्य भीतेन राजा स प्रेरितस्ततः ।

पुरान्तरग्रन्थनां कृत्वा ससैदः पुनराययौ ॥ ३८२ ॥

३८२. भीत राजा से प्रेरित वह, वहाँ से निकलकर, नगर के मध्य मोर्चाबन्दी करके, सैय्यदों सहित पुनः आ गया ।

निर्मुच्य वन्धनात् ताजिभट्टं राजानकान्वितः ।

राजधान्यङ्गनास्कन्दं ददौ जिष्णुर्ज्यहाङ्गिरः ॥ ३८३ ॥

३८३. राजानक सहित विजयी जहाँगीर ने ताजभट्ट को बन्धन से निर्मुक्त करके, राजधानी आँगन रौंद डाला ।

प्रेरितास्ताजिभट्टेन तद्भूटाः समरोद्यताः ।

पश्चिमद्वारधानीं तां राजधान्यामदाहयन् ॥ ३८४ ॥

३८४. ताजभट्ट द्वारा प्रेरित, समर के लिये उद्यत, उसके सैनिक राजधानी में पश्चिम के द्वार-भाग को जला दिये ।

सोऽग्निर्हस्सनराजानकावासान्तं क्षणान्तरात् ।

सोऽग्निगारां गृहश्रेणीं दग्धारण्यमिवाकरोत् ॥ ३८५ ॥

३८५. उस अग्नि ने क्षणभर में हस्सन राजानक के आवास पर्यन्त, उच्च आगारवाली गृहपंक्ति को दग्ध^३ कर अरण्य सदृश कर दिया ।

पाद-टिप्पणी :

३८१. (१) भांगिल : यह वर्तमान परगना बांगिल है । भांगिल का अपभ्रंश बांगिल है । परिहास-पुर के पश्चिम-दक्षिण स्थित है । आइने अकबरी में इसे बंकाल लिखा गया है । अमेन्ट ने लोकप्रकाश में २७ विषयों अर्थात् परगनों में भांगिल की भी गणना की है । द्र० : पाद-टिप्पणी : जौन० : इलोक : २५१

ज. रा. १३

तथा राज० : ७ : ४९८; ८ : ९२९; ३१३०

तथा शुक० : १ : ६८ ।

(२) जंसर : जमशेद फारसी नाम का संस्कृत रूप है ।

पाद-टिप्पणी :

३८५. (१) दग्ध : तबक्काते अकबरी में

इन्द्रवासोपमा वेश्मरचना ज्वलिता श्रुता ।

दूरस्थितानामप्यन्तः सन्तोषमुदपादयत् ॥ ३८६ ॥

३८६ इन्द्रवास समान वेश्म रचना को जली हुई सुनकर, दूरस्थ लोगो के भी मन में असन्तोष उत्पन्न कर दिया ।

तद्धूमस्तोमसंधट्ज्वालाजालगतोष्मणा ।

सर्वेऽन्तःस्थाः कटाहान्तर्जीवन्मत्स्योपमां दधुः ॥ ३८७ ॥

३८७ उसमें धूमपुञ्ज सहित ज्वाला समूह की गर्मी से, सभी अन्तःस्थित लोग, कडाही^१ के अन्दर जीवित मत्स्य^२ तुल्ल, जलने (छटपटाने) लगे ।

अङ्गनेऽग्निं समालोक्य ज्वलन्तं राजसन्नानि ।

समीतिर्नृपतिर्भीतो विह्वलः समपद्यत ॥ ३८८ ॥

३८८ राज सन्न के प्रागण में जलती अग्नि^१ देखकर, राजा भय से विह्वल हो गया ।

उष्णायमानमार्गेषु स्फुरन्तोऽपि युयुत्सवः ।

न केऽपि शेकुस्तान् योद्घुं तद्भाग्यैर्यन्त्रिता इव ॥ ३८९ ॥

३८९ गरम होते मार्गेश, स्फुरित होते युद्धेच्छुक लोग, उनके भाग्य से नियन्त्रित सदृश होकर, उन लोगो से युद्ध न कर सके ।

स्वभृत्यांश्चलितान् दृष्ट्वा पुत्रोत्सेवावशेषितः ।

बभूव मल्लिकस्तत्र किंकर्तव्यतयाकुलः ॥ ३९० ॥

३९० अपने भृत्यो को भागा देखकर, पुत्रो सहित अवशेष मल्लिक, यहाँ किंकर्तव्य विमूढ हो गया ।

उल्लेख है—'वे एक रात्रि में सेना एकत्र कर सुल्तान के दीवानखाने में पहुँचे और उन्होंने लूटमार आरम्भ कर दी और आग लगा दी (४५०) ।

पाद-टिप्पणी

'तद्धूम' पाठ—बम्बई ।

३८७ (१) कटाह कडाही शि० ५

३७, नं० : २२ ३२ ।

(२) मत्स्य मत्स्य का जीवन जल है । जल एवं अग्नि परस्पर विरोधी है । मछली जल से निकलने पर, जीवन आशा खो बैठती है । अग्नि पर जलती कडाही में डालने पर, वह प्राणरक्षा हेतु अधीन होकर, छटपटाने लगती है । इसी की उपमा

उन व्यक्तियों से शीघ्र ने दिया है, जो घरो में आग लग जाने के कारण बाहर न निकल कर और प्राण रक्षा हेतु अधीर हो उठे थे ।

पाद-टिप्पणी

३८८ (१) अग्नि - तबक्काते अकबरी में उल्लेख है—अजीम लडाइयाँ हुईं जब कि एक रात को अपने आदमियों को एकत्रित कर, सुल्तान के राज-प्रासाद में घुसकर, उत्पात मचाया और आग लगा दिया । वहाँ पर सरकारी कामों में बहुत विघ्न पड गया (४५० = ६८१) ।

पाद-टिप्पणी

३९०. उक्त श्लोक का पाठ विचारणीय है ।

पुत्राः कुर्वन्तु मा युद्धं राज्यं नश्यति भूयतेः ।

अयं राजास्य देशस्तु रक्षितो दश वत्सरान् ॥ ३९१ ॥

३९१. 'पुत्रगण युद्ध करें, राजा का राज्य नष्ट हो जायगा, यह राजा है, इसका यह देश है, दश वर्षों तक इसे रक्षित किया है ।

तत् कथं नाश्यते युद्धादस्मिन् विषमविग्रहे ।

तत्रापि ज्येष्ठः पुत्रो मे तदस्थोऽरिषु मध्यगः ॥ ३९२ ॥

३९२. 'इस विषम युद्ध में युद्ध से उसे क्यों नष्ट किया जा रहा है, उसमें भी मेरा ज्येष्ठ पुत्र, जो कि शत्रु मध्य है, तटस्थ है—

अनिष्टं नीरुजाद्या मे लभन्तेऽस्माद्रणक्षणे ।

वरं ममेव नाशोऽस्तु नाकीर्तिं वार्द्धके सहे ॥ ३९३ ॥

३९३. 'रण काल में मेरे नीरुज आदि का अनिष्ट होगा, अच्छा है, मेरा ही नाश हो, वृद्धावस्था में अकीर्ति नहीं सहूंगा ।'

इति ध्यात्वात्रयीत् पुत्रान्न योद्धव्यमिहासत ।

इत्युक्त्वा गलितोत्साहो नृपं शरणमाययौ ॥ ३९४ ॥

३९४. यह विचार कर, उसने अपने पुत्रों से कहा—'लड़ो मत, यहाँ रहो'—ऐसा कहकर निरुत्साह होकर, राजा के शरण आ गया ।

मण्डपे राजधान्यां स राजा विन्यस्य रक्षिणः ।

स्नेहादरक्षदायुक्तान् पूर्वसेवामनुस्मरन् ॥ ३९५ ॥

३९५. वह राजा राजधानी के मण्डप में रक्षकों को रखकर, प्रेम के कारण, पूर्व की सेवा का स्मरण कर, आयुक्तों की रक्षा की ।

आयुक्तनत्यक्राद्यास्ते ज्ञात्वा भूपं तदाश्रितम् ।

युद्धाशक्ताश्च निर्गत्य भुङ्क्षुदेशान्तरं ययुः ॥ ३९६ ॥

३९६. युद्ध में असमर्थ, आयुक्त नत्यक्र आदि राजा को उसके आश्रित जानकर, निकलकर भुङ्क्षु देश चले गये ।

पाद-टिप्पणी :

३९१. (१) दश वर्ष : हसनगाह सन् १४७२ ई० में राज्य प्राप्त किया था अतएव यह समय सन् १४७२ ई० + १० वर्ष = सन् १४८२ ई० होना चाहिये । द्र० : ३ : ४०२ ।

पाद-टिप्पणी :

३९२. 'पु' पाठ—दम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

३९६. 'नत्य' पाठ—दम्बई ।

(१) नत्यक्र : इसका पुनः उल्लेख नहीं मिलता ।

(२) भुङ्क्षुदेश : द्र० : १ : १ : ५१, ८२;

३ : ३२; ३ : ३९५, ४३९ ।

अथोत्तरदिशा द्वारधान्या मान्या जयोद्यताः ।

ज्यहाङ्गिराद्या गर्जन्तः प्राविशन्त नृपाङ्गनम् ॥ ३९७ ॥

३९७ उत्तर के द्वार से मान्य एव जयोद्यत जहाँगीर आदि गरजते हुए, नृपागण में प्रवेश किये ।

रणदुन्दुभिनिःस्वानप्रतिश्रुत्यारवच्छलात् ।

अहसद्राजधानीव तुष्टा तत्साहसक्रमात् ॥ ३९८ ॥

३९८ रण दुन्दुभी^१ के शब्द की प्रतिध्वनि के व्याज से, राजधानी उसके साहस से तुष्ट होकर, मानो हँस रही थी ।

राजदर्शनतुष्टानामुत्कृष्टानां जयार्जनात् ।

प्रापुः प्रसादं तत्कालं मनांसि च वपूंसि च ॥ ३९९ ॥

३९९ राजदर्शन से तुष्ट तथा जय-प्राप्ति से उत्कृष्ट जनो के मन एव शरीर तत्काल प्रसन्न हो गये ।

प्रातः सपुत्रं मल्लिकं तत्तत्सेवकसंयुतम् ।

क्रुद्धैस्त्वैश्चोदितो राजा कारागारान्तरैश्क्षिपत् ॥ ४०० ॥

४०० क्रुद्ध उन लोगो द्वारा प्रेरित होकर, राजा ने तत्-तत् सेवको के साथ पुन सहित मल्लिक को प्रातःकाल कारागार^१ में डाल दिया ।

पाद-टिप्पणी

३९८ (१) दुन्दुभी नगाडा, धौसा, ढक्क, विजय, हर्ष, उत्साह, भगल समय में दुन्दुभी वजाने की प्रथा थी ।

विजय दुन्दुभितामयुर्णवा -रघु० ९ ११, तव देवन दुन्दुभी वजाई-(तुलसीदास) । मख कोश में दुन्दुभी का अर्थ दिया गया है-आभेर्या दुन्दुभि स्त्री स्यादसविन्दुत्रिक द्वये । श्लोक ५६१ ।

पाद-टिप्पणी

४००. (१) कारागार : आधुक्त अहमद के कारागार में जाने तथा इस घटना का काल सुल्तान के राज्यप्राप्ति काल के १० वर्ष पश्चात् पड़ता है (जैन० : ३ : ४०२) । सन् १४७२ ई० में हसन

शाह ने राज्यप्राप्ति किया था अतएव यह काल सन् १४८२ ई० होना चाहिये ।

फिरिश्ता लिखता है—मल्लिक अहमद के राज्य-प्रासाद में ससैन्य प्रवेश कर, अपमान करने के कारण सुल्तान ने मल्लिक को कारागार में डाल दिया (४७९) । तबककति अकबरी में भी यही लिखा गया है—सुल्तान ने मल्लिक अहमद आसू को उसके सैनिको के साथ बन्दी बना लिया (४५०) ।

पीर हसन लिखता है—एक रात जमात इकट्ठी करके दीवानखाना शाही में लड़ने लगे और शाही महल को आग लगा डाली । इस चीज के पेश-नजर सुल्तान ने मल्लिक अहमद येत् को व मय उसके हमसाइयों को कैद करके उसका माल व असबाब गारत करा दिया (१९०) ।

आयातायुक्तसदनाद् भीतेवातिव्ययादिभिः ।

अकरोद्राजलक्ष्मीः सा स्वगृहे सुखसुप्तिकाम् ॥ ४०१ ॥

मल्लिक-कोश हरण :

४०१. अति व्यय आदि के कारण भयभीत-सी, आयुक्त सदन से आयी हुई वह राजलक्ष्मी अपने स्वगृह^१ में शयन की ।

तेषां राजविरुद्धानां दासकायस्थपीडनात् ।

सञ्चितं रौप्यकुप्यादि सर्वं तद् राजसादगात् ॥ ४०२ ॥

४०२. उन राज-विरोधियों का दासो एवं कायस्थों के पीड़न से संचित, रौप्य^१ एव कुप्य^२ आदि सब कुछ नृपाधीन हो गया ।

यन्मन्त्रात् समयः स जैननृपतिः श्रीहाज्यशाहेऽभवद्

यन्नीत्या दशवत्सरीं गतभयः पुत्रोऽस्य राज्यं व्यधात् ।

यातास्ते स्मृतिशेषतां यदमता ब्रह्मामखानादयः

सोऽपि व्याकुलतामगाद् रिपुभये धिग् वैभवं स्वामिनाम् ॥ ४०३ ॥

४०३. जिसकी सलाह से, वह जैन नृपति श्री हाजी खाँ से भी भयभीत हो गया था, जिसकी नीति से, इसका पुत्र दश वर्ष^१ तक निर्भय होकर राज्य किया, जिसके प्रतिकूल बहराम खाँन आदि स्मृति-शेष हो गये, वह भी शत्रु भय आने पर, व्याकुल हो गया । स्वामियों के वैभव को धिक्कार है ।

तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—सुल्तान ने मलिक अहमद असवद तथा उसके कुछ सम्बन्धियों को बन्दी कर लिया और उसकी जायदाद लूटपाट करने के लिए छोड़ दी गयी । वह स्वयं कैद में मर गया (४५० = ६८१) ।

पाद-टिप्पणी :

४०१. (१) स्वगृह : राज धन या सम्पत्ति जो कुछ आयुक्त अपने पद का लाभ उठाकर, अपने घर ले गया था, राजा ने उसे—उससे लेकर, पुनः उसे उसके पूर्व स्थान राजकोश किंवा राजभवन में रख दिया ।

पाद-टिप्पणी :

४०२. (१) रौप्य : चान्दी : रजत । रूप्य एवं कुप्य शब्दों का प्रयोग पुनः ४ : ५१६ में श्रीवर ने किया है ।

(२) कुप्य : सोना तथा चान्दी के अतिरिक्त अन्य धातु । द्र० : ४ : ७१, ५१६ ।

पाद-टिप्पणी :

'समय', 'वत्सरी' पाठ-वम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

४०३. दश वर्ष : सन् १४८२ ई० । द्र० : ३ : ३९० ।

एकदा जुगभट्टस्त बन्धने प्रष्टुमभ्यगात् ।

अयन्त् किमस्ति ते स्वर्णं तूर्णं राज्ञे समर्प्यताम् ॥ ४११ ॥

४११. एक बार जुगभट्ट^१ बन्धन में उससे पूछने के लिये गया और (कहा)—‘जो तुम्हारे पास स्वर्ण है, वह सब राजा को समर्पित कर दो ।’

क्रुद्धस्तमब्रवीद् द्रव्यकोटिसख्य हृत मम ।

एतावतापि नो तृप्तिः प्रभोर्लुब्धस्य विद्यते ॥ ४१२ ॥

अहमद मल्लिक का पश्चाताप

४१२ क्रुध होकर, उससे कहा—‘मेरा कोटि सख्यक धन हर लिया, इतने पर भी लोभी राजा को तृप्ति नहीं है ?’

किं ब्रूमो राज्यरक्षार्थं स्वपक्षो नाशितोऽखिलः ।

शक्तेनापि न युद्धाय सोढ तत् तुमुलेऽन्तरे ॥ ४१३ ॥

४१३ ‘क्या कहे—राज रक्षा हेतु अपना सम्पूर्ण पक्ष नष्ट कर दिया और युद्ध के लिये समर्थ होने पर भी उसमें सब कुछ सहा ।’

कांदिशीकाः समानीय सैदाः संवर्धिता मया ।

द्रोगधारस्तेऽपि मे जाताः कृतधनेऽस्मिन् महीयतौ ॥ ४१४ ॥

४१४ ‘भयभीत दिशाओ में भागे हुए, सैथियदो को लाकर, मैंने सम्बर्धित किया, इस राजा के कृतघ्न होने पर, वे भी मेरे द्रोही हो गये ।’

सर्वं मद्योजित राज्यमन्ध तावत् करोत्वसौ ।

पुनश्चेद् भुज्यतां राज्य मन्नाशान्मुदितस्तु सः ॥ ४१५ ॥

४१५ ‘मेरे द्वारा योजित, सम्पूर्ण राज्य को वह अन्धकारपूर्ण (नष्ट) कर दे और यदि पुनः राज्य भोगे, तो मेरे नाश से वह प्रसन्न हो ।’

पाद्व जाति का राग है । गान समय मध्याह्न काल है ।

(३) वेश्या रस वेश्या का स्नेह प्रीति अथवा उससे प्राप्त होनेवाला सुख, कामक्रीडा आदि । वेश्या-सुख का अनुभव या आनन्द ।

(४) राज स्थिरता राजा में स्थिरता का अभाव पाया जाता है । उसका विचार परिस्थितियों,

मन्त्रियों, पशुनो विटो, स्वार्थियों के कारण बदलता रहता है ।

पाद-टिप्पणी

४११ (१) जुगभट्ट इस व्यक्ति का केवल इसी स्थान पर उल्लेख किया गया है । इसके विषय में और कुछ ज्ञात नहीं है ।

पाद-टिप्पणी

४१५ ‘राजमन्ध’ पाठ—बम्बई ।

दशवत्सरपर्यन्तं राज्यतन्त्रनियन्त्रणा ।
मदीयासीद् भवे दग्धे यदीदृश्यपि तद्विभुः ॥ ४१६ ॥

४१६. 'इस तुच्छ संसार में इस प्रकार दश वर्षों तक राजतन्त्र का नियन्त्रण मेरे हाथ में रहा, उससे विभू स्वामी—

तुष्यत्वस्मत्प्रणाशेन मयि लोकान्तरं गते ।
इत्याद्युक्त्वा नृपाग्रे स स्वविज्ञप्ति व्यसर्जयत् ॥ ४१७ ॥

४१७. 'हमलोगों के नाश होने से, मेरे लोकोत्तर चले जाने पर, प्रसन्न हो'—इस प्रकार कहकर, राजा के समक्ष अपनी विज्ञप्ति प्रेषित की ।

घिङ्मां येन गृहीतं न वचनं दीर्घदर्शिनः ।
श्रीफिर्यडामरेशस्य निनिन्दात्मानमन्वहम् ॥ ४१८ ॥

४१८. 'मुझे विक्रार है, जिसने दीर्घदर्शी श्री फिर्य डामरेश की बात नहीं मानी'—इस प्रकार प्रतिदिन अपना निन्दा की ।

यद्यहं सुविशुद्धोऽस्मि तन्मद्द्रोहकरा अमी ।
मार्गेशताजिभट्टाद्या लभन्त्वल्पदिनैः फलम् ॥ ४१९ ॥

४१९. 'यदि मैं सुविशुद्ध हूँ, तो मेरा द्रोह करनेवाले, ये मार्गेश ताजि भट्टादि थोड़े ही दिनों में (इसका) फल पायें ।'

इत्यादि दुःखदग्धः स बन्धनस्थो यदन्नवीत् ।
अचिरात् तत्फलं दृष्ट्वा सारश्चर्यो भविता जनः ॥ ४२० ॥

४२०. बन्धन में स्थित, दुःख से दग्ध, वह इस प्रकार जो कहा, शीघ्र उसका फल देखकर, लोग आश्चर्य में पड़ गये ।

पाद-टिप्पणी :

४१६. (१) दश वर्ष : वन्दी बनाये जाने तथा उक्त घटना का वर्ष श्रीवर ने नहीं दिया है । राजा ने बारह वर्ष, पाँच मास राज्य किया था । उसकी मृत्यु लौकिक ४५६० = सन् १४८४ ई० में हुई थी । इस समय में २ वर्ष, पाँच मास निकाल दिया जाय, तो उक्त घटना का समय निकल जाता है. रा. १४

है । यदि सन् १४७२ ई० में वैशाख मास में १० वर्ष जोड़ दिया जाय तो यह काल सन् १४८२ ई० के लगभग होता है ।

पाद-टिप्पणी :

४१८. (१) बात : फिर्य डामर तथा बहमद आयुक्त का संवाद । द्र० : जैन० : ३ : ३३४-३४२ ।

इत्थं निद्रोहवृत्तेऽस्मिन् सपुत्रे मल्लिकाक्षदे ।
नाशितेऽन्ये व्यजृम्भन्त रालप्राया नृपास्पदे ॥ ४२१ ॥

४२१ इस प्रकार निर्दोही पुत्र सहित, मल्लिक बहमद के नष्ट कर दिये जाने पर, अन्य द्रष्ट लोग राजगृह में उल्लसित हुये ।

पाजभट्टादयो लुब्धाः सैदानामधिकारिणः ।
प्रमेयान् पीडयामासुर्दुष्टा देहमिवामयाः ॥ ४२२ ॥

४२२ सैथ्यदो के अधिकारी लोभी एव दुष्ट पाजभट्टादि प्रमेयो^१ को उसी प्रकार पीडित किया, जिस प्रकार रोग देह को ।

आनन्दपुष्पदीन्नारखण्डप्राप्त्यादिनामभिः ।
सैदाधिकारिणश्चक्रुः प्रजायासैर्धनार्जनम् ॥ ४२३ ॥

४२३ सैथ्यदो के अधिकारी जन 'आनन्द पुष्प', 'दीनार खण्ड' की प्राप्ति आदि नामों से प्रजा पीडनपूर्वक धन अर्जित किये ।

श्रीज्यहाङ्गिरमाग्नेशनोसराजानकादयः ।
मधाविव द्रुमाश्चित्रपत्रास्ते शिश्रियुः श्रियः ॥ ४२४ ॥

४२४ वसन्त ऋतु में विचित्र पत्र युक्त द्रुमों के समान श्री जहाँगीर मार्गेश, नोसराजानक आदि श्रीसम्पन्न हो गये ।

मल्लेकपदवीं मल्लां श्रीमेयाहस्सनोऽभजत् ।
नाग्रामग्रामराष्ट्रादि तदीय तद्वदग्रहीत् ॥ ४२५ ॥

४२५ श्री मेया हस्सन^१ ने मल्लिक की पदवी 'मल्ला' प्राप्त किया और उसका नाग्राम^२ आदि उसी प्रकार ले लिया ।

पाद टिप्पणी

४२१ 'निद्रोह' पाठ—बम्बई ।

सुल्तान ने बहमद आयुक्त के स्थान पर प्रधानमन्त्री किंवा वजीर बनाया ।

पाद टिप्पणी

४२२ (१) प्रमेय = जागीर श्रोतृ ने प्रमेय का अर्थ जनता किया है ।

फिरिस्ता लिखता है—तथापि सुल्तान ने उस (सैथ्यद नासिर) के कुटुम्ब की क्षतिपूर्ति किया । उसने उसके पुत्र को दिल्ली से बुलाकर वजीर बनाया (४७९) ।

पाद टिप्पणी

४२५ (१) मेया हस्सन पूरा नाम सैथ्यद हसन वैहकी है । सुल्तान का स्वसुर था । उमे

(२) नाग्राम द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० २ १० ।

समृत्यपुत्रवर्गेभ्यः प्रमेयान् विभजन्नवान् ।

स मेयामहदायार्थधनराष्ट्रं समर्पयत् ॥ ४२६ ॥

४२६. उसने भृत्य सहित पुत्र वर्गों को नये प्रमेयों को देकर, मेया (मीया) महदा को अर्ध-वन^१ राष्ट्र समर्पित कर दिया ।

स्वायत्तीकृतभूपास्ते सैदा जयविश्रुङ्खलाः ।

दूतान् विसृज्य चतुरमानिन्युः सैदनासिरम् ॥ ४२७ ॥

४२७. राजा को स्वाधीन कर, विजय से विश्रुङ्खलित, सैय्यिद दूतों को भेजकर, सैय्यिद नासिर^१ को ले आये ।

प्राप्ते पश्चालदेवाग्रं तस्मिन् शूरपुराध्वना ।

ज्वरस्तद्दृश्यं पूर्वं पश्चात् स पुरमाविशत् ॥ ४२८ ॥

४२८. शूरपुर^१ अर्धवन मार्ग से पाञ्चाल देव^२ के सम्मुख पहुँचने पर, पहले ज्वर ने उसके हृदय में प्रवेश किया, उसके पश्चात् पुर में प्रवेश किया ।

पौत्रीजामातृसम्बन्धिवान्यथाः सर्वमन्त्रिणः ।

अपुनःसङ्गमायेव सर्वेषां दर्शनं दधौ ॥ ४२९ ॥

४२९. पौत्री जामाता, सम्बन्धी, वान्यव एवं सब मन्त्री उन सबका पुनः समागम न प्राप्त के लिये ही, मानो दर्शन किया ।

पाद-टिप्पणी :

४२६. (१) अर्ध : नराज किंवा नदव राज्य का अर्धवन अर्धदिन परगना है । जोनराज, अट्टल फजल ने आइने अकबरी, नूरुलफत, हुगेल, वाइन तथा वेल्स ने गजेटियर में इसका उल्लेख किया है ।

अर्धवन यदि पाठभेद मान लिया जाय तो अर्ध होगा । अर्धवन राष्ट्र समर्पित किया ।

कलकत्ता संस्करण में अर्ध-वन राष्ट्र पाठ है । जिसका अर्थ होता है कि आधा वन एवं राष्ट्र समर्पित किया । किन्तु इस प्रकार का उल्लेख अन्यत्र प्राप्त नहीं होता । बन्दई श्लोक ४११ तथा कलकत्ता पंक्ति ४२५ में अर्धवन शब्द दिया गया है । राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह देशवाचक शब्द हो जाता है । 'व' तथा 'व' अक्षरों में लिखने से बहूद कम अन्तर मालूम पड़ता है । प्रसंगान्ति के कारण इस शब्द का 'अर्धवन' पाठ ठीक प्रतीत होता है । किन्तु कलकत्ता एवं बन्दई दोनों में अर्धवन है । अतएव पाठ में

अर्धवन ही दिया गया है ।

पाद-टिप्पणी :

४२७. (१) नासिर : पीर हसन लिखता है—'कुछ मुहत्त बाद सुल्तान हसनशाह ने सैय्यिद नासिर वैहकी को हिन्दुस्तान से बुलवाया (१९७) ।'

४२८. (१) शूरपुर : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : १ : १०७ ।

(२) पाञ्चाल देव : पञ्चाल अथवा पाञ्चाल अथवा पन्तञ्चाल अथवा पीर पञ्चाल या पीर पन्तञ्चाल का नाम पाञ्चाल था । पञ्चाल स्थानीय नाम पीर पञ्चाल दर्रे का है । पाञ्चाल देव पीर पञ्चाल का ही एक नाम है । नामों के मूसलिम करण के उम्नाद में देव का नाम पीर तथा पञ्चाल का पञ्चाल या पन्तञ्चाल बना दिया गया ।

पाद-टिप्पणी :

४२९. 'मायेव' पाठ—बन्दई ।

तदर्थमिव संप्राप्तो मृतकल्पो दिनद्वयम् ।

अतिवाह्य ज्वराक्रान्तः स्वगृहे पञ्चतां ययौ ॥ ४३० ॥

४३० इसीलिये मृतकल्प^१ सदृश वहाँ पहुँचा और ज्वराक्रान्त दो दिन तक वित्ताकर, अपने घर ही पञ्चतां^२ प्राप्त किया ।

मल्लिको बन्धनस्थः सन्त्रस्तः पुत्रप्रवासनात् ।

तत्तच्छोकामयग्रस्तः सोऽप्यस्वस्थो व्यपद्यत ॥ ४३१ ॥

४३१. बन्धन^३ में स्थित एव पुत्र प्रवासो से सन्त्रस्त, तत् तत् शोक-रोग से ग्रस्त, वह मल्लिक भी अस्वस्थ होकर, मर गया ।

बद्धस्यापि मृतिं तस्य श्रुत्वा मन्त्रिशिरोमणेः ।

देशे सरुदिताक्रन्दं शुशोच सकलौ जनः ॥ ४३२ ॥

४३२. बन्धन प्राप्त भी, उस मन्त्री शिरोमणि का मरण सुनकर, देश में सब लोग, रोदन क्रन्दनपूर्वक, शोक प्रकट किये ।

सत्कार्यभाजां महतां वियोगाद्

भवन्ति नीचाः पदवीषु योग्याः ।

प्रकाशकेऽस्मिन् द्युमणौ प्रयाते

भवन्ति दीपाः शरणं प्रजानाम् ॥ ४३३ ॥

४३३ सत्कार्य के पात्र महान् लोगो का वियोग होने से, नीच जन पदवियों के योग्य हो जाते हैं, प्रकाशक इस सूर्य के चले जाने पर, दीपक ही प्रजाओ को शरण देता है ।

पाद-टिप्पणी

४३० मृत कल्प मृतप्राय = बेहोश । तब-वृत्ताते अकवरी में उल्लेख है—'संमिद नासिर जब पीर पजाल दरें के समीप पहुँचा, तो उसकी मृत्यु हो गयी (४५०) ।'

फिरिस्ता कुछ असगत बात लिखता है—'सुल्तान का एक स्नेहपात्र संमिद नासिर जो जैनुल थावदीन के दरबार में ख्याति प्राप्त कर लिया था, वह इस तरह निष्काशित कर दिया गया था, कुछ समय पश्चात् मर गया (४७९) ।'

पीर हसन का वणन भिन्न है—'(संमिद नासिर) संमिद मजकूर ज्यों ही पीर पजाल के

पास पहुँचे, इत्तकाल मर गये (१९०) ।'

(२) पचता मरना या शहीद के पाँचों तरवो का विघटित हो जाना ।

पचभिनिमित्ते देहे पचत्व च पुनर्गते, स्वा स्वा योनि मनुप्राप्ते तत्र का परिवेदना ।—रत्न० ३ ३

पाद-टिप्पणी

४३१ (१) बन्धन = मृत्यु । तबवृत्ताते अकवरी में उल्लेख है—'उसकी बन्दीगृह में मृत्यु हो गयी (४५०) ।'

पीर हसन लिखता है—'और उस (अहमद एतू) को जेलखाना में (सुल्तान) ने मरवा डाला (१९०) ।'

दुहितृभाग्यसौभाग्यसंग्राप्तविभवोर्जिताः ।

सैदाः काश्मीरिकान् सर्वान् न तृणायाप्यजीगणन् ॥ ४३४ ॥

सय्यदों का उन्माद :

४३४. पुत्री^१ (ह्यात खातून) के भाग्य रूप सौभाग्य से, सम्प्राप्त विभव से उर्जित, सैय्यद सत्र काश्मीरियों को तृण वरावर भी नहीं समझते थे ।

याभृत् सैदमुखादाना निर्यान्ती स्वार्थलिप्सया ।

रानस्तदर्थनिष्ठस्य प्रतिश्रुतेषु सामवत् ॥ ४३५ ॥

४३५. स्वार्थलिप्सा के कारण सैय्यदों के सुख से जो आज्ञा निकलती थी, वह उन्हीं का काम देखनेवाले राजा की सहमतिपूर्ण सद्भा होती थी ।

सैदेषु द्वैधनिष्ठेषु क्षान्तिशीले महीपतौ ।

प्रवलासु च नारीषु कौऽप्यजृम्भत विप्लवः ॥ ४३६ ॥

४३६. दो भागों में निष्ठ सैय्यदों में तथा शान्त शील राजा में नारियों का प्रवल प्रभाव होने पर, कोई विप्लव उठ खड़ा हुआ ।

उत्क्रोचग्रहणं धर्मः प्रजापीडा च कौशलम् ।

स्त्रीषु च व्यसनं सौख्यममन्यन्ताधिकारिणः ॥ ४३७ ॥

४३७. अधिकारियों ने उत्क्रोच ग्रहण करना धर्म, प्रजापीडन कौशल, स्त्रियों में व्यसन सुख माना ।

प्रातिवन्धिकनिर्वृत्या स्वाच्छन्द्यप्राप्तिदर्पितः ।

स मेयाहस्सनः सर्वतन्त्रेभ्यो यन्त्रणां व्यधात् ॥ ४३८ ॥

४३८. प्रतिवन्धिकों के समाप्त हो जाने से, स्वाच्छन्द्यता की प्राप्ति से, दर्पित उस मीया हस्सन ने सर्वतन्त्रों (अधिकारियों) को यन्त्रणा दी ।

प्रवर्धमानो राज्ञः स गनैराक्रान्तमण्डलः ।

ग्रहाधिपत्यं सर्वेषां राहुच्छायामित्राकरोत् ॥ ४३९ ॥

४३९. राहु^१ की छाया की तरह बढ़ता हुआ वह वीरे-वीरे समस्त मण्डल पर आक्रान्त हो गया और सबका आविपत्य करने लगा ।

पाद-टिप्पणी :

४३४. 'दुहितृ' पाठ-चन्द्रई ।

पाद-टिप्पणी :

४३५. 'श्रुतेषु' पाठ-चन्द्रई ।

पाद-टिप्पणी :

४३८. 'स्वाच्छन्द्यं' पाठ-चन्द्रई ।

(१) सर्वतन्त्रः : तन्त्र प्रशासकीय व्यक्तियों को कहते हैं । परन्तु दक्षिण-भारत में तन्त्र का अर्थ सेना भी लगाया जाता है यहाँ सेना प्रशासकीय वर्ग से जातर्य है ।

पाद-टिप्पणी :

४३९. (१) राहु : पाप या क्रूर ग्रह है ।

अथ सूक्ष्मवृहद्भुट्टदेशान् सैदा जिगीपया ।

श्रीज्यहाङ्गिरनासेरौ यात्रायै द्वौ व्यसर्जयन् ॥ ४४० ॥

४४० सैय्यदो ने सूक्ष्म (छोटे^१) एव वृहद (बड़े^२) भुट्ट देश को जीतने की इच्छा से जहाँगीर एव नासिर^३ इन दोनों को आक्रमण के लिये भेजा ।

उभावेकत्र गच्छावो यद्यावां कर्म सेत्स्यति ।

इति मार्गपतेर्वाक्यं सैदौ नैवान्वतिष्ठताम् ॥ ४४१ ॥

४४१. 'यदि दोनों एक जगह चलते हैं, तो हम दोनों का कार्य सिद्ध होगा—' मार्गपति के इस वाक्य को दोनों सैय्यद नहीं माने ।

तयोर्देशं विजित्यैकः सयशाः प्राविशत् पुरम् ।

अन्यो विशङ्कितो वद्धो युक्त्यात्मानमरक्षत ॥ ४४२ ॥

४४२. उन दोनों में से एक ने देश को जीतकर, यश सहित पुरी में प्रवेश किया, शक्ति दूसरा बन्दी हो गया और युक्ति से अपनी रक्षा किया ।

निपत्य पश्चाद् भुट्टैर्यत् सेनायाः कदनं कृतम् ।

कालापेक्षानुरोधेन न मनाग् वर्णनं कृतम् ॥ ४४३ ॥

४४३ पीछे से आकर, भुट्टो ने जो सेना का विनाश किया, समय के अनुरोध^१ से उसका थोड़ा भी वर्णन नहीं किया ।

उसकी छाया या प्रभाव बुरा माना जाता है । राहु बड़ा प्रबल ग्रह है । उसकी दशा में लोग अनेक विपत्तियों में पड़ते हैं ।

पाद-टिप्पणी

४४० (१) भुट्टदेश सूक्ष्म बालतिस्तान ।

(२) भुट्टदेश वृहद : लह्याख ।

(३) नासिर सैय्यद नासिर का इस समय देहान्त हो चुका था । यह व्यक्ति सैय्यद हमन होना चाहिए । श्री मोहिवुल हसन का यही मत है । किन्तु नासिर कोई और भी व्यक्ति हो सकता है । श्रीवर स्वयं श्लोक में सैय्यद नासिर जो सुलतान का ददिया स्वसुर उल्लेख किया है । (श्लोक ४२९) श्रीवर इन घटनाओं का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी था अतएव केवल दश ही श्लोक पश्चात् उसे जीवित लिख देना सम्भव नहीं था । वह वृद्ध था और वृद्ध योग्य था भी नहीं ।

उसका भेजा जाना सम्भव नहीं था । यह नासिर कोई और व्यक्ति था ।

पाद-टिप्पणी :

४४२. (१) इस युद्ध का काल सन् १४८३ ई० माना जाता है । फारसी इतिहासकारों के अनुसार सैय्यद हसन ने बालतिस्तान पर आक्रमण कर जीत लिया था । वहाँ के सरदारों को जीतकर थीनगर लौटा ।

जहाँगीर पराजित हो गया था । वहाँ के शासक लह्वेन भगन (सन् १४७०-१५०० ई०) ने जहाँगीर को पराजित किया था । भौट्टो ने सेना के पृष्ठभाग में आक्रमण किया था । (इडिप्पन एण्टीक्रेरी : २ १९१ सन् १९०८ ई०) ।

पाद-टिप्पणी :

४४३. (१) अनुरोध . परिस्थितियों के कारण

बहुरागादयस्तस्य सेवका वृद्धभूजः ।

केचिज् ज्युल्च्याणभुट्टाजिवहौ शलभतां गताः ॥ ४४४ ॥

४४४. उस वृद्ध भूपति के बहुराग आदि कुछ सेवक ज्युल्चा^१ एवं भुट्ट^२ के युद्धाग्नि में सलभ बन गये ।

पूर्वापकारस्मरणात् सैदास्ते रन्ध्रलब्धिताः ।

नोस्सराजानकं रुद्धदर्शनं तं न्यवारयन् ॥ ४४५ ॥

४४५. रन्ध्र^१ (दुर्बलता) का लाभ उठाकर, सैद्यिदों ने पूर्व उपकार का स्मरण कर, उस राजानक को निवारित कर दिया जिसको राजदर्शन करने से वंचित कर दिया गया था ।

तेभ्यः स्वानिष्टमाशङ्क्य निजरक्षणदक्षघीः ।

युक्त्या तद्दर्शनो राज्ञो राष्ट्रं मार्गपतिर्ययौ ॥ ४४६ ॥

४४६. उनसे अपने अनिष्ट की आशंका करके, निज रक्षण में दक्ष बुद्धि मार्गपति, उसके दर्शन हेतु युक्ति से राजा के राष्ट्र में गया ।

से श्रीवर वर्णन करना उचित नहीं समझता । वह घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था अतएव परिस्थितियों से बाध्य होकर, उसने सत्य बात कहना उचित नहीं समझा क्योंकि उस पर तथा अन्य लोगों पर उसके कथन के कारण विपत्ति किंवा संकट आ सकता था ।
पाद-टिप्पणी :

४४४. (१) ज्युल्च्या : जुलजू = जुलजू = दुलुचा : दलचा = दुलच्छा = जुलू = जुल कदर खां : एक ही शब्द के पर्यायवाची नाम जोनराज के परवर्ती इतिहासकारों ने दिया है । दुलुचा आक्रमक काश्मीर मण्डल में जोजिला दर्रे द्वारा प्रवेश किये थे । मंगोल आक्रमक थे । दुलुचा आक्रमण का काल सन् १३१९ ई० माना जाता है । जुलुचा लोगों ने भयंकर अत्याचार किया था । उनके अत्याचार की कहानी प्रत्येक इतिहासकार वर्णन करता है । जुलुचा आक्रमण के समय काश्मीर में किञ्चितमात्र प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं रह गयी थी । जुलुचा ने मनमाना लूटपाट किया । काश्मीर मण्डल त्याग कर बाहर निकल गया ।
द्र० . जोन० : श्लोक : १५६ ।

(२) भुट्ट : जुलुचा आक्रमण के उत्तरार्ध-काल में रिचन भीहकी जोजिला दर्रा से काश्मीर

मण्डल में प्रवेश किया था । रिचन ने काश्मीर का त्याग लूटपाट कर नहीं किया बल्कि रामचन्द्र की हत्या कर, काश्मीर के सिंहासन को हस्तगत कर लिया । यह पहला विदेशी काश्मीर के ज्ञात पाँच हजार वर्षों के इतिहास में है, जिसने काश्मीर में विदेशी शासन की नींव डाली । सन् १३२० ई० में वह काश्मार का राजा बन गया । तत्पश्चात् शाह-मीर सन् १३३९ ई० में कोटा रानी की हत्या कर, काश्मीर का राज्य हस्तगत कर स्वयं प्रथम मुसलिम सुल्तान बन गया । परिणाम हुआ कि कालान्तर में समस्त काश्मीर मुसलमान हो गया और हिन्दू राज्य सर्वदा के लिए लोप हो गया ।
द्र० : १ : १ : ५१; ८२ ।

पाद-टिप्पणी :

४४५. (१) रन्ध्र = छिद्र = खाई = दरार । बलहीन या अरक्षित स्थान जहाँ से सरलतापूर्वक आक्रमण, ब्यूह, दुर्ग, मोर्चेबन्दी में प्रवेश किया जा सके ।—रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्थो—श० : ६, रन्ध्रान्वेषण दक्षाणं दिपायामिषताययौ—रघु० : १२ : ११ : १५ : १७; १७ : ३१ ।

ततः सैदेष्वनष्टेषु प्रजानाशनकारिषु ।

आशङ्क्यानिष्टमात्मीयं युक्त्या राजाग्रमायधौ ॥ ४४७ ॥

४४७. सैय्यदो के प्रजा का नाश करते रहने पर, अपने अनिष्ट की आशका करके युक्ति से राजा के सम्मुख आया ।

एकदा रहसि क्षमापमव्रवीत् स ज्यहाङ्गिरः ।

राजन् सैदा यदानीता अमी निष्कासिता अपि ॥ ४४८ ॥

जहाँगीर की चेतावनी :

४४८ उस जहाँगीर ने एक समय एकान्त में राजा से कहा—हे राजन् ! निष्कासित भी यह सैय्यद जो—

सोऽयं निष्कण्टके देशे स्वस्यानर्थः स्वयं कृतः ।

यथैव राज्ययोग्यस्त्वं पौत्रः श्रीजैनभूपतेः ॥ ४४९ ॥

४४९ 'इस निष्कण्टक में ले आये गये, यह स्वय अपना ही अनर्थ किया गया । जिन प्रकार श्री जैनभूपति के पौत्र तुम राज्य के योग्य हो—

दौहित्रोऽपि तथैवास्थ प्राप्तो भेयाभहम्मदः ।

सैदास्ते सर्वदा शङ्क्यास्तुरुष्काश्चस्तमानसाः ॥ ४५० ॥

४५० 'उसी प्रकार उसका दौहित्र मिया मुहम्मद भी आ गया । तुरुष्को से आस्वस्थ मन-वाले वे सैय्यद सर्वदा शकनीय हैं—

गृध्रा इवामिषे राज्ये ये लुब्धाः सन्ति संततम् ।

न युक्तैकप्रियासक्तिर्वहुभावस्य ते विभो ॥ ४५१ ॥

४५१ मास पर गृध्र की तरह राज्य पर जिनकी लुब्ध दृष्टि सदैव रहती है । हे राजन् ! बहुभाव वाले आपके लिये एक प्रिया के प्रति आसक्ति ठीक नहीं है—

एकवल्लीरतो भृङ्गः सततं केन शस्यते ।

यदि जायाविधेयत्वं न स्यात् तव महीपते ॥ ४५२ ॥

४५२ 'एक वल्ली में निरन्तर रत भृङ्ग' की कौन प्रशंसा करता है । हे नृप ! यदि तुम स्त्री के आधीन न होते—

पाद-टिप्पणी .

४५१. उक्त श्लोक में प्रयुक्त भाव के स्थान पर भार्या का अर्थ प्रसङ्गोचित प्रतीत होता है ।

पाद-टिप्पणी .

४५२ (१) भृङ्गः भौरा • घमर । इसका

अर्थ लम्पट एवं कामुक भी होता है । लम्पट अथवा कामुक जिस प्रकार एक ही नारी से सम्पर्क न रख कर परनारी के पीछे दौड़ता रहता है, उसी प्रकार भृङ्ग केवल एक पुष्प पर न गुनगुना कर, अनेक पुष्पों पर गुंजन करता फिरता है ।

—भृङ्गो पुष्पं पुष्पं स्त्रीं वाछति नवं नवम्

सर्वं सिद्धयति कार्यं तत् स्त्रीजितो मा भव प्रभो ।

मया त्वद्राज्यरक्षार्थं स्वरक्षार्थं च गम्यते ॥ ४५३ ॥

४५३. 'तो तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो जाता । अतः हे प्रभु ! स्त्रीवश वशीभूत मत हो । मैं तुम्हारे राज्य और अपनी रक्षा के लिये—

वहिर्देशो ह्यतः स्वात्मा रक्षणीयो यथा तथा ।

इति श्रुत्वा तथेत्युक्त्वा राजा रात्रौ प्रियान्तिके ॥ ४५४ ॥

४५४. बाहर के देश जा रहा हूँ । अतः यथा कथंचि अपनी रक्षा कीजिए ।' यह सुनकर—
'ठीक है', कहकर, रात्रि में प्रिया के निकट—

तदुक्तमब्रवीत् सर्वं स्नेहमोहवशीकृतः ।

तेन मार्गपतेः क्रुद्धा भोगिनीषु भयावहा ।

अनिष्टं चिन्तयन्त्यासीत् पितृपक्षमतादृता ॥ ४५५ ॥

४५५. मोह के वश होकर, उसकी कही सब बातें (रानी से) कह दिया । इससे भयावह सर्पिणी के समान क्रुद्ध होकर, पितृपक्ष में आदरभाव वाली, वह मार्गपति का अनिष्ट चिन्तन करने लगी ।

पुरुषानवधीर्यं यत्र नारी

प्रभवत्येव जितप्रिया स्वतन्त्रा ।

कुपितेव तदीक्षणाद् विशिष्टा

न चिरं तिष्ठति तत्र राज्यलक्ष्मीः ॥ ४५६ ॥

४५६. प्रिय को जीतकर, स्वतन्त्र नारी पुरुषों को उपेक्षा कर, जहाँ प्रभावशाली हो जाती है, उसे देखने से कुपित-सी होकर के, विगिष्ट राज्यलक्ष्मी चिरकाल तक वहाँ नहीं रहती ।

अमुञ्चद् वल्लभापार्वं तत्पक्षानुग्रहग्रहः ।

मल्लिकार्जुनदवद्राज्यं तदायत्तं ततोऽङ्करोत् ॥ ४५७ ॥

४५७. उस (नारी) के पक्ष के ऊपर अनुग्रह युक्त होकर, (रानी) के पास से वह गया, और मल्लिक अहमद के समान राज्य उनके आधीन कर दिया ।

जहाँगीर का बहिर्गमन :

सैदैभ्योऽनिष्टमाशङ्क्य त्रस्तो राश्या विरुद्धया ।

कार्कोटद्रङ्गमार्गेण मार्गेशः सवल्लो ययौ ॥ ४५८ ॥

४५८. सैय्यिदों से अनिष्ट की आशका कर, और विरुद्ध रानी से त्रस्त, मार्गेश सेना सहित कार्कोट द्रंग^१ मार्ग से चला गया ।

पाद-टिप्पणी :

४५३. 'ह्यतः' पाठ—बन्वई ।

जै. रा. १५

पाद-टिप्पणी :

'रोश्या' पाठ—बन्वई ।

४५८. कार्कोट द्रंग : द्रंग शब्द द्वार का अप-

सर्वां कुटुम्बसामग्रीं भाङ्गिलान्तरतो नयन् ।

गच्छन् दुर्गममार्गेण न स धैर्याद् व्ययुज्यत ॥ ४५९ ॥

४५९. सब कुटुम्ब सामग्री भाङ्गिल^१ के अन्दर से लेकर, दुर्गम मार्ग से गमन करते हुए, जहाँ-तहाँ वह धैर्यच्युत नहीं हुआ ।

तद्राज्यसिन्धुर्विपुलः

समृद्ध्या

व्यलक्षि

यः

संभृतवाहिनीकः ।

परस्पराभात्यविरोधवात्या-

विक्षोभितोऽभूत्

स

विकीर्णरत्नः ॥ ४६० ॥

४६० वाहिनी से पूर्ण एव समृद्धि से विपुल, उसका राज्य रूप समुद्र, जो देखा गया था, वह मन्त्रियों के परस्पर विरोध रूपी ववडर से विक्षोभित हो उठा और रत्न^१ राशि विखर गये ।

भ्रश हैं । तीस मैदान प्रवेश मार्ग पर यह सैनिक अथवा पहरे किवा सुरक्षा की चौकी थी वीर परगना में यह वर्तमान गाँव द्रग है । द्वार के स्थान पर पुराने पहरे का मीनार खड़ा था । इस समय दरखल अर्थात् फाटक या दरवाजा का स्थान कहा जाता है । तीस मैदान से कर्कोट द्रग होता मार्ग लोहर जाता था । कार्कोट नाम एक पर्वत वाहुमूल के कारण पड़ा है । उसे आज कार्कोटर कहते हैं । इस पर्वत के किनारे-किनारे ६ मील तक मार्ग जाकर, काश्मीर उपत्यका की ओर दर्रा से उतरता है । काश्मीर में पहाड़ों के नाम के 'दर' लगा देते हैं । दर शब्द घर का अपभ्रश है । घर का अर्थ पहाड़ या पर्वत होता है । द्र० क० रा० : ७ . १४०; ८ १९९७ ।

पाद-टिप्पणी :

४५९. (१) भाङ्गिल : द्र० : पाद-टिप्पणी :

जै० . ३ : ३८० ।

पाद-टिप्पणी .

४६० (१) रत्न . राज्य के सर्वोच्च अधिकारी रत्नी किवा रत्न कहे जाते थे । अकबर के नवरत्न प्रसिद्ध हैं । भारतवर्ष की सर्वोच्च पदवी भारतरत्न है । राजा के ग्यारह रत्नियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है । कालान्तर में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ, परन्तु बहुधा सभी ग्रंथों में रत्नियों का वर्णन एक-सा ही है—(१) सेनापति, (२) पुरोहित, (३) राजमहिषी, (४) सूत ग्रामणी, (५) क्षत्ता, (६) सगृहीता, (७) अक्षावपि, (८) भागदुध, (९) गोविकर्तन, (१०) दूत, (११) परिवृत्ति । (शतपस-ब्राह्मण० . ५ : ३ : २, तैत्तरीय ब्राह्मण० : १ : ७ : ३) ।

रत्नियों को राज्य का दाता कहा गया है । कालान्तर में कुछ उक्त पदाधिकारी तीर्थ कहे जाने लगे । उनकी संख्या अट्ठारह तक हो गयी थी ।

साम्ना दैन्यमुदारदानविधिना वित्तप्रकर्षक्रिया
मेदाद् पैशुनकर्म मर्मदलनं युद्धेन नाशो विशाम् ।
इत्यालोच्य विरोधिषु प्रतिदिनं वर्धत्स्वशक्ते प्रभौ
देशत्यागमुपायमेकमुचितं कोऽप्युत्तमो गाहते ॥ ४६१ ॥

४६१. साम^१ से दैन्य^२ का, उदार दान विधि से धन का प्रकर्ष,^३ पारस्परिक भेद से मर्म-घाती पैशुन कर्म, युद्ध द्वारा प्रजा का विनाश आदि का विचार कर, विरोधियों में प्रतिदिन राजा की शक्ति के बढ़ जाने पर, एक मात्र उचित उपाय देश त्याग को, कोई एक उत्तम पुरुष मानता है ।

आयुक्तपक्षनाशेन पश्चात्तापाहतो नृपः ।
मार्गपत्यादिनाशेन क्षते क्षारमिवान्वभूत् ॥ ४६२ ॥

४६२. आयुक्त पक्ष के नाश के कारण पश्चात्ताप से आहत, नृप मार्गपति आदि का नाश होने से, क्षत पर क्षार^१ (कटे पर नमक) सदृश, दुःख अनुभव किया ।

मार्गेशाद्यैर्विना राजा सर्वसैदान्वितोऽपि सन् ।
स्वात्मानं गणयामास यूथभ्रष्टमिव द्विपम् ॥ ४६३ ॥

४६३. समस्त सैय्यियों से समन्वित होने पर भी, राजा मार्गेश आदि जनों के बिना, अपने को यूथ भ्रष्ट सदृश माना ।

मार्गपत्यन्वये जाताः प्रतीहारान्वये च ये ।
ठक्कुरान्वयजाः कोशाध्यक्षजा अपरे च ये ॥ ४६४ ॥

४६४. मार्गपति^१, प्रतीहार^२, ठक्कुर^३ वंश में जो लोग उत्पन्न थे, दूसरे कोशाध्यक्ष के सन्तान में—

पाद-टिप्पणी :

४६१. (१) साम : द्र० : १ : ७ : ८३; २ : १८७ ।

(२) दैन्य : दयनीय, दरिद्रता एवं अहंकार का प्रतिकूल भाव है—दरिद्राणां दैन्यम्—गंगा २ ।
—इन्दोर्दैन्यं त्वदनुसरणं क्लिष्टकान्तेर्विभर्ति—मेघ० ७४ ।

(३) प्रकर्ष : श्रेष्ठता, प्रमुखता, तीव्रता, प्रबलता—प्रकर्षं गतेन शोकसन्तानेन : उत्तर० : ३ ।

पाद-टिप्पणी :

४६२. (१) क्षतैक्षार : कटे पर नमक छिड़कना प्रचलित मुहावरा है । संस्कृत में भी प्रचलित है—क्षतैक्षारमिवासह्यं जातं तस्यैव दर्शनम्—उत्तर० : ४ : ७; क्षारं क्षते प्रक्षिपन—मृच्छ० : ५ १८ ।

पाद-टिप्पणी :

४६४. (१) मार्गपति : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी जैन० : १ : १ : ८८ ।

(२) प्रतीहार : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : १ : ८८ ।

स्वस्वपक्षोजिताः पूर्वे येऽभवन् विजयोजिताः ।

नष्टमन्त्रविरोधेन शतैकीयोऽवशिष्यते ॥ ४६५ ॥

४६५. पहले के जो लोग अपने अपने पक्ष में प्रवृद्ध एवं विजयोजित हो गये थे, दुर्मन्त्र एवं विरोध के कारण, उन संकड़ों में कुछ एक बचे ।

तस्मिन् याते बहिर्वर्षत्तुपारं प्रसभ नभः ।

भाग्याधिकोऽयं सर्वेभ्यो विशां चिच्छेद संशयम् ॥ ४६६ ॥

४६६. उसके बाहर चले जाने पर, जोगी की तुपार वृष्टि करते नभ ने—'सबों की अपेक्षा वह अधिक भाग्यशाली है, प्रजाओं के इस शंका को दूर कर दिया ।'

हिमानीपातभारेण येऽवसन्नत्र मण्डले ।

ययुर्निश्छायतां वृक्षा भग्नशाखा जना इव ॥ ४६७ ॥

४६७. इस मण्डल में जो लोग रहते थे, वे हिमपात के भार में भग्न शाखावाले वृक्षों के समान, छाया रहित हो गये ।

प्राक्चेत् पतेद्दिग्धम तावन्म्रियेरन् व्रुडिताः क्षणात् ।

पिष्टराभ्यर्गताटाः प्रविष्टा इव तद्भटाः ॥ ४६८ ॥

४६८. पिष्टर में प्रविष्ट चूहे सदृश, गर्त में छिपे, उसके भट्ट यदि पहले हिमपात हुआ होता, तो क्षणभर में सब डूब मरते ।

तेनैकेन विना सर्वहृदयाह्लाददायिना ।

नाशोभत सभा राजश्चन्द्रेणेव कुमुद्वती ॥ ४६९ ॥

४६९. सबके हृदय के आह्लाद देनेवाले, उस एक के विना, राजा की सभा उसी प्रकार शोभित नहीं हो रही थी, जिस प्रकार चन्द्रमा के विना कुमुदिनी ।

तटस्थो भृत्यकार्येषु सैदभार्याविधेयधीः ।

विस्मृत्प्रव्यवहारस्त्र निन्द्यत्वं चागमन्नृपः ॥ ४७० ॥

४७०. सैथियदो एवं भार्या के आधीन बुद्धि, राजा भृत्य कार्यों में तटस्थ और उसका व्यवहार विस्मृतकालित और निन्दनीय हो गया था ।

(३) टक्कुर द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन०

१ १ ४४ तथा जान० दलाक ६८८ तथा ७१६ ।

धोमेन्द्र ने लोकप्रकाश में टक्कुरों (छात्रों) के विषय में लिखा है—टक्कुरों नापितृवैव मङ्गल्यार्पि कुशाग्रधी ।

विशाखपुर कर्मजो वाक्छुत्ते वैदिः मतम् ॥

पृष्ठ ५३ ।

पाद-टिप्पणी

४६९ (१) कुमुदिनी : कमल सूर्य के प्रकाश

में खिलता है और चन्द्रज्योत्स्ना में कुमुदिनी विक-

सित होती है—यथेन्द्रावानन्द व्रजति सम्पुणे कुमु-

दिनी—उत्तर० ५ २६, शि० : ९ ३४ ।

स्वराज्यरक्षणचारलक्षणाननशासनः ।

निन्दन् दास्यं सर्वैर्जातं प्रियेक्षणकृतक्षणः ॥ ४७१ ॥

४७१-स्वराज्य रक्षण के आचार लक्षण में उसका शासन अक्षम था और प्रिया को वेदना ही, उसका उत्सव था और वह सर्वैक वक्षता को निन्दा करता था ।

निग्रहानुग्रहव्यग्राः सत्कोचग्रहत्तराः ।

अन्तरङ्गाः स्त्रियोभूवन्न नन्त्री न च सेवकः ॥ ४७२ ॥

४७२-निग्रह एवं अनुग्रह में व्यग्र, उत्कोच ग्रहण में तत्पर, स्त्रियाँ अन्तरंग थीं, न कि नन्त्री और सेवक ।

भोगलोभोऽज्जिगोचित्या अर्ना विन्दन्ति साम्प्रतम् ।

तुल्यकपुष्करास्वामाः स्वार्थनर्थं न च प्रभोः ॥ ४७३ ॥

४७३-तुल्यकों द्वारा प्रचुर (पुष्कराँ) आस्वाप्त प्राप्त थे लोग, भोग लोभ से, औचित्य त्यागकर, इस समय केवल अपने स्वार्थ को प्राप्त करने में लगे थे, न कि स्वामी के लाभ की ।

अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति शिशुनायकाः ।

स्त्रीनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाः ॥ ४७४ ॥

४७४-बिना नायक के लोक का विनाश हो जाता है, शिशु बिनका नायक होता है, उनका भी नाम हो जाता है, स्त्री नायक वालों का विनाश हो जाता है और बहुनायक वालों का नाम हो जाता है ।

श्रीविधेयं समालोच्य राज्यं तस्य नर्हायते ।

इति श्लोकं पठन्श्लोकः समदृश्यत ॥ ४७५ ॥

४७५-उस राजा का राज्य स्त्री द्वारा अनुशासित जानकर, इस श्लोक को पढ़ते हुए लोग शोकान्वित देखे गये ।

पादन्तिष्पती :

४७२. 'मुक्तं' पाठ-बन्ध ।

४७३. (१) पुष्करः शंख के 'पुष्कर' तथा 'आस्वाप्त' के समन्वयक शब्द नाम है । श्रीवर ने पुष्कर एवं आस्वाप्त इन श्लोक में पुनः बहुराज है । ३० : ३ : ३३१ । इनका एक अर्थ किया जा सकता है । तुल्यकों द्वारा प्रचुर अक्षय प्राप्त थे लोग भोगलोभ से औचित्य त्यागकर इस समय केवल अपने स्वार्थ को प्राप्त करने में लगे थे न कि

स्वामी के लाभ की इच्छा से ।

पादन्तिष्पती :

४७४. (१) नायकः श्रीवर ने विनाश एवं तम में मरे किया है । बिना नायक एवं स्त्री नायक वालों का विनाश तथा शिशु एवं बहुनायक वालों के नाम होता है ।

(२) यह श्लोक चाणक्य (भा० : २ : ५४) में उद्धृत किया गया है ।

ध्यायतो मार्गपत्यादींस्तत्प्रत्यानयनाक्षमः ।

शयनीयविमुक्ताङ्गस्तप्यते स्म दिवानिशम् ॥ ४७६ ॥

४७६ इस महीपति का राज्य स्त्री के आघोन देखकर, सशोक लोक यह (उक्त) श्लोक पढ़ते देखे गये ।

अत्रान्तरे स मार्गेशो लोहरान्तरसंश्रयः ।

स्वामिचिन्ताकुलो लेखशिक्षामित्थं व्यसर्जयत् ॥ ४७७ ॥

४७७. इसी बीच लोहरान्तर में आश्रय प्राप्त कर, स्वामी की चिन्ता से आकुल, मार्गेश इस प्रकार शिक्षाप्रद लेख भेजा ।

राजन् पुंरत्नकोशस्ते योऽभूत् सर्वार्थसाधकः ।

उत्पाद्योत्सारितः सैद्वैर्यद्दारिद्र्यं सुदुःसहम् ॥ ४७८ ॥

४७८. 'हे ! राजन् ! सैथ्यदो ने सर्वार्थ साधक' पुरुष-रत्नो को उत्पादित कर, दूर कर दिया और दुःसह दारिद्र्य ला दिया ।

निसर्गगुरवो नान्यसङ्गमिच्छन्ति चञ्चलाः ।

अमी परस्पराभिन्नाः पारदस्य कणा इव ॥ ४७९ ॥

४७९ 'स्वभाव से भारी (गुरु) एव चचल, परस्पर भिन्न ये लोग, पारद' के कण सदृश, दूसरे की सगति नहीं चाहते ।

पाद-टिप्पणी

४७७ (१) आश्रय - फिरिस्ता लिखता है—
'अन्य अधिकारियों में जो सैथ्यदो हसन के दमन से बच सके थे, वह जहाँगीर मारके पा । उसने लोहर दुर्ग में आश्रय लिया (४७९) ।

पीर हसन लिखता है—'बाकी लोग शौफ से हिन्दुस्तान भाग गये । एक बहुत बड़े अमीर जहाँगीर रैना ने किला लोहरकोट में जाकर पनाह ली ।'

पाद-टिप्पणी :

४७८ सर्वार्थ साधक : सभी कार्यों या समस्त विषयों को पूर्ण या सिद्धकर्ता । सर्वार्थसिद्ध भगवान् बुद्ध की एक सजा है ।

पाद-टिप्पणी :

४७९. (१) पारद = पारा : उज्ज्वल तरल रहता है । वह निचलने पर लुढ़कता रहता है ।

द्रव अवस्था में रहता है । परन्तु वह किसी से मिलता नहीं । अपना अस्तित्व अलग बनाये रखता है । किसी वस्तु के पास रखने या मिलाने पर, उसका कण-कण अलग दिखाई पड़ता रहता है । यह क्रिया कच्चे पारे में होती है ।

गन्धक और पारा मिला द्रव्य मिलता है । उसे इगुर कहते हैं । पारा की खान नैपाल, चीन, जापान तथा स्पेन में है । वहाँ से भारत में आता है । पारा की सजा रसराम में दी गयी है । पुराणों में पारे की उत्पत्ति शिव के वीर्य से मानी गयी है ।

श्वेत, रक्त, पीत एव वृष्ण रंगों में पारा मिलता है । श्वेत पारा श्रेष्ठ होता है । इगुर से पारा अलग तथा शोधन करने की अनेक विधियों का उल्लेख रस ग्रन्थ में है । पारा में छ. रस वर्तमान रहते हैं । पारा विषय रसेश्वर दर्शन ही है । पारा रसेन्द्र है ।

हरिचन्दनवद् राजन् सर्वसौख्यप्रदो भवान् ।
किंतु फूत्कारकारिण्या भोगिन्या वेष्टितो ह्यसि ॥ ४८० ॥

४८०. 'हे ! राजन् !! सबके लिये सुखप्रद, आप हरिचन्दन^१ वृक्ष के समान फूत्कारिणी, भोगिनी द्वारा परिवेष्टित कर लिये गये हो ।

यस्मिन् स्फूर्जद्विषज्वाला व्यालाः सन्ति परासहाः ।
निधानमिव तद्राज्यं त्याज्यं कस्य न सन्मतेः ॥ ४८१ ॥

४८१. 'जहाँ पर परासहिष्णु, परामुख एवं प्रवृद्ध विष ज्वाला युक्त व्याल है, निधान सदृश वह राज्य, किस बुद्धिमान के लिये त्याज्य नहीं होगा ?

प्रदीप्तापि न या स्पृश्या दृश्यापि भयकारिणी ।
श्मशानाग्निशिखेवासौ लक्ष्मीः सा केन सेव्यते ॥ ४८२ ॥

४८२. 'जो प्रदीप्त होने पर स्पर्श योग्य नहीं है, और देखने पर भी भयकारिणी है, श्मशान अग्नि शिखा सदृश लक्ष्मी का सेवन कौन करेगा ?

पारा कृमी और कुष्ठ नाशक है। नेत्र के लिए हित-कर है। छः रसों से युक्त त्रिदोषनाशक, योगवाही, शुद्धवर्षक एवं सर्वनाशक है। कच्चा पारा में दोष होता है। उसका पावन कठिन है। पारा शोध कर ही व्यवहार किया जाता है। पारा शोधन का कार्य आठ प्रकार का—स्वेदन, मर्दन, उत्थापन, पातन, दोषन, नियामन और दीपन कहा गया है। भाव-प्रकाश में मूर्च्छन का उल्लेख मिलता है। कुछ औष-वियों के मर्दन से शुद्ध होता है।

पाद-टिप्पणी :

'फूत्कार' पाठ-दम्बई।

४८०. (१) हरिचन्दन : एक प्रकार का चन्दन तथा स्वर्ग के पाँच वृक्षों में एक है।

पञ्चैते देव तरवो मन्दारः पारिजातकः सन्तानः
कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम् ॥ अमर० : १ :
स्वर्गवर्ग : ५३।

(१) मन्दार, (२) पारिजात, (३) सन्तान,
(४) कल्पवृक्ष, (५) हरिचन्दन।

हरिचन्दन का परिभाषा अमरकोषकार करता है—हरिचन्दन महस्त्रियाम् : २ : मनुष्य वर्ग : १३१। पीत वर्ण चन्दन को हरिचन्दन कहा जाता है। राज-निषष्टु में उल्लेख है—

हरिचन्दनं सुरार्हं हरिगन्धं चन्द्र चन्दनं दिव्यम् ।
दिविजं च महागन्धं नन्दनजं लोहितजं नवसंजम् ॥
हरिचन्दं तु दिव्यं तिक्त हिमं तद्विहृत्सुभं मनुजैः ।
पित्तादोषविलोपि चन्दन वच्छ्रमहरं च शोषहरम् ॥

लोकप्रकाश में चन्दन, हरिचन्दन तथा श्रीखण्ड चन्दन का उल्लेख किया गया है (पृष्ठ २०)।

मंथ ने हरिचन्दन को कुंकुम तुल्य माना है—
कुङ्कुमे देववृक्षे पुंसि वा हरिचन्दनम् ॥ ५२७ ॥

हरिचन्दन पीतचन्दन की लकड़ी या पीले चन्दन को भी कहते हैं।

स मेयाहस्सनस्तत्तद्दुर्ग्रहग्रस्तवासनः ।

आप्तैरुक्तोऽपि सन्मार्गे न तिष्ठतीव रावणः ॥ ४८३ ॥

४८३ 'तत् तत् दुराग्रहो मे ग्रस्त सस्कारवाला, वह मीया हस्सन विश्वस्त जनो के कहने पर, भी रावण' के समान सन्मार्ग पर नहीं आता है ।

मेराख्या ताडकेवात्र सूत्कोचामिपभक्षिणी ।

पौलस्त्यस्येव ते सर्वनाशार्थं निकटे स्थिता ॥ ४८४ ॥

४८४ 'ताडका' सदृश उत्कोच रूपी आमिप का भक्षण करनेवाली, मेरा^२ पौलस्त्य (रावण) के समान सबका नाश करने के लिये तुम्हारे निकट रहती है ।

तिष्ठन्त्वभ्यन्तरे सैदा यदीष्टा भवदन्तिके ।

तुरुष्ककरगं देशमिहस्थः साधयाम्यहम् ॥ ४८५ ॥

४८५ 'प्रिय सैद्यिद लोग आपके निकट अन्दर स्थित रहे मैं यहाँ स्थित रहकर, तुरुष्क हस्तगत देश को ठीक कर रहा हूँ ।'

पाद-टिप्पणी .

४८३. (१) रावण : रावण दशग्रीव लकापति है । पिता का विश्रवस् तथा प्रपिता का नाम पुलस्त्य था । राम दशरथी सीता का हरण करने के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास में रावण पाशवी वासना एवं दुष्टता का प्रतीक बन गया है । राम से युद्ध न कर, सीता को लौटा देने के लिए पत्नी मन्दोदरी, भ्राता कुम्भकर्ण, विभीषण, बालिपुत्र अगद तथा अनेक लोगों ने उसे अच्छी सलाह देकर विनाश में उसे बचाने का प्रयास किया किन्तु अपने विश्वासपात्र सभकी उपेक्षा करता, कुमार्ग का त्याग नहीं कर सका । अन्त में राम द्वारा मारा गया । उसने स्थान पर विभीषण राजा हुआ । लका जल गयी । बुल का नाश हो गया ।

पाद टिप्पणी .

'मूलोच' पाठ—वम्बई ।

४८४. (१) ताडका : सुकेतु मदा की कन्या थी । जम के पुत्र मुद की पत्नी थी । इमे हजार हाथियों का बल था । मारीच एवं सुबाहु इसके पुत्र थे । मुद ने अपराध किया था । अगस्त्य ने उसे पाप

देकर नष्ट कर दिया । प्रतिहिंसा से क्रोधित अपने पुत्रों सहित अगस्त्य पर ताडका ने आक्रमण किया । अगस्त्य ने मारीच को राक्षस तथा ताडका को मनुष्यभक्षी एवं कुरूप होने का शाप दिया । शाप के पश्चात् मलय तथा कर्णदेश में निवास करने लगी । वह प्रदेश मानव-भक्षण के कारण उजड़ गया । उसका नाम ताडका बन पड़ गया । विश्वामित्र मुनि क यज्ञ को वह नष्ट किया करती थी । मुनि ने भगवान रामचन्द्र की सहायता लिया । राम ने ताडका वध किया । ताडका मायावी थी । अनेक रूप धारण करती थी ।

(२) मेरा : इस स्त्री का सुल्तान के ऊपर प्रभाव था । परिस्थिति का लाभ उठाकर, वह प्स तथा जनता को पीडा पहुँचा कर, धन एकत्रित करती थी । यह मेर हस्सन की कन्या थी । यह भी सुल्तान की एक रानी थी ।

पाद-टिप्पणी

'करग' पाठ—वम्बई ।

४८५. (१) श्रीदत्त ने अनुवाद किया है—

राजद्रोही न कोऽप्यस्मत्कुलेऽभूद् भक्तिवर्जितः ।

त्वदेकशरणः सोऽहं स्थामस्थो द्वाःस्थवद् वसे ॥ ४८६ ॥

४८६. 'हमारे कुल में (राज) भक्ति रहित एवं राजद्रोही नहीं हुआ, एक मात्र तुम्हारे शरणवाला द्वार पर द्वास्थ (द्वारपाल) सदृश स्थिर रहूँगा ।

वयमेव सदाचारा विचारविशारवः :

उन्मार्गे यदि गच्छामः कोऽप्यस्मासु न विश्वसेत् ॥ ४८७ ॥

४८७. 'सदाचारी एवं विचारशील हमलोग ही यदि कुमार्ग पर चलेंगे, तो कोई विश्वास नहीं करेगा ।

कल्पान्तमपि जीवित्वा कृत्वापि धनसञ्चयम् ।

हत्वाप्यरीन्न कोऽप्यत्र भवे भवति सुस्थिरः ॥ ४८८ ॥

४८८. 'कल्पान्त तक जीवित रहकर, धन संचय करके, और शत्रुओं का हनन करके, इस संसार में कौन सुस्थिर हो पाता है,—

नष्टेऽन्यस्मिन् भवांस्त्राता त्वयि नष्टे परोऽस्तिकः ।

इति लेखं नृपस्याग्रे बुद्ध्वा मार्गपतेद्रुतम् ॥ ४८९ ॥

४८९. 'अन्य के नष्ट होने पर आप रक्षक हैं और आपके नाश होने पर, दूसरा कौन है ?' मार्गपति का यह लेख राजा के समक्ष जानकर—

स भेयाहस्सनः क्रोधाच्छ्वसन्नहिरिवाब्रवीत् ।

सोऽहं स्थानच्युतस्तत्र स्वजीवनविवर्जितः ॥ ४९० ॥

४९०. वह मिया हस्सन सर्प सदृश स्वास लेता हुआ बोला—'स्थानच्युत तथा वहाँ अपनी जीवन रक्षा से भी रहित यह—

नूनमस्मत्प्रतापेन शुष्यतीवाब्जधण्डवत् ।

ग्रीष्मोष्मणा विशुष्कस्य पङ्कमात्रावशेषिणः ॥ ४९१ ॥

४९१. 'निश्चय ही हमारे प्रताप से कमल सदृश सूख जायगा । ग्रीष्म की गरमी में शुष्क पङ्क मात्र अवशेष—

'यदि आप चाहें तो सैधियदों को अपने साथ राज्य में रहने दें, मैं यहाँ से तुरुष्कों के सरदार के करविन्द (करंग) देश में जाऊँगा । श्रीकण्ठ कौल ने नामवाचक शब्द नहीं माना है ।

जै. रा. १६

पाद-टिप्पणी :

'भक्ति' पाठ—ब्रम्बई ।

४८६. (१) द्वास्थ : ड्योढीदार = ड्योढी पर पहरा देनेवाला नौकर । याज्ञ० : ३ : १२; मनु० : ३ : ३८ ।

भृत्यास्तस्य न तिष्ठन्ति तडागस्येव पक्षिणः ।

किं करोतु स्थितस्तत्र तत्रत्यैर्विहितादरः ॥ ४९२ ॥

४९२ 'तडाग के पक्षी सदृश भृत्य उसके पास नहीं रहेंगे। वहाँ रहकर, वह क्या कर सकता है? वहाँ के लोगो द्वारा आदर प्राप्त—

मदीयदासमात्रोऽपि तं जेतुं क्षमते युधि ।

अथवाहं स्वयं यामि तं निष्कासयितुं ततः ॥ ४९३ ॥

४९३ 'मेरा दास मात्र भी युद्ध में उसे जीतने की क्षमता रखता है। अथवा मैं स्वयं भी उसे वहाँ से निकालने के लिये जाता हूँ।

स तुरुष्कैः समं तत्र ग्रथनं कुरुतेऽन्यथा ।

अथोचे सैदहसनः पूर्वमैत्रीमनुस्मरन् ॥ ४९४ ॥

४९४ 'नहीं तो तुरुष्को के साथ गठबन्धन कर लेगा।' पूर्व मैत्री का स्मरण कर सैय्यिद हसन ने कहा—

किं नस्तेन हृत राष्ट्रं दीयतामानयाम्यहम् ।

आयुक्तोपप्लवे पूर्वं कृतदिव्याः परस्परम् ॥ ४९५ ॥

४९५ 'उससे हमलोगो की क्या हानि? अपहृत राष्ट्र दीजिए उसे मैं ले आऊँ। पहले आयुक्त विप्लव के समय परस्पर सपथ लेकर—

अनिष्टं चिन्तयामश्चेत् तत् कथं सहते विधिः ।

तच्छ्रुत्वा नृपतेरग्रे तद्वैरैकाग्रमानसः ॥ ४९६ ॥

४९६ 'यदि हम लोग उसका अनिष्ट सोचेंगे, तो विघाता कैसे सहन करेगा?' राजा के समक्ष यह सुनकर, उसके प्रति अत्यन्त वैर भाव वाला—

तूर्णं दौलतयानं स्वं नौशहाराधिपं व्यधात् ।

बाह्यस्थः साधयत्येव कार्यं सद्भृतकाग्रणीः ॥ ४९७ ॥

४९७ 'वह अपने दौलत यान' (खान) को नौशहरा^२ का अधिपति बना दिया। सद् भृत्या का अग्रणी, बाह्य देश में स्थित, यह कार्य सिद्ध करेगा अतः इसे सैन्य सग्रह के लिये कौटिल्य द्रव्य दे दूँ।

पाद-टिप्पणी

'दो' पाठ-बम्बई।

४९७ (१) दौलत : श्रीदत्त ने दौलतयान

ही नाम माना है। दौलतयान का कोई अर्थ नहीं निवृत्ता। पाठभेद के अनुसार 'यान' शब्द 'खान' है।

पुराने समय में 'क्ष' को 'प' भी लिखते थे। 'प' में

द्रव्यकोटिं ददामोऽस्मै सैन्यसङ्ग्रहसिद्धये ।

इत्युक्त्वा प्रतिमुक्तं तमेधराजानकं पथः ॥ ४९८ ॥

४९८. 'अतः सैन्य संग्रह करने के लिये इसे द्रव्य हूँगा ।' इस प्रकार कहकर भेजे गये, उस एध राजानक को मार्ग से--

द्रुतं निवर्तयामास दत्तद्रव्यमपि स्वयम् ।

श्रुत्वा परशुरामाद्या मद्राः कश्मीरदेशतः ॥ ४९९ ॥

४९९. शीघ्र ही लौटा लिया, जिसे कि स्वयं द्रव्य देकर भेजा था । यदि सुनकर, परशुराम^१ आदि मद्र^२ काश्मीर देश से--

स्वानिष्टशङ्काया गन्तुंसाज्ञं तेभ्यो यथोचिरे ।

ऊचुस्तान् प्रतिमुञ्चामो युष्मान् पाथेयसंयुतान् ॥ ५०० ॥

५००. अपने अनिष्ट की आशंका से जाने के लिये, उनसे निवेदन किये । उन लोगों ने उनसे कहा--'पाथेय^१ सहित तुम लोगों को मुक्त करूँगा ।

क्रियद्दिनानि तिष्ठध्वं तद्युयं दत्तवेतनाः ।

तेषु स्ववसतिं यात्सु सैदास्तेऽन्योन्यमब्रुवन् ॥ ५०१ ॥

५०१. 'अतः वेतन प्राप्त तुम लोग कुछ दिन ठहरो ।' उनके अपने बसती में जाने के लिये उद्यत होने पर सैय्यियों ने एक दूसरे से कहा--

निष्कास्याः सर्वथैतेन तुरुष्कैकविरोधिनाः ।

अत्रान्तरे नरेन्द्रस्य तत्तद्भृत्यादिचिन्तनात् ॥ ५०२ ॥

५०२. 'एक मात्र तुरुष्कों के विरोधी ये लोग सर्वथा निष्काशन योग्य हैं ।' इसी बीच तत् तद् भृत्य आदि के विषय में चिन्तन करने के कारण राजा का--

यदि बीच की लकीर छूट जाय तो उसे 'य' पढ़ सकते हैं । दौलतखान प्रचलित नाम है । यही ठीक मालूम पड़ता है ।

(२) नौशाहार : शुक ने भी नौशाहार का उल्लेख (१ : १२४) किया है । दोनों के अक्षर विन्यास में केवल 'श' तथा 'शा' का अन्तर है । पाठभेद में 'जा' भी मिलता है । अतएव शुक तथा श्रीवर वर्णित नौशाहार तथा 'नौशाहार' पाठभेद का 'नौशाहार' एक ही है । इसका वर्तमान नाम नौशेरा है । जम्मू-पूँछ मार्ग पर अखनूर, चीकीचूरा के पश्चात् नौशेरा, पश्चात् चिगस, राजौरी और पूँछ पड़ता है । मैं इस सड़क से यात्रा दो बार कर चुका हूँ । भीमवर से

सत्ताइस मील उत्तर तथा श्रीनगर से एक सी वाइस मील दक्षिण-पूर्व है । नौशेरा के मध्य शहर में एक मुगलकालीन सराय है । भारत के आजादी के पूर्व ब्रिटिश फौज की छाउनी थी ।

पाद-टिप्पणी :

४९९. (१) परशुराम : मद्र सैनिकों का नेता था । द्र० : ४ : २५, ३५, २७०, ३४५ ।

(२) मद्र : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : २ : १४८ ।

पाद-टिप्पणी :

५००. (१) पाथेय : राह-खर्च ।

जाताधिवाधितं वक्त्रं पौपे पद्ममिवाभवत् ।

मृगयारसिकाः सैदा निन्युस्तं तादृशं नृपम् ॥ ५०३ ॥

५०३. राजा का मुख पौप मास के समान श्रीहीन हो गया । मृगया रसिक सैय्यद उस अवस्था में भी राजा को—

मृगया :

माघे विषयराष्ट्रादिगतान् हन्तुं मृगत्रजान् ।

यत्र यत्रावसद्रात्रौ ससैदः कटकोत्कटः ।

पीड्यमानजनाक्रन्दमुखरास्तदिशोऽभवन् ॥ ५०४ ॥

५०४ माघ मास में विषय राष्ट्र आदि के मृग समूहों को मारने के लिये ले गये । सैय्यदों एवं सैन्य में उत्कट राजा रात्रि में जहाँ-जहाँ वास किया, वे वे दिशायें पीड़ित होते जनो के आक्रन्दन से मुखरित हो उठी ।

पङ्कतीः प्रसार्य परितोऽद्रिषु तद्विभागं

यत्रोपवेशमकरोत् कटको नृपस्य ।

तत्रोदतिष्ठदतिनिष्ठुरवाग् जनानां

द्राक्षालताच्छिदि शुचा रुदितस्वनौघः ॥ ५०५ ॥

५०५ राजा की सेना पर्वतों पर, सब ओर, प्रत्येक भाग पर, पवित्रबद्ध होकर, जहाँ पर निवास करती थी, वहाँ पर द्राक्षालतोच्छेदन के शोक से अति निष्ठुर वाणी एवं प्रचुर क्रन्दन ध्वनि उठती थी ।

गिरयोऽत्युन्नतास्तत्र मुखदाः सान्त्वनिर्भराः ।

आक्रान्ताः कटकैर्हिंसैर्दुर्जनैरिव साधवः ॥ ५०६ ॥

५०६. वहाँ पर अत्युन्नत मुखद एवं शान्तपूर्ण पर्वत हिंसक कटको से उमी प्रकार आक्रान्त हो गये, जिस प्रकार दुर्जनों से साधुजन ।

प्रालेयपूरमग्नाङ्गाः कुरङ्गा गिरिशृङ्गतः ।

श्रुत्वा कोलाहलं त्रस्ताः सकुटुम्भाः समाययुः ॥ ५०७ ॥

५०७ कोलाहल सुनकर, हिमपुञ्ज से मग्न अगवाले कुरग' अस्त होकर, कुटुम्ब सहित गिरिशृङ्ग से चले आये ।

पाद-टिप्पणी

ध्वोद्रे क्लीबे बलय संन्ययोः ॥ ४५ ॥

५०६. (१) कटक यहाँ अर्ध सेना के राज मैनिकों से लगाना उचित होगा । मख ने भी कटक का एक अर्ध मैनिक लगाया है—कटकों म्बो नित-

पाद-टिप्पणी

५०७. (१) कुरग : हरिण की एक जाति है—'कुरेग ईपताग्रः स्यादरिण कृतिवो महान—'

कृष्टजिह्वान् स्फुरद्रक्तसिक्तास्याञ् श्वगणावृतान् ।

तांस्तत्राग्रागतान् दृष्ट्वा सैदास्ते तुतुपुर्भृशम् ॥ ५०८ ॥

५०८. उनको वहाँ आया देखकर, सैय्यिद बहुत प्रसन्न हुए, जिनकी जीभ बाहर निकली थी और स्फुरित होते रक्त से जिनका मुख सिक्त था और जो श्वानों^१ से आवृत थे ।

हरास्मान् पीवरानेतान् पोतान् मा हर दुर्बलान् ।

इतीव वक्तुं भूपाग्रे प्रापुस्ते सार्भका मृगाः ॥ ५०९ ॥

५०९. 'भोटे-ताजे हमलोगों को हर लो और दुर्बल वच्चों को मत मारो'—मानो यह कहने के लिये ही वच्चों सहित वे मृग राजा के सम्मुख आये थे ।

सिद्धाध्युपितशृङ्गस्थत्रस्तैणवघदर्शनात् ।

क्रुद्धाः स्युर्देवता राजन् मा कृथा मृगयामिमाम् ॥ ५१० ॥

५१०. 'हे ! राजन् !! सिद्ध सेवित, शृंग पर स्थित, त्रस्त मृगों का वघ देखने से देवता क्रुद्ध होंगे । अतः यह मृगया मत करो ।'

इत्याद्युक्तोऽपि बहुशस्तत्रत्यैः सकलैर्जनैः ।

शृङ्गारीवाङ्गनासङ्गान्न व्यरंसीन्मृगग्रहात् ॥ ५११ ॥

५११. इस प्रकार वहाँ के सकल जनों द्वारा बहुशः कहे जाने पर भी मृगों का मृग ग्रहण उसी प्रकार त्याग नहीं सका, जिस प्रकार शृंगारी अंगना^१ संग को ।

पाद-टिप्पणी :

'श्व' पाठ-वम्बई ।

५०८. (१) श्वान : वन्य पशुओं एवं पक्षियों के शिकारों के लिये शिकारी अपने साथ कुत्तों का झुण्ड ले जाते थे । शिकारी मध्यकालीन काल में अश्व पर रहते थे और कुत्ता साथ चलता था । पक्षियाँ वाण लगने से जब गिर जाती थीं, तो कुत्ता उन्हें उठा लाता था ।

हिरण के शिकारों में कुत्तों का विशेषरूप से उपयोग किया जाता था । हिरण वाण लगने पर जब भागते थे, तो कुत्ता दौड़ाकर, उन्हें पकड़ लेता था ।

महाभारत काल से ही कुत्तों का उपयोग शिकार में किया जाता है । पाण्डवों के साथ वन में कुत्ता गया था । एकलव्य उसके भूकने पर उसके मुख को

वाणों से भर दिया था (आदि० : १३१ : ४१) । यूरोप में कुलीन तथा सामन्त लोग शिकारी कुत्ता (ग्रेहाउण्ड) रखते थे । शिकार यात्रा में ग्रेहाउण्डों का समूह उनके साथ चलता था । पुराने चित्र इस प्रकार के दृश्यों के बहुत मिलते हैं । किसी समय उनकी बहुत ख्याति थी । मुसलिम काल में ताजी कुत्ता शिकारों में जाते थे ।

पाद-टिप्पणी ।

५१०. (१) सिद्ध : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : राज० : १ : २८५; जैन० : १ : ४ : १९; ४ : २०२ ।

पाद-टिप्पणी :

५११. (१) शृंगारी : प्रेमासक्त, कामोन्मादी, सम्भोगेच्छाकांक्षी विक्रम० : १ : ९ । शृंगार काव्य का प्रथम रस है । सम्भोग शृंगार एवं

आस्थानमृगयोऽग्रेय नान्यदा क्रियते त्वया ।

मुनिवैश्रवणाद्रिस्थो नृपमेत्याब्रवीदिति ॥ ५१२ ॥

५१२ वैश्रवण गिरि के मुनि नृप से आकर, इस प्रकार बोले—'इस शान्त स्थान के चारों ओर विनाशकारी यह मृगया तुम पुन कभी न करना ।'

साक्रन्दमाहता हत्वा मृगीस्ता रुधिरोक्षिताः ।

तद्गर्भनिर्भरां भूमिं सैदाश्चक्रुर्दयोऽज्जिताः ॥ ५१३ ॥

५१३ क्रन्दनपूर्वक आयी घायल रुधिर से भीगी उन हरिणियों को मारकर, निर्दयी सैद्यिदो ने उनके गर्भ से भूमि भर दिया । (रक्तार्द्र कर दिया) ।

अतृप्तस्तद्वधात् कृत्वा निमृगांस्तान् गिरीश्वरान् ।

साय श्रान्तः स घोषौघान् वसतीरादिशन्नृपः ॥ ५१४ ॥

५१४ उनके वध से तृप्त न होकर, उन पर्वतों को मृग रहित करके, सायकाल श्रान्त, उस राजा ने घोष समूहों के वसती को आक्रान्त करने का आदेश दिया ।

भन्या स्तुपास्य तनया तरुणी च जाया

कादम्बर प्रसरके पशवश्च मीनाः ।

तिष्ठाम्यमुष्य सदनेऽहमिहैव रात्रौ

ध्यात्वेति कोऽपिन्यविशद् यमकिङ्कराभः ॥ ५१५ ॥

५१५ इसकी भन्य पुत्रवधू, तनया, तरुणी जाया, प्रसरक मे कादम्ब', (मदिरा) पशु एव मीन है, अतः मैं रात्रि मे इसी के घर ठहरूंगा, ऐसा विचार कर, यमदूत सदृश किसी ने प्रवेश किया ।

विप्रश्नम शृगार दा प्रकार का होता है ।—पुंस स्त्रिया स्त्रिया पुंसि सभोग प्रति या स्पृहा । स शृगार इति स्यात् क्रीडाइत्यादि कारक ।

साहित्यदर्पण २१० । शृगारी वा अय शृगार या प्रेम-सम्बन्धी तथा सिद्धर या गेरु से चित्रित भी होता है ।

(२) अगना सुन्दर अणवाली कामिनी ।
भन्या राशि ।

पाद टिप्पणी ।

'वैश्रवणाद्रिस्थ' पाठ—बम्बई ।

५१२ थोदत्त ने वैश्रवण मुनि अनुवाद किया है—वैश्रवण नामक मुनि का आश्रम पहाड़ी के ऊपर

था । वह सुल्तान के पास आये । उससे प्रार्थना किये कि मुगों के लिए स्थान अवश्य तथा आश्रय स्थान है (पृष्ठ २६०) ।

(१) वैश्रवण गिर स्थान का अनुसन्धान अपेक्षित है ।

पाद टिप्पणी

५१३ 'रुधिर' पाठ—बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

५१४ 'गिरीश्वरान्' पाठ—बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

५१५ (१) कादम्ब मदिरा, शराव । कदम्ब श बनो शराव । कादम्ब का पाठभेद कादम्बरी

धानुष्कपुष्कलत्रला वलिनस्तुरुष्काः

पट्कर्मधर्मनिरताग्र्यगृहोपविष्टाः ।

तद्गाण्डपकहतकुक्कुटमांसभक्ष्या

यक्षा इवात्र विद्युर्मधुपानलीलाम् ॥ ५१६ ॥

५१६. वनुर्वारियों की प्रचुर सेना बली तुरुष्क, पट कर्म-धर्म में निरत के गृह के अग्रभाग पर बैठकर, उनके भाण्ड (वर्तन) में पकाये, हत कुक्कुट मांस का भक्षण करते, यक्षों की तरह मधु-पान लीला किये ।

पशुतण्डुलमद्यादि हुत्वा वास्तव्यलोकतः ।

लुब्धास्तत्सेवकाः केषपि स्वगृहे भरणं व्यधुः ॥ ५१७ ॥

५१७. उसके कुछ लोभी सेवक प्रजा (निवासी जन) से पशु, मद्य आदि अपहृत कर, अपने घर का भरण-पोषण करते थे ।

मान्यदागमनं भूयाद् शुष्माकं जनपीडया ।

इत्यादि चाशिषः शृण्वन्नशक्तो विव्यथे नृपः ॥ ५१८ ॥

५१८. 'जन-पीड़ाकारी तुम लोगों का पुनः कभी आगमन न हो'—इत्यादि आशीर्वचन सुनते हुए, आसक्त नृपति व्यथित हुआ ।

मृगया व्यसनं राज्ञो यिक् फलं भुज्यते न यैः ।

मृगापदेशाल्लोकानामेव सा क्रियते स्फुटम् ॥ ५१९ ॥

५१९. राजा के मृगया व्यसन को विक्कार है, जो कि फल नहीं भोगते, मृगों के व्याज से लोगों का ही स्पष्ट रूप से शिकार किया जाता है ।

मिलता है । कादम्बरी का अर्थ कोयल, सरस्वती तथा मदिरा या शराव होता है । कादम्बर कदम्ब के फूलों की बनी मदिरा को कहते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

'मध्य' पाठ—वम्बई ।

५१६. (१) पट्कर्म : मनु के अनुसार—
(१) अब्यापन, (२) अब्ययन, (३) यजन, (४) यालन, (५) दान, (६) प्रतिग्रह ६ कर्म विहित हैं ।
अव्यापनमध्यनं यजनंयाजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव पट्कर्माण्यग्र जन्मनः ॥ १० :
७५ ॥

ब्राह्मणों की जीविका हेतु विहित पट्कर्म—
उच्छं प्रतिग्रहोभिक्षा वाणिज्यं पशुपालनं ।
कृषिकर्म तथा चैति पट्कर्माण्यग्र जन्मनः ॥
योग के पट्कर्म हैं—
वीतिर्वस्ती तथा नेति त्राटकस्तथा ।
कपालनाती चैतानी पट्कर्माणि समाचरेत् ॥
एन्द्रजालिक के पट्कर्म—शान्ति, वशीकरण,
स्तम्भन, विद्वेष, उच्चाटन तथा मारण हैं ।

पशुवच्छतशो बद्ध्वा मृगौघो यत्र मार्यते ।

मृगया सा विनोदाय यदि शौनिककर्म किम् ॥ ५२० ॥

५२०. जहाँ पर पशुओं के समान सैकड़ों बार मृग समूह को बाँधकर मारा जाता है, यदि वह मृगया विनोद हेतु है, तो अधिक कर्म क्या है ?

श्रमस्त्वयं चले लक्ष्ये स्पृहणीयोऽस्ति सादिनाम् ।

कोऽयं बद्धे मृगे श्लाघ्यः शराभ्यासो घनुष्मताम् ॥ ५२१ ॥

५२१. अश्वारोहियो का यह श्रम सचल लक्ष्यपर तो स्पृहणीय है, किन्तु घनुष्मारियो का बद्ध मृग पर क्या यह शराभ्यास प्रशंसनीय है ?

क्षत्रियैर्मृगया कार्या निरवद्यतृणाशनात् ।

नैकान्तव्यसनं युक्तं ह्यति सर्वत्र गर्हितम् ॥ ५२२ ॥

५२२ क्षत्रियो को अनिन्द्य तृण मात्र भोजी मृगादि की मृगया करनी चाहिए किन्तु अत्यन्त व्यसन उचित नहीं, अति सर्वत्र गर्हित होता है ।

महापद्मसरस्तीरगिरिगांश्च मृगव्रजान् ।

आगतो नृपतिस्तद्वन्निःशेषानकरोद् वधात् ॥ ५२३ ॥

५२३ महापद्मसर तीर एव गिरि के मृग समूहों को राजा ने आकर, उसी तरह वध से निःशेष कर दिया—

इत्याद्यनुचितं किञ्चिन्मृगयादूपणं कृतम् ।

विलोक्य यद् भवेद्भीतिर्भाविनां मृगयाजुषाम् ॥ ५२४ ॥

५२४ इस प्रकार के कुछ अनुचित मृगया दोष किया, जिसे देखकर भावी मृगया-प्रेमियों को भय हो—

पाद-टिप्पणी

५२१ (१) शराभ्यास : श्रीवर उक्त श्लोकों द्वारा गिबार के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करता है । घनुष्मारी अपनी शरमायना सचल लक्ष्य पर छोड़ते हैं ताकि बाण छोड़ने में पारंगत हो जाय किन्तु बंधे हुए मृग समूहों की बाण द्वारा हत्या करना, वह दूरता एव हत्या मानता है । श्रीवर ने संम्यक्ओं के दूर प्रवृत्ति का वर्णन किया है ।

पाद-टिप्पणी

५२२ (१) क्षत्रिय : तृणभगी पशुओं का

मांस ग्राह्य है । विचित्र विहम्बना है । शाकाहारी पशु जो कभी मांस न तो ग्रहण करते हैं और न हत्या, उन्हीं का मांस मनुष्य खाता है । मांसभोजी हिंसक घेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, आदि मांसभोजी पशुओं का मांस नहीं खाया जाता । श्रीवर नृपति नहीं बल्कि सुखप्रद मृगया का समर्थन करता है । वह मृगया को जो लोग अपना व्यसन बना लेते हैं उनका विरोधी है । द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी • जैन० २ ।

१०२ ।

सुत्तान को बीमारी :

आखेटिकां नृपः कृत्वा राजधानीं समागतः ।

अस्वास्थ्यमवहद् देहे ग्रहणीगदसम्भवम् ॥ ५२५ ॥

५२५. नयावना शिकार करके, राजधानी पहुँचकर, राजा का शरीर ग्रहणी^१ (संग्रहणी) रोग से अस्वस्थ हो गया ।

कैप्युचुर्मुगयादोषात् कुपिता देवतास्ततः ।

अतीसारगदारम्भस्तत्रैवास्य विलोकितः ॥ ५२६ ॥

५२६. कुछ लोगों ने कहा—‘मुगया दोष से देवता कुपित हो गये, जिससे, वहीँ पर उसे अतीसार रोग का आरम्भ हुआ । यह देखा गया ।’

पाद-टिप्पणी :

५२५. (१) ग्रहणी : पक्वाद्य एवं आनामय के मध्य की नाड़ी अग्नि एवं पित्त का प्रवाह आकार है। इस नाड़ी के दूषित होने पर, एक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता। मलद्वार से निकल जाता है। पैर में पीड़ा होती है। मल कमी पतला, कमी गाढ़ा दुर्गन्ध युक्त होता है। शरीर दुर्बल और निस्तेज हो जाता है। रात की अनेकानेक दिनों में रोग अधिक कष्टकर होता है। इस रोग को ग्रहणी कहते हैं। अनियमित भोजन, अधिक पदार्था, मलमूत्र का वेग रोकना, ककर या खाँड़ अत्रिकाधिक सेवन वर्जित है। मूषन्नी का रस, गाय की देही या मूषा में बीर, उँवा ममक तथा दानियाँ लाभप्रद होता है। खिचड़ी कड़ी, नूँग की पतली दाल पथ्य है। पंचानूत पर्यंटी लोह पर्यंटी, सुवर्ण पर्यंटी, सिद्ध नानी कांचन पर्यंटी, ग्रहणी गजकेशरी, रत्नकला चूर्ण, ग्रहणीहर क्वाय आदि स्थिति के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं।

पाद-टिप्पणी :

‘रत्नः’, ‘त्रिः’ पाठ-दन्वई ।

५२६. (१) अतीसार : अतीसार के मेद—
(१) वायुजन्म, (२) पित्तजन्म, (३) कफजन्म, (४) चान्निगतजन्म, (५) शोकजन्म तथा (६) आनजन्म

जं. रा. १७

है। मारी अर्थात् गुद, गरिष्ठ चिकनी, सूखी, गर्म, पतले भोज्य पदार्थों के सेवन, दिना भोजन के पाचन पुनः भोजन, विष, मद्य, शोक, अत्यन्त मद्यपान, कृनी दोष, ठण्डा भोजन, अगुद जल से उत्पन्न होता है।

मल की वृद्धि के कारण उदरअग्नि मन्द हो जाती है। मल शरीर के रसों के साथ बारम्बार बाहर निकलता है। आनामय की भीतरी झिल्लियों में गोंध के कारण भोज्य पदार्थ वहाँ न ठहर कर, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसमें आनन्द नैरव गुटी, कपूर सुन्दरी गोली, जगत्स्य सूतराज, त्रिप्रकाश वटी, अमय नृसिंह, कपूर रस, वृद्ध गंगा-धर चूर्ण, कजटा बलेह, आयुर्वेदिक औषधियाँ बीमारी की स्थिति के अनुसार दी जाती हैं। खिचड़ी, गाय का मूषा, माठ, नूँग का पानी, गेहूँ, वाजरी की पतली राव देना उत्तम है।

उपक्राते अकरी ने उल्लेख है—‘कुछ समय पश्चात् सुत्तान को आनामय हो गया। वह बड़ा दुर्बल हो गया था (४५० = ६८१) ।’

तिरिक्ता लिखता है—‘कुछ समय पश्चात् सुत्तान को उसकी सरल बीमारी ने दुहरा दिया। वह अतीसार से पीड़ित हो गया ।’

केऽपिप्रच्छन्नराज्येच्छाः सैदाः स्वातन्त्र्यकाङ्क्षिणः ।

व्यधुः किमपि भूपाले तुरुष्कादृतमानसाः ॥ ५२७ ॥

५२७ और कुछ लोगो ने कहा—‘प्रच्छन्न रूप से राज्य के इच्छुक, स्वातन्त्र्यकांक्षी एवं तुरुष्को द्वारा समाहृत सैव्यद राजा के प्रति कुछ कर दिये ।’

केऽपि मन्त्रिवियोगोत्थचिन्तासन्तापितात्मजाम् ।

रुजमाहुर्न तद्व्याधेर्निश्चयः कस्यचिदभूत् ॥ ५२८ ॥

५२८ कुछ ने कहा—‘मन्त्रि वियोग से उत्पन्न चिन्ता सताप से रोग को स्वयं उत्पन्न माना’—इस प्रकार उसके व्याधि का निश्चय किसी को नहीं हुआ ।

सर्जोत्सव :

भूपस्तादृगवस्थः स नववर्षादिवासरे ।

ययौ सर्जप्रदेशं तद् व्यर्थया शकुनीच्छया ॥ ५२९ ॥

५२९ उस प्रकार अस्वस्य राजा नववर्ष के प्रथम दिन व्यर्थ की शकुनेच्छा से सर्ज प्रदेश गया ।

पाद-टिप्पणी

५२९ (१) शकुनेच्छा : शकुन शब्द श्लिष्ट है । एक अथ शकुन विचार है । नववर्ष का प्रथम दिन था । राजा लोग इस दिन शकुन का विचार करते हैं । वर्ष शुभ या अशुभ अथवा किस प्रकार की घटनाएँ देश में घटेंगी । कुछ घटनाओं को देखकर, उनमें शुभ तथा अशुभ फल निकाला जाता है । बिन्ली का रास्ता काटना, अशुभ माना जाता जाता है । जलकलश एवं मूतक का मार्ग में मिलना शुभ मानते हैं । विशिष्ट पशियों की बोली, नीलकण्ठ आदि का देखना शुभ है । शकुनशास्त्र के अनुसार दही, घी, दुर्वा, चन्दन, शीशा, दांस, मछली, देव-मूर्ति, फल, फूल, पान, सोना, चाम्दी, रत्न, वेश्या का मार्ग में दगनं शुभ है । सर्प, चमड़ा, नमक, गाली बरतन अशुभ है ।

मृगो स्मरण है । मेरे बगीचा और अनाहा गोनिया पर, जो मेरे घर से दो फरसांग पर था । शमी

का वृक्ष था । वहाँ विजयादशमी के दिन शमी पूजा के लिये जाते थे । घर से निकलते ही घर का नापित अर्थात् नाई शीशा दिखाता था । हम उसमें अपना मुख देखते थे । उन दिनों उसे एक शपथ दिया जाता था । हम लोग केवल यह जानते थे कि त्योहारी लेने के लिये वह आता था । परन्तु यह प्रसंग पढ़ने पर मुझे आज स्मरण हो गया । मार्ग में या प्रस्थान समय दर्पण या शीशा का देखना शुभ माना जाता था । उसी परम्परा के अनुसार नापित या नाई दर्पण मुख के मम्मूख करता था ।

(२) सर्ज : वेशों अथवा वनेटों स्थान का नाम एक सर से है । अनुसन्धान की आवश्यकता है । दूसरा मत है कि सर्ज शब्द न होकर, सर या मर्ज है । इसका पाठ सन्दिग्ध है । मर्ग यदि शब्द है, तो उसका अर्थ खुला मैदान या तुली उपत्यका होती है । पशियों का शिकार तुले मैदान में ही हो सकता है ।

तद्दिने गच्छतस्तस्य राज्ञो नौकान्तरस्थितेः ।

जैनवाटविहारप्रात् सर्पस्तुत्रोट पद्धतिम् ॥ ५३० ॥

५३०. उस दिन नौका में स्थित जाते हुए, उस राजा के मार्ग को जैनवाट विहार के सामने, सर्प ने काट दिया ।

तद्दुर्निमित्तमीशान्त्यै हत्वा तं शायकैर्नृपः ।

अहरद्वयद्यागङ्गां न शरीराद् रुजं पुनः ॥ ५३१ ॥

५३१. इस दुर्निमित्त (अपशकुन) भय की शान्ति के लिये, राजा ने वाणों से उसे (सर्प) मारकर, हृदय का सोच दूर कर दिया । किन्तु शरीर से रोग को दूर न कर सका ।

किमर्थं निर्गतो वासि चिरं त्वं सुकृतं कुरु ।

इतीवाग्रतो वायुः सवेगतं न्यरुद्ध्यत ॥ ५३२ ॥

५३२. 'किञ्च लिये निकले हो, चिरकाल तुम सुकृत करो'—इसीलिये सामने से वायु ने वेग-पूर्वक उसे रोका ।

अस्मिन् गते प्रजापीडा भविष्यत्यत्र मण्डले ।

अकम्पत गुचेवोद्यचरङ्गतरलं सरः ॥ ५३३ ॥

५३३. 'इसके जाने पर मण्डल में प्रजाओं को पीड़ा होगी'—(इसी शोक से ही मानो) उठते तरंगों से तरल सर प्रकम्पित हो उठा ।

तत्र सर्जोत्सवे भुक्त्वा सैदमन्त्रिसभावृतः ।

अपुनर्दर्शनायेव सर्वेषां दर्शनं ददौ ॥ ५३४ ॥

५३४. वह सर्जोत्सव में सैथियद मन्त्र सभा मण्डली के साथ खाकर, पुनः दर्शन देने के लिये ही, मानों सब लोगों को दर्शन दिया ।

५३१. (१) सर्प हत्या : अनायास सर्प की हत्या वर्जित की गयी है । पाप माना जाता है । कार्त्तवीर के एक संसद सदस्य श्रीचरक थे । उनसे सर्पों के सम्बन्ध में बातें होने लगीं । उन्होंने एक दिन अपने मकान के पास निकले सर्प को मार दिया । दूसरे दिन भी सर्प निकले । उन्होंने पुनः सर्प मारा । सर्पों का निकलना बन्द नहीं हुआ । अन्त में उनकी नाँ ने उन्हें न मारने के लिए कहा । सर्प निकलने पर उन्होंने बन्दूक से उसे नहीं मारा । परिणाम हुआ कि सर्पों का निकलना बन्द हो गया । सर्पों तथा उनके जोड़ों के प्रसिद्धिक तथा बदला लेने की अनेक

कहानियाँ तथा जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं ।

पाद-टिप्पणी :

५३४. (१) सर्ज : द्र० : ३ : ५२९ । यदि सर पाठभेद मान लिया जाय तो सर उत्सव अर्थ हो जायगा । 'सर्ज' भी पाठभेद मिलता है । संस्कृत शब्द सर्ज का अर्थ साल या सरई का वृक्ष होता है । कार्त्तवीर में साल वृक्ष नहीं होता परन्तु साल के समान ही सफेदा के वृक्ष तथा देवदार वृक्ष प्रचुर होते हैं । वृक्ष अर्थ मानने पर वनोत्सव लिखने का अभिप्राय हो सकता है ।

नौकारूढस्ततस्तूर्णं समृत्यः स दिनावधि ।

उत्कण्ठास्रण्डनार्यैव श्येनैः पक्षिवधं व्यधात् ॥ ५३५ ॥

५३५. वहाँ से शीघ्र ही भृत्य सहित, वह नौकारूढ होकर दिन भर, उत्कण्ठा दूर करने के लिये ही, बाजों द्वारा पक्षियों का वध किया ।

अद्यैवेमं विनोदं नः करोति न पुनः प्रभुः ।

इत्येव श्येनाः पक्ष्यालीं गृहीत्वोपायनं व्यधुः ॥ ५३६ ॥

५३६. 'हम लोगो का स्वामी आज ही यह विनोद कर रहा है, पुनः नहीं करेगा—' इसी-लिये पक्षियों के समूह को श्येन पकड़ कर (राजा को) उपायन प्रदान किये ।

मुन्तान की बीमारी

प्रत्यावृतस्ततो राजा सैदांस्तान् प्रतिमुच्य च ।

नाहं स्वस्थोऽस्मि तल्पस्थो देवीं ज्ञातरुजं व्यधात् ॥ ५३७ ॥

३३७ वहाँ से लौटकर, राजा ने उन सैय्यदो को छोड़ दिया और शय्या पर स्थित रह-कर,—'मैं स्वस्थ नहीं हूँ'—इस प्रकार से अपना रोग रानी को ज्ञात करा दिया ।

तत्पथ्यपरिचारिण्या स्वयं देव्यावृतो नृपः ।

दिवसेन्दुरिव क्षीणरुचिर्विच्छायतामगात् ॥ ५३८ ॥

३३८ उसकी पथ्य परिचर्या करनेवाली, स्वयं देवी से सेवित भी नृपति दिन में चन्द्रमा के समान, क्षीण रुचि एवं कान्तिहीन हो गया ।

कपाटविकटं वक्षः श्यामगौरं तदाननम् ।

कटथूरुजानुपादाश्च पीनाः पद्मदलोपमाः ॥ ५३९ ॥

५३९ कपाटवत् विकट वक्षः, श्याम-गौर उसका भानन तथा पीन एवं पद्मदल सदृश कटि, उरु, जानु, पाद—

सुन्दरं नयनद्वन्द्वं ललाटं भ्रूमनोहरम् ।

तद्रुजा नृपतेः सर्वं विवर्णं समपद्यत ॥ ५४० ॥

५४०. सुन्दर युगल नयन, भ्रू, मनोहर ललाट, उस रोग से राजा का सब विवर्ण हो गया ।

मुन्तान की इच्छा

एकदा सोऽवदद्राजा तं मेयाहसनं रहः ।

नाहं जीवामि राज्यार्हाः न सुताः शिशवो मम ॥ ५४१ ॥

५४१. एक बार एकान्त में उस राजा ने मीया हस्सन से कहा—'मैं जीवित नहीं रहूँगा, और मेरे शिशु राज्य के योग्य नहीं हैं—'

पाद-टिप्पणी

५३६. 'पथ्य' पाठ—बम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

५४१. (१) मीया हस्सन : किरिस्ता लिखता

बद्धो बहामखानीयो न पाति मम बालकान् ।
वरमादमखानीयं युक्त्यानीयाभिषिच्यताम् ॥ ५४२ ॥

५४२. 'बहराम खान का सन्तान जो कि बन्दी है, मेरे पुत्रों को रक्षित नहीं करेगा, अच्छा है कि युक्ति से आदम खान के सन्तान को लाकर, अभिषिक्त^१ करो—

अथवेयं भवत्कन्या यद्वक्ष्यति करोतु तत् ।
श्रुत्वेति भव धीरस्ते स्वास्थ्यं स्यादिति सोऽब्रवीत् ।
केवलं सैदहसनो रुदोद भृशदुःखितः ॥ ५४३ ॥ कुलकम् ॥

५४३. 'अथवा आपकी यह कन्या जो कहे उसी को करो—' यह सुनकर, 'धैर्य धारण करो, तुम स्वस्थ होगे' यह उसने कहा, केवल सैय्यद हसन बहुत दुःखित होकर, बहुत रो रहा था । कुलकम् ।

अथ राज्यवदत् पित्रे र्हो मेरमुखादिदम् ।
सन्देहितासू राजायं राज्ये किं क्रियतेऽधुना ॥ ५४४ ॥

५४४. एकान्त में रानी ने मेरा के मुख से पिता के लिये यह कहा—'इस राजा के प्राण संकट में हैं, राज्य के लिये इस समय क्या कर रहे हो ?'

है—'यह जानकर कि अब वह जीवित नहीं रह सकेगा, उसने मीया हस्सन को बुलवाया (४७९) ।'
पाद-टिप्पणी :

५४२. (१) अभिषिक्त : तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'मरते समय वसीयत की, क्योंकि मेरा पुत्र अभी अल्पावस्था में है, अतः युसुफ खां बिन बहराम खान को जो बन्दीगृह में है, फतह खां पुत्र आदम खां जो सहवास की विलायत में है, सिंहासना-रूढ़ कर दिया जाय । सैय्यद हसन ने इसे बाहरी तौर से मान लिया (४५० = ६८१) ।'

फिरिश्ता लिखता है—'सुल्तान ने मीया हस्सन से कहा—मेरे सभी लड़के बहुत ही छोटे हैं और वे राज्य कार्य के उपयुक्त नहीं हैं, अतएव मेरी यह इच्छा है कि मेरे किसी एक भतीजा को चाहे युसुफ खां पुत्र बहराम खां या फतह खां पुत्र आदम खां को मेरा उत्तराधिकारी बना दो । मन्त्री ने बात मानने का बहाना बनाकर सुल्तान का आदेश पालन करने का वचन दिया (४७९) ।'

पीर हसन लिखता है—'सुल्तान ने वसीयत की

कि मेरे लड़के अभी छोटे हैं, इसलिए या तो युसुफ खां पिसर बहराम खां को या फतह खां इब्न आदम खां को जो इस वक्त विलायत जसरोटा में है, तख्त पर बैठाये, और मुहम्मद खां को वली-अहद बनाये, सैय्यद हुसेन वैहकी ने यह वसीयत जाहिर में क़बूल कर ली और सुल्तान इस मुल्क से राहे मुल्क बक्ना हो गया (१९१) ।'

तवक्काते अकवरी के एक पाण्डुलिपि में 'हसवास' तथा दूसरे में 'खत' लिखा मिलता । फिरिश्ता के लीथो संस्करण में 'जसरोथह' लिखा गया है । रोजर्स ने उसका अनुवाद 'जसरोथ' किया है (जे० ए० एस० पी० : ५४ : १०९) । कर्नल ब्रिग्स ने स्थान का नाम नहीं दिया है (४ : ४७९) । श्रीवर ने भी स्थान का नाम नहीं दिया है । कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया में वसीयतनामा का उल्लेख नहीं है ।

पाद-टिप्पणी :

५४३. 'रुदोद' पाठ—वम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

५४४. (१) मेरा : द्र० : ३ : ४८३; ४ : २७ ।

वरं ब्रह्मसानीयो युवायमभिषिच्यताम् ।
यौवराज्ये च ज्येष्ठोज्यं दौहित्रः स्थाप्यतामिति ॥ ५४५ ॥

५४५. 'अच्छा है, इस युवा बहराम खा के पुत्र को अभिषिक्त करो, और युवराज पद पर ज्येष्ठ इस दौहित्र को स्थापित करो ।

द्वित्रा द्विष्टाश्च वध्यन्तां सर्वे स्युरविनश्वराः ।
श्रुत्वेति मेयाहसनः सक्रोधस्तामभर्त्सयत् ॥ ५४६ ॥

५४६ 'दो-तीन द्वेषियों का वध कर डालो, और सबका नाश न हो ।' यह सुनकर मीया हस्सन ने क्रुद्ध होकर, उसे भर्त्सित किया ।

तच्छ्रेयःप्राप्तिसंकल्पकल्पितद्रव्यसंचयान् ।
मौसुलेभ्यो ददुः सैदा द्विजभक्तिविवर्जिताः ॥ ५४७ ॥

५४७ 'उसने श्रेय' (पुण्य) की प्राप्ति के सकल्प से किये गये, द्रव्य को द्विज^३ भक्ति रहित सैथ्यदो को दे दिया ।

मुन्तान की चिकित्सा

प्रभुं द्रष्टुं न यच्छन्ति गच्छन्त्यभ्यन्तरं स्त्रियः ।
मन्त्रपाठं निषेधन्ति तत्तद्गारुडिकोचितम् ॥ ५४८ ॥

५४८ स्वामी को देखने नहीं देते और स्त्रियाँ ही अन्दर जाती थी, तत् तत् गारुडिको^१ के मन्त्र पाठ का निषेध करते थे और—

पाद-टिप्पणी .

५४७ (१) श्रेय सोभाग्य, शुभ, पुण्यकर्म, सद्गुण, मंगल, कीर्तिकर, यशकारक, कल्याणकारी-वर्धना द्रक्षण श्रेय—हि० ३ ३, पूर्वावधी रित श्रेयो दु ख हि परिवर्तते—श० ७ १३ । प्रति वप्नाति हि श्रेयः ५ ३४, पूज्य पूजा व्यति-क्रम—रघु० १ ७९, उत्तर० ५ २७, ७ : २० ।

श्रेय एक साम का नाम है । ज्योतिष का दूसरा मुहूर्त है ।

(२) द्विज मुसलमान होने पर भी पूव परम्परा के अनुसार दान आदि ब्राह्मणों का दिया जाता था । परन्तु मुसलमान तथा विद्वसी मुसलमानों

एव सैथ्यदो के प्रभाव के कारण ब्राह्मणों को दानादि न देकर, मुसलमानों में श्रेष्ठ वर्ग जिन्हें ब्राह्मण तुल्य ही मानते थे सैथ्यदो को दानादि दिया गया ।

पाद-टिप्पणी

५४८ (१) गारुडिक विषवेद्य मन्त्र से साँप का विष उतारनेवाला, सपेरा, जादू मन्त्र करने-वाला ऐन्द्रजालिक या विष औषधि विक्रेता—सगु-हीत गारुडेन, वा० ५१ रघु० : १३. ५३ । सैथ्यद बहुर मुसलमान थे अतएव शाह-फूक, ओझाई, मन्त्र-पाठ आदि जनता में व्याप्त रस्कारों में विद्वान्त नहीं करते थे । मन्त्रों द्वारा शरीर में व्याधियों द्वारा विष उतारने अथवा मन्त्र पढ़कर रोग दूर करने में विश्वास नहीं करते थे । गारुडी

चिकित्सां वैद्यकोक्तानां तामन्यथा रचयन्ति च ।
तत्रापि गुलिकां भोक्तुं रचयन्ति स्वसाधिताम् ॥ ५४९ ॥

५४९. वैद्यों की कहीं चिकित्सा को अन्यथा कर देते और वहाँ भी अपने द्वारा बनायी गयी, खाने के लिये गुलिका (गोलियाँ) देते थे ।

क्लिमप्यनिष्टं कर्मेति कृतमित्यादिवादिनः ।
वर्चो विवर्णं पश्यन्तोऽप्यन्तरङ्गा महीपतेः ॥ ५५० ॥

५५०. 'कुछ अनिष्ट कर्म किया गया है—' इस प्रकार कहनेवाले राजा के अन्तरंग लोगों ने भी उसके मलिन तेज को देखा ।

वैद्यो गारुडिकश्चाहं दृष्टकर्मैति कथयन् ।
तथाभूद् रुय्यभट्टः स स्त्रीवैद्यककृतार्थनः ॥ ५५१ ॥

५५१. उस समय—'मैं वैद्य गारुडिक एवं दृष्टकर्मा हूँ' कहनेवाले उस रुय्यभट्ट को स्त्री वैद्यों ने बुलाया ।

मुमूर्षुः सेवकैः पृष्टः का रुक् किं चेक्षसे विभो ।
सण्डो निवार्यतामग्रादित्यूचे तान् महीपतिः ॥ ५५२ ॥

५५२. 'हे स्वामी ! क्या रोग है ? क्या देख रहे हो ?' इस प्रकार सेवकों के पूछने पर मुमूर्षु महीपति ने उनसे कहा—'सामने से 'सण्ड' को हटा दें ।'

कृतान्तमहिषो दृष्टो दिवमद्यैव यात्ययम् ।
इत्युक्त्वा शुशुचुः सर्वे साक्रन्दं साश्रुलोचनाः ॥ ५५३ ॥

५५३. 'राजा ने यमराज के महिष को देखा है, अतएव यह आज ही स्वर्ग चला जायगा'— ऐसा कहकर, अश्रुपूर्ण नैनों से सब लोग क्रन्दनपूर्वक शोक प्रकट किये ।

शब्द लोक भाषा में भी प्रचलित है—

चले सब गारुडी पछिताइ ।
नेकहु न मन्त्र लागत समुझि काहु न जाइ ।
(सूर शब्दावली) ।
डरी री भाई, श्याम भुअंगम कारे ।
आनहु वेगि गारुडी गोविंद जो यह विपहि उतारै ।
(सूर शब्दावली) ।

पाद-टिप्पणी :

'रुक्' 'सण्डो' पाठ—वम्बई ।

५५२. (१) सण्ड : शण्ड = भीड़ = घूर्त = साड़ ।
किन्तु यहाँ लाक्षणिक अर्थ महिष या भैंसा ही बैठता है । पाठभेद में भी 'महिष' मिलता है । इसकी पुष्टि श्लोक संख्या ५५२ से भी होती है । श्री दत्त ने अनुवाद हाइपोक्रीट अर्थात् दार्भिक या घूर्त अथवा कपटी किया है । सण्ड का अर्थ हीजड़ा तथा नपुंसक भी होता है ।

मुन्तान की मृत्यु

संरुद्धवसनः साश्रु घूर्णयन् दृष्टिमण्डलम् ।

तस्यामेव रजन्यां स सुमूर्पुरभवन्नृपः ॥ ५५४ ॥

५५४ संरुद्ध वसन, अश्रुपूर्ण दृष्टि को घुमाते हुए, वह राजा उसी रात मरणासन्न हो गया ।

वर्षे पष्टितमे कृष्णनवम्यां मासि माघवे ।

पञ्चाहं द्वादशाब्दांश्च राज्यं कृत्वा दिवं ययौ ॥ ५५५ ॥

५५५ साठवें वर्ष, वैशाख मास, कृष्णपक्ष, नवमी को वारह वर्ष, पाँच दिन राज्य कर, स्वर्ग चला गया ।

मुन्तान की अन्तेष्टि

आक्रन्दमुसरा रात्रिः सर्वा सा जनताप्यभूत् ।

प्रातर्यानिं समारोप्यच्छत्रचामरसंयुतम् ॥ ५५६ ॥

५५६ वह सम्पूर्ण रात्रि एव समस्त जनता, आक्रन्दन से मुखरित हो गयी । प्रातः काल उसे चामर सहित यान पर आरोपित कर—

पाद-टिप्पणी

५५५ (१) साठवा वर्ष सन्तपि ४५६० सन् १३८४ ई० = विक्रमी १५४१ = शक १४०६ । माहिबुल हमन मृत्यु का समय अप्रैल १९ सन् १४८४ ई० दते हैं ।

तवकाने अकवरी में लिखा है—'उसके राज्य को अवधि का पता नहीं है (४५१ = ६८२) ।' फिरिस्ता लिखता है—'कुछ समय पहचान मुन्तान को मृत्यु हो गयी । परन्तु हमें इसकी जानकारी नहीं है कि उसकी मृत्यु का निश्चित समय क्या है ? इस प्रकार उग्रका राज्यकाल देने में अशक्य है । किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसने १९ वर्ष शासन किया था (४७९-४८०) ।'

तवकाने अकवरी मृत्यु का कारण उसके अनिमार के रोग को देती है (४५१ = ६८२) । फिरिस्ता मृत्यु का कारण नहीं देता ।

बंमिन्त्र हिम्झी आक इण्डिया (६९८) में राज्यकाल १८ वर्ष अर्थात् हिजरी ८७६ सन् १४७२ ई० स हिजरी ८९४ = सन् १४८९ दिया है । बंमल शिगम (४ ८०) का मत है कि मुन्तान

ने लगभग १९ वर्षों तक राज्य किया था । उसके पिता हैदर का अन्तकाल हिजरी ८७८ में न होकर ८९१ हिजरी सन् में हुआ था । अतएव उसका राज्यकाल किसी प्रकार भी १३ वर्ष से अधिक नहीं हो सकता ।

जैनुल आबदीन भी उत्तरायण ज्येष्ठ मास, उसने पुत्र हस्तन का मधुमास, पिता हैदरशाह माघव अर्थात् वैशाख मास उत्तरायण तथा पौष हस्तनशाह मधु अर्थात् वैशाख मास उत्तरायण में दिवगत हुए थे, जो भारतीय परम्परा के अनुसार उत्तम माना जाता है । मोम्म पितामह ने शरशय्या इसीलिये लिया था कि उत्तरायण काल में मृत्यु प्राप्त करें ।

पाद-टिप्पणी

५५६ (१) यान इस शब्द का अर्थ सवारी होता है । मुमलमानों का शत्रु ताबूत में ले जाया जाता है । लोग बन्धा देते हैं । परन्तु यहाँ यान शब्द का प्रयोग किया गया है । यान पर शत्रु ले जाना आश्चर्य की बात नहीं है ।

ईसाई लोगों का शत्रु बदन में बन्दकर किसी गाड़ी पर रस कर ले जाते हैं । मघाटों, राजाओं

सैदाः ससेवका सर्वे निन्युः पितृशवाजिरम् ।

श्रीजैनभूप्रमये दुःखिता नाभवत् प्रजा ॥ ५५७ ॥

५५७. सेवक सब सैय्यद लोग पितृ शवाजिर^१ (खान्दानी कब्रिस्तान) में ले गये । जैन भूपति के मरने पर, प्रजा उस प्रकार दुःखी नहीं हुई—

तादृशी यादृशी तस्य मरणे शरणोज्झिता ।

तद्गुहाश्मनि वस्त्राद्ये तस्य मस्तकवेष्टनम् ॥ ५५८ ॥

५५८. जितना निस्सरण होकर, इस राजा के मरने पर दुःखी हुयी । प्रचुर वस्त्रपूर्ण, उस गुहा^१ के पत्थर पर, मन्त्रियों ने उसके मस्तक वेष्टन को—

तद्वन्धरचनं दुष्पिकोज्ज्वलं मन्त्रिणो व्यधुः ।

तदालोक्य जनः सर्वो दर्शनोत्कण्ठिताशयः ॥ ५५९ ॥

५५९. सुन्दर बन्धन रचना युक्त, सुन्दर टोपी से संयुक्त किया, दर्शन के लिये उत्कण्ठित हृदयवाले सब लोग, उसे देखकर—

स्मारं स्मारं नृपं मेने निपण्णमिव मध्यगम् ।

प्रातःप्रातः समागत्य सैदाः सप्तदिनावधि ।

स्ववेदाध्ययनं चक्रुर्मिथितं रुदितैःस्वनैः ॥ ५६० ॥

५६०. राजा का वारम्बार स्मरण कर, मध्य में स्थित उसे सोया^१ हुआ माने । प्रातः आकर, सात दिनों तक सैय्यदों ने रुदित ध्वनि से मिथित अपने वेदों का अध्ययन किया ।

तथा सेनानायकों का शव भी यान पर ले जाते थे । आजकल तोप की गाड़ी पर ले जाते हैं । राष्ट्रपति जाकिर हुसेन, पं० जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद का शव तांब की गाड़ों पर ले जाया गया था ।

अरुगानिस्तान की अपनी यात्रा में देखा था कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों का शव बूमघाम के साथ सवारी पर ले जाया जाता था । काश्मीर में भी यह प्रथा प्रचलित थी ।

पाद-टिप्पणी :

५५७. (१) पितृ शवाजीर : मजारिये सलातीन ।

जै. रा. १८

पाद-टिप्पणी :

५५८. (१) गुहा : गुफा = खाई = गर्त = कब्र ।

पाद-टिप्पणी :

५६०. (१) निपण्ण : विश्रान्त रवु ९ : ७६ । वाचिक अर्थ, आसोन, बैठा, सहारा लगाये हुए, आश्रित आदि भी होता है । परन्तु यहाँ पर चिर-विश्रान्ति अर्थात् कयामत तक के लिये विश्राम या सोने ने तात्पर्य है ।

(२) वेदों : कुरान गरीफ एवं मुसलिम पवित्र ग्रन्थों, अथवा मुसलिम वार्षिक ग्रन्थों से तात्पर्य है ।

स्मशान वैराग्य

विहितरतयो दृष्टा येऽन्यैर्महाविभवोज्ज्वला-

स्तरुणवयसो बालालीलाविलासमदालसाः ।

कतिपयदिनैस्तेऽमी रिक्ता व्रजन्ति शुचान्विता

विरसमनसो राज्याद्देश्यागृहादिव कामुकाः ॥ ५६१ ॥

५६१ लोगो ने जिन्हे रतिक्रीडा करते, महा विभव से समुज्वळ, तरुण आयु से युक्त, बालाओ के लीला विलास मद से अलस^१ देखा था, कतिपय दिनों पश्चात् वे ही वेश्यागृह स, कामुक सदृश, राज्य से रिक्त, शोकान्वित, विरस मन, होकर जा रहे हैं ।

देशो मेऽय रचितरचना राजधानी ममेय

कोशो मेऽय युवतिरपि मे मे सुता मे च भृत्याः ।

इत्येवान्तः कलयति नृपो यावदेत्यन्तकस्त

त्यक्त्वा सर्वं व्रजति सुशिरः पुण्यपापैकभागी ॥ ५६२ ॥

५६२ यह मेरा देश है, सुन्दर रचना युक्त यह राजधानी मेरी है, यह कोश मेरा है, युवती, सुत तथा भृत्य भी मेरे ही हैं, उस प्रकार राजा जब तक मन म विचार करता है तभी यमराज उसके निकट आ जाता है और वह सुशिर^२ केवल पाप-पुण्य का भागी होकर, सब कुछ त्याग कर चला जाता है ।

सप्ताङ्गसुभग राज्य ममेदमिति योऽब्रवीत् ।

तदीयो नाभवत्तस्य स्वदेहान्ते पृथक् स्थितेः ॥ ५६३ ॥

५६३ सप्ताग^३ सुभग यह राज्य मेरा है यह जिसने कहा था, अन्त म सप्ताग सुभग शरीर भी अपना नहीं हुआ ।

पाद टिप्पणी

‘राज्याद्’ पाठ—बम्बई ।

५६१ (१) अलस मैथुन के पश्चात् मनुष्य सिधिल बलान्त, स्फूर्तिहीन तथा श्रान्त हो जाता है । शराब का नशा उतरने पर भी मनुष्य की यही दशा होती है । शराब तथा काममद में जिम स्फूर्ति का उसमें उदय होता है उसका मद उतरत ही लोप हो जाता है । सूरदास बड़ा उत्तम बर्णन करते हैं ।

चन्दन मिटाये तन अतिहि अलस मन ।

नागरी की पीक लीक लागी है कपाली ॥

पाद-टिप्पणी

५६२ (१) सुशिर सुन्दर शिरवाला व्यक्ति अथवा सुन्दर शिर युक्त । सुशिर का अर्थ बासुरी बाजा भी होता है । मख न सुशिर का अर्थ किया है—

स्याद्वाङ्मभदे सुशिर गते गतान्वित त्रिपु ।

नडे तु सुशिराभीरु शतावयभय त्रिपु ॥७३९॥

पाद टिप्पणी

५६३ (१) सप्ताग राज्य की सात प्रकृतियों तथा सप्त घातुयुक्त शरीर से अभिप्राय है । द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन ३ २९६ ।

इत्थं शवाजिरे लोकः शुशोच नृपसंहतिम् ।

अश्मैकरचनामात्रावशिष्टां तत्र संस्थिताम् ॥ ५६४ ॥

५६४. इस प्रकार लोगों ने शवाजिर^१ में प्रस्तर की रचना मात्र से अवशेष, स्थित नृप समुदाय के प्रति शोक प्रकट किया ।

राज्यदानाय राज्ञी सा म्लेच्छसम्पर्ककर्कशम् ।

बहामखानजं पुत्रं दुःखोदकमत्कयत् ॥ ५६५ ॥

५६५. उस रानी ने राज्य देने के लिये म्लेच्छ सम्पर्क से कर्कश बहराम खां के पुत्र को जो कि दुःखोदय था विचार किया ।

इति जैनराजतरङ्गिण्यां पण्डितश्रीवरविरचितायां हस्सनशाहिराज्यवृत्तान्तवर्णनं
नाम तृतीयस्तरङ्गः ।

इति हस्सनशाहि स्वर्गणम्

इस प्रकार पण्डित श्रीवर विरचित जैनराजतरंगिणी में हस्सनशाह का राज्य वृत्तान्त नामक तृतीय तरंग समाप्त हुआ ।

॥ इति हस्सन शाह का स्वर्ग गमन ।

पाद-टिप्पणी :

५६४. (१) शवाजिर : कब्रिस्तान : द्रष्टव्य
पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : ७ : २२६; २ : ८५,
८९; ३ : ३५५ ।

पाद-टिप्पणी :

प्रस्तुत संस्करण में बम्बई के समान ५६५ श्लोक
हैं । कलकत्ता संस्करण में ५७२ पंक्तियाँ हैं, पृष्ठ
४० से ६१ तथा श्रीकण्ठ कौल में ५६४ श्लोक हैं ।

पीर हसन लिखता है—'हिजरी ८९२ में मीर
शमशुद्दीन इराक़ी, सुल्तान हुसेन मिरजा वालिये,
खुरासान की तरफ से बतौर सिफ़ारत काश्मीर में
आये । शाही खत के अलावा सुल्तान के पहुँचने की
एक खास पोस्तीन सुल्तान हस्सनशाह के पास
बतौर तुहफ़ा लाये इसके साथ ही बादशाह से वालिये

खुरासान की तरफ से काश्मीर के कुछ उम्दा तुहफ़े
भेजे जाने की इत्तजा की ।

बादशाह के इन्तकाल के बाद मीर शमश
इराक़ी आठ साल तक यहाँ मुक़ीम रहे । आप अगरचे
जाहिर तौर वावा इस्माइल के मुरीदों में दाखिल
हो गये थे लेकिन वातन में वावा अली, अली नज़ार
को शीया मजहब की तरफ मायल करके खुद खुरा-
सान की तरफ वापस लौट गये । मीर साहब मजकूर
फतहशाह के अहद हकूमत में काश्मीर में दोवारह
वारिद हुए और पूरे तौर पर मजहब शीया का
रवाज दिया (१९१-१९२) ।'

किन्तु श्रीवर जो उस समय का प्रत्यक्षदर्शी था
उक्त घटना का उल्लेख नहीं करता ।

रघुनाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री बटुकनाथ सिंह, जन्मस्थान पंचक्रोशी, अन्तर्गत बरुणातीर

स्थित, ग्राम खेवली, रामेश्वर स्थान समीप तथा निवासी मुहल्ला धीहड़ा (औरंगाबाद)

वाराणसी, नगर उत्तर प्रदेश भारतवर्ष ने श्रीवरकृतराज जैनराजतरंगिणी

तृतीय तरंग का भाष्य एवं अनुवाद लिखकर समाप्त किया । सन् १९७६

ई० = संवत् २०३३ विक्रमी = शक १८९८ = कलि गतान्द

५०७७ = सप्तपि या लौकिक संवत् ५०५२ = फसली

सन् १३८३-१३८४ ई० = हिजरी १३९६-

१३९७ = बंगला सं० १३८२-१३८३ ।

श्रीवर पण्डित कृता तृतीया जैनराजतरंगिणी

चतुर्थस्तरंगः^१

राज्याभिषेकः

तृतीयेऽहनि मैदास्ते मिथः ममन्व्य मत्वराः ।

व्यधुर्महादखानाय राज्यदानाय निश्चयम् ॥ १ ॥

१ तीसरे दिन^१ शीघ्र ही वे मैथ्यद परस्पर मन्वणा करके, मुहम्मद खान को राज्य प्रदान करने का निश्चय किये ।

प्रतीक्षाक्षममालोक्य कालं मैदास्त्वराकुलाः ।

राज्याभिषेकदानेच्छामकुर्वन्नृपसूनवे ॥ २ ॥

२ समय को प्रतीक्षा योग्य न जानकर, शीघ्रता से व्याकुल सैथ्यद, नृप पुत्र को राज्याभिषेक देने की इच्छा की ।

मुहम्मदशाह (मन् १४८४-१४८६)

अथ राज्ये व्यधीयन्त तत्सुतं सप्तवर्षिकम् ।

कृत्वा महादशाहाख्यं गोनन्दमिव सुन्दरम् ॥ ३ ॥

३. गोनन्द^१ के समान सुन्दर सप्तवर्षीय^२ उसके पुत्र को मुहम्मदशाह नामकरण^३ करके, राज्य पर आसीन कर दिये ।

पाद-टिप्पणी

‘सत्वरा’ पाठ-वम्बई ।

इस तरंग में मगलाचरण नहीं है । जैसे तृतीय तरंग का ही चतुर्थ क्रम है परन्तु श्लोक सख्या १ से आरम्भ किया गया है । इस तरंग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तरंगों के समान मगलाचरण का अभाव खटकता है । कुछ पाण्डुलिपियों में मगलाचरण दिया गया है ।

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तरंगों में ‘अथ’ ने शीर्षक आरम्भ किया गया है । चतुर्थ तरंग में अथ नहीं दिया गया है ।

१. (१) तीसरा दिन . तीजा । मृत्यु के तीन दिन पश्चात् तक शोक मनाया जाता है । मुसलमानों में एक मान्यता है कि तीन दिन तक मृत व्यक्ति कब्र

में जवाब-सवाल करता है । वह कब्र में उठकर बैठ जाता है । इसलिये कब्र उठकर बैठ जाने इतनी ऊँची बनायी जाती है । उसका मुख खोल दिया जाता है । तीजा के दिन मृतक मुसलमान के सम्बन्धी गरीबों को रोटी बाँटते या खाते-खिलाते हैं ।

तवक्कार्त अकधरो के एक पाण्डुलिपि में पिता हसन के स्थान पर हुसेन है । लियो सस्करण में ‘शाह’ शब्द नहीं है ।

पाद-टिप्पणी :

३. (१) गोनन्द कल्हण ने काश्मीर के तीन गोनन्द राजाओं का वर्णन किया है । श्रीवर ने एक वचन ‘गोनन्द’ का प्रयोग किया है ।

प्रथम गोनन्द भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता

तस्य सिंहासनस्यान्ते स्थापिता वस्तुमंततिः ।

त्यक्त्वा भोजनमाम्ग्रीं पूर्वं शाङ्गोऽपतत् क्रः ॥ ४ ॥

४. उनके सिंहासन के समाप्त वस्तु परम्परा स्थापित की गयी थी, भोजन सामग्री त्यागकर, सर्वप्रथम उसका हाथ वस्तु पर पड़ा ।

बलराम द्वारा मथुरा युद्ध में वीरगति प्राप्त किया था । प्रथम गोविन्द का पुत्र दामोदर था । उसने भी भगवान् कृष्ण के हाथों वीरगति प्राप्त किया था । भगवान् कृष्ण ने दामोदर के गर्भस्य पुत्र द्वितीय गोतन्द को काश्मीर का राजा घोषित किया था । यह गर्भ से ही काश्मीर का राजा था । उसको माना यशोवती अभिभाविका स्व से जामन मन्त्रिमण्डल के माय करती थी । तृतीय गोतन्द बालक राजा नहीं था । श्रीवर का ज्ञात्वय्य यहाँ गोतन्द द्वितीय से है । कर्तव्य ने भी गोतन्द द्वितीय के विषय में लिखा है । उनसे पिता का राज्य तथा प्रपिता का नाम जानें प्राप्त किया था । ऋष्यपाद-टिप्पणी राज० : १५७—६४; ७०-८३; १८५-१९१; नीलमत्त पुराण : २८=४८. २०=५०, ३७२=१५८; ८७५=१०४६; ७७८=१०४९; ८७९=१०४९; १३-६६=१५८२; १३७९=१५८३; हरि० : २ : ३४-३६; नील० : २३७=३१४; ३-२३=७-२३ ।

(२) सप्तवर्षीय : तदवकाले अकवरी में उल्लेख है—'मुहम्मद खान सात वर्ष की अवस्था में सैय्यद हसन के प्रयत्न के फलस्वरूप सिंहासनारूढ़ हुआ (४५१) ।'

(३) नामकरण : राज्याभिषेक के समय राजा तथा सुल्तान अपना मूल नाम त्यागकर, अभिषेक नाम धारण कर लेते थे । यह अभिषेक नाम भारत में कहा जाता था । मुहम्मद खान का नाम बदलकर मुहम्मद शाह रख दिया गया । मुहम्मद पैगम्बर का पवित्र नाम है । अतएव उसे बदलना मन्मद नहीं था । खान बदलकर शाह कर दिया गया । उसके नाना सैय्यद हसन के हाथों में प्रथमनिक कार्य था । बहारिस्तान शाही : पाण्डु० : ६१ ए० ।

क्रिस्ता लिखता है—'सुल्तान ने वफा करने के तुरन्त पश्चात् उसके बहीर सैय्यद हसन ने दिवंगत सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार मुहम्मद को सात वर्ष की उमर में सुल्तान बना दिया (४८१-४८२) ।'

तदवकाले अकवरी में उल्लेख है—'मुहम्मद खान सात वर्ष की अवस्था में सैय्यद हसन के प्रयास के फलस्वरूप सिंहासनारूढ़ हुआ (४५१=४८२) ।'

पीर हसन लिखता है—'सैय्यद हसन वैहकी की इमदाद से सरदारी और हुकूमत का झण्डा बुलन्द किया । इस वक्त इनकी उमर सिर्फ सात बरस थी (१९३) ।'

पाद-टिप्पणी :

४. श्रीवर राज्यकाल ४५६० में माघव मास कृष्ण षष्ठी में पत्र तदमी, श्रीवत् कलि ४५८५ = अक १४०६ = मन् १४८४ ई० तथा राज्यकाल २ वर्ष, ७ मास देते हैं । पीर हसन राज्यकाल विक्रमी १५४४ = हिजरी ८१२ तथा मोहिदुल हसन मन् १४८४ ई० देते हैं । आइने अकवरी में मन् १४८६ ई० = हि० ८११; राज्य २ वर्ष ७ मास । कनिहहेन्निव हिस्ती आरु इण्डिया में मन् १४८४ ई० तथा केन्निह हिस्ती आरु इण्डिया में मन् १४८९ ई० = ८९४ हिजरी दिया गया है ।

(१) वस्तुप : तदवकाले अकवरी में उल्लेख है—'उम दिन ममन सोना चाँदी, अस्त्र, गस्त्र तथा वस्त्र इत्यादि उसके मन्मुख प्रस्तुत किये गये । परन्तु उनसे किसी और अपनी दृष्टि नहीं डाली और वस्तुप को अपने हाथ में ले लिया (४५१=९८२) ।'

क्रिस्ता लिखता है—'इस समय राजकीय क्रम, की मानग्री के साथ ही साथ पहनने का

एतद्राज्ये सदा युद्धं भविता मण्डलान्तरे ।

दृष्ट्वा शकुनविज्ञाः कैःप्युचुस्तत्रान्तिकस्थिताः ॥ ५ ॥

५- वहाँ निकट स्थित कुछ शकुन' विज्ञो ने देखकर, यह कहा—'उसके राज्य (काल) मे मण्डल मध्य सर्वदा युद्ध होगा ।'

रौप्यसिंहासने छत्रो विवभौ बालभूपतिः ।

दत्तानन्दः पयःपूरैर्बालेन्दुरिव सुन्दरः ॥ ६ ॥

६- बालेन्दु सहज सुन्दर, पय पूर से, दत्तानन्द, छत्रधारी, बाल भूपति रजत के सिंहासन' पर शोभित हुआ ।

सामान, अम्ब-शम्ब, उसके सम्मुख रखा गया । बालक ने रत्न, भडकौले वस्त्रादि एक तरफ करते हुए, एक धनुष उठा लिया (४८२) ।'

शाङ्ग अर्थात् मींग के बने धनुष को शङ्गी कहते हैं । मंगोल जाति बारहवीं शताब्दी तक मींग के बने धनुष का प्रयोग करती थी । विगेज की सेना की पंक्ति तीन भागों में विभाजित रहती थी । प्रथम अर्थात् अगली पंक्ति में वर्मधारी अश्वारोही मींग से बने धनुष, तीन तरफदा भरा तीर और दछाँ लेकर चलते थे । द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति के अश्वारोही वर्मधारी नहीं होते थे । वे केवल धनुष, बाण एवं दछाँ लेकर चलते थे ।

जहाँ बांस अथवा धनुष योग्य लकड़ी नहीं मिलती थी तथा वृक्षहीन केवल घासवाले मैदान थे, जैसे मंगोलिया से हगरो मध्यवर्ती विशाल चर मून्ण्ड वहाँ पशुमांस मोजन तथा धनुष आदि बनाने के लिये पशु के मींग का प्रयोग किया जाता था ।

पाद-टिप्पणी

५- (१) शकुन - उपक्वार्ते अक्षरों में उल्लेख है—'उपस्थित गण ने उसके इस कार्य से उसके पौरुष तथा श्रेष्ठता के विषय में निष्कर्ष निकाला और वे कहते थे कि वह राज्य व्यवस्था हेतु प्रयत्नशील होगा (४९१ = ६८२) ।'

चिरिदता लिखता है—'इस घटना से एक अच्छा

शकुन निकाला गया कि युवक राजा एक प्रसिद्ध सेनानी होगा (४८२) ।' द्र० १ : १ १०४; २ : ११९, ३ - ३७६, ४ - ५ ।

शकुन तथा ज्योतिष आदि की फलगणना या भविष्य निकालना पुरातन मुसलिम परम्परा विरुद्ध है । परन्तु काश्मीर में हिन्दुओं की अनेक परम्पराएँ धर्म परिवर्तन पश्चात् भी मुसलिम मानते थे ।

पाद-टिप्पणी

६. (१) सिंहासन - हैदरशाह का राज्याभिषेक स्वर्ण सिंहासन पर हुआ था (जैन : २ : ६) । हसनशाह के राज्याभिषेक के समय एक स्थान पर केवल सिंहासन (जैन - ३ : ८) तथा दूसरे स्थान पर रजतमय वासन का उल्लेख किया गया है (जैन० . ३ १०) । मुहम्मदशाह का राज्याभिषेक रजत के सिंहासन पर हुआ था । मुसलिम धर्म सोना हराम अर्थात् वर्जित समझता है । चान्दी हलाल अर्थात् विहित मानी जाती है । इस परिवर्तन का कारण है । जैनुल आबदीन की मृत्यु के पश्चात् हैदरशाह सिंहासन पर बैठा था । उस समय धार्मिक कट्टरता नहीं थी । परन्तु संथिदों तथा विदेशी मुसलमानों के पुन. काश्मीर में प्रभाव के कारण, दरबार में कट्टरता का प्रवेश हो गया था । अतएव स्वर्ण के स्थान पर चान्दी अर्थात् रजत सिंहासन का प्रयोग किया गया है ।

सैदाः शुभ्रांशुकन्यस्तकुङ्कुमालोहितत्वियः ।

भाविद्रोहकृतोद्गच्छद्रक्तसिक्ता इवात्रभुः ॥ ७ ॥

७. शुभ्र अंशुक पर छपे, कुमकुम से, लोहित कान्तिवाले सैद्यिद, भावी द्रोह के कारण, निकले रक्त से सिक्त, सदृश शोभित हुए।

भ्राता होस्सनखानोऽस्य कनीयान् रुचिराकृतिः ।

वभौ बालनृपस्याग्रे शुक्रस्येव बृहस्पतिः ॥ ८ ॥

८. सुन्दर आकृतिवाला इनका कनिष्ठ भ्राता होस्सन खान, बाल नृपति के समझ, उसी प्रकार शोभित हुआ, जैसे शुक्र के समीप बृहस्पति ।

शोकहर्षान्वितो लोकस्तद्दिने पितृपुत्रयोः ।

दर्थौ तमःप्रकाशाद्यां लोकालोकाचलश्रियम् ॥ ९ ॥

९. उस दिन पिता-पुत्र के शोक-हर्ष से युक्त लोक तम एवं प्रकाश से समृद्ध लोकालोक पर्वत की शोभा धारण कर रहा था।

पाद-टिप्पणी :

‘दृताः’ पाठ—दृन्दई ।

७. (१) रक्त : महानारत तथा रामायण के अनुसार रक्त वृन्दों का गिरना अशुभ माना जाता है। सैद्यिदों के श्वेत वस्त्र पर कुमकुम रंग की बूटी छयी या कड़ी थी। उन बूटियों से श्रीवर रक्त सिक्त की उपमा देकर, भावी अपराधुन की बात करता है। उनके वस्त्रों पर वे रक्तचिह्न के समान लग रही थी। मध्य युग में बूटीदार कपड़ा पहनने का बहुत रिवाज था। मुसलिम-कालीन चित्रों में उमरा तथा मुल्तान बहूवा बूटीदार वस्त्र पहने चित्रित किये गये हैं।

पाद-टिप्पणी :

८. (१) शुक्र : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : ५ : ९२ तथा २ : ७ ।

(२) बृहस्पति : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : २ : ७ ।

पाद-टिप्पणी :

९. (१) लोकालोक : ब्रह्मा ने लोकालोक पर्वत के चारों दिशाओं में चार दिग्गज—(१) ऋषभ, (२) पुष्पचूड़, (३) वामन और (४) अपराजित स्थापित किया है। वे चतुर्दिग पृथ्वी के प्रकार के समान हैं। इसके कुछ भाग में सूर्य का प्रकाश दिखायी पड़ता है और कुछ में नहीं।

पौराणिक गाथा के अनुसार सातों समुद्रों को परिवेष्टित करनेवाली पर्वत श्रेणी है। पृथ्वी को घेरनेवाले दो पर्वत लोकालोक एवं चक्रवाल हैं। इसका वास्तविक अर्थ दृश्य एवं अदृश्य लोक है। कल्हण ने लोकालोक पर्वत में कृत्तिका का स्थान माना है। द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : राज० : १ : १३७ ।

एक मान्यता के अनुसार एक पर्वत है, जो सातों समुद्रों और द्वीपों को चारों ओर से घेरे है। उसके बाहर चन्द्र या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। ऋद्ध ग्रन्थों में उसकी संज्ञा चक्रवाल से दी गयी है।

दौहित्राभ्युदये सैदाश्चेरुरानन्दसुन्दराः ।

सुगन्धिमकरन्दाद्ये मधौ मधुकरा इव ॥ १० ॥

१० दौहित्र के अभ्युदय से आनन्दित, सैय्यिद सुगन्ध एव मकरन्द से भरे वसन्त में मधुकर शदृश विचरने लगे ।

वाद्यमानोत्सवातोद्यप्रोद्यत्प्रतिरवच्छलात् ।

अकुर्वन्निव वृद्धचर्यं राज्ञस्तस्याशिषो दिशः ॥ ११ ॥

११ उत्सव में बजते आतोद्य^१ की प्रतिध्वनि के व्याज से मानो दिशाओं ने उस राजा की वृद्धि हेतु आशीर्वाद दिये ।

राजधान्यङ्गने सैदाः परिधानप्रमादनैः ।

अतोपयन्नुत्सवान्ताः सर्वं नृपपरिच्छदम् ॥ १२ ॥

१२ राजधानी (प्रामाद) के आगम में उत्सव के मध्य सैय्यिदो ने परिधान प्रसाद^१ द्वारा नमस्त नृप अनुचरो का मन्तुष्ट किया ।

एकस्मिन् कीर्तिशेषेऽन्या दिग्द्वयाद्धस्सनद्वयी ।

तादृशे ददृशे पौरैः स्फूर्जत्सादिशतावृता ॥ १३ ॥

१३ एक (हस्मन) के कीर्ति शेष हो जाने पर अन्य हस्सन द्वय को पुरवासियों ने दो दिशाओं में स्फूर्जित हात सैकड़ों अश्वारोहियों से घिरा हुआ देखा ।

राज्यमम्पत् सप्तगङ्गा तद्गृहे समलक्ष्यत ।

तत्कन्योद्वेजितेवाप्ता वक्तुं रिपुपराभवम् ॥ १४ ॥

१४ उसकी उद्वेजित कन्या सप्तग^१ महित राज्य सम्पत्ति, रिपु का पराभव कहने के लिये ही मानने उसका घर चले आये थी ।

पाद-टिप्पणी

११ (१) आतोद्य एक प्रकार का आघात से बजाया जानेवाला वाद्य है । इसका उल्लेख प्रसिद्ध संस्कृत कवियों ने किया है—आतोद्य विन्या सादिका विषय (वेणी० १,) सजमातोद्य निरो निवेदिताम्—(रघु० ८ १४, १५, ८८, उत्तर ७ ६०-३ १३) ।

पाद-टिप्पणी :

१२ (१) परिधान प्रसाद उत्सव, विवाह, अभिषेक आदि के समय नवीन वस्त्र सेवको तथा मित्रों का देने की प्रथा राजाओं तथा सम्पन्न परिवार में आज भी प्रचलित है ।

पाद-टिप्पणी

१४ (१) सप्तगङ्गा : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० ३ : २९६, १ . ७ . ११० ।

राजः सेवकसामन्तः प्राप्नुवन्तस्तदन्तिकम् ।

प्रवेशं लेभिरे नान्तर्लुठन्तः कुन्तुरा इव ॥ १५ ॥

१५. राजा के सेवक सामन्त^१, उसके निकट पहुंचते हुए भी, खुश करनेवाले कुत्तों के समान, अन्तः प्रवेश^२ नहीं प्राप्त किये ।

देव्यसंस्कृतशास्त्रज्ञविद्वत्कृतविडम्बनाः ।

गृहे स्त्रीषु बहिः द्येनलीलासु व्यसन दधुः ॥ १६ ॥

१६. देवी एवं संस्कृत शास्त्रज्ञ विद्वानों का विडम्बना^१ करनेवाले वे लोग घर पर स्त्रियों में एवं बाहर द्येन लीलाओं^२ में व्यसनी बने ।

पाद-टिप्पणी :

१५. (१) सामन्त : ३० पाद-टिप्पणी : रा० : ४ : ५५६; जैन० : ४ : ११३ । सीवति रत्नों के यहाँ एक उच्च अधिकारी होता था (कम्बई गजेन्द्र-घर भाग २१ : बेलगाँव ।) सन् ५९५ ई० के बंकर गणों के फलक (३० आई० : ९ : २९१) हर्ष के मबुदन फलक (३० आई० : ७ : १५८) तथा सन् ६०९-६१० ई० के बुद्धराज के फलक में इस शब्द का उल्लेख मिलता है ।

(२) प्रवेश : तद्वक्त्राते अकदरी में उल्लेख है—'सैथिदों को इतना प्रसन्न प्राप्त हो गया था कि किसी अमीर तथा बजौर को मुस्तान के पास न आने देने थे (४११-६८२) ।'

द्विरिचना लिखता है—'सैथिद मुहम्मद हसन रेजिडेण्ट बौधित किया गया । उसने राजा के पास जाने में सबको रोक दिया (८८) ।'

फार हसन लिखता है—'बैहकी ने हकूमत के मुशानक्यात पर कब्जा करके किसी एक को भी अमूर मस्तनत में बखल देने को ताकत न छोड़ी । बल्कि किसी को भी मुस्तान से मुलाक़ान हांमिल न हो सकती थी (१९३) ।'

पाद-टिप्पणी :

द्विर्य पाठ—बम्बई ।

१६. (१) : विडम्बना : अहमद क़िदा परि-
जै. रा. : १९

हास में यहाँ तात्पर्य है—'द्वयं च तेज्या पुरतो विडम्बना—(कु० ५ : ७०) ।

(२) द्येन लीला : द्येन का वर्णन वेदों में बहुत किया गया है (ऋ० : १ : ३२ : १४; १ : ३३ : २; १ : ११८ : ११; १ : १६३ : १; १ : १६५ : २; तै० सं० : २ : ४ : ७ : १; ५ : ४ : ११ : १; पडविद्य ब्राह्मण : ३ : ८; का० सं० ३७ : १४; गो० ब्रा० : १ : ५ : १२; श० ब्रा० : १२ : ७ : १ : ६; ता० ब्रा० : १३ : १० : १४; श्रब्रा० : ३ : ८) । यह पक्षियों में सबसे अधिक गतिशील है । छोटे-छोटे पक्षी बाज से भयभीत रहते हैं । पक्षियों के समूह पर आकाश में आक्रमण करता है । वायु में दूर तक उड़ने के कारण इसको नृ-चक्षुस् कहते हैं । द्येन स्वर्ग में सोम पृथ्वी पर लाय था ।

विश्व में यह सर्वत्र पाया जाता है । शिकारी पक्षी है । बाल में छोटा परन्तु अधिक भयंकर होता है । इसका रंग मटमैला, पीठ काली और नेत्र लाल होते हैं । वह आकाशगामी कबूतरों तथा छोटी चिड़ियों को झपट कर पकड़ लेता है । पुरातन काल में आर्सेट एवं बुद्ध के काम में लाया जाता था ।

मेरे मुहल्ला औरंगाबाद में एक बड़ी सराय है । औरंगजेब बादशाह की बनवायी हुई है । हमारे वंश के लोग इस सराय में आइत का काम करते थे । रेल्गाड़ी के पूर्व काठुली तथा पठान मेवा, ऊनी सामान, हींग, छोटाड़ा आदि लेकर आते थे । कारवां

चलता था। मेरी वाल्यावस्था में कुछ व्यापारी आते थे। रेल चलने के पश्चात् उनका आना नई शनै समाप्त हो गया। मुझे स्मरण है। पठान वार्यो हाथ में चमड़े का दस्ताना पहनते थे। उस पर बाज रखते थे। उसे मास चुगाते थे। आकाश में पक्षियों के ऊपर छोटते थे, नीचे से लोग इकट्ठा होकर हल्ला करते थे। पक्षियाँ भयभीत होकर भागती थी। आकाश पक्षी-शून्य हो जाता था। बाज एकाध पक्षी का शिकार कर, अपने मालिक के हाथ पर, पुन आकर बैठ जाता था।

बाज कई प्रकार के होते हैं। उनमें चार प्रकार मुख्य हैं। हरिण का शिकार बाज करता था। उसके शर पर बैठ जाता था। हरिण की आँख निकाल लेता था। इसे अंग्रेजी में इगल हाक कहते हैं। यह बाज हाथ पर नहीं बैठाया जाता था। उसे बँटाने के लिये लकड़ी या लोहा का 'अड्डा' टी शोप का होता था। उसी पर शिकारी उसे बँटाकर चलते थे। पक्षी के शिकार करनेवाले बाज को 'मुर्दाचा' हमारी तरफ कहते हैं। वह हाथ पर बैठाया जाता था। हाथ पर बैठा कर बाज का चलना एक समय फँसान था। इसको अंग्रेजी में स्पैरो हाक कहते हैं। इम वग का बाज गुरु गोविन्द सिंह देव, बाबर, अकबर तथा मुगलकालीन अमीर, उमरावा के तस्वीर में हाथों पर बैठा दिखाया गया है। बाज यदि हाथ से दिया मास चाब और पैर से मुँह में डालकर खाने लगे, तो वह पालतू हो जाता है। पोश मानता है। भागता नहीं। बाहरी बाज पोश नहीं मानता। बहेलियाँ लोग भी पक्षी पकड़ने के लिये बाज रखते थे। बाज रखन की प्रथा समाप्त हो गयी है।

ईरान, अफगानिस्तान तथा तुर्किस्तान में बाज

रखने की खूब प्रथा थी। सैंथियद लोग काश्मीर में उसी भूखण्ड से आये थे। वे शिक्षित श्येन या बाज भी अपने साथ लाये थे। उनसे वे शिकार करते थे। श्रीवर का वर्णन सत्य है। सैंथियद हरिण तथा पक्षियों का शिकार करते थे। बाजों का प्रयोग इस प्रकार के श्येन लीला में किया जाता था। पतंग उड़ाने के समान बाज के शिकार के समय भी दर्शकों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। आकाश में पक्षियों का उड़ना उनका बाज में बचकर भाग जाना, जान बचाने के लिये भयाकुल होकर छिप जाना आदि खेल काश्मीर में भी प्रचलित थे। उन्हीं का वर्णन श्रीवर करता है।

मुगल बादशाहों यथा बाबर, अकबर आदि के चित्रों में वाम हस्त पर बाज लिये चित्रित किया गया है। बाज रखने का फैशन उत्तर हिन्दुस्तान में आज से ७० वर्ष पूर्व तक खूब प्रचलित था। अब यह प्रथा बन्द हो गयी है। केवल कहानी और चित्रों में उन्हें सुना तथा देखा जाता है। बाएँ हाथ पर बाज बैठाकर दायें हाथ से कच्चा मास बाज रखनेवाले खिलाते थे।

मंगोल तथा तुर्क जाति बाज पालक थी। उनका भूखण्ड उर्वर नहीं था। अतएव भोजन के लिए मास ही एकमात्र आधार था। आकाश की पक्षियों को बाज द्वारा पकड़कर, उनका मास प्राप्त करते थे। चिंगोज खाँ तथा उनके उत्तराधिकारी बाएँ हाथ पर बाज बैठाये चलते थे। यह प्रथा मुगलकालीन भारत में खूब प्रचलित हो गयी थी। हरिणों के शिकार पर बैठकर उनकी आँखें बाज निवाल लेते थे। हरिण अन्धे हो जाते थे और उन्हें आसानी से पकड़ लिया जाता था।

विगुणव्यवहारेषु क्रूराचारेषु दर्पिषु
 दुःसहान्तकदूतेन लोभेन क्षोभितेषु च ।
 दौःशील्यानभिगम्येषु प्रसरन्मत्सरेषु च
 विरागं तेषु सैदेषु सप्रजाः सेवका ययुः ॥ १७ ॥

१७. दोषपूर्ण व्यवहार करनेवाले, क्रूराचारो, अभिमानी, लोभ के कारण दुस्सह, यमदूत तुल्य, कष्टदायी, दुःखोलता के कारण अविकार अनभिगम्य, (पहुँच के बाहर) मात्सर्य युक्त, उन सैय्यियों से प्रजा सहित, सब सेवक विरक्त हो गये ।

हितानामपि सैदानां केचिद् भूपालसेवकाः ।
 नाभ्यनन्दन् परिचयं काकानामिव कोकिलाः ॥ १८ ॥

१८. कुछ भूपाल सेवकों ने हितकारी भी सैय्यियों के परिचय का उसी प्रकार आदर नहीं किया, जिस प्रकार कोकिल^१ कौयों का ।

द्विजस्थितिः सुखं यासीत् सतीसरसि निश्चला ।
 तेषां श्येनैश्च भृत्यैश्च भ्रामिता च पलाशया ॥ १९ ॥

१९. सतीसर^१ में पक्षियों की जो निश्चल सुखद स्थिति थी, उनके उस स्थिति को, मांस का श्राद्ध से श्येन एवं भृत्यों द्वारा दूर कर दिया ।

स्फीतगीतोल्लसन्नादा येऽभवन् वृन्दगायनाः ।
 शोकमूका इवाभ्यर्णे माधे भृङ्गा इवाभवन् ॥ २० ॥

२०. स्फीत वर्द्धित गीत से उल्लसित, नादवाले जो गायक वृन्द थे, माध के निकट आने पर, भ्रमरों^१ समान शोक से मूक हो गये ।

पाद-टिप्पणी :

“विरागं” पाठ—ब्रम्हई ।

१७. (१) विरागः वृत्ति परिवर्तन, असन्तोष, उदासीनता तथा अर्चि अर्थ होता है ।

पाद-टिप्पणी :

१८. (१) कोकिलः कोकिल अपने अण्डे का सेवन नहीं करती । कौआ उसके अण्डे का सेवन करता है । अण्डा फूटकर बच्चा पैदा होता है । बच्चा बोलने लगता है । कौआ को गलती मालूम होती है । तथापि कौयल कौयों के उपकार का न तो स्मरण करती है और न अपने बच्चों को पालने के लिये उसका आदर (३० : ४ : ६३५) । संस्कृत

में इसलिये कौयल को ‘अन्यपुष्ट’ एवं परभृत कहते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

१९. (१) पक्षी-सतीसरः काश्मीर मण्डल में पक्षी नहीं मारे जाते थे । द्विज, विप्र तथा पक्षी काश्मीर मण्डल में अवध्य थे । पक्षियों के हत्या की श्रीवर ने सर्वदा भर्त्सना किया है । पक्षियाँ सरोवरों के तट पर वृक्षों पर निर्भय विहार करती थीं (३० : १ : १ : ८५) ।

पाद-टिप्पणी :

२०. ब्रम्हई संस्करण में श्लोक १९ के पश्चात् श्लोक क्रम संख्या २१ दी गयी है ।

अथ प्रथममेवैते गृहीत्वा नवभूपतिम् ।

गकुनापेक्षिणो नावा वितस्तातटमभ्यगुः ॥ २१ ॥

२१ मकुनापेक्षी य लाग पहल हो नवीन भूपाल को लेकर नाव से वितस्ता के तट पर गय ।

स्वपक्ष्यावर्जकास्तत्र पृष्ठभोज्यान्नसम्पदः ।

स्वातन्त्र्यप्राप्तिदर्पान्धाः काश्मीरानादर व्यधुः ॥ २२ ॥

२२ अपने पक्षिया (श्यना) से पक्षियो का पकडनेवाल अपन पीछ भाज्यान्न सम्पत्ति रखन वाल, स्वातन्त्रता प्राप्ति म गर्वील उन लागे ने काश्मीरियो का अनादर किया ।

अपुनर्गमनायेव विधाय शकुनिकथम् ।

एकदा स्त्रीयसयुक्ता व्यधुः किमपि मन्त्रणम् ॥ २३ ॥

२३ माना पुन न जान क लिय पक्षिया का नाश कर एकवार अपन लोग (सैय्यदो) स मिलकर मन्त्रणा किये ।

तेषा तत्केवलतया श्रुत्वा पाङ्गुण्यमन्त्रणम् ।

काश्मीरिकाश्च मद्राश्च शङ्किता नगरेऽभवन् ॥ २४ ॥

२४ कवल उन्ही लागे क (सैय्यद) पाङ्गुण्य^१ मन्त्रणा का सुनकर, नगर म काश्मीरी एव मद्र शक्ति हो गये ।

ततः परशुरामाद्यैस्तद्विष्टैः सह तद्दिने ।

मिलिताः पञ्चगःस्तीक्ष्णाः सैन्द्रोहमचिन्तयन् ॥ २५ ॥

२५ इसक पश्चात उसी दिन उनके द्वयी परशुराम^१ आदि के साथ पाँच तीक्ष्ण मिलकर सैय्यदो से द्रोह करने का विचार किये ।

उसमें इलाक क्रम सभ्या २० नही ह । अतएव इसके पश्चात प्रस्तुत सस्करण तथा बम्बई एव कलकत्ता सस्करणों म १ इलाक सभ्या का अन्तर पडता गया ह ।

पाद टिप्पणा

२४ (१) पाङ्गुण्य कौटिल्य न अथस्तास्त्र में छ गुणों का परिभाषा दा है—(१) मघि, (२) विग्रह, (३) आसन (४) यान (५) सथय एव (६) द्वैधीभाव ।—पञ्च मघि अपकारा विग्रह उपेक्षणमाननम अम्युच्चया यानम्, परापण सथय

सघि विग्रहोपादान द्वैधीभाव । इति पङ्गुणा । (अथ० ७ १, रघुवश० ८ २१) ।

पाद टिप्पणी

२५ (१) परशुराम फारसा लेखकों ने उसे जम्मू का राजा लिखा है (मोहि० १०६ पीर हमन १९३, फिरिस्ता (४८२) तबक्काते अकबरा (४५१ = ६८२) बहारिस्तान शाही जम्मू क राजा का घटना में भाग लेना नही लिखता ।

(२) तीक्ष्ण द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन०

जिधांसनामथैतेषां वैजन्यावसरोक्षिणाम् ।
न भैदमगन्ममन्त्रो गुप्तस्तद्दुष्कृतैरिव ॥ २६ ॥

२६. हृत्या के इच्छुक एवं निर्जन अवसर की अपेक्षा करनेवाले लोगों का गुप्त मन्त्रणा, उनके दुष्कृति के समान व्यक्रकट रही ।

एकदा तत्सुतामीष्टा मेराख्या मेरहस्सनम् ।
मूर्तेव दुर्दशा गेहयागत्येत्यत्रर्वाद्रहः ॥ २७ ॥

२७. एकवार उसकी प्रिय पुत्री मेरा, मूर्तिमती दुर्दशा के समान घर आकर, एकान्त में मेर हसन से इस प्रकार बोली—

राजः कापि क्रिया साध्या तूर्णमागम्यतां प्रभो ।
इत्युक्त्वानिष्टमप्येनं सा निनाय गृहान्तरात् ॥ २८ ॥

२८. हे ! स्वामी !! राजा का कहीं कोई कार्य करना है, वीघ्र आइये—वह कहकर, अनिष्ट भी उसे घर से ले गया ।

द्रोहस्ते सूर्यवारे स्यान्न गन्तव्यो नृपालयः ।
पित्रेत्युक्तोऽपि स स्वप्ने ययौ वैवविमोहितः ॥ २९ ॥

२९. सूर्य (रवि) वार के दिन नृपालय को नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे साथ द्रोह होगा— इस प्रकार स्वप्न में पिता के कहने पर भी, वैव-विमोहित होकर, वह चला गया ।

तावत् स सैदहसनोऽप्याययौ स्वगृहाद् द्रुतम् ।
पादोच्छेदोऽस्ति ते द्रोहान्मा पल्ययनमारुह ॥ ३० ॥

३०. तब तक वीघ्र ही वह सैय्यद हसन भी अपने घर से आ गया । द्रोह से तुम्हारा पाद-च्छेद होगा, पल्ययन (जीन) पर नत चढ़ो,—

२ : १७६ । यहाँ तीसरा का अर्थ बुरकनी होगा ।
३० : मंच कोट श्लोक : २११ । महामारुह में भी इसी अर्थ में तीसरा शब्द का प्रयोग किया गया है—

दृष्टिर्का पीडयं स्तीर्यैर्नअत्रं पृथिवीपटे ।

अनीर्यवाता वायन्ते दूनकेतु मवस्थिताः ॥

मीर्यद्वं० : ३ : ३०

पाद-नटप्यणी :

२९. (१) सूर्यवार : रविवार । वह चला जाता जाता है । कस्कीर में उस समय बरना रही

होगी कि रविवार के दिन राजप्रासाद में जाना अनुभव नहीं होगा । श्रीवर ने इसी ओर उक्त क्रिया है । विभिन्न देशों में दिनों के प्रति विभिन्न वार-गणें होती हैं ।

भारतीय ज्योतिष के अनुसार रविवार को नृप-वर्गन वजित है ।

पाद-नटप्यणी :

३०. (१) पल्ययन : धोड़ा की जीन । श्रीवत्त ने पल्ययन पाठमेव मानकर अनुवाद किया है । अर्थ की अपेक्षा से पल्ययन के स्थान पर पल्ययन पाठ रखा गया है ।

इत्येव पादकटकच्छिन्नोऽश्वदपतद् भुवि ।
प्रतोल्यां सैदसाद्यश्वसुरोत्कीर्णरजोमिपात् ॥ ३१ ॥

३१ इसी से पादकटक^१ (रिकाव) कट गया और वह अश्व से भूमि पर गिर पड़ा। प्रतोली^२ सैय्यदा के अश्वारोहियों के अश्व खुर (टाप) से उठे धूल^३ के व्याज से—

नैते पुनर्विशन्तीति शुचेवोच्छ्वासमक्षिपन् ।
तचारखानलेखेन त्वदनर्थादिहेतवे ॥ ३२ ॥

३२ 'ये पुन प्रवेश नहीं करेंगे' इस शोक से ही मानो (अश्व) उच्छ्वास^४ कर रही थी। तातार खाँ का लेख से प्राप्त होने से तुम्हारे अनिष्ट आदि के कारण—

पाद टिप्पणी

३१ (१) पादकटक रिकाव। ठोकर लग जाय, रथ का पहिया टूट जाय अथवा अश्व पर चढ़ते समय रिकाव टूट जाय तो अशुभ भविष्य के सूचक होते हैं। किसी अनहोनी अशुभ घटना का किसी काय के आरम्भ में अचानक होना अशुभ माना जाता है। यूरोप में भी यही बात मानी जाती है। हिटलर एक स्थान पर शिलान्यास करने गया था। शिला रखने पर जिस हथौड़ी से वह शिला ठोका वह अचानक टूट गयी। हिटलर खिन्न होकर लौट गया। यह अशुभ-सूचक माना गया। विश्वान चाहे कितनी ही उन्नति क्यों न कर ले, मानवीय सस्कार एवं कुसस्कार उसके पीछे लगे रहते हैं।

(२) प्रतोली नगर का गौण द्वार, गली कूचा, बाजार के बीच का चौड़ा रास्ता, किले के द्वार वाला माग—प्राप्तप्रतोलीमतुल प्रताप— शिशु० ३ ६४। मेगस्थनीज के वणन में प्रकट होता है कि पाटलिपुत्र (पटना) में ६४ द्वार थे। उनके अतिरिक्त गौण द्वार भी होते थे। अर्थशास्त्र में गौण, नगरद्वार को प्रताली की सजा दी गयी है। महाभाष्य^५ के अनुसार पाटलीपुत्र परकोटा में प्रतोली द्वार वन थे। पृथ्वीचन्द्रचरित पन्द्रहवीं शताब्दी की रचना है। उसमें प्रताली द्वार की रचना का उल्लेख मिलता है।^६ अर्थशास्त्र के अनुसार नगर के प्रधान द्वार की चौड़ाई प्रताली साठ गुना होती थी—प्रतोली पदतुलान्तर द्वारकारयेत्।

(३) धूल यात्रा के समय धूल का उड़ना अशुभ माना जाता है। महाभारत भीष्म० ३ ११, २९, द्र० १ ३ १०-२४।

पाद टिप्पणी

३२ (१) उच्छ्वास घोड़ा चलता है तो उसके टाप के आघात से धूल उड़ती है। वहाँ पर गली में अश्वारोही जा रहे थे। उनके नाको से जो शीत ऋतु के कारण स्वास के साथ भाप निकल रही थी उसकी उपमा कल्हण ने टाप से उठते धूल से दी है। शोक में आदमी लम्बी साँस लेता है। शीत ऋतु में स्वास लेने पर जितना ही लम्बा स्वास निस्वास होगा उतना ही लम्बी भाप नाक और मुख से निकलेंगी।

घोड़े का निस्वास छोड़ना किंवा दौन होना अपशकुन माना जाता है। भीष्मपर्व ३ ४५, ३ ७७।

(२) तातार खा बहुलोल लोदी सुल्तान दिल्ली के आधीन पंजाब का सूबेदार था। सैय्यदों ने काश्मीरी उमरावों को दवाने के लिए तातार खा की सहायता माँगा था। उसने कुछ सेना बँहकी की सहायता के लिए काश्मीर भेज दिया। किन्तु जब वह सेना भीमवर पहुँची तो वहाँ के राजा ने उसे रोक कर, वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया। म्युनिख पाण्डु० ८० ए०। द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० ३ ३१८, ३१९।

प्राप्तेनाद्य मिथो मन्त्रं विधाय कृतनिश्चयाः ।

आक्रान्तमण्डलाः सैदा युष्मच्छेषविशङ्किता ॥ ३३ ॥

३३. 'आज परस्पर मन्त्रणा करके उन्होंने निश्चय कर लिया । मण्डल को आक्रान्त करने वाले, सैन्यिक तुम लोगों के शेष रहने से शंकित, हो गये हैं—

प्रातर्बध्नन्ति वस्तस्मादुपायः क्रोऽपि चिन्त्यताम् ।

मिथ्येति बोधिता मद्रा जोनराजानकादिभिः ॥ ३४ ॥

३४. 'प्रातः तुम लोगों को बन्दी कर लेंगे अतः कोई उपाय सोचिए ।' इस प्रकार मिथ्या ही जोन राजानक आदि ने मद्रों को समझाया—

हन्मस्ताच्च त्रयमेवादौ संमन्त्र्येति समाययुः ।

सर्वानमृतवाटयन्तः समेतानवगम्य तान् ॥ ३५ ॥

३५. 'हम लोग ही पहले उनका वध कर देंगे' ऐसी मन्त्रणा कर आ गये । 'अमृतवाट' में उन लोगों को एकत्रित जानकर,—

अन्तः परशुरामाद्या विविशुः शस्त्रधारिणः ।

रक्ष्यो द्वारस्त्वया तैरित्युक्तो द्वारेशताजकः ॥ ३६ ॥

३६. शस्त्रधारी परशुराम आदि अन्दर प्रविष्ट हो गये । 'तुम द्वार की रक्षा करो'—इस प्रकार कहकर, उनके द्वारा नियुक्त द्वारपाल ताजक ने—

पाद-टिप्पणी :

३५. (१) अमृतवाट : यह स्थान श्रीनगर में ही था । दक्षिण-पूर्व एशिया में बिहार को वाट कहते हैं । वाट भारत में भी बौद्धों के कारण प्रचलित था । कल्हण वर्णित अमृत भवन बिहार (रा० : ३ : ९) ही में समझता है श्रीवर का अमृतवाट है । यह स्थान भी श्रीनगर के समीप है । इसका इसके पूर्व उल्लेख नहीं मिलता । अनुसन्धान अपेक्षित है । परगियन इतिहासकारों ने इसे नौगहरा का उद्यान या वाग लिखा है (तवक्काते अकवरी : ४५१; ६८२; पीर हसन : १९३) ।

पाद-टिप्पणी :

सैन्यिक हत्याकाण्ड का वर्णन श्लोक ३६-५२ में किया गया है ।

३६. (१) ताजक : नाम ताज था । काश्मीर

में नामों के पीछे 'क' लगा देने का रिवाज था । इसलिए नाम ताजक लिखा गया है । ताज का अर्थ मुकुट, शाही टोपी या पारिदे के सर की कलगी या गिखा होता है । यदि यह शब्द ताजीक होगा तो इसका अर्थ होगा—अरब की यह सन्तान जो ईरान में रहकर जवान हुई है । इसका तीसरा अर्थ ताजिकिस्तान के नागरिकों से लगाया जा सकता है । उन्हें ताजिक कहते हैं । केवल 'इ' की मात्रा का अन्तर शुद्ध नाम में रह जाता है । काश्मीर विदेशी मुसलमानों के आश्रय तथा नौकरी का घर हो गया था । अतएव सम्भव है कि यह व्यक्ति या तो स्वयं ताजिकिस्तान से आया था अथवा उसके पूर्वज आये होंगे । ताजक शब्द फारसी है । ताजक जाति ताजिकिस्तान, तुर्किस्तान के बुखारा प्रदेश से लेकर बदर्शा, काबुल, विलोचिस्तान, ईरान में पाई जाती है । इस समय अफगानिस्तान में उन्हें देहान तथा

मन्त्रे प्रवृत्तिरित्युक्त्वा सैदभृत्यान्न्यवारयत् ।

कुर्वन्ति भोजने लुण्ठि त्वद्भृत्या इति तद्विरा ॥ ३७ ॥

३७ मन्त्रणा हो रही है इस प्रकार कहकर सैथियद भृत्यो का निवारित कर दिया 'तुम्हारे भृत्य भोजन सामग्री लूटते हैं, इस प्रकार की उसकी बात से—

सैदाः मशस्त्रान् स्वान् भृत्यान् स्वममीषान्न्यवारयन् ।

जोनराजानकस्तावत् पथान्धेनागमद् द्रुतम् ॥ ३८ ॥

३८ सैथियदो ने मशस्त्र अपने भृत्यो को अपने पास से रोक दिया, तब तक शीघ्र ही जोन राजानक दूसरे मार्ग से आ गया—

गृहीत्वा राजभृत्यौघाञ्जिघांसुर्वाटिकान्तरात् ।

ताजदौवारिकोऽप्यश्वमारुह्याप्तो नृपाङ्गनम् ।

वभ्रामाभ्यन्तरेऽन्यत्र मन्मतेन जिघांसया ॥ ३९ ॥

३९ राजभृत्य समूहो को लेकर, मारने की इच्छा से वाटिका से आया था। ताज^१ दौवारिक^२ अश्वारूढ होकर, नृपागण में पहुँचकर, उनकी सलाह से, मारने की इच्छा से, दूसरी तरफ अन्दर ही घूमने लगा।

वाटिकान्तश्चतुष्षण्डमण्डपोपरि संस्थिताः ।

मैदा मद्रान् समालोक्य साशङ्का इव तस्थिरे ॥ ४० ॥

४० वाटिका में चतुष्षण्ड मण्डप पर स्थित, सैथियद मद्रो को देखकर, मशकित से होकर स्थिर रहे।

बलूचिस्तान में देहवार कहते हैं। ईरान में ताजक शब्द का व्यवहार साधारण वृषक वग के लिये किया जाता है। ताजकिस्तान पवतमात्स्य के बाहर तुर्की भाषा का प्रचार बढ गया। ताजिक मुसलमान लग जो मगोलों के कैदी या दाम हा गय थे, वे भी कालान्तर में मगोल ही बहलाए। मगोल भारत में तथा चीन में तातार बहे जान लगे थे।

ताजक ज्योतिष ग्रन्थ है। इसके रचनाकार यवनाचार्य है। राजा समरर्मिह तथा नीलकण्ठादि ने उमका अनुवाद सस्कृत में किया था। बारह राशियों का विभाग कर, उनके फलाफल निश्चित करने की रीतियाँ बताई गयी हैं। उसमें मेघ, मिह तथा धनु का स्वभाव पित्त तथा वण क्षत्रिय, वृष एव कन्या का स्वभाव वायु, वर्ण वैश्य, मिथुन,

तुला, कुम्भ का मम-स्वभाव तथा वर्ण शूद्र है। कर्कट, वृश्चिक एव मीन का स्वभाव कफ तथा वर्ण ब्राह्मण है। ग्रन्थ में नामवाचक शब्द फारसी तथा संस्कृत दोनों भाषाओ म है। यथा—इकवाल याग, इतिहा योग, इत्यशाल योग, इशराक योग एव गौर कबल योगादि। पाद-टिप्पणी

अथ सगति के लिए 'नृपाग्रगम्' के स्थान पर 'नृपागनम्' पाठ रखा गया है।

३९ (१) ताज इसके विषय में कुछ और जानकारी नहीं मिलती।

(२) दौवारिक क्षेमेन्द्र ने लोकप्रकाश में दौवारिक का उल्लेख किया है (पृ० २)। द्वारपाल अथवा पहरदार या हथोड़ीदार इसका अर्थ होता है। द्र० : रघु० ६ . ५९।

किं न गच्छत देवं स्वं प्रतिमुक्ताः किमागताः ।

इत्यागतांस्तान् वृष्ट्वैव सैष्यं सिंहद्विजोऽभ्यधात् ॥ ४१ ॥

४१. 'प्रतिमुक्त किये जाने पर भी (तुम लोग) अपने देव क्यों नहीं जा रहे हो? किस लिये आये हो'—इस प्रकार आगत उन लोगों को देखते ही ईष्यपूर्वक सिंह (भट्ट) द्विज ने कहा ।

मार्गमुक्त्यक्षरो नाप्तस्त्वत्तो यामः कथं वयम् ।

अथ वः प्रतिमोक्ष्यामः सत्यार्थमिति तेऽभ्यधुः ॥ ४२ ॥

४२. 'तुम लोगों से मार्ग-मुक्तिपत्र नहीं प्राप्त हुआ है । हम लोग कैसे जायँ ?' 'आज तुम लोगों को प्रतिमुक्त (मोक्ष, पत्र मिलेगा)—इस प्रकार उन लोगों ने सत्य बात कही ।

वैजल्यमेक्ष्य पाथेययाच्यादस्मादुपागतः ।

परशुः सिंहमदृष्टं तं न्यवधीत् प्रथमं स्या ॥ ४३ ॥

४३. पाथेय याचना के व्याज से पहुँचकर और एकान्त देखकर, क्रोध से परशुराम ने पहले ही सिंहभट्ट का वध कर दिया ।

पाद-टिप्पणी :

'सिंह' पाठ—बन्दई ।

४१. (१) सिंहभट्ट : श्रीवर तथा सिंहभट्ट सुल्तान जैतूल आवदीन के शिष्यराज थे । सिंहभट्ट तथा श्रीवर के साथ जैतूल आवदीन के सौदा विहार का उल्लेख (जैन० : १ : २ : ९९) मिलता है । इससे प्रकट होता है कि सिंहभट्ट सम्मानित राजकीय व्यक्ति था । यहाँ पर भी सैथियों के समान सिंहभट्ट दिखायी देता है । अतएव वह इन समय भी उच्च अधिकारी एवं सैथियों का ह्यानाद था जिनका उसकी हत्या परशुराम ने कर्ता । सिंहभट्ट के विषय में विवेक और कुछ बातें नहीं हैं ।

पाद-टिप्पणी :

पाठ : 'मुक्त्यक्षरो' : बन्दई ।

४२. (१) मुक्तिपत्र : मते स्वसत = पामसते । मोक्षपत्र = मोक्षपत्र = प्रतिमुक्तपत्र । जैनराज ने इसे 'मोक्षपत्र' लिखा है । द्रष्टव्य : पाद-
लै. रा. २०

टिप्पणी : जैन० : श्लोक ६५६) ।

पाद-टिप्पणी :

४३. (१) पाथेय : मार्ग-व्यय वा भोज्य सामग्री जिसे पथिक अपने साथ ले जाता है, वा कलेदा—जगह पाथेय निवेन्द्र सूतुः—कि० ३ : ३७, विमकिमलयच्छेद पाथेयवन्त—मेव० ११ ।

(२) परशुराम : तबकाने अकवरी में उल्लेख है—'काश्मीरियों ने इन बात से परेशान होकर, एक रात्रि में जन्मू के राजा परशुराम से जो तातार भाँ के भय से काश्मीर में शरण हेतु चला गया था मलिक सैथिद हसन तथा तीस अन्य सैथियों की नौगहरा उद्यान में विद्वान्शयात करके हत्या कर दी (४२१-४८२) ।'

किरिस्ता लिखता है—'काश्मीरियों ने परशुराम जन्मू के राजा की सहायता से सैथिद हसन तथा अन्य तीस सैथियों को मार डाला ।' (४८२)
ब० : ३ : ४९८; ४ : २५, ३५, २७०, ३४५ ।

चतुष्मण्डपिकाप्रान्ते प्रक्षरत्क्षतजोक्षितः ।

सिंहोऽपि वित्रुटच्छालः सृगाल इव सोऽपतत् ॥ ४४ ॥

४४ चतुष्मण्डपिका^१ के प्रान्त मे (तट) के निकट गिरते रुधिर से भीगा, वह सिंह भी शृगाल हो गया और टूटते शालवृक्ष की तरह वह गिर पडा ।

किं द्रोहो द्रोह इत्युक्त्वा यावद् भीताः समुत्थिताः ।

तावत् खड्गप्रहारैस्ताञ् जघ्नुर्मद्राः समेत्य ते ॥ ४५ ॥

४५ 'कैसा द्रोह है ?' 'कैसा द्रोह है ?' यह कहकर, जब तक भयभीत होकर, वे खडे हुए, तब तक मिलकर, उन मद्रो ने खग प्रहारो से उन्हे मार डाला ।

निर्यातः प्रस्फुरन्मेदा द्वाराग्रे सैदहस्सनः ।

हतो मुष्ट्यायुधस्तत्प्रहारशतविह्वलः ॥ ४६ ॥

४६. तुन्दिल (तोद निकले) सैय्यद हसन, बिना अस्त्र-शस्त्र के, द्वार पर, सैकडो प्रहारो से मर गया ।

तं दृष्ट्वा मेयहस्सनं सभयं विद्रुतं द्रुतम् ।

प्राकारारूढमवधीत् कोऽपि च्छिन्नपदद्वयम् ॥ ४७ ॥

४७. यहाँ से पलायित एव प्राकार (चहारदिवारो) पर आरूढ, मिथा हस्सन के दोनो पैर काट कर, मार डाला ।

गदायामीनकासीममल्लजाद्यास्तदन्तिके ।

त्रिंशन्मात्रा हतास्तत्र पुत्रमित्रसमन्विताः ॥ ४८ ॥

४८ उनके पास गदाय^१, आमीन^२, कासिम^३, मल्लकजादादि^४ पुत्र, मित्र सहित तीस^५ की सख्या मे वहाँ मारे गये ।

पाद टिप्पणी

पाठ—वन्वई ।

४४ (१) चतुष्मण्डपिका मजिल के अर्थ में प्रयुक्त होता है । मण्डपिका प्रथम तथा दूसरे खण्ड में भी हो सकती है । चतुष्मण्ड एव चतुष्मण्डपिका में अन्तर है ।

पाद-टिप्पणी

४८ (१) गदाय गदा का अर्थ भिक्षुक या फकीर होता है । शब्द फारसी है । विभक्ति है ।

(२) आमीन अथ एवमस्तु, तथास्तु है । स्वर्गीय स्वामी रामतीर्थ जी ने आमीन का मूल 'अं'

शब्द माना है । उनके मत से आमीन 'अं' का अपभ्रश है । शब्द अरबी है । यदि यह शब्द अमीन है तो अर्थ अमानतदार या न्यासधारी होगा ।

(३) कासिम शब्द अरबी है । अर्थ विभाजक या वितरक है । यहाँ नामवाचक है ।

(४) मल्लजादा मुल्ला के पुत्र ।

(५) तीस द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० ४ ४३ । बहारिस्तान शाही : पाण्डु० ६२-६३ में उल्लेख मिलता है—'एक रात लगभग तीन-मौ आदमी जिनमें कुछ जम्मू के सैनिक थे, चुपचाप

वदन्तो हाल-हालेति रक्तसिक्ताक्तपाणयः ।
चेरुस्ते तद्वथोद्युक्ताः कृतान्तस्येव किङ्कराः ॥ ४९ ॥

४९. उसके वध के लिये उद्यत रक्त-रंजित पाणि वे लोग यम के दूत सहच 'हाल-हाल' कहते हुए विचर रहे थे ।

गृहेषु गोवधात् तेषां पापभीर्नाभवद् यथा ।
तथा तत्र वनतां सैदाञ् मद्राणां नाभवद् घृणा ॥ ५० ॥

५०. घर में जिस प्रकार गौ का वध करने से पाप का भय नहीं हुआ था, उसी प्रकार सैथियदों के वध में मद्रों को घृणा नहीं हुई ।

मृगयान्ते कुरङ्गादीरिच्छन्नाङ्गान् व्यदथुर्यथा ।
तथा सैदाः कृता मद्रैः क्षुद्रैस्तद्वाटिकान्तरे ॥ ५१ ॥

५१. मृगया के पश्चात्, जिस प्रकार कुरंग आदि का (सैथियद) अंगच्छेद कर देते थे, उसी प्रकार उस वाटिका में छुद्र मद्रों ने सैथियदों का भी (अंगच्छेद) कर दिया ।

द्विषद्भृतांशुका नग्ना महार्हशयनोचिताः ।
अनाथा इव लोकस्य प्रययुः प्रेक्षणीयताम् ॥ ५२ ॥

५२. बहुमूल्य शयन के योग्य उन लोगों के वस्त्रों को शत्रुओं ने ले लिया था और नग्न वे अनाथ सहच लोगों को दिखायी पड़े ।

नौगहर के किले में पहरेदारों को घूस देकर, भीतर घूस आये । दूसरे दिन प्रातःकाल जब सैथियद हसन किला में दरवार कर रहा था, उस समय वे लोग छिपे स्थानों से निकल कर, सैथियद हसन तथा वेरु दूतरे उसके भायियों को मार डाला । किन्तु श्रीवर संख्या तीस देता है । त्रिरिक्ता लिखता है— 'सैथियद हसन तथा अन्य तीस सैथियदों को मार डाला (४८२) ।'

तद्वक्त्रात् अकवरी में भी उल्लेख है— 'सैथियद हसन तथा तीस अन्य सैथियदों को नौराहरा (नांघहरा) उद्यान में विस्वासाघात करके हत्या कर दी (४९१ = ६८२) ।'

घौर हसन लिखता है— 'सैथियद हसन को तीस वड़े नागाव के हमराह जो अराकान सल्लत के वाग नौराहर में कतल कर डाला (१९३) ।'

पाद-टिप्पणी

४९. हाल-हाल : दत्त ने अनुवाद किया है— 'उन्होंने 'हाल' 'हाल' का हल्का किया किन्तु रक्त-रंजित हाथ-मूत्र उनके नारने में व्यस्त रहे और वहाँ यमदूतों की तरह चलते थे ।'

पाद-टिप्पणी :

५०. (१) गोवध : गोवध भी उस समय हिन्दू-मुसलिन का प्रश्न आज के समान हो गया था । हिन्दू गोवध को अच्छा नहीं मानते थे । यहाँ नावना काश्मीरी मुसलमानों की थी । सैथियदों तथा विदेवी मुसलमानों के कारण गोवध, जो काश्मीर में अज्ञात था, धारण किया गया था । अतएव काश्मीरी मुसलमान तथा अन्य मुसलमानों का एक वर्ग बन गया था । काश्मीर में काश्मीरी तथा गैर-काश्मीरी मुसलमानों में शक्ति संघर्ष तथा अन्य कारणों से

केचिद्वैभतखानाद्या निष्कृष्टच्छुरिकास्ततः ।

तूर्णं प्राकारमुल्लङ्घ्य गृहीत्वाश्वान् पलायिताः ॥ ५३ ॥

५३ हैबत खाँ आदि कुछ लोग छुरिका निकाले हुए, शीघ्र ही प्राकार (चहारदिवारी) लाँघ कर, घोड़ों को लेकर भागे ।

तद्दृष्ट्वा तुमुले जाते वहिस्तदनुजीविनाम् ।

कस्यापि निश्चयो नाभूदन्तरे के हता इति ॥ ५४ ॥

५४ यह देखकर, बाहर उनके अनुचरो का तुमुल नाद हुआ, अतः किमी को यह निश्चय नहीं हुआ कि अन्दर कौन मारे गये ।

भयत्यक्ताभिमानेषु विद्रुतेष्वनुजीविषु ।

चकर्ष शस्त्रं तन्मध्यात् कोऽपि नैवाङ्गनान्तरे ॥ ५५ ॥

५५ भय के कारण, अभिमान त्यागकर, अनुचरो के भाग जाने पर, उनके बीच प्राणण में कोई शस्त्र नहीं खींच सका ।

मल्लजादात्मजाहूतस्तावन्मेयामहम्मदः ।

गृहादेत्य द्रुतं प्रादादास्कन्दं राजमन्दिरे ॥ ५६ ॥

५६ तबतक मल्लजाद के पुत्र द्वारा बुलाये जाने पर, मियाँ मुहम्मद^१ घर से आकर, शीघ्र ही राज्यगृह में युद्ध छेड़ दिया ।

सघर्ष होता रहा । द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जै० ३
२७०, ४ १२४, ५०४ ।

पाद-टिप्पणी

‘हूत’ पाठ—वम्बई ।

५६. (१) मुहम्मद : तबक़ाते अकबरी में उल्लेख है—‘सैय्यिद हसन का पुत्र सैय्यिद मुहम्मद जो कि सुल्तान का मामा था, सेना एकत्र करके सुल्तान की रक्षा हेतु दीवानखाने में पहुँचा (४५१ = ६८३) ।’

फिरिश्ता लिखता है—‘सैय्यिद मुहम्मद जो हसन का पुत्र था और सुल्तान का मामा था, राजकीय रक्षाको को एकत्रित कर, राजप्रामाद की ओर सुल्तान की रक्षा के लिए आया (४८२) ।’

बहारिस्तान शाही में उल्लेख है—‘एक नौकर

जो बुरी तरह घायल हो गया था, वह किले के परनाले के मार्ग से निकल कर, सैय्यिद हसन के पुत्र सैय्यिद मुहम्मद को इस दु खान्त घटना का समाचार दिया । सैय्यिद मुहम्मद अपने भाई सैय्यिद हाशिम के साथ किले पर आक्रमण कर, उस पर कब्जा कर लिया । उसने वहाँ के कोश पर भी अधिकार कर, अपने सैनिकों में बाँट दिया (पाण्डु० ६२ ए०, ६३ ए० तथा ६२ बी०) ।’

पीर हसन लिखता है—‘सुल्तान का मामू सैय्यिद मुहम्मद बल्द सैय्यिद हसन बेहकी अपनी जमीनत लेकर सुल्तान की हिफाजत के लिए मुस्तैद हो गया (१९३) ।’ द० ३ : ४२५, ४४८; ४ : ६८, १३८, ३३६, ६२४ ।

प्रतोलीपालकः सोऽयं द्रोहीत्यग्रागतं द्रुतम् ।

राजमार्गान्तरे क्रुद्धो नोरोल्लाहमघातयत् ॥ ५७ ॥

५७. 'यह राजमार्ग-रक्षक' द्रोही है'—यह विचार कर, सामने आये तुल्ला को, राजमार्ग में ही क्रुद्ध (उन लोगों ने) उसको मरवा दिया ।

वद्वाररिपुठां दृष्ट्वा द्वारधानीं नवीकृताम् ।

शात्वान्तःस्थान् रिपून् प्राग्वत् क्षोभेनाग्निमदापयत् ॥ ५८ ॥

५८. नवीकृत द्वार वन्द देखकर, और शत्रुओं को अन्दर स्थित जानकर, क्षोभ के कारण पहले के समान अग्नि लगवा दिया ।

न शक्तोपद्रवं द्रष्टुं स्वर्गं मद्रक्षको गतः ।

गुचेवेति द्वारधान्या जुहुवे ज्वलने वपुः ॥ ५९ ॥

५९. 'मिरा रक्षक स्वर्ग चला गया'—और उपद्रव देखने में असमर्थ होकर, मानो शोक से ही फाटक ने अपने शरीर की आहुति दे दी ।

सौधप्राप्तलसद्धूमस्तोमव्याजान् नृपश्रियः ।

क सां खला नयन्तीति निःश्वासौघा इवास्फुरन् ॥ ६० ॥

६०. 'मुझे खल कहाँ ले जा रहे हैं?'—राज्य सम्पदायें मानों राजप्रासाद से निर्गत धूम-पुंज के व्याज से निरवास छोड़ रही थी ।

अत्रान्तरेऽग्निमालोक्य द्रोघधारो धारितायुधाः ।

राजधान्यङ्गनं प्रापुर्निर्गता वाटिकान्तरात् ॥ ६१ ॥

६१. वहाँ पर बाग लगे देखकर, द्रोही आयुध लिये वाटिका से निकलकर, राजधानी के प्रांगण में पहुँच गये ।

जोनराजानको गच्छन् रुद्रः केनापि पत्तिना ।

वीरः खड्गप्रहारेण द्वित्रांस्तत्राङ्नेज्वर्यात् ॥ ६२ ॥

६२. जाते हुए, वीर राजानक को किसी पत्ति' (पदाति) ने रोक लिया, किन्तु उसने वहीं प्राङ्गण में खड्ग प्रहार से दोन्तीन का वध कर दिया ।

पाद-टिप्पणी :

५७. (१) प्रतोलीपालकः प्रतोली या राज-मार्ग का रक्षक । प्रतोली द्वार या मार्ग का रक्षक ।
६० : ४ : ३१ ।

पाद-टिप्पणी :

५८. ५९वें श्लोक के आधार पर राजधानी के स्थान पर द्वारधानी किया गया है, जो प्रसङ्गोचित है ।

पाद-टिप्पणी :

६०. (१) निश्वासः श्लोक ४ : ३१ में उल्लास की तथा यहाँ श्रीविर ने निश्वास की उपमा दी है ।

पाद-टिप्पणी :

६२. (१) पत्तिः क्षेमेन्द्र ने पत्ति की परिभाषा लोकप्रकाश में किया है—'रयो गजो नराः पञ्च त्रयोऽश्वाः पत्तिरेव च (पृ० ५९) ।' प्राचीन भारतीय सैनिक संघटन का रूप था । उसने एक

ममारुह्याथ राजाश्वान् सर्वे मद्रसमन्विताः ।

मुक्तामूलकनागान्ते प्राप्ताः प्रोचुः क्षणं मिथः ॥ ६३ ॥

६३. मद्र समन्वित सब लोग राजा के घोड़ों पर चढ़कर, मुक्तामूलक^१ नाग के समीप पहुँच गये और वहाँ परस्पर बोल—

वरमत्रैव तिष्ठामः सैदैर्युद्धं विदधमहे ।

स्वल्पावशिष्टैः शत्रूणां न शेषः परिरक्ष्यते ॥ ६४ ॥

६४ 'उत्तम यह है कि यही रहे और स्वल्प अवशिष्ट सैय्यदो से युद्ध करें, क्योंकि शेष बचे शत्रु की रक्षा नहीं की जाती है।'

ज्यलालठक्कुरः श्रुत्वा तानूचे नयकोविदः ।

न युद्धसमयोऽस्तीह गत्वानेन पथा द्रुतम् ॥ ६५ ॥

६५ यह सुनकर, नयकोविद^१ जलाल^२ ठक्कुर ने उन लोगों से कहा—'यहाँ युद्ध का समय नहीं है, शीघ्र ही इस पथ से चलकर—

वितस्तापारमासाद्य तिष्ठामः सपरिच्छदाः ।

तत्रोपायान् विधास्यामो येन नश्यन्त्यमी स्वयम् ॥ ६६ ॥

६६ 'और सेवको सहित वितस्ता पार पहुँचकर, निवास करें, वही पर वह उपाय करेगे, जिसमें वे स्वयं नष्ट हो जायेंगे।'

रथ, एक हाथी, तीन अश्व तथा पाँच पदाति अर्थात् पैदल सैनिक होते थे। मख ने 'सेना विशेषे पत्ति—' लिखा है। श्लोक २७३।

यह श्लोक महत्त्वपूर्ण है। काश्मीर में मुसलिम शासन होने पर भी सैनिक सघटन का रूप प्राचीन ही था। काश्मीर की सेना में रथ का अभाव था। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण रथ की कोई उपयोगिता नहीं थी।

पाद-टिप्पणी .

६३ (१) मुक्तामूलक नाग यह विचार नाग स्थान पर है। विचार नाग ग्राम के समीप एक सुन्दर नाग है। चैत्र मास में यहाँ की यात्रा की जाती है। नीलमत के अनुसार एलपत्र नाग का वह

रूप है। तीर्थसंग्रह में इस नाग का नाम मुक्ता-मूलक नाग मिलता है। इस गाँव के पश्चिम में तथा अचार लेक में पानी जानेवाले स्रोत के समीप में तीन मन्दिरों के ध्वसावशेष हैं, जो इस समय जिया-रतों में परिणत कर लिये गये हैं।

पाद-टिप्पणी

६५ (१) नयकोविद : नीतिज्ञ, राजनीति-शास्त्र-पारंगत, राजनयिक, राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी-रघु० १-५५।

(२) ज्यलाल : अरबी नाम जलाल है। शाब्दिक अर्थ, प्रताप, तेज, अजमत, हैबत आदि हैं।

अभिनन्द्येति तद्वाक्यं सर्वे साहसशालिनः ।

जुहिलामठमार्गे वितस्तापारमासदन् ॥ ६७ ॥

६७. समस्त साहसी उसकी बातों का आदरकर, जुहिला^१ मठ के मार्ग से वितस्ता^२ पार पहुँच गये ।

अत्रान्तरेऽन्तरं प्राप्तः क्रुद्धो सेयामहम्मदः ।

अवधीद् भ्रातरौ ताजपाजकौ द्वारपालकौ ॥ ६८ ॥

६८. इसी बीच समय पाकर, क्रुद्ध मीया मुहम्मद ने द्वारपाल ताज एवं पाजक का वध कर दिया, जो दोनों भाई थे ।

राजधान्यङ्गनात् कृष्टौ श्वपचैर्गुल्फदामभिः ।

असेध्यसध्यमग्नाङ्गौ ययतुस्तौ श्वभोज्यताम् ॥ ६९ ॥

६९. राजप्रासाद के प्राङ्गण से चाण्डालों ने गुल्फ में रस्सी लगाकर (उन्हें) खींचा, शरीर के अङ्ग मलयुक्त हो गये और वे कुत्तों के भोजन बने ।

आजन्स कृपणौ ग्राम्यपीडोत्कोचाजितश्रियौ ।

प्राणदानक्षणे तस्मिन् गतौ सर्वस्वदातृताम् ॥ ७० ॥

७०. जन्मभर कृपण ग्रामीणों को पीड़ित कर, तथा उत्कोच द्वारा सम्पत्ति अर्जित करने-वाले, वे दोनों इस प्राणदान के समय सर्वस्व दानी बन गये ।

पाद-टिप्पणी :

‘सर्वे’ पाठ—वम्बई ।

६७. (१) जुहिला मठ : श्रीवर के वर्णन से स्पष्ट है कि यह स्थान श्रीनगर में था । कल्हण ने श्रीनगर स्थित जोहिला मठ का उल्लेख रा० : ७ १६१९ में किया है । श्रीवर का जुहिला तथा कल्हण का जोहिला मठ एक ही स्थान है ।

(२) वितस्ता पार : तबक़ाते अकवरी में उल्लेख है—‘और वहत (वितस्ता) नदी पार कर ली तथा पुल तोड़ दिया । दूसरी ओर सेना एकत्र कर बैठ गये (४५१ = ६८३) ।’

फिरस्ता लिखता है—‘तत्पश्चात् वेहुत (वितस्ता) पार कर पुल तोड़ दिया । वे नदी के पार अपना शिविर लगा कर सेना एकत्रित किये (४८२) ।’

पाद-टिप्पणी :

६९. (१) चाण्डाल : राज-सत्ताहीन व्यक्तियों की दुर्दशा का नग्न वर्णन श्रीवर ने किया है । किसी दिन के राज्याधिकारी सत्ताहीन होने पर, कुत्तों, विल्ली के समान उपेक्षित हो गये थे । उनकी लाश उठाने के लिए, उनके घरवाले तक नहीं आये । उन्हें भय था कि विरोधी कहीं उन पर आक्रमण न कर दें । अतएव लावारिशों के लाश के समान डोमों ने उनके पैर में रस्सी बाँध कर खींचा, जैसे जानवरों के पैर में रस्सी बाँधकर, उन्हें सड़क पर घसीटते ले जाकर, कहीं फेंक देते हैं जहाँ चील, कौआ, कुत्ता आदि खा जाते हैं ।

आज भी प्रथा है कि लावारिशों की लाश डोम स्मगान पर ले जाकर, सरकारी खर्च से फूँक देते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

७०. पाठ ‘कृपणौ’ : वम्बई ।

संचितं ग्राम्यपीडाभिलुब्धैर्यत् परवञ्चनैः ।

तेषां मद्रूप्यकुप्यादि सर्वं तद्राजसादगात् ॥ ७१ ॥

७१ ग्रामीणों को पीडा देकर, तथा दूमरों से प्रतारित (ठग) कर, लोभियों ने जो सग्रह किया था, उनका वह सब रूप्य, कुप्यादि, नृपाधीन हो गया ।

कृपणस्य गृहं विशन्ति येषां

न वहिः ऋणुमतो जनाः क्षमन्ते ।

त्रिलमध्यगता इव द्विजिह्वा

यदि निर्यान्त्यसुभिः सहैव सर्वे ॥ ७२ ॥

७२ जो धन कृपण के घर चले जाते हैं, (उन्हे) वहाँ से निकालने में लोग, उसी प्रकार ममर्थ नहीं हो सकते, जिस प्रकार बिल में प्रविष्ट सर्प को । यदि सब निकलते हैं, तो प्राण निकलने पर ही ।

भिक्षोः प्रसृतिमात्र यैर्न दत्तं तद्गृहान्तरात् ।

शत तण्डुलखारीणां भिक्ष्वाद्यैरेव तद्द्यूतम् ॥ ७३ ॥

७३ जिन्होंने मुट्ठीभर अन्न अपने घर से भिक्षु को नहीं दिया, उसका सौ खारी चावल भिक्षु आदि ने ले लिया ।

पाद-टिप्पणी

७१ (१) रूप्य सुवर्ण या रजत की मुद्रा । कालान्तर में रजत मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाने लगा । कञ्चुरी नरेश कृष्णराज ने रूप्य रजत मुद्रा टकणित कराया था ।

द्र० : ३ ४०१, ४९९ ।

(२) कुप्य स्वर्ण तथा रजत के अतिरिक्त अन्य धातु की मुद्रायें । द्र० ३ ४०१ ।

पाद-टिप्पणी

७२ (१) सर्प धन पर साँप की तरह घँटने का मुहावरा बहुत प्रचलित है । सर्प की उपमा कजूम, कृपण, मिनव्ययी से दी जाती है । कजूस के गड़े धन पर धन का स्वामी 'मरने पर साँप बनकर धन पर घँटेगा ।' यह जनश्रुति बहुत प्रचलित है ।

कजूस मरने दमतक धन व्यय नहीं करता और अपने प्राणत्याग में भी नहीं डरता । उसका व्यवहार समी प्रवार होता है, जैसा बिल में घुसा

साँप बाहर से खींचने पर मर जाता है किन्तु निकलता नहीं । इसी प्रकार कजूस मर जाता है, लेकिन धन नहीं खर्चता ।

सर्प यदि बायें तरफ से निकलकर दाहिने तरफ चला जाय, तो वह अशुभ माना जाता है । भगवान् रामचन्द्र का मार्ग साँप ने बायें तरफ से चलकर काट दिया था ।

मैं एक बार दिल्ली से राजस्थान मोटर से जा रहा था । मेरे साथ कार में दो-तीन गणमान्य व्यक्ति थे । मैं दिल्ली-जयपुर सड़क थी । अलवर से आगे बढ़ने पर, एक ऊँची जमीन से साँप दाहिने से निकल कर सड़क के बीचो-बीच, पार चला गया । मैंने कहा अशुभ हो गया । परन्तु ड्राइवर ने तुरन्त कहा, साँप दाहिने से बायें गया है अतएव यह अशुभ-सूचक नहीं है ।

पाद-टिप्पणी

'भिक्ष्वाद्यैरे' पाठ-व्यर्थ ।

७३. (१) खारी : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी :
जैन० १ २ . २६ ।

गोधूमपिष्टं पूषैकपर्याप्तं नाप्तमर्थिभिः ।

यत् तल्लुण्ठितपतच्चूर्णैर्हिमपातायितं पथि ॥ ७४ ॥

७४. याचकों ने एक पूष (रोटी) के लिये भी पर्याप्त, जो गेहूँ का चूर्ण (आटा) नहीं प्राप्त किये, वह लूट से गिरे हुए चूर्णों से मार्ग में हिमपात तुल्य हो गया था ।

अत्रान्तरे गृहादाप्तोऽप्यालिखानो भटोद्भटः ।

प्राग्वाटिकाप्रतोलीं तामदहत् तज्जिहीर्षया ॥ ७५ ॥

७५. इसी समय भटोद्भट अली खान घर से आकर, उसे हरने की इच्छा से पहले वाटिका प्रतोली को भस्म कर दिया ।

एदराजानकाथारच तावद् ब्रह्मखानजम् ।

उन्मुच्य वन्यनात् तूर्णमपमार्गेण निर्युयः ॥ ७६ ॥

७६. तबतक एद राजानक आदि बहरान के पुत्रों को वन्यन-मुक्त कर, शीघ्र अपमार्ग से निकल गये ।

अग्रे दृष्ट्वारितैन्यं च परचादपि हुताशनम् ।

क्षमो यातुं न स्यातुं मृगशात्र इवाभवत् ॥ ७७ ॥

७७. सामने शत्रु-सेना तथा पीछे अग्नि को देखकर, वह मृगशात्रक के समान, जाने एवं स्थित रहने में सन्नयं न रह सका ।

पाद-टिप्पणी :

७४. (१) पूष : पूआ या मालपूआ नामक नीठा पदवान । संस्कृत में पूष या अपूप कहते हैं । चर्करा-आटा मिश्रित रोटी से बनाया गया मोटा पदार्य इसे कहीं-कहीं पूडा भी कहते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

७५. 'वाटिकाः पाठ-बन्धई ।

पाद-टिप्पणी :

७६. (१) एद राजानक : ईदी रैना ।

तबक़ाते अक़दरी के एक पाण्डुलिपि में 'अहदी इना', लीयो संस्करण में 'एदनी रैना' तथा फिरिक्ता के लीयो संस्करण में 'ईद रैना' लिखा मिलता है । कर्नल ब्रिगस, रोवर्स तथा कैंब्रिज हिस्ट्री में नाम नहीं दिया गया है ।

(२) पुत्र : युमुक़ खान ।

(३) मुक्त : तबक़ाते अक़दरी में उल्लेख

जै. रा. २१

है—'कब्र जैता (रैना) ने वह निश्चय किया कि युमुक़ खान जिन बहराम खां को जो बन्दीगृह में था, बाहर निकाले (४५१ = ६८३) ।'

फिरिक्ता लिखता है—'नगर के नागरिक युमुक़ खां को मुक्त करना चाहते थे । उसे अथवा राजवंश के किमी आदमी को मुल्तान बनाना चाहते थे, जो अपने अधिकार तथा राज्य को रक्षा कर सकें, जो नौजवान हों, जो विरोधियों के अत्याचारों एवं दूसरे गृहयुद्ध से देश को बचा सकें ।'

'मैथिद लोगों ने जनता के इस विचार का पता लगते ही बन्दीगृह की ओर अली खान के नेतृत्व में दौड़ पड़े । वहाँ बहराम खां के पुत्र युमुक़ खां का वध कर दिया (४८३) ।'

(४) अपमार्ग : नीचा मार्ग से नहीं बल्कि पानी निकलने आदि छोटे या कल्प मार्गों से चुपके से निकल गये ।

कृष्टोऽरिष्टाय सोऽय नोरुद्धैरिति त विदन् ।

आलिखानः समाश्वास्य सिंहो मृगमित्रावधीत् ॥ ७८ ॥

७८ विरोधियो ने हमलोगा के अनिष्ट हेतु इसे मुक्त किया है, यह समझ कर, आश्वामन देकर, अलि खान ने उसे (युमुफ को) इस प्रकार मार डाला, जैसे सिंह मृग को ।

महाराश्यैव कृष्टोऽय पाजभट्टमतस्थया ।

राज्यार्थमिति सैदास्त चुक्रुशुः केचनावदन् ॥ ७९ ॥

७९. 'पाजभट्ट' के मत में स्थित, महारानी ने ही राज के लिये, इसे मुक्त किया है— इस प्रकार सैथ्यियो ने उससे कहा ।

उपायो वन्धनात् क्रष्टं चिन्तितस्तस्य योऽपरैः ।

अपायः प्रत्युतास्याभूद् दैवं केन विलङ्घ्यते ॥ ८० ॥

८० दूसरे लोगो ने उसे बन्धन-मुक्त करने का जो उपाय सोचा, वह इसके लिये अपाय हो गया । दैव को कौन लांघ सकता है ?

तस्य मीरादयो भृत्याः पापास्तेन प्रचोदिताः ।

प्रहारविवशं चक्रुः शशक शवरा इव ॥ ८१ ॥

८१ उसके द्वारा मीरादि पापी भृत्य, उसे प्रहार से उसी प्रकार विवश कर दिये, जिस प्रकार शवर शशको को ।

राजपुत्रवधोत्पातविवशं पृष्ठपातिनम् ।

अवधीत् पाजभट्टं तं स्वपक्षमिव राक्षसः ॥ ८२ ॥

८२ उस राक्षस (अली खान) ने राजपुत्र के वधरूप उत्पात से विवश तथा पीछे स भाये, उस पाजभट्ट का भी वध कर दिया, जो कि उसके पक्ष का था ।

पाद टिप्पणी

६८, ८२ ।

७८ (१) युमुफ 'सैथ्यिद अली वैहकी एक सैथ्यिद सामन्त ने विराधियों के पडयन्त्र का पता लगा लिया तुरन्त युमुफ खा का मार डाला ।' (म्युनिख पाण्डु० ७९ ए०) ।

तवक्काते अक्वरी में उल्लेख है—'सैथ्यिद अली खा को जा सैथ्यिदों का अमीर था, इस विषय की सूचना मिल गयी और उमन युमुफ खा की हत्या कर दी (४५२ = ६८३) ।'

पाद-टिप्पणी

७९ (१) पाजभट्ट ड० ३ ४२१, ४

पाद टिप्पणी

८० (१) अपाय विवाग, दुर्भाग्य, विपत्ति नाश एव सहार अथ हाता है ।—करणापाय विभिन्न वणया-रघु० ८ ४२—काय सनिहितापाय— हि० ४ ६५ ।

पाद-टिप्पणी

८१ शवर द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी क० रा० ३ ३३ ।

पाद-टिप्पणी

८२ (१) पाजभट्ट तवक्काते अक्वरी में

भुक्तं किमपि नो राज्यान्निर्हेतुः किमयं हतः ।

शुचेवारोदि तद्दृष्ट्वा वृक्षैः पिकरवच्छलात् ॥ ८३ ॥

८३. 'राज्य से कुछ भोग नहीं किया, अकारण वह क्यों मारा गया?'—यह देखकर, शोक से ही मानों वृक्षों ने भी पिकर-व के व्याज से रुदन किया ।

मा मा वधीरिमं खानं सुचिराद् वन्यनोद्गतम् ।

रुरुदुस्तच्छुचेवेत्थं मरुता कम्पिता लताः ॥ ८४ ॥

८४. 'वहूत दिनों पर वन्यन-मुक्त, इस खान का वध मत करो',—इस प्रकार शोक से ही मानो वायु प्रकम्पित लताओं ने रुदन किया ।

केऽमी तुरुष्का दुष्कार्यकराः पुष्कलपातकाः ।

इत्येव तरवः कम्पमापुर्वायुविघट्टिताः ॥ ८५ ॥

८५. 'दुष्कार्यकारी, महान पातकी ये तुर्क कौन हैं?'—इसी से वायु से संघर्ष प्राप्त, वृक्ष प्रकम्पित हो उठे ।

चतुर्विंशतिवर्षोऽयं मात्रा प्राप्तश्चिराच्छिवः ।

त्र्यहं रुद्ध्वान्तिके स्नेहात् कृतोऽन्त्यदक्रियया ततः ॥ ८६ ॥

८६. (उसकी) माता ने चिरकाल पश्चात्, चौबीस वर्षीय इसके शव को प्राप्त कर, प्रेम के कारण तीन दिन पास रखकर, तत्पश्चात् अन्तिम क्रिया किया ।

नाम माञ्जीभट्ट दिया गया है—'माञ्जीभट्ट की भी जो युसुफ खां की हत्या पर पश्चाताप करता था हत्या कर दी । (४५२ = ६८३) ।

फिरिस्ता में उल्लेख है—उनका हाथ अभी खून से तर था ही कि जिन्होंने मलिक ताजभट्ट जिसने उनके इस कार्य की वीरतापूर्वक निन्दा किया था, 'उनके क्रोध का शिकार बना और मार डाला गया (४८२) ।'

तवक्काते अकवरी की एक पाण्डुलिपि में 'ताजी-भट' तथा 'अजीभट' तथा लीयो संस्करण में 'माञ्जी-भट' लिखा मिलता है । फिरिस्ता के लीयो संस्करण में 'वाजीभट' लिखा है (द्र० : ३ : ४२१; ४ : ६८, ७९) ।

पाद-टिप्पणी :

'निर्हेतुः' पाठ—वम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

८६. (१) तीन दिन : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : १ । तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'युसुफ खां की माता सान देवी, जो उस समय विधवा हो गयी थी, और तीन रोटी से अधिक भोजन नहीं करती थी, अपने पुत्र की लाश तीन दिन तक घर में रखे रही । तदुपरान्त उसे दफन कर दिया (४५२-६८३) ।'

तवक्काते अकवरी की पाण्डुलिपि में नाम 'देवी' या 'शान देवी', 'सोल देवी' तथा फिरिस्ता के लीयो संस्करण में 'सनानद्वूर' लिखा मिलता है ।

यवान्नभक्षणी तस्य जननी विधवा सती ।
सोवाणदेवी साजीवमवमत्तच्छवाजिरे ॥ ८७ ॥

८७ यवान्न^१ का भोजन करनेवाली, उसकी सती एव विधवा माता सोवाण देवी^२, जीवन पर्यन्त उसके श्वाजिर म रही ।

राजसैदद्विजानेतान् हतान् वीक्षाम्यहं कथम् ।
इतीव तत्क्रुधा रक्तः सूर्यो लोकान्तर ययौ ॥ ८८ ॥

८८ 'इन मारे गये, राज सैय्यदा को जो द्विज^१ हैं, कैसे देख सकूंगा?'—इसलिये मानो इम क्रोध म रक्त होकर, सूर्य लोकान्तर चल गये ।

परितो राजधान्यास्तान् दृष्ट्वा नग्नान् महत्तरान् ।
न शैकुः केषपि वस्त्रैकखण्ड दातु त्रपाहते ॥ ८९ ॥

८९ राजधानी के चारा ओर महान लोग का नग्न देखकर, लज्जा दूर करने के लिये, कोई लोग वस्त्र का एक टुकड़ा भी नहीं दे सके ।

सरस्तीरगता भेका अविच्छिन्नरवच्छलात् ।
साक्रन्दाः सर्वत्र ते तच्छुचेवाभवस्तदा ॥ ९० ॥

९० उस समय सरोवरतट स्थित, भेक^१ (मेढक) निरन्तर शब्द के व्याज स, रात भर माना उसके शाक स क्रन्दन भरत रहे ।

पाद टिप्पणी

८७ यवान्न यवान्न शब्द यहाँ साभिप्राय है । मुसलिम होत भा सावाण देवी शाकाहारी थी ।

(२) सोवाण देवी परशियन इतिहासकारों न सितान देवी नाम दिया है । परशियन इतिहासकारों व अनुमार सावाण देवी अपन पुत्र युसुफ खा की लाग तान दिन तक रक्तन क परचात उस मिट्टी दिया । उसक कब्र व पास एक कोठरी बनाकर, उसन अपना शप जावन व्यतीत किया (म्युनित्र० पाण्ड० ७९ ए०) ।

तवककृत अववरी म उत्पन्न ह—सैय्यद अली खा जा सैय्यदा का अमार था, इस विषय की सूचना मिल गयी और उसन युसुफ खान का हत्या कर दिया । युसुफ खा का माता सान देवी न जा उस समय विधवा हा गया था और तान कोर राटी स अधिक भाजन नहीं करता थी, उसक मकर व

निक्ट एक कोठरी बनाकर उसमें निवास करने लगी । इसी अवस्था में इसकी मृत्यु हो गयी (४५१ = ६८३) ।

पाद टिप्पणी

८८ (१) द्विज हिन्दुओं में जिस प्रकार ब्राह्मण चारो वर्णों में सबश्रुष्ठ मान जात है उसी प्रकार मुसलमाना की जाति एव उप-जातियों में पैगम्बर-वर्गीय होने के कारण सैय्यद लोग मुसलमानों के ब्राह्मण मान जात थ । मर पुरान मकान के पास कुछ सैय्यदों की आवादी थी । आजकल वे लोग मकान वच कर चले गये हैं । वात्स्यावस्था में जिजासा करने पर कहा जाता था कि सैय्यद लाग मुसलमानों क ब्राह्मण है । पैगम्बर-वर्गीय परम्परा में हाने के कारण व निसन्दह आदर की दृष्टि से दखे जात थे ।

पाद-टिप्पणी

९० (१) भेक मेढक पड़वे निमरने करिणि

ये राजवेश्म विविशुः सुभगाः सुवेशः

स्त्वङ्गत्तुरङ्गखुरधूलिकृतान्धकाराः ।

ते द्वित्रवोटशिविकाधृतजीर्णवस्त्रा

निष्कासिता नृपगृहात् सूतरक्तधाराः ॥ ९१ ॥

९१. जो लोग सुभग^१ एवं सुन्दर वेशयुक्त होकर, राजवेश्म में प्रवेश किये थे, जिनके दौड़ते घोड़ों के टापों से उठी धूलि से अन्धकार कर हो गया था, वे लोग ही दो-तीन शिविकाओं में जीर्ण वस्त्र युक्त, गिरते रक्तधारा समन्वित होकर, नृपगृह से निकाले गये ।

इत्थं षष्टितमे वर्षे भाव्युपद्रवकारणम् ।

वैशाखस्य चतुर्दश्यां सैदानां विप्लवोऽभवत् ॥ ९२ ॥

९२. इस प्रकार साठवें वर्ष^१ वैशाख चतुर्दशो को भावी उपद्रव का कारण सैय्यियों का विप्लव हुआ ।

नूनं हसननाम्नां सभृत्यानां तत्र वत्सरे ।

अन्तकः संनिविष्टोऽभूद् येनैते प्रलयं गताः ॥ ९३ ॥

९३. निश्चय ही उसी वर्ष भृत्यों सहित हसन नामवालों अन्तक^१ (यम) ने प्रवेश किया था, जिससे ये मारे गये ।

भेको भवति मूर्धकः । मंख कोश में भी उल्लेख है—

चक्रवाकवृको कोकौ भेको मण्डूक भीरुकौ ॥ श्लो० १७

पाद-टिप्पणी :

‘द्वित्र’ पाठ—बम्बई ।

९१. (१) सुभग : पतला, सुन्दर, मनोरम, ऐश्वर्यशाली एवं भाग्यवान एवं प्रिय अर्थ होता है । यहाँ पतले, सुन्दर वस्त्र से तात्पर्य है ।

पाद-टिप्पणी :

९२. (१) साठवें वर्ष : सन्तपि ४५६० = सन् १४८४ ई० = विक्रमो सम्वत् १५४१ = शक १४०६ = कलि गताब्द ४५८५ वर्ष ।

पाद-टिप्पणी :

‘नाम्नां’ पाठ—बम्बई ।

दत्त ने अनुवाद किया है—‘हस्सन रूप अन्तक ने राजभृत्यों के सम्मुख प्रवेश किया था ।’ भाग ३, पृष्ठ २७६ ।

९३. (१) अन्तक : यम किंवा काल जो प्राणियों का अन्त करता है । मारनेवाला, घातक रघु० ११ : २१, ऋषि प्रभा वान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुम्—रघु० : २ : ६३ । सूरदास ने अन्तक का प्रयोग किया है—‘गिरा रहित वृक ग्रसित अजा लौ अंतक आनि गह्यो । सूर० : १ : २०१; व्याकुल सखा गोप भए व्याकुल । अतंकदसा भयौ भय आकुल ॥’ सूर० १० : ३११५ ।

सामान्यवेश्मनि वर जनिरस्तु पुसां
 मा मास्तु राजनिलये बहुदुःसकर्त्री ।
 ते शेरतेऽत्यरुचिरेऽल्पपटैकमध्ये
 नो माति राजयुगल विपुले स्रदेशे ॥ ९४ ॥

९४ अच्छा है मनुष्यो का जन्म सामान्य घर म हो दु खप्रद राजगृह मे न हो । व (सामान्य जन) अरुचिर एव छोटे वस्त्र के एक भाग पर शयन कर लते हैं, किन्तु दो राजा (राजयुगल) अपने बड़े देश म भी नही समाते ।

अथालिखानमेयाद्याः क्रुद्धाः पश्चादवालगन् ।
 नदीपारगतान् श्रुत्वा द्रोहिणस्तान् विरोधिनः ॥ ९५ ॥

९५ क्रुद्ध अली खान, भोया आदि उन विरोधी द्रोहियो को नदी पार गया सुनकर, पीछ लग गये ।

नौसेतुन्धानुच्छिद्य मद्रैः काश्मीरिकैः समम् ।
 ज्यल्लालठक्कुराघास्ते मत चक्रुजिगीपया ॥ ९६ ॥

९६ जल्लाल ठाकुर आदि लोग, विजय की इच्छा से, नौका सेतुबन्धो को काट कर, काश्मीरी मद्रो के साथ समझौता कर लिये ।

विशप्रस्थान्तरे सैदाः प्राप्तसनाहवाहनाः ।
 तत्तत्पटकुटीपण्डमण्डिताः शिविर व्यधुः ॥ ९७ ॥

९७ धर्म एव वाहनो से युक्त, सैथियदो ने विशप्रस्थ' म तत् तत् प्रकार के वस्त्र कुटीर' (रावटी-खेमा) पुजो से सुमण्डित शिविर स्थापित किये ।

पाद टिप्पणी

९४ (१) राजयुगल मुसलिम नैशा में दो राज अथवा द्वैराज किंवा युगल राज की प्रणाली अमान्य था । मुसलिम एकस्वरवाद म विश्वास करते हैं । इसी प्रकार इस एकत्व की भावना उनके राज्य सिद्धान्त में भी मिलती है । खलीफा मुसलिम जगत का राजनीतिक नेता माना जाता था । हिन्दुस्तान तथा काश्मार के सुल्तान खलीफा से अपनी मान्यता प्राप्त करन क लिये सचच्छ रहते थ । मुसलमान एक वादगाह किंवा सुल्तान में विश्वास करते हैं । दो राज्य शासन प्रणाली धमनिरपम किंवा लौकिक राज्य में सफल हो सकती है, जिसका

आधार लोकतन्त्रीय प्रणाली थी । यूनान के स्पार्टा में दो शासक तथा रोम में भी शताब्दियों तक दो कौन्सल होते रह हैं । यह प्रणाली वहाँ सफल हुई थी । भारत में भी दो राजा किंवा द्वैराज की शासन प्रणाली कई स्थानों पर सफल हुई थी । परन्तु मुसलिम देशा में वह कभी अकुरित हो ही नही सकी । द्रष्टव्य पाद टिप्पणी • जैन० १ ३ ८६ ।

पाद टिप्पणी

९७ (१) विशप्रस्थ द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० १ ७ ३ ।

(२) कुटी वस्त्र भवन = खेमा = डेरा =

पुरमात्रावशिष्टास्ते सैदा द्वैधान्निवर्तिनः ।
वाजिषर्मासिभृयिष्ठां राज्यलक्ष्मीं विभेजिरे ॥ ९८ ॥

९८ वे सैय्यिद जिनके पास पुर मात्र अवशिष्ट था, अपने द्वैवभाव के कारण, लौट गये, और पर्याप्त अश्व, वर्म, तलवार आदि प्रचुर राजलक्ष्मी के भागी बने ।

येषां वराटिकैकापि नाभूत् करगता क्वचित् ।
स्वर्गरूपकहस्ताङ्कार्येरुस्ते वेशभूषिताः ॥ ९९ ॥

९९. जिनके हाथ में कभी एक कौड़ी भी नहीं थी, वे वेशभूषित होकर, स्वर्ण एवं रूपक (रूप्या) हाथ में लिये घूमते थे ।

तेषूत्तुङ्गतरङ्गेषु सर्वतो वसुवर्षिषु ।
अकारि शस्त्रग्रहणं शिल्पिशाकटिकैरपि ॥ १०० ॥

१००. उन्नत तुरगोंवाले उनलोगों के चारों ओर से वन बरसाने पर, कारीगरों एवं गाड़ीवानों ने भी शस्त्र ग्रहण कर लिया ।

रावटी = कुटी साधारण तथा टिकाऊ नहीं होती । रावटी की शकल कुटी के समान होती है । खेना, रावटी, डेरा आदि वस्त्र के वस्त्र थे । उन्हें सुविधानुसार कहीं भी लगाया जा सकता है । सेना का कैम्प गिविर, डेरा, रावटी तथा खेनों में लगता था । मध्ययुग तथा गीसवी शताब्दी में भी युद्धस्थल में द्वितीय महायुद्ध के पूर्व सेना का गिविर खेनों में लगता था । वर्तमान काल में नम-सेना के विकास के पश्चात् साइनों, ट्रेनों, बंकरों में सेना रहती है । रावटी और खेना आकाश में दिखाई देते हैं । अतएव वे बन्दबाजी के गिकार आसानी से हो जाते हैं । यह अस्थायी निवास योग्य आवास होता है । आजकल जिओलोजिकल कार्यकर्ता पहाड़ों और जंगलों तथा मैदानों में कैम्प लगाकर रहते हैं । बड़े-बड़े नलों तथा पर्वों पर खेने बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए लगाये जाते हैं । प्रयाग के कुम्भ में सबसे ज्यादा, रावटी, खेना, तन्दू तथा डेरा लगाया जाता है ।

तदक्काते अकवरी में उल्लेख है—'संक्षेप में, सैय्यिद अली खां तथा अन्य सैय्यिद विद्रोहियों से युद्ध के उद्देश्य से नदी तट पर एकत्र होकर बैठ गये (४५२ = ६८३) ।'

पाद-टिप्पणी :

९८. (१) राजलक्ष्मी : तदक्काते अकवरी में उल्लेख है—'सैय्यिदों ने अत्यधिक धन व्यय करके बहुत बड़ी सेना एकत्र की (४५२ = ६८३) ।'

पाद-टिप्पणी :

९९. (१) रूपक : रूप्या । रूप्या का अर्थ रौप्य किंवा चांदी होता है । रूप्या चांदी की मुद्रा का नाम प्रचलित रहा है । रूपक का अर्थ यहाँ चांदी का खया होता है । कलचुरी राजा कृष्णराज की मुद्रा का नाम ही 'रूपक' था । गुप्तकाल में रूपक, स्वर्ण गीनार के सोलहवें भाग के मूल्य के बराबर था । ३० : ३ : ४०१; ४ : ७१ ।

पाद-टिप्पणी :

१००. 'तेषूत्तुङ्गतरङ्गेषु' पाठ-बन्द है ।

मन्दुरासुन्दरा येऽश्वा राजोऽभूवन् महागुणाः ।

तानारुह्याधमाश्चेरुस्तद्भृत्या नित्यदुर्लभान् ॥ १०१ ॥

१०१ राजा के मन्दुरा^१ (अस्तवल) में मुन्दर, महा गुणशाली अश्व के उन दुर्लभ घोड़ों पर चढ़कर, उसके भृत्य विचरण कर रहे थे ।

ततो हस्सनराजानकाद्यैरन्यैश्च संयुताः ।

पाङ्गुण्य विदधुः मैदाः काश्मीरिकजिगीपवः ॥ १०२ ॥

१०२ तत्पश्चात् हस्सन राजानक आदि तथा अन्य लोगों से मिलकर, काश्मीर को जीतने के इच्छुक सैय्यदों ने पाङ्गुण्य^१ किये ।

ते मेयामत्तनाराचमुख्यानां यन्त्रणोज्जिताः ।

स्वसेवकानां विदधुरधिकारसमर्पणम् ॥ १०३ ॥

१०३ यन्त्रणायुक्त उनलौ गो ने मेयामत्त नाराच^१ आदि प्रमुख अपने सेवकों को अधिकार समर्पित किया ।

अत्रान्तरे पारगताण्डकुराद्या महाधियः ।

सैन्यानां संग्रह चक्रुस्ते जालद्रगरान्तरे ॥ १०४ ॥

१०४ इसी बीच पार गये, महाबुद्धिशाली ठाकुर आदि लोगों ने जाल डागर^१ में सैन्य संग्रह किया ।

श्रुत्वेति साहसोदात्तं नगरे मद्रनिर्मितम् ।

आययुः सर्वराष्ट्रेभ्यो लोकास्ते शस्त्रधारिणः ॥ १०५ ॥

१०५ नगर में मद्रों द्वारा किये गये, साहसपूर्ण कृत्य सुनकर, सब राष्ट्रों से शस्त्रधारी लोग आये ।

पाद टिप्पणी

१०१ (१) मन्दुरा अश्वशाला, अस्तवल, घुड़माल—प्रभ्रष्टोऽय प्लवग प्रविशति नृपते मदिर मन्दुराया, रत्ना० २ ३ । वाजिगाला तु मन्दुरा—अर्थात् अस्तवल के नाम वाजिगाला तथा मन्दुरा है अमर० २ २ ७ ।

पाद टिप्पणी

१०२ (१) पाङ्गुण्य राजनीति के ६ उपाय या गुण—(१) मन्धि, (२) विग्रह, (३) यान (आक्रमण), (४) आगम (विराम) (५) द्वैधी भाव तथा (६) मथय । नीति के छहों अंगों में विज्ञ । ६० ४ २४ ।

पाद टिप्पणी

१०३ (१) नाराच - ६० १ ४ ९ ।

मेयामत्त नाराच^१ नामवाचक शब्द दत्त (पृ० २७७) तथा श्रीकण्ठ कौल ने माना है ।

पाद-टिप्पणी

१०४ (१) जाल डागर ६० पाद-टिप्पणी शुक० १ ३५, १४५, २२८, ४ ३९६ । हैदर मल्लिक के अनुसार यह स्थान जियाल डागर है । श्रीनगर में था (हैदर मल्लिक पाण्डु० २०२ वी०, २०३ ए० ।

पाद-टिप्पणी

१०५ (१) राष्ट्रः देश, राष्ट्र, विषय जन-पद शब्द पर्यायवाची हो गये हैं । सभी विषय देश का उपविभाग माना गया है । किन्तु हिरहृगल्ली

प्रवृत्ते च पुरक्षोभे पुरे ग्रामे च पत्तने ।

अत्युल्वणजनः सर्वो धावति स्म धृतायुधः ॥ १०६ ॥

१०६. पुर. ग्राम एवं पत्तन में अति क्षोभ होने पर, अति उग्र होकर, सब लोग हथियार सहित दौड़े ।

शमालावाङ्गिलीयाद्याः क्रमराज्यगतारच ये ।

स्थामार्थं क्षिप्तिकातीरे शिविरं समकल्पयन् ॥ १०७ ॥

१०७. शमाला^१, वांगलीय^२ आदि जो लोग क्रमराज्य^३ गये थे, स्थाम^४ के लिये क्षिप्तिका-तट पर, स्थाम (शिविर) लगाये ।

दानपत्र में विषय के पश्चात् राष्ट्र रखा गया है । इससे प्रकट होता है कि विषय की स्थिति राष्ट्र से बड़ी थी । राष्ट्र कभी-कभी एक जिला अथवा जिला का सब-डिवीजन भी माना जाता था । राष्ट्र का प्रायः अर्थ साहित्य में राज्य होता है । किन्तु राष्ट्र-कूट शासन में य एक कमिश्नरी का द्योतक है । दक्षिण में कदम्ब, पल्लव, मालंक्वायन राज्यों में राष्ट्र का अर्थ तहसील और अधिक से अधिक जिला था । यहाँ पर राष्ट्र का तात्पर्य काश्मीर के अनेक भू-विभागों अर्थात् विषयों, क्रमराज्य, मडवराज्य आदि लघु सामन्तीय कद राज्यों से है ।

तद्वक्त्रात् अकवरी में उल्लेख है—'काश्मीर के लांग इवर-उवर से बड़ी संख्या में एकत्र होकर, शत्रुओं से मिलते जाते थे और दोनों ओर से बाण तथा बन्दूक का युद्ध होता था (४५२ = ६८४) ।'

पाद-टिप्पणी :

१०६. (१) पत्तन : क्षेमेन्द्र ने पत्तन की परिभाषा किया है । यह परिभाषा काश्मीर के पत्तनों तक ही सीमित है ।

ग्रामायुत महस्त्राणां पत्तनं जायते वृषैः ।

तत्रापि सारं नगरं तत्पौराः पुरवासिनः ॥

लोक० : पृ० ५९

प्राचीन ग्रन्थों में पत्तन शब्द समुद्रतटवर्ती बन्दरगाह एवं नगर के लिए प्रयुक्त होता था ।

जै. रा. २२

अमरकोश की टीका लिखते, क्षीरस्वामी ने पत्तन को वह स्थान माना है, जहाँ चारों ओर से व्यापारिक सामग्रियाँ आती थीं । शिल्पशास्त्र तथा मानसार के अनुसार समुद्रतट स्थित नगर था, जहाँ वणिक् रहते थे । कालान्तर में पत्तन या पाटन शब्द राजधानी तथा मैदानी इलाके, नगरों के लिए भी प्रयुक्त होने लगा था । नैपाल में भी काठमाण्डू से कुछ दूर पाटन है ।

प्राचीन काल में नगरों के नामों के साथ पत्तन शब्द का प्रयोग होता था । इसका अपभ्रंश पाटन का पट्टन अनेक नगरों के नाम के साथ प्रयोग किया जाता है । झालरापाटन, विजगापट्टन, मुसली-पट्टन आदि ।

पाद-टिप्पणी :

१०७. (१) शमाला : हमल किंवा हुम्मेल जिला है । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जोन० : श्लोक० : १०७ ।

(२) वांगलीय : वांगिल = भागिल : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : २ : २२ तथा शुक्र० : १ : ११३, ११४; २ : १० ।

(३) क्रमराज्य : क्रमराज : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी रा० : ४ : ६१७; जोन० : श्लोक : ६४९; जैन० : १ : ४०; शुक्र० : २ : १३४ ।

(४) स्थाम : प्रसंग वर्णन से स्थाम का सम्बन्ध सैन्य संचालन से होता है । उसका अर्थ शिविर

दरद्भिश्चक्कवाक्काद्यैर्दरद्भिः सुभटैः समम् ।
वैदूर्यभट्टः स्थामस्थो युद्धसंनद्धतां दधौ ॥ १०८ ॥

१०८ स्थाम स्थित वैदूर्य भट्ट, दरददेशीय चक्कवाकु आदि सुभटो के साथ युद्ध हेतु संनद्ध हो गये ।

नीलाश्वलोकं संगृह्य पम्पराजानकादयः ।
दुग्धःश्रमान्तिके सिन्धुः पारं स्थामाथमासदन् ॥ १०९ ॥

१०९ पम्प^१ राजानक आदि नीलाश्व^२ लोगो को लेकर, दुग्धाश्रम^३ के निकट सिन्धु^४ के पार स्थाम के लिये पहुँचे ।

सर्वतो धान्यसंभारानानीयानीय नाविकैः ।
प्रवासवेतनं कोशाभावात् काश्मीरिका व्यधुः ॥ ११० ॥

११० कोशाभाव के कारण काश्मीरी लोग नाविकों द्वारा धान्य सभार ला-लाकर प्रवास वेतन सम्पन्न किये ।

क्वचिन्लुपिंठ क्वचिद्दाहं परदेश इवात्र ते ।
पारावारगताश्चक्रुर्नदीं तीर्त्वा पुरद्वये ॥ १११ ॥

१११ नदी को पार कर, उम पार पहुँचे, वे लोग दोनों पुरों में परदेश के समान, कहीं लूट, कहीं दाह किये ।

पम्प, सैनिकों की वैरिण होना है । स्थाम स्थित का अर्थ सना से कब्जा किया हुआ होता है । स्थाम के नेता को 'स्थाम स्थित' कहते थे । श्री स्त्रीन का मत है कि ऐना के 'स्टेनान' 'स्थान' का तात्पर्य इस शब्द में है । स्थाम का अर्थ सैन्य निविर एव सना की वैरिण या निवास स्थान ही, उचित प्रतीत होता है ।

द्रष्टव्य राज० ४ २२५, २४९, ४४५,
७ १५४२ तथा ८ ६६३, ७१२, ज० ४ :
१३५, २२४ ।

श्री दत्त ने स्थाम को नामवाचक शब्द माना है । परन्तु श्री कण्ठ कौल ने नामवाचक नहीं माना है । स्थाम का अर्थ यहाँ माघारण निविर है । वह नाम-वाचक शब्द नहीं, मशा है ।

पाद-टिप्पणी

१०८- (१) संनद्ध . क्वचित् या क्वचिं =

वस्त्रवद = शास्त्राशास्त्र से पूर्णतया मुज्जित । संनद्ध शब्द वीरों के जिरहवस्त्र अर्थात् बर्म, शिरस्थान आदि बाँधने के लिए मूलतः प्रयोग किया जाता रहा है—नव जलघर संनद्धोऽयं न द्रुप्त निशाचर । विक्रम० ४ १, मेघ० : ८ ।

पाद-टिप्पणी

१०९ (१) पम्प केवल मही उत्तरेय मिलता है ।

(२) नीलाश्व द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी ज० श्लोक १५३ तथा शुक० २ : १२ ।

(३) दुग्धाश्रम : दुदरहोम गाँव । रा० ४ ' २६१ ।

(४) सिन्धु काश्मीर की सिन्धु नदी । महा-नद सिन्धु में यहाँ तात्पर्य नहीं है, यद्यपि दोनों सिन्धु काश्मीर में बहती हैं ।

धनुयन्त्रगणैर्मुक्तैः प्रतितीरं पुरद्वये ।

पञ्च सप्त मृता युद्धे प्रत्यहं कटकद्वये ॥ ११२ ॥

११२. प्रत्येक तट पर दोनों नगरों में प्रतिदिन धनुष यन्त्र से छोड़े गये बाणों से युद्ध में प्रतिदिन दोनों सेना के पाँच-सात लोग मरते रहे ।

खशाश्चोपान्तसामन्ताः क्षीणश्रेण्या गृहोज्जिताः ।

नामावशेषाः खानाश्च बृश दारिद्र्यपीडिताः ॥ ११३ ॥

११३. मर्माय के सामन्त^१, खर्वा, जिनके सिपाही नहीं रह गये थे, जिन्होंने गृह त्याग कर दिया था तथा नामनाश से दारिद्र्य पीडित बृश खान लोग—

चौराः कृतप्रमोषाश्च चिरवन्धनयन्त्रिताः ।

तत्तद्राजविरुद्धाश्च पिशुनाश्च श्वश्रुत्तयः ॥ ११४ ॥

११४. चिरकाल बन्धन से यन्त्रित करने वाले चोर एवं तत्-तत् राजाओं के विरोधी तथा स्व^२ (अपनी) वृत्ति वाले कुगुलझोर—

हृताधिकारास्तत्कार्यन्यायप्रत्यायनाक्षमाः ।

एते चान्ये च तुतुषुर्देवगंस्मिस्तदुपद्रवे ॥ ११५ ॥

११५. जिनका अधिकार हर लिया गया था, जो कार्य एवं न्याय में अविस्वारी थे, वे लोग और दूसरे लोग, उस उपद्रव के समय इस वेग में सन्तुष्ट हुए ।

पाद-टिप्पणी :

११२. (१) धनुष यन्त्र : प्राचीन तुरक तथा मंगोल धनुष यन्त्र का प्रयोग सुदूर छठे अंशों में करने ग्हे है । चंगेज खाँ की फौज में इस प्रकार के धनुष यन्त्रों का प्रयोग होता था । धनुष यन्त्र का चंगेज की सेना में अश्वारोही अश्वों पर बैठे-बैठे प्रयोग करते थे । धनुष यन्त्र मूमि पर भी रखकर लूक अर्थात् अग्निबाण, मित्राबन्ध तथा बड़े बाणों के छोड़ने में प्रयोग किया जाता था ।

पाद-टिप्पणी !

११३. (१) सामन्त : अष्टम पाद-टिप्पणी :
सं० : ४ : ५५३ तथा ५ : ५०४; सं० : ४ :

१५ । सामन्त का अर्थ वीर, थोड़ा भी होता है । किसी राज्य का कर या बड़ा जागीरदार, तात्कालिक वार या बड़ा जमीन्दार होता था । मुस्लिमों के अधुमार वह नरक जिनकी मूमि का राजस्व = लाख वर्ष होता था । कर राजा की भी मरना सामन्त में होती थी—सामन्त मीलिमनि रजित पाददीप्-विक्रम० : ३ : १९; रजु० : ५ : ३८ । सामन्त का अर्थ मर्मावर्ती, सीमावर्ती भी होता है ।

पाद-टिप्पणी :

११४. (१) स्व : इन ने कृता अनुवाद किया है ।

नौसेतुवन्धान्नावश्च सर्वा मडवराज्यतः ।
आनीय वामतीरस्था विदधुः स्वोपयोगिनीः ॥ ११६ ॥

११६ मडव राज्य^१ में नौका सेतुवन्धो तथा नावों को लाकर अपने उपयोग हेतु वाम तट पर स्थित कर दिया—

देवाभिधः शाकुनिको नाविकाधिपतां भजन् ।
प्रतीर्य नौकायुद्धेन विदधे सुभटक्षयम् ॥ ११७ ॥

११७ देव नामक शाकुनिक^२ ने जो कि नाविकाधिपति था, तैर कर नौका युद्ध द्वारा उत्तम वीरों का विनाश कर दिया ।

सैदा डल्लसरस्तीस्थितान् शाकुनिकान्नवान् ।
सपोतान् व्यसृजन् योद्धु तत्तन्नन्दपुरस्थितान् ॥ ११८ ॥

११८ सैय्यदो ने डल^३ सर तौर पर स्थित, नये शाकुनिकों^३ को नौकाओं सहित नन्दपुर^३ स्थित, लोगों से युद्ध करने के लिय भेजा ।

पाद-टिप्पणी

११६ मडवराज्य भराज ।

पाद-टिप्पणी

११७ (१) शाकुनिक . बहेलिया = व्याघ्र । बहेलियों की सेना पुराने समय में हाती थी । आजकल राजपूत, जाट, डोगरा, सिख, मराठा, हाईलैण्डर, पठान, वलूची, गडवाल आदि रेजिमेंटों के समान, उस समय भी सैनिक जाति जिसे आजकल मारिशियल रेस कहते हैं, सेनामें होती थी । काश्मीर में शीवर का उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । काशिराज के यहाँ बहेलिया सैनिक थे । काशिराज चेतगिह तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हॉस्टिंग के बानो युद्ध में बहेलिया सैनिक—राजा चेतगिह की माता की तरफ से अग्रजों से युद्ध किये थे । राज्य के त्रिलय हो जाने के पश्चात् भी काशिराज के बहेलिया सैनिकों को भी पेशान मिलती है । इससे प्रकट होता है कि बहेलिया जाति काश्मीर से बाजी तक उन्तर-भारत के राजाओं के यहाँ सेना में कार्य करती थी और चाहे वे मुसलिम मुल्तान या

नवाब रहे हो अथवा हिन्दू राजा । सैनिक शास्त्र के इतिहास लेखकों के लिए यह स्वत एक अनुमानवान का विषय है कि क्षत्रियों के समान बहेलिया लोग कब से सैनिक वृत्ति में हों गये और उनका सेना में क्या स्थान होता था ।

शुभाशुभ निर्णय या शकुन अथवा सगुन को शाकुनक कहते हैं । यात्रा आदि में कतिपय विशेष पक्षियों, जन्तुओं या पदार्थों के मिलने से शुभाशुभ का निर्णय किया जाता है । देव शाकुनिक यहाँ सैनिक कार्य चिह्नित किया गया है, अतएव वह कर्म से बहेलिया शाकुनिक था ।

पाद-टिप्पणी :

'डल्ल' पाठ—ग्रन्थ ई ।

११८ (१) डल सर : सुरेवरी सर . डल लेख द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैनः : १ . ५ . ३२ ।

(२) शाकुनिक : बहेलियों की फौज होती थी । काशिराज महाराज चेतगिह के यहाँ मन् १७८४ ई० तक बहेलियों की सेना थी । वे अग्रजों से युद्ध किये थे । मध्ययुगीय मुसलिम काल तथा मुसलिम राजाओं

मेयावफाकनामापि पुररक्षाधिकारभाक् ।

विचार्य चौरांस्तत्काले द्वित्रान् शूले न्यरोपयत् ॥ ११९ ॥

११९. पुररक्षाधिकारी मीयाँ वफाक^१ ने उस समय विचारकर, दो या तीन चोरों को शूली पर चढ़ा दिया ।

आसमुद्रमठाज्जैननगरान्तं सडिण्डिमम् ।

तस्मिन् स्फुरति पौराणां न भीश्चौरकृताभवत् ॥ १२० ॥

१२०. डिण्डिम^२ घोषपूर्वक उसके शासन करते समय समुद्रमठ^३ से लेकर जैननगर^३ तक पुरवासियों में चोरी का भय नहीं था ।

छिन्नेषु सेतुवन्धेषु तत्तन्नौपुरकादिषु ।

पूर्दुर्गरचनेवाभूद् दुर्गमा तद्विरोधिनाम् ॥ १२१ ॥

१२१. नौपुर^१ आदि स्थानों पर सेतुवन्ध^२ भङ्ग कर दिये जाने पर, पुरी दु^३ रचना सदृश विरोधियों के लिये दुर्गम हो गयी ।

या बादशाहों के यहाँ इस प्रकार की फौज रहती थी । शाकुनी का मछवाहा, माझी, निषाद या काश्मीर के हाजी नाव खेने वाले थे । सम्भव है, माझियों या नाववाले हाजियों के दल के दल को युद्धार्थ भेजा गया । क्षेमेन्द्र ने शाकुनिक को चाण्डाल, धीवर आदि के वर्ग में रखा है—चाण्डालः, श्वपचः, युक्कसः, जानङ्गम, दाशः, धीवरः, शाकुनिकः, लोक० : पृ० : ५ ।

(३) नन्दपुर : ऊलर के एक भाग का नाम है ।

पाद-टिप्पणी :

‘वफाक’ पाठ—बम्बई ।

११९. (१) वफाक : वफा । ‘क’ शब्द प्रायः काश्मीर में नामों के आगे उस समय जोड़ देते थे । वफा शब्द अरबी है । अर्थ प्रतिज्ञा पालन, भवित तथा वफादारी है । यह नामवाचक शब्द है ।

पाद-टिप्पणी :

१२०. (१) डिण्डिम : डुगडुगिया या डुग्गी । मैं समझता हूँ कि डिण्डिम चमड़ा मढ़ा एक प्रकार का दाजा था । अपभ्रंश है । पुरा साहित्य में इसका बहुत उल्लेख मिलता है—इति घोषितीय

डिण्डिम—हि० : २ : ८६; मुखरयस्व यशो नव-
डिण्डिमम्—नै० : ४ : ५३; चण्डि रणिरसनारव
डिण्डिमम् ।

(२) समुद्र मठ : श्रीनगर का सुदरमर मुहल्ला है । राजा रामदेव (सन् १२५२-१२७३ ई०) की रानी समुद्रा ने इस मठ की स्थापना किया था । सुदरमर में ही सामतीर्थ है । यह सोम-यार घाट दूसरे पुल के अधोभाग में है ।

(३) जैन नगर : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी :
जोन० : श्लोक ८६९ तथा जैन० : १ : ५ : ४;
१ : ७ : ९४; ३ : ७ : ८९, १९७, १९९, ३८० ।

पाद-टिप्पणी :

१२१. (१) नौपुर : मैं समझता हूँ कि नौ-शहर का संस्कृत रूप नौपुर श्रीवर ने लिखा है । नौशहर में ही उन दिनों बालक सुल्तान रहता था ।
द्र० : ४ : २४१ ।

(२) सेतुवन्ध भंग : म्युनिख पाण्डुलिपि में उल्लेख है कि सेतु टूट गया और दोनों ओर के बहुत से लोग डूब गये (८० ए०) ।

आस्कन्दं स्कन्दभवनादाशङ्क्योपनृपाङ्गनम् ।
पञ्चहस्तमितां मैदाः परिखां समकल्पयन् ॥ १२२ ॥

१२२ स्कन्दभवन^१ की ओर से आक्रमण की आशका करके, सैय्यदो ने पांच हाथ चौड़ी परिखा (खाई) निर्मित किया ।

द्वारधानीसमीपेऽपि रुद्रराजानकान्तिके ।
तादृशीं परिसामन्यां चक्रुर्वरिभयच्छिदे ॥ १२३ ॥

१२३ शत्रु भय निवृत्ति के लिये, (सैय्यदो ने) रुद्र राजानक^१ के निकट, द्वारधानी के समीप में भी उसी प्रकार की एक दूसरी परिखा^२ तैयार किया ।

विरुद्धवेशमलुठनं कुर्वन्तो हृततद्धनाः ।
सैदभृत्या भयं चक्रुः प्रजानां गोवधादिना ॥ १२४ ॥

१२४ विरोधियों का घर लूटते^१ तथा उनका धन हरण करते, सैय्यद भृत्य गोवध आदि के द्वारा प्रजाओं में भय व्याप्त कर दिये थे ।

पाद-टिप्पणी

'नृपाङ्गनम्' पाठ-यम्बई ।

१२२ (१) स्कन्द भवन द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी रा० ३ ३८० तथा रा० ६ १३७ । यह श्रानगर का वर्तमान स्थान खण्डवन है । यह बिहार वितस्ता व दक्षिण तट पर, छठे पुल और ईदगाह के मध्य स्थित था । कालान्तर में कश्मिस्तान में परिणत हो गया ।

पाद-टिप्पणी

१२३ (१) रुद्र राजानक स्थान का अनु-सन्धान अपेक्षित है ।

(२) परिखा फिरिस्ता लिखता है—'सैय्यद असी रा इत समय सैय्यदा व एक बड़े समूह का नेता हो गया था । उसने विरोधियों का सामना किया । मर्ष भी हुआ । इस उपद्रव के समय श्रीनगर में चोरों का प्राबल्य हो गया था । इन स्थिति में

सैय्यदो ने नगर के चारों ओर परिखा (खाई) खुदवाया (४८३) ।'

तबककाले अकबरी में उल्लेख है—'चोर खुल्लम-खुल्ला नगर में प्रविष्ट होकर लूटमार करते थे । सैय्यदों ने नगर के चारों ओर रक्षा हेतु खाई (परिखा) खोद ली थी । ताकि चोरों से रक्षा हो सके (४५२ = ६८४) ।'

पाद टिप्पणी

१२४ (१) लूट फिरिस्ता लिखता है—'उन्होंने उन लोगों की सम्पत्ति जप्त कर लिया, मकानों को गिरा दिया, जिन लोगों ने नदी के दूसरी तरफवाले शत्रुओं का साथ दिया था (४८३) ।'

तबककाले अकबरी में उल्लेख है—'नगर तथा अन्य स्थानों पर जहाँ भी वही शत्रुओं के घर थे, उन्हें धराशायी कर दिया । उनकी धन-सम्पत्ति तथा मवेशी नष्ट कर दिया (४५२ = ६८४) ।'

विरुद्धमुक्तलुण्ठितगृहदारुसमाप्तिः ।

दिद्दामठो रुद्रवन वासेत्यनकृतोऽभवत् ॥ १२५ ॥

१२५. मुक्त भाव से विरोधियों द्वारा लूटी गयी, घर की लकड़ियों के समाप्त हो जाने पर, (उन लोगों ने) दिद्दामठ^१ को रुद्र वन^२ प्राप्त निवासगृह का ईन्वन बना दिया ।

अनभिजतयाल्पानां तद्विरुद्धगृहश्रियः ।

व्यर्चाक्रुर्वृथा सैदा गात्रो हन्वा शुनामिव ॥ १२६ ॥

१२६. अनभिजता के कारण सैय्यियों ने कुछ वस्तुओं के गृहस्था को विनष्ट कर दिया, जैसे कुत्ते के लिये मार कर गाये निरर्थक नष्ट की जाय ।

निकृष्टशस्याः संनाहममुञ्चन्तो दिने दिने ।

राजधान्यङ्गनं सथास्तद्भुत्याः प्राविशन् सदान् ॥ १२७ ॥

१२७. उनके मृत्यु नद से प्रतिदिन वस्य खींचे तथा बर्मे^३ याग्य किये, थोड़ों के सहित राजप्रासाद के प्रांगण में प्रवेश करते थे ।

मल्लार्मानगृहारचुन्दक्रायस्यसदनानि च ।

राजानको हस्मनः स ददाह स्वगृहं क्रुथा ॥ १२८ ॥

१२८. उस राजानक हस्मन^४ ने क्रोध से, मल्लार्मान के घरों को, चुन्द^५ क्रायस्य के सदनों एवं अपने घर को जला दिया ।

काकतालीयकन्यायः सैदक्राशरीरमैत्ययोः ।

परस्परमयभ्रश्यद्वैर्ययोरभवन् तदा ॥ १२९ ॥

१२९. उस समय पारस्परिक मय में नष्ट वैयं सैय्यियों एवं काकतालीयों के सैन्य की स्थिति काकतालीयों^६ न्याय जैसी हो गयी थी ।

पाद-टिप्पणी :

१२५. (१) दिद्दामठ : ३० : ३ : १३१, १८४ ।

(२) रुद्र वन : रुद्र राजानक के समीप होने सम्भावना है ।

पाद-टिप्पणी :

१२७. (१) बर्मे : अश्वारोही सैनिक मध्य-युग में बर्मे धारण करते थे । तुकों तथा संगोलों की पेना अश्वारोही होती थी । पैदल सैनिक कम होते थे । बर्मेवागी अश्वारोही तुक तथा संगोल पेना में आगे

चलते थे । जैसे आजकल यन्त्रसज्जित लॉह टैंक, तोपखाना अथवा मेकनाइज्ड सौजे आगे चलती हैं ।

पाद-टिप्पणी :

१२८. (१) हस्मन राजानक : ३० : ३ : ३८४ ।

(२) चुन्द : इस व्यक्ति का यहाँ उल्लेख मिलता है । इसके सम्बन्ध में कुछ और सूचना नहीं मिलती ।

पाद-टिप्पणी :

१२९. (१) काकतालीय : संयोगवच =

पारवारगता वीरास्तीर्त्वा साहसिनो द्रुतम् ।

हत्वा तास्ताञ्छिरश्छित्वा तीरे दण्डे न्यरोपयन् ॥ १३० ॥

१३० माहमी वीर तैरकर शीघ्र नदी पार चले गये तथा शिरछेदन कर, तत्-तत् लोगो को मार डाले और तट पर ही उन्हें दण्ड पर आरोपित कर दिये ।

लोलश्वारोहिणि हते तीर्त्वा सैदभटद्वये ।

लुण्ठिर्विजखानाद्याश्चक्रुः पद्मपुरान्तरे ॥ १३१ ॥

१३१ सैय्यदो के दानो भटो के जो कि लोल (चचल) अश्व की सवारी करते थे, तैर कर मार दिये जाने पर, विज (पग्वेज) खान आदि पद्मपुर^१ में लूट-मार किये ।

अस्मात् = अप्रत्यागित रूप से घटना या दुर्घटना हो जाती है । उसकी मज्जा काश्तालीय में दी गयी है । इसके समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है । किसी ताल वृक्ष पर एक कौआ ज्योंही आकर बैठा, उसी समय उसका एक पका फल नीचे आकर गिरा । यद्यपि कौआ ने फल नहीं गिराया परन्तु देगनेवालो को यही धारणा हुई कि कौआ ने गिराया है, जो बातें अस्मान अप्रत्यागित रूप में हो जाती हैं उसे काश्तालीय कहते हैं—अहा नु गलु भो तदेतत् काश्तालीय नाम—मा० ५, काश्तालीयप्राप्त दृष्ट्वापि निधि मप्रत —टि० प्र० ३५ । त्रियाविशेषण रूप में प्रयुक्त होना पर मधोग के अर्थ को प्रकट करता है ।

पाद-टिप्पणी

१३० (१) दण्ड बाम, लट्ठा, लाठी या लसठी के समान या समान पर शत्रुओं के छिन्न मस्तकों को लोगों में भय व्याप्त करने तथा शत्रुओं को आतंकित करने के लिए लगा देने थे । यह प्रथा मुसलिम जगत में प्रचलित रही है । मुण्ड समूह का मीनार बनाना, उन्हें एकत्रित कर उनकी डेरी लगा देना, उन्हें बाजार के चौराहों पर लटका देना अथवा बाइचों या बागों पर लगाकर, मार्बजनिव म्यातो पर प्रदर्शित करना, माघारण वार्ते थी । २० * ४ १९८ ।

दण्ड लम्बाई की एक माप भी होती है त्रिगुकी लम्बाई चार हाथ होती थी । कालगणना के अनुसार

साठ पल या चौबीस मिनट का दण्ड होता था ।

म्युनिख पाण्डुलिपि में वर्णन है—'सैय्यदो ने अपने विजय उत्सव मनाने के लिए शत्रुओं के गिरों पर मीनार तामीर कराया ।' (म्युनिख : पाण्डु० : ७९ ए, तवक्काते अकबरी : ४५२ = ६८४) ।

छिन्नमुण्ड या शिरो की मीनार बनाना मध्य एशिया तथा चीन के तुर्कों ने आरम्भ किया था । तुर्कों साम्राज्य के पश्चात् पश्चिम-उत्तर चीन के अनुवंर घासवाले विस्तृत मैदान में मंगोलों का शासन स्थापित हुआ था । दोनों जातियों ने युद्ध में हत या वध किये गये सैनिकों अथवा नागरिकों के मुण्ड का स्तम्भ नागरिकों में भय उत्पन्न करने के लिए बना देते थे । भारत में यह प्रथा तुर्क तथा मंगोलों ने आरम्भ किया था । भारतीय रणनीति में इसका स्थान नहीं था । क्योंकि मरने पर, शत्रु-मित्र सभी के शवों का आदर एवं सम्मान किया जाता था । उनका अन्तिम संस्कार धर्मानुसार किया जाता था अथवा सब सम्बन्धियों को अन्तिम संस्कार के लिए दे दिया जाता था । काश्मीर तुकिस्तान की सीमा के समीप या अतएव अनेक प्रयायें वहाँ की यहाँ प्रचलित हो गयी थीं, जिनका अस्तित्व शेष भारत में नहीं मिलता ।

पाद-टिप्पणी

१३१ (१) पद्मपुर : दृष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : १ ५ . ६०, १ : ६ १ तथा ४ : ३४२; जैन० . श्लोक ५५१ । वर्तमान पामपुर नगर ।

जोनराजानकाद्यास्तच्छ्रुत्वा तीर्णा भटोद्भटाः ।

ओवाणादिषु तदोषादुत्पिञ्जं चक्रुरञ्जसा ॥ १३२ ॥

१३२. यह सुनकर, भटोद्भट जोन राजानक आदि पार जाकर, उसी क्रोध से शीघ्र ही ओवाण^१ आदि स्थानों पर, उत्पिञ्ज (उपद्रव-षड्यन्त्र) आरम्भ किये ।

तेन सैदा अपि ग्रामे जन्मभूमौ गृहावलेः ।

जोनराजानकरस्यैव क्रोधादग्निमदापयन् ॥ १३३ ॥

१३३. इससे सैट्टियदों ने भी जोन राजानक के जन्म भूमि ग्राम की गृहावलि में, क्रोध से आग लगवा दिया ।

तच्छ्रुत्वा स तदीयस्य वडवीविषयान्तरे ।

ताजिमट्टस्य सद्ने तद्वदग्निमदापयत् ॥ १३४ ॥

१३४. यह सुनकर, उसने भी वडवी विषयान्तर्गत^२, उस ताजिमट्ट के सदन में भी, उसी तरह आग लगवा दिया ।

गृहान् पदातिमात्रः स दग्ध्वा लहरमध्यगः ।

दुग्धाश्रमादिस्थामस्थान् पलायनपरान् व्यधात् ॥ १३५ ॥

१३५. केवल पदादितों सहित उस (जोनराज) ने लहर^३ मध्य जाकर, गृहों में आग लगवा दिया और दुग्धाश्रम आदि स्थाम^२ (शिविर = कैम्प) स्थानों को पलायित कर दिया ।

पाद-टिप्पणी :

‘ओवाण’ पाठ-वम्बई ।

१३२. (१) ओवाण : वर्तमान युयन गाँव है । पामपुर (पद्मपुर) से उत्तर-पूर्व तीन मील पर स्थित है । वाइन ने अपने पर्यटन (ट्रेवेल : २ : ३४) में यहाँ के गरम जल के स्रोत का उल्लेख किया है । पद्मपुर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्हण वर्णित ‘ओवाण’ (रा० . ७ : २९५) ही श्रीवर वर्णित ‘ओवाण’ है । यह गाँव सुन्दर है । यहाँ के गन्धक स्रोत में अनेक व्याधि-ग्रस्त लोग आकर जलग्रहण करते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

१३४. (१) वडवी : औलडीय तथा खड्वीय दो विषयों का उल्लेख लोकप्रकाश (पृष्ठ ६०) में मिलता है । परन्तु वे वडवी विषय ही हैं और कोई दूसरा विषय है, अनुसन्धान का विषय है ।

जं. रा. २३

(२) विषय : विषय = विश : विशय । समानार्थक रूप से प्रयोग किये गये हैं । यूनानियों ने राज्य एवं ‘विश’ को एक ही माना है । प्रत्येक राज्य के नागरिकों को विशः की संज्ञा देते हैं । भारतीय लेखक विषय को जनपद तथा देश कहते हैं । परगनों की प्राचीन संख्या विषय थी ।

विषय के विषय में एक जैसी मान्यता नहीं है । अमरकांश के अनुसार देश, राष्ट्र, विषय एवं जनपद पर्यायवाची शब्द हैं । विषय कभी देश का एक उप-विभाग मान लिया जाता रहा है । कभी विषय मण्डल में सम्मिलित कर लिया जाता था । कहीं पर मण्डल एवं विषय समानार्थक और कहीं पर मण्डल में विषय और कहीं विषय के अन्तर्गत मण्डल माना जाता रहा है । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जोन० : श्लोक : ८८९ ।

पाद-टिप्पणी :

१३५. (१) लहर : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी :

अथ लोहरकोटस्थं श्रीमार्गेशज्यहाङ्गिरम् ।

ज्यल्लालठकुराद्यास्ते लेखमित्थं व्यसर्जयन् ॥ १३६ ॥

१३६ जगल^१ ठकुर^२ आदि लोहरकोट स्थित, श्री मार्गेश जहाँगीर के पास, इस प्रकार लेख प्रेषित किया—

यत्प्रमादभिया देयात् सकुटुम्बो गतो भवान् ।

गमद्रैर्विहितोऽस्माभिर्युक्त्या तद्वधसाहसः ॥ १३७ ॥

१३७. 'जिमके प्रमाद भय के कारण सपरिवार आप देश से चले गये हैं, मद्रो सहित, हम लोगों ने उमके बध करने का साहस किया है ।

मेयामहम्मदाद्यैस्तत्पुत्रैरस्मज्जिगीपुभिः ।

वैतस्तोदक्षिणो भागो वामोऽस्माभिः समाश्रितः ॥ १३८ ॥

१३८ 'हम लोगों को जीतने के लिये इच्छुक, उसके पुत्र मीया मुहम्मद आदि वितस्ता के दक्षिण भागपर और हम लोग वाम भाग पर स्थित हैं ।

जिगीपवो वयं सर्वे क्रान्तकश्मीरमण्डलाः ।

पुरमात्रावशिष्टास्ते सैदास्तिष्ठन्ति वेष्टिताः ॥ १३९ ॥

१३९. 'विजय के लिये इच्छुक, हम सब काश्मीर मण्डल में फैले हैं और पुर (थीनगर) मात्र में अवशिष्ट, वे सैय्यद घिरे हैं ।

तद्विलम्बधिय त्यक्त्वा तूर्णमागम्यतां यतः ।

प्राप्ते त्वयि जयोऽस्माकं तव स्युः कीर्तिसम्पदः ॥ १४० ॥

१४० अत विलम्ब करने का विचार त्याग कर, शीघ्र आइये, क्योंकि तुम्हारे आने पर, हम लोगों को विजय और तुम्हें कानि सम्पत्तियाँ प्राप्त होगी ।

राजभक्ताश्च शक्ताश्च यूयमेवात्र मण्डले ।

तदनागमनात् कीर्तिं मा कार्थीः स्वां कलङ्किताम् ॥ १४१ ॥

१४१ 'हम मण्डल में राजभक्त एवं ममर्थ तुम लोग ही हो, अत न आकर, अपनी कीर्ति को कलङ्कित मत करो ।

जैन० १. ५ १० तथा जैन० श्लोक १६७,

शुभ० १ १८४, २३१, रा० ५ ५१ ।

(२) म्याम द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० ९६ ।

४ १०७ । थोशन ने म्याम को दुग्धाश्रम आदि के साथ काम नामशायक शब्द माना है । परन्तु शक्य अर्थ गीति निरिह हो ठीक है (पृष्ठ २८०) ।

पाद-टिप्पणी

१३६ (१) जलाल ठाकुर द्र० ४ :

९६ ।

(२) लोहर कोट - द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी :

जैन० १. १. ८२, ३. ४७६, जैन० श्लोक ४६८; शुभ० . १. १२४, राज० . १७७ ।

बद्धे रणादालिशाहे पूर्वं मल्लेकजस्रथात् ।

राज्यरक्षां व्यधादत्र यथा मार्गेशमहदः ॥ १४२ ॥

१४२. 'पहले रण से अलीशाह^१ के बन्दी बना लिये जाने पर, जिस प्रकार मार्गेश मुहम्मद ने मलिक जसरथ^२ से यहाँ राज्य की रक्षा की थी—

तद्वत्प्राणं त्वया रक्ष्यं तूर्णमागत्य साम्प्रतम् ।

अन्यथास्य शिशो राज्ये स्थापयन्ति न सैदजाः ॥ १४३ ॥

१४३. 'उसी प्रकार इस समय शीघ्र ही आकर, इस शिशु के प्राण की रक्षा करो, अन्याय सैय्यद पुत्र इसे राज्य पर आरुढ़ नहीं करेंगे ।'

इति लेखं विचार्याशु स्वदेशोत्कण्ठिताशयः ।

तूर्णं परणोत्समार्गेण स मार्गपतिराययौ ॥ १४४ ॥

१४४. यह लेख पढ़कर, शीघ्र ही अपने देश के लिये उत्कण्ठित हृदय, वह मार्ग पति परणोत्स^३ मार्ग से आ गया ।

प्राप्ते तस्मिन् दिनैद्वित्रैः कुब्जदीनपुरान्तरम् ।

चक्रस्पुः शिविरे सैदाः प्रदीपा इव वायुना ॥ १४५ ॥

१४५. दो तीन दिनों में उसके कुतुबुद्दीनपुर^४ पहुँचने पर, शिविर में सैय्यद लोग वायु से दीपक के समान काँप उठे ।

अथ संमन्थ्य सैदास्ते भयात् सन्धातुमिच्छवः ।

इत्थं शिखराहात्रादींस्तेसहस्तान् व्यसर्जयन् ॥ १४६ ॥

१४६. भय से, सन्धि करने के लिये इच्छुक, ये सैय्यद, शिखराहात्रादीन^५ (आदि) को पत्र के साथ भेजा—

पाद-टिप्पणी :

१४२. (१) अलीशाह : शाहमीर वंश का सातवाँ सुल्तान । द्र० : जो० : श्लोक ६१३-७५२ ।

(२) जसरथ : द्र० : १ : ३ : १०७; १ : ७ : ६४ ।

पाद-टिप्पणी :

१४४. (१) परणोत्स : पूँछ ।

(२) मार्गपति : जहाँगीर मार्गेश । किरिस्ता विख्यात है—'कुछ समय पश्चात् जहाँगीर मार्गी जो

लोहरकोट में रक्षा हेतु शरण लिया था, विद्रोहियों के साथ मिला गया । यद्यपि सैय्यदों ने उसे लाभ-प्रद प्रस्ताव दिया था' (४८३) ।

तदवकाशे अकवरी में उल्लेख है—'उसी समय जहाँगीर बाकरी जो कि लोहरकोट में था, गधुओं के बुलाने पर पहुँचा । सैय्यदों ने यद्यपि उसके पास सन्धि के सन्देश भेजा परन्तु उसने स्वीकार न किया (४५७) ।'

पाद-टिप्पणी :

१४५. (१) कुतुबुद्दीनपुर : इस स्थान पर श्रीनगर के वर्तमान मुहल्ले अंगरहड़ा तथा श्री

प्रधानपुरुषाः नन्तः कृतसैदवघाः कथम् ।
भवन्तो वत कुर्वन्ति कार्यं लोकविगर्हितम् ॥ १४७ ॥

१४७ 'प्रधान पुरुष होकर, सैय्यद वधकारी, दुःख है कि, आप लोग क्यों लोक-निन्दित कार्य कर रहे हैं ?

दैवाद्यदि मृतो भूपस्तत्सुतस्तत्पदे कृतः ।
कस्य किं वो हृतं येन सर्वे छेदार्थमुद्यताः ॥ १४८ ॥

१४८ 'दैवान् यदि राजा मर गया, तो उसके स्थान पर, उसका पुत्र कर दिया गया, तुम लोगों में किसका क्या हर लिया है, जिसने सब लोग विनाश करने के लिये, उद्यत हो गये हो ।

न सर्वे द्रोहिणः सन्ति यूयं काश्मीरिका जनाः ।
वैदेशिकैर्हता येस्ते द्वित्रांस्तान्नः प्रयच्छत ॥ १४९ ॥

१४९ 'सब लोग द्रोही नहीं हैं, जिन विदेशियों ने तुम काश्मीरियों का वध किया है, उन दो तीन लोगों का हम लोगों को दे दो ।

अथ वा परदेशात्तान्निष्कास्य सपरिच्छदान् ।
यूयमेवात्र देशे स्थ मुख्या मन्त्रिषु पूर्ववत् ॥ १५० ॥

१५० 'अथवा अनुचरो सहित, उन्हें (इस) पराये देश से निष्कासित कर, इस देश में पहले के ममान मन्त्रियों में प्रमुख मुख्यामन्त्री' बनो ।

या यस्य पदत्री पूर्वमासीत् मा तस्य तिष्ठतु ।
सभूय सर्वे भुञ्जामो नास्माक विग्रहे ग्रहः ॥ १५१ ॥

१५१ 'पहले जिसकी जो पदत्री थी, वह उसी की हो, सब लोग मिलकर, भोग करें, हम लोगों का विग्रह के प्रति आग्रह नहीं है ।

मरण नियतं जन्तोर्यथैव विधिकल्पितम् ।
तथेवावश्यभावीति के निवर्तयितु क्षमाः ॥ १५२ ॥

१५२ 'विधाता के विधान के अनुसार प्राणी का मरण निश्चित है । उसी प्रकार अवश्य-भावी को कौन अन्यथा करने में समर्थ हो सकते हैं ?'

हार्जो मुहम्मद आवाद है । द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी
जैन १ ३ ८४, ८२, ८५, १ ७ ३६२,
३ १९२, जैन० श्लोक ५२७ ।

पाद-टिप्पणी
१५० (१) मुख्य मन्त्री . राजपल भी
प्रदेशी अर्थात् राज्यों के चीफ मिनिस्ट्रो को भारत में
मुख्य मन्त्री कहते हैं ।

इति लेखार्थमालोच्य मार्गेशाद्या महत्तमाः ।

यवनाक्षरसम्बद्धमिति लेखं व्यसर्जयन् ॥ १५३ ॥

१५३. इस प्रकार लेख का अर्थ विचार कर, मार्गेश आदि महान लोग यवन^१ लिपि में लिखा, इस प्रकार का पत्र भेजे—

रक्षारत्नं नृपस्तादृग् रक्षितो न दुराशया ।

किमर्थं स हतो राजपुत्रो ब्रह्मखानजः ॥ १५४ ॥

१५४. 'दुराशा के कारण रक्षणीय रत्न सदृश, उस प्रकार के राजा की रक्षा नहीं किया और बहराम खाँ आत्मज राजपुत्र (युसुफ) को किस लिये मार डाला ?

नोरोलोहादिवधतः कस्याश्वासो भवत्विवह ।

तत्राप्यस्य शिशो राज्ञः सर्वः क्रोशो विलुण्ठितः ॥ १५५ ॥

१५५. 'नुरुल्ला^१ आदि के वध के कारण, यहाँ किसको विश्वास होगा, और वहाँ भी इस शिशु राजा का क्रोश लूट लिया ।

लोही सा घटिकैवैका द्वारि तिष्ठति भूपतेः ।

सैदैः शिष्टाहमेवेति ब्रुवन्तीव ध्वनिच्छलात् ॥ १५६ ॥

१५६. 'राजा के द्वार पर केवल एक लोहा की घटिका^१ ही है जो एक—'सैय्यदों द्वारा मैं ही अशेष छोड़ी गयी हूँ',—इस प्रकार, मानो ध्वनि के व्याज से कहती है ।

पाद-टिप्पणी :

१५३. (१) यवन लिपि : फारसी या उर्दू लिपि ।

पाद-टिप्पणी :

१५५. (१) नुरुल्ला : द्रष्टव्य : जैन० : ४ : ५७ ।

पाद-टिप्पणी :

१५६. (१) घटिका = घण्टा : राजद्वार अर्थात् ड्योड़ी पर समय के ज्ञान के लिये घण्टा बजाने की प्रथा थी । राजाओं के अतिरिक्त अन्य गणमान्य लोगों के यहाँ भी घण्टा बजता था । उसे पहरा कहते थे । कुलीनता तथा बड़े होने की यह निशानी समझी जाती थी ।

राजाओं के यहाँ राज्यों के विलय होने के पूर्व सिंहद्वार अथवा प्रवेश द्वार पर प्रहरी रहता था, वह

घण्टा बजाता था । यह प्रथा हिन्दू-मुसलमान सभी राजाओं में प्रचलित थी ।

यूरोप में यद्यपि सन् १९६ ई० में पोप सेल विस्टर द्वितीय ने घड़ी का आविष्कार किया था, किन्तु घड़ियों का प्रयोग तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा था । ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर घण्टा घर में सन् १२८८ ई० सेण्ट अल्वांस में सन् १३२६ ई० तथा डोवर कौंसिल में सन् १३४८ ई० में घड़ियाँ लगायी गयी थीं । परन्तु भारत में उनका प्रचलन न हो सका ।

भारत में घटिका यन्त्र का प्रयोग राजाओं के यहाँ आज से लगभग ३० वर्ष पूर्व तक होता रहा है । काशीराज के यहाँ घटिका यन्त्र के आघार पर ही घण्टा आदि सन् १९२८ ई० तक बजता रहा है । मैं सन् १९२१ में बनारस जिला जेल में बन्दी होकर पहुँचा, तो वहाँ भी जल-घटिका का ही प्रयोग होता

था। सूर्य घड़ी का प्रयोग दिन में ही समय मिलने के कारण खूब प्रचलित नहीं हो सका। वह जल घटिका यन्त्र का समय नियन्त्रित करने में अवश्य सहायक होता था।

भारत में एक नाद में पानी भर दिया जाता था। लोहे का एक तमला या कटोरा में छेद कर, उसे जल में छोड़ देते थे। यह तमला २४ मिनटों में भर कर डूबता था। उसमें एक रस्सी बँधी रहती थी। उसमें घण्टी की आवाज होती थी। प्रहरी पानी निकालकर पुनः कटोरा पानी में डाल देता था। इस प्रकार जल-घटिका का आविष्कार सर्व प्रथम चीन में लगभग तीन हजार पूर्व हुआ था।

यूनान तथा ईरान में जल के स्थान पर बालू का प्रयोग किया जाता था। डमरू के रूप का एक शीशा अथवा लोहा का यन्त्र बना लिया जाता था। एक तरफ बालू भर दिया जाता था। छिद्र से बालू नीचे गिरता था। बालू समाप्त होने पर उसे पुनः उलट कर रख देते थे। प्राचीनकालीन वैज्ञानिकों के चित्रों में यह यन्त्र खास प्रायः तस्वीर में चित्रित रहता है।

ब्रिटेन में अल्फ्रेड ग्रेट ने जल के स्थान पर मोमवत्ती का प्रयोग आरम्भ किया। लम्बी मोमवत्ती में लम्बाई की ओर समान दूरी पर चिन्ह अंकित करते थे। प्रत्येक चिन्ह तक मोमवत्ती जलने पर, निश्चित समय व्यतीत होने का ज्ञान हो जाता था।

श्रीवर ने लोह घण्टा शब्द का प्रयोग साभिप्राय राजा की दयनीय आर्थिक दशा का वर्णन करने के लिये किया है।

घण्टा समय बताने के साथ ही साथ मंगल-दायक माना गया है। स्कन्दपुराण के अनुसार गरुडमूर्ति युक्त घण्टा विष्णु भगवान को प्रिय है। मुसलिम तथा यूद्दी धर्म के अनिश्चित धार्मिक कृत्यों में घण्टा वादन अनिवार्य माना गया है। ईसाइयों में घण्टा पवित्र एवं शुभ माना जाता है। घण्टा लगाने

के समय उसका अभिषेक के साथ नामकरण संस्कार किया जाता है। भारत में घण्टों पर पवित्र धार्मिक वाक्य टंकित रहते हैं। इस प्रकार के घण्टों की ध्वनि मंगलकारिणी मानी जाती है।

प्रारम्भ में ईसाई की मृत्यु के पश्चात् घण्टा बजाया जाता था। कालान्तर में आसन्न मृत्यु के समय बजाया जाता है। मान्यता है कि घण्टे की ध्वनि द्वारा मुमूर्छ पवित्र तथा पिशाच भय से दूर हो जाता है। हिन्दुओं में विशेष व्यक्ति मुख्यतया साधु महात्मा एवं वृद्धों की शवयात्रा के समय घण्टा बजाया जाता है। घण्टा ध्वनि पर नीदरलैंड तथा ब्रिटेन में अत्यन्त कर्णप्रिय एवं स्वर रचनायें प्रस्तुत की गयी हैं।

बर्मा, जापान आदि देशों में घण्टों में दोलक या लोलक नहीं होते। बर्मा में हरिण की सींग की हथौड़ी में घण्टा बजाया जाता है। जापान तथा दक्षिण पूर्व के एशियायी देशों में भुंगरा अथवा दण्ड से बजाया जाता है।

पेकेन में साठे तिरपन टन का एक घण्टा है। उस पर बुद्ध वाक्य टंकित है। मास्को का घण्टा विश्व-विख्यात है। मैंने इसे अपनी रूस की यात्रा में देखा है। वह २० फुट ७ इंच मोटा है। व्यास चाइस फुट है। परिधि तिरसठ फुट से अधिक है। यह ४३२०० पाउण्ड वजन का है। यह नीचे कुछ टूट गया है। घण्टा के द्वार सदृश लगता है। विशालता के कारण उसे लघु गिरजा अथवा चेपल कहते हैं।

कास्य के घण्टों का अधिक प्रचार है। कालान्तर में चार भाग ताँब्र तथा एक भाग रागा बनाकर घण्टा बनने लगा। भारत तथा नेपाल में अष्टघातु का घण्टा उत्तम माना जाता है। छोटे घण्टे जस्ता तथा शीशा की मिश्र घातु किंवा पीतल से बनते हैं।

उत्तम घण्टा से स्थायी स्वर तथा गुञ्ज स्वर दोनों निकलते हैं। वाश्मीर में भी घण्टा मिश्र-

गच्छन्त्वनिष्टा मद्रास्ते बहिर्युक्त्या निवारिताः ।

सन्तोषवृत्त्या तिष्ठन्तु यूयं पैतामहे पदे ॥ १५७ ॥

१५७. युक्तिपूर्वक निकाले गये, अनिष्टकारी मद्र बाहर चले जाय और तुम लोग सन्तोष-पूर्वक पितामह (जैनुल आबदीन) के पद पर आसीन हो ।'

इत्यादि श्रुत्वा सैदैः स समाहूतोऽप्यनागतः ।

तदग्र व्यसृजद् दूतं स च प्राप्तोऽब्रवीदिदम् ॥ १५८ ॥

१५८. इत्यादि को सुनकर, सैय्यियों द्वारा, आहूत होने पर भी, वह नहीं आया, और उसके पास एक दूत भेजा । पहुँचकर उसने इस प्रकार कहा—

स्थापयन्तु धनं कोशे यद्धृतं बालभूपतेः ।

शस्त्रं त्यजन्तु मन्त्रादौ तिष्ठन्तु भयवर्जिताः ॥ १५९ ॥

१५९. 'बाल भूपति का जो धन हरण^१ किये हैं, उसे कोश में रख दें, और मन्त्रणा करने के पूर्व, शस्त्र त्याग दे और निर्भय हो जाय ।

अत्रत्या एव कुर्वन्तु राज्यकार्याणि पूर्ववत् ।

क्लिञ्चिन्नश्यति नो देशे दोषाः शान्तिं व्रजन्ति च ॥ १६० ॥

१६०. 'यहाँ के लोग ही, पहले के समान राज करें, इस प्रकार देश में हानि नहीं होगी और दोष भी शान्त हो जायगा ।

धातु का बनता था । घण्टा में जितनी अच्छी धातु होती है, उतना ही उनका निनाद उत्तम होता है ।

सैय्यियों ने इस प्रकार के घण्टों को भी राज-प्रासाद में नहीं छोड़ा था । केवल लौह घण्टा जिससे गूँजती ध्वनि नहीं निकलती, चाण्डाल के लौह आभूषण की तरह माना जाता है, राजद्वार पर घण्टा के प्रतीक स्वरूप रहने दिया गया था । ताकि ड्योढ़ी वजती रहे । राजा जीवित है, राज्य है, इसका लोगों का ज्ञान होता रहे । राजद्वार पर, प्रहरी जल किंवा बालू घटिका के आधार पर, रात-दिन समयान्तर से घण्टा बजाता था । इसका दो परिणाम होता था । लोगों को समय की सूचना मिलती थी और प्रहरी सो नहीं सकता था । द्वार सुरक्षित रहता था । भारत में २४ मिनट अर्थात् एक दण्ड पर घण्टा

बजता था । अंग्रेजी समय तथा प्राचीन घटिका यन्त्र का तीन, छः, नव तथा बारह बजे का समय मिल जाता था । जल-घटिका, बालू-घटिका, दोनों का प्रचलन भारतीय राज्यों के विलय तथा घड़ियों और समय पर शाइरेन अथवा भोंपा बजने के कारण समाप्त हो गया है ।

घटिका का अर्थ घटी यन्त्र भी होता है । यह समयसूचक यन्त्र था । एक घटी २४ मिनटों की होती है ।

पाद-टिप्पणी :

१५७. 'तिष्ठन्तु' पाठ—ब्रम्हई ।

पाद-टिप्पणी :

१५९. (१) धनहरण : द्र० : जैन० : ४ : ९८ ।

यद्गतं गतमेवात्र मृता जीवन्ति नो पुनः ।

अन्योन्यशुद्धिर्वैरस्य जातान्योन्यकृताद् वधात् ॥ १६१ ॥

१६१ 'जो गया मो गया ही, मरे लोग पुन जीवित नही होंगे, एक दूसरे का वध करने से पारस्परिक वैर की शुद्धि हो गयी।'

इत्यादि युक्तमुक्तं तद्वाक्यं श्रुत्वा मदोद्धताः ।

मैदास्तदुक्तिजनितक्रोधदग्धा इवाभवन् ॥ १६२ ॥

१६२. इस प्रकार उचित, उसके कथन को सुनकर, मदोद्धत सैय्यद, उसके कथन से, उत्पन्न क्रोध-मे, जल-भुन उठे ।

नृपः कोशश्च शस्त्र च युद्धदक्षास्तथा भटाः ।

सर्वमित्यस्मदायत्तं किं कुर्वन्ति विरोधिन्ः ॥ १६३ ॥

१६३ 'राजा, कोश, शस्त्र, युद्ध म दक्ष भट, सब कुछ हम लोग के आधीन है, विरोधी क्या करेंगे ?'

इति हैभतखानोक्ता युद्धसन्नद्धबुद्धयः ।

अभूवन्ते कृतोद्योगाः कौरवाः पाण्डवेष्विव ॥ १६४ ॥

१६४ इस प्रकार हैबत खाँ के कहने पर, युद्ध के लिये मन्गद्ध बुद्धि वाले वे सैय्यद, पाण्डवों के ऊपर कौरवों के समान उद्योगशील हो गये ।

अथैकदा सैफडारजोनराजानकादयः ।

पुरे नौसेतुमुत्तीर्य सैदयुद्धार्थमाययुः ॥ १६५ ॥

१६५ एक समय सैफ डार' और जोनराजानक आदि नौका मेलु को पार कर, सैय्यदों से युद्ध करने के लिये पुर में आये ।

उपायैः सर्नदा जेयाः समयो न रणस्य वः ।

इति मार्गपतेर्वाक्यं नागृह्णंस्ते रणोद्यताः ॥ १६६ ॥

१६६ 'मदैव उपायो मे विजय करना चाहिए, यह तुम लोगों के रण का समय नहीं है'— इस मार्गपति की बात को रणोद्धव वे लोग ग्रहण नहीं किये ।

पाद-टिप्पणी

'डार' पाठ—वम्बई ।

१६५ (१) सैफडार सैफ डार । तबकाले अकबरी में उल्लेख है—'एक दिन दाउद पुर जहाँगार माफी, मँफी तथा अनकरी ने पुर पार का सैय्यदों से युद्ध किया (४५२ = ६८४) ।'

तबकाले अकबरी के पाण्डुलिपि में 'मँफी' तथा 'अनकरी' नाम दिया गया है । लीयो सस्करण में 'अकरी' एवं 'मँफी' नाम दिया गया है । फिरिदता लीयो सस्करण में केवल नाम 'शफमाकरी' दिया गया है । कर्नल ब्रिगास तथा रोजर्म ने कोई नाम नहीं दिया है । 'अकरी' का नाम 'दानकरी' भी दिया गया है ।

दावोदनामा मार्गेशपुत्रो धामाकरो द्रुतम् ।
प्रतीहारादिभिर्युक्तो नगरान्तरमासदत् ॥ १६७ ॥

१६७. मार्गेश का पुत्र दाऊद, जो बहुत तेजस्वी था, प्रतिहार आदि के साथ (श्री) नगर में पहुँचा ।

समुद्रामठमार्गेण प्रविष्टा पृतनाथ सा ।
प्रापल्लोष्टविहारं तं कर्तुं सैदभटक्षयम् ॥ १६८ ॥

१६८. और वह सेना भी समुद्रमठ^१ मार्ग से प्रवेश कर, सैय्यिद भटों का क्षय करने के लिये लोष्ट विहार^२ में पहुँच गयी ।

रणं संत्यज्य डोम्बाद्या येऽन्ये लुब्धा महाभटाः ।
सर्वस्वहरणव्यग्रा बभूवुर्नगरान्तरे ॥ १६९ ॥

१६९. रण त्याग कर डोम्ब^१ आदि जो दूसरे लोग भी वहाँ पहुँचे थे, वे नगर में सर्वस्व हरण करने में व्यग्र हो गये ।

डोम्बाद्याः सुभटाश्चान्ये घ्नन्तोऽन्योन्यमुदायुधाः ।
प्रसिद्धपौरवेक्ष्मभ्यो भाण्डागाराद्यलुण्ठयन् ॥ १७० ॥

१७०. हथियार उठाये, सुभट डोम्ब आदि, परस्पर एक दूसरे को मारते हुए, प्रसिद्ध नगर गृहों से भाण्डागार आदि को हर लिये ।

भूमौ निखन्य यन्न्यस्तं पौरैर्गुप्तं गृहे धनम् ।
क्षिप्त्वा प्रतिपदं शङ्कून्नीतं तत् तैरिवापितम् ॥ १७१ ॥

१७१. पुरवासियों ने भूमि खोद कर, जो धन घर में सुरक्षित रख दिया था, पद-पद पर शंकुओं (भालों) को गड़ा-गड़ाकर, उसे उसी प्रकार ले लिये जैसे उन्हींने रखा हो ।

सद्राहते भटे दृष्ट्वा सैदा दिक्पतितं शिरः ।
नाद्यास्माकं जयोऽस्तीति तूर्णं जग्मुर्यथागतम् ॥ १७२ ॥

१७२. मद्रों द्वारा भटों के मारे जाने पर, दिशाओं में गिरे, शिरे को देखकर, सैय्यिद लोग—'आज हम लोगों की विजय नहीं होगी.'—शोघ्न यथागत (जैसे आये थे वैसे) लौट गये ।

पाद-टिप्पणी :

१६८. (१) समुद्रमठ : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी :
जन० : ४ : १२० ।

(२) लोष्ट विहार : यह श्रीनगर में ही होने की सम्भावना है ।

जै. रा, २४

पाद-टिप्पणी :

१६९. (१) डोम्ब : डुम्ब । द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जन० : १५२; तथा रा० : ५ : ३५४ ।

पाद-टिप्पणी :

१७१. (१) शंकु : भाला, बरछा, नुकीली

अथ सैदचमूः श्रुत्वा तान् प्रविष्टान् पुरान्तरे ।

अग्रे जगाम युद्धाय सायकायुधवर्षिणी ॥ १७३ ॥

१७३ वाण वर्षा करती हुई सैय्यदो की सेना युद्ध के लिये आगे गयी । उन लोगो के नगर में प्रवेश की बात सुनकर—

अग्रागतं पद्मभट्ट हत्वा स्वशिविरान्तरे ।

तद्रक्ततिलकं चक्रुः सैदाः स्वायुद्धसिद्धये ॥ १७४ ॥

१७४ आगे आये पद्मभट्ट को उसके शिविर में ही मारकर, सैय्यदो ने अपने आयुध सिद्धि के लिये उनके रक्त से तिलक किया ।

आलिखानः स तत्रस्थस्त्रस्तः श्रुत्वागतां चमूम् ।

लुद्रभट्टविहारेऽग्निं मार्गरोधार्थमार्षयत् ॥ १७५ ॥

१७५ वहाँ पर स्थित, अली खान^१ चमू (सेना) का आगमन सुनकर, त्रस्त होकर, मार्ग वरोध करने के लिये, लुद्रभट्ट^२ विहार में आग लगवा दिया ।

ज्वालाजटाकुले मार्गे प्राप्तो दावोदमार्गपः ।

सहोसनप्रतीहारः स वीरो रणमग्रहीत् ॥ १७६ ॥

१७६ मार्ग के ज्वालापुजो से व्याप्त हो जाने पर, वह वीर मार्गपति दाउद, होसन प्रतिहार सहित, युद्ध करने लगा ।

सेतुसङ्कटमार्गेण पतितः परिखान्तरम् ।

स मार्गपतिदावोदो युध्यन् प्राणैर्व्ययुज्यत ॥ १७७ ॥

१७७ सेतु के सकीर्ण मार्ग से परिखा^१ में गिरा, वह मार्ग पति^२ (दाउद) युद्ध करता हुआ, मारा गया ।

वस्तु कील या फलदार खोदने या मारने की घातु-मय उपकरण या अयुध । वाण के अग्रभाग अर्थात् फल के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ।

पाद-टिप्पणी

१७४ (१) पद्मभट्ट केवल यही उल्लेख मिलता है ।

पाद-टिप्पणी

१७५ (१) अली खा द्र० ४ ७५, ७८, ९५, १७५, ३४४ ।

(२) चमू दश घ्वजनियो की एक चमू होती है । एक सेना में ५०० हाथी, ५०० रथ,

१५०० अश्व तथा २५०० पदादित सैनिक होते हैं । दश सेना की एक पृत्तना, १० पृत्तनाओं की एक वाहिनी तथा १० वाहिनी की एक घ्वजिनी होती है । यहाँ चमू का अर्थ साधारण सेना है ।

(३) लुद्रभट्ट विहार यह स्थान श्रीनगर में ही होना चाहिये । इसका पुन उल्लेख नहीं मिलता । अन्य राजतरंगिणियों में भी उल्लेख नहीं आया है । अनुसन्धान की अपेक्षा है । केवल यही उल्लेख मिलता है ।

पाद-टिप्पणी

१७७ (१) परिखा यह परिखा वही थी

तत्राह्वदप्रतीहारमुख्या वीरा रणाङ्गने ।

ययुः शौर्यं दर्शयन्तो दिव्यस्त्रीसुखभागिताम् ॥ १७८ ॥

१७८. उस रण प्रांगण में अहमद प्रतीहार प्रमुख वीर लोग, शौर्य प्रदर्शित करते हुए, दिव्य (स्वर्गीय) स्त्रियों के सुखभागी बने ।

रूपं तस्य मृतस्यापि स्मृत्या पौराङ्गनाः पुरे ।

वदन्ति नैव पर्यामस्तादृशं सुभगं क्वचित् ॥ १७९ ॥

१७९. मृत उसके रूप का स्मरण करके, पुर की अङ्गनायें कहती थीं—'ऐसा सुन्दर रूप हम कहीं नहीं देखती हैं ।

सुरुपो मानुषोयोग्यो नायं तन्नीयते दिवम् ।

इतीव देवताभिः किं मृतं तत्र न्यधीयत ॥ १८० ॥

१८०. 'यह सुन्दर, रूपवाला मनुष्य स्वर्ग ले जाने योग्य नहीं है, इसीलिये देवताओं ने उसके मृत शरीर को वहीं छोड़ दिया ।'

तावद्वैभतखानाद्यैः पश्चादन्यपथागतैः ।

विद्ये खानगाहाग्रे तत्तत्सुभठसङ्क्षयः ॥ १८१ ॥

१८१. तबतक पीछे से, अन्य मार्ग से, हैवत खाँ आदि ने आकर खानकाह^१ के सम्मुख तत्-तत् सुभठों का विनाश किया ।

जिसे नगर की रक्षा के लिए सैन्धियों ने बनवाया था । द्र० : जैन० : ४ : १२२-१२३ ।

(२) दाऊद : दाऊद तथा सैफ डामर ने सैन्धियों पर नदी पार कर आक्रमण किया परन्तु दाऊद मारा गया । सैन्धियों ने अपना विजयोत्सव मनाने के लिए शत्रुओं ने मुण्डों पर मीनार बनवाया (म्युनिख : पाण्डु० : ७९ ए०; तत्रक्काते अकवरी ४५२) ।

फिरिस्ता लिखता है—'कुछ समय पश्चात् जहाँगीर माक्रे का पुत्र दाऊद पुनः एक छोटे विद्रोही दल के साथ पार किया और सैन्धियों पर आक्रमण किया । किन्तु अधिकतर आक्रमणकारी मारे गये (४८३) ।'

तत्रक्काते अकवरी में उल्लेख है—'एक दिन दाऊद बिन जहाँगीर माकरी तथा सैफी दानकारी (सैफ डामर) ने पुल पार कर, सैन्धियों से युद्ध किया । दाऊद अधिकांश (मुखालफीन) विरोधियों सहित मारा गया (४५२ = ६८४) ।'

म्युनिख पाण्डुलिपि में उल्लेख है—'दाऊद अपने साथी सैफ डामर के साथ युद्ध करने के लिए आया । किन्तु वह पराजित होकर मारा गया (७९ ए०) ।'

पाद-टिप्पणी :

१७८. (१) स्वर्गीय स्त्री : प्राचीन मान्यता है कि वीरगति प्राप्त व्यक्ति सुरवालाओं को प्राप्त करता स्वर्ग में निवास करता है—पराशर (३ : ३१) तथा बृहत्पराशर (१०) का मत है कि उस वीर के पीछे अप्सरायें दौड़ती हैं और उसे अपना स्वामी बनाती हैं । वे वीर जो शत्रुओं से आवृत होने पर भी प्राणभिक्षा नहीं माँगते और युद्ध में लड़ते मारे जाते हैं, उन्हें शाश्वत लोक की प्राप्ति होती है । कौटिल्य का भी यही मत है (१० : ३) ।

पाद-टिप्पणी :

१८१. (१) खानकाह : सम्भवतः खानकाह मुअल्ला से तात्पर्य है ।

भूताविष्टैरिव प्राप्तविजयैरुद्धतायुधैः ।

रणाप्रेक्षागताः पौरास्ताद्दिने केऽपि तैर्हताः ॥ १८२ ॥

१८२ हथियार उठाये विजयी वे लोग भूतग्रस्त सट्टण होकर, उस दिन रण देखने के लिये गये, कुछ पुरवासियों को मार डाला ।

किमन्यत् परदेशीया दूता विप्रगृहे स्थिताः ।

एते मद्रा इति प्रोक्ता लोभाद् द्वित्रा निपातिताः ॥ १८३ ॥

१८३ और क्या कहा जाय, ब्राह्मण के घर स्थित दो-तीन परदेशी दूतों को भी लोभ से यह कहकर, मार डाले कि वे मद्र है ।

विमुच्य बन्धनस्थान् स्वान् युध्यन् सैदभटैः सह ।

स सैफडामरः पौरान् सैदाश्चोत्फलकान् व्यधात् ॥ १८४ ॥

१८४ सैफ डामर ने बन्धन स्थित, अपने जनो को मुक्त कर, सैय्यदो के साथ युद्ध करते हुए, पुरवासियों को ढाल' रहित (अरक्षित) कर दिये ।

अस्मद्वैरिहितः सोऽयमिति सैदभटा रुपा ।

जघ्नुर्गृहस्थितं वैद्यपण्डितं यवनेश्वरम् ॥ १८५ ॥

१८५ यह हम लोगो के वैरियो का हितकारी है, इस क्रोध से सैय्यद भटो ने घर मे स्थित वैद्य पण्डित यवनेश्वर^१ को मार डाला ।

अत्यन्तानुचितं सैदाश्चक्रुर्यत् तस्य मस्तकम् ।

छित्त्वा चन्दनलिप्ताङ्गं न्यधू राजपथान्तरे ॥ १८६ ॥

१८६ सैय्यदा ने यह अत्यन्त अनुचित कार्य किया, जो उसके चन्दन लिप्ताग^१ मस्तक को काटकर, राजपथ पर, रख दिया ।

पाद-टिप्पणी •

१८५ (१) यवनेश्वर पाठ सन्दिग्ध है । यह हिन्दू था । जैसा श्लोक सख्या १८६ तथा १८८ से प्रकट होता है । उसका मस्तक चन्दन-चर्चित था । मुसलमान चन्दन नहीं लगाते ।

पाद-टिप्पणी

१८६ (१) लिप्ताग श्रोत ने भावार्थ दिया है—'उन्होंने वैद्य के मस्तक के चन्दनलिप्त, अंग को काट कर राजपथ पर छाड़ दिया ।'

वैद्य का नाम यवनेश्वर श्लोक ४ १८५ में

दिया गया है । ऐश्वर शब्द नामो के अन्त में शिव मन्दिरो में प्रतिष्ठित देवताओ के आगे तथा स्वामी विष्णु मन्दिर नामवाचक देवता में साथ लगाया जाता है । यवन शब्द मुसलिमवाचक है । यदि वैद्य यवन होता तो वह चन्दन का लेपन मस्तक पर न करता । शिर्वालिग पर चन्दन तथा चन्दन का त्रिपुण्ड लगाया जाता है । वैद्य शैव था । श्रीवर ने वैद्य एव पण्डित दोनो विशेषण यवनेश्वर शब्द के साथ लगाया है । इससे स्पष्ट है कि नाम यवनेश्वर न होकर यवनेश्वर या कुछ और हो सकता है । मुसलमान चन्दन का प्रयोग मस्तक पर नहीं करते यह निर्विवाद है ।

प्रविष्टा राक्षसाः केऽपि तद्दिने ते पुरान्तरे ।

अविचार्य क्षयं चक्रुः सर्वेषां यत् कृपोज्जिताः ॥ १८७ ॥

१८७. उस दिन उस पुर में उन राक्षसों ने प्रवेश किया और बिना विचार किये, निर्दयता-पूर्वक, सब लोगों का विनाश कर दिये ।

तस्य चन्दनलिप्ताङ्गं मस्तकं वीक्ष्य नागराः ।

न के निन्दां व्यधुः सैददुष्कर्माधर्मनिश्चयात् ॥ १८८ ॥

१८८. उसके चन्दन लिप्तांग मस्तक को देखकर, सैय्यियों का दुष्कर्म एवं अधर्म निश्चय करके, किन नागरिकों ने निन्दा नहीं की ?

आ मल्लिकपुराल्लोष्टविहारान्तं पुरान्तरे ।

शवा इन्धनगण्डाल्य इवासन्निहिताः पथि ॥ १८९ ॥

१८९. मलिकपुर^१ से लोष्ट विहार^२ तक, पुर में पथ पर, ईन्धन समूह के समान, शव रखे हुए थे ।

आसन् येषु वपूंषि तूलशयनन्यस्तोपधानोद्गत-

स्पर्शोत्कर्षसुखावमर्षविलसच्छृङ्गारसाराण्यलम् ।

नगनास्ते भ्रुवि काककुक्कुरवृकैः संभक्षिता लक्षिता

सेदोमांसवसावमत्क्रिमिलसन्निष्यन्द दुर्गन्धिनः ॥ १९० ॥

१९०. रुई की गद्दी पर रखे उपधान के स्पर्श का उत्तम सुख प्राप्त करनेवाले, सुन्दर शृङ्गार परिपूर्ण, वे भूमि पर नगनावस्था में काक, कुक्कुट, वृकों द्वारा खाये गये, मेदा, मांस, वसा से निकलते कृमियों तथा दुर्गन्ध युक्त देखे गये ।

जयेन तावन्मात्रेण तुष्टाः सैदाः परस्परम् ।

विंशप्रस्थान्तरे चक्रुर्वाद्यैस्ते विजयोत्सवम् ॥ १९१ ॥

१९१. इतने ही विजय से सन्तुष्ट, सैय्यियों ने विंशप्रस्थ^१ में, वाद्यों द्वारा विजयोत्सव^२ सम्पन्न किया ।

पाद-टिप्पणी :

‘ल्लोष्ट’ पाठ—ब्रम्बई ।

१८९. (१) मलिकपुर : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : ७ : ६६ तथा शुक १ : ३३ ।

(२) लोष्ट विहार : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : १६८ ।

पाद-टिप्पणी :

१९१. (१) विंशप्रस्थ . द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : ७ : ३; ४ : ९७ ।

(२) विजयोत्सव : तदवकाशे अकवरी में उल्लेख है—‘सैय्यियों ने प्रसन्न होकर नक्कारे वजाये (४५२) ।’

हतावशिष्टान्नष्टांस्तांस्तद्दिने चलितान् बहून् ।

पश्चाच्चेदगलिष्यन्त सर्वसंहरणं भवेत् ॥ १९२ ॥

१९२ मारने से बचे हुए तथा चले गये, बहुत से लोगों के पीछे, यदि वे लगते, तो सर्व सहार हो जाता ।

किंतु प्राग् लुठिता देवा ज्वलिताः केऽपि देशगाः ।

तां बुद्धिं विजयायैषामदास्यन् कुपिताः कथम् ॥ १९३ ॥

१९३. किन्तु पहले देश के कुछ देवता' लूटे एव जलाये गये थे, अतः कुपित वे देवता, उन (सैथियदो) को विजय के लिये कैसे बुद्धि देते ?

अहंपूर्विक्रिया

याततरद्भटभरासहः ।

नौसेतुबन्धस्तुत्रोट

तावच्छ्रीनगरान्तरे ॥ १९४ ॥

१९४ तबतक श्रीनगर मे 'मैं पहले-मैं पहले' इस प्रकार जाकर, पार करते भटों के भार को, न सह सकने मे, नौका सेतुबन्ध' टूट गया ।

सनाहभरमग्नाङ्गाः सेतुभङ्गात् परिच्युताः ।

शतसङ्ख्या दिने तस्मिन् वितस्तायां विपेदिरे ॥ १९५ ॥

१९५ सेतु भग होने से गिरकर, वर्मभार से (स्वत) डूब गये, इस प्रकार वितस्ता मे शत की सख्या मे (वे) मर गये ।

म्युनिख पाण्डुलिपि में उल्लेख है कि—'विजयो-त्सव मनाने के लिये सैथियदो ने मरे हुए लोगों के मुण्डो से एक मीनार बना दिया' (म्युनिख पाण्डु० ७८ ए०) ।

पाद-टिप्पणी

१९३ (१) देवता श्रीवर के वर्णन से प्रतीत होता है कि सैथियदों ने धार्मिक उन्माद के कारण गोवध के साथ ही साथ प्रतिमाओं को भग करने एव फूकने का क्रम पुनः आरम्भ किया, जो जैनुल आवदीन के समय बन्द हो गया था ।

पाद-टिप्पणी

१९४ (१) सेतु भग फिरिदता लिखता है—'सैथियदों ने दूसरे दिन सर्वप्रिय दल पर आक्रमण किया किन्तु उन लोगों का जोरो से विरोध नागरिकों ने उनके नौका सेतु पार करते समय किया ।

उसमें बहुत सैथियद मारे गये । सेतु टूट गया । उस पर सैथियद दल के जो लोग थे, वे नदी से डूब गये (४८३) ।'

तबवकाते अकबरी में उल्लेख है—'दूसरे दिन सैथियद अपनी शक्ति के बल पर पुल पार करना चाहते थे । शत्रु सामने आ गये, और पुल पर युद्ध आरम्भ हो गया । जब पुल टूट गया तो दोनों ओर के बहुत से लोग जल मग्न हो गये (४५२-४५३, ६८४) ।'

म्युनिख पाण्डुलिपि में उल्लेख है—'कादमीरी बडे और सैथियदो से पुल पर सघर्ष हुआ । अकस्मात् पुल टूट गया बहुत से लोग दोनों तरफ के डूब मरे (म्युनिख : पाण्डु० ८० : ए०) ।'

पाद-टिप्पणी

१९५ (१) वर्मभार : जिरहवस्तर । कवच

नूनं सा शारदा देवी वितस्तरूपधारिणी ।

तदधर्मक्रुधा ग्रासं विद्ध्ये कटकद्वये ॥ १९६ ॥

१९६. निश्चय ही वितस्ता रूपधारिणी शारदा देवी ने उनके धर्म के क्रोध से दोनों सैन्य (के लोगों) को ग्रास कर लिया ।

प्रेक्षागता हताः पौरा इ निन्दानिवृत्तये ।

तत्क्षणोत्कृत्तशिरसां सैदैः राशिः कृतोऽग्रतः ॥ १९७ ॥

१९७. 'दिखने के लिये आये नगरवासी नार डाले गये', इस निन्दा की निवृत्ति के लिये सैन्यियों ने तत्क्षण काटे गये शिरों की राशि सम्मूह कर दी ।

तत्तत्काल्यर्पितमुग्धैस्तैर्वितस्तातटान्तरात् ।

काष्ठमेकं न्यथुः सैदा भीत्यै दीपधरोपमम् ॥ १९८ ॥

१९८. वितस्ता तट पर तत्-तत् काली पर मुग्धों को रखकर, उनके द्वारा भय उत्पन्न करने के लिये दीपधर सदा एक काष्ठ पर रख दिये ।

छोहा का वनजा है । उसका वन इतना भारी होता है कि कुगल तैरक न होनेवाला व्यक्ति, उसके भार में ही डूब जाता है । पत्थर बाँध कर जिस प्रकार मनुष्य को डुबो दिया जाता है और वह तैरक होने पर भी भार के कारण डूब जाता है, उसी प्रकार लोहा का बर्नभार इतना अधिक था कि वह साधारण मनुष्यों को डुबाने के लिये पर्याप्त था ।

पाद-टिप्पणी :

१९६. (१) शारदा : वितस्ता को पार्वती का अवतार मानते हैं । देवी पार्वती सती हैं । उनके नाम पर काश्मीर उपत्यका का नाम सतीसर है । काश्मीर मण्डल का प्राचीन नाम शारदासिंह है । जोनराज ने काश्मीर को शारदा मूर्ति लिखा है (जैन० : श्लोक ८२८) ।

सतीसर शारदा मूर्ति है । सती वितस्ता है । अतएव श्रीविर ने वितस्ता को शारदा माना है । प्राचीन काश्मीर की उत्तरी सीमा शारदासिंह बनाता था । शारदा या शारदी की यात्रा जैतुल शाहदीन ने भी किया था । द्र० : ग० क० : १ : ३७ ; ४ : ३२५ ; ८ : २२५, २३०६ ; द्र० : शारदा महात्म्य ।

पाद-टिप्पणी :

१९८. (१) मुग्ध : सैन्यियों ने इसके पूर्व भी बन्दों पर शिर की अवशियाँ लोगों ने भय उत्पन्न करने के लिए लगावा दी थीं (जैन० : १३०) ।

सम्मवतः इसी का उल्लेख तदवकाते अकवरी में इमरी तरह में किया गया है—'सैन्यियों ने अपने मनुष्यों के मुग्धों का नीमार बनाया (४५३ = ६८४) ।'

(२) दीपधर : दीपट । जोनराज ने भी हठ व्यक्ति मनु निन्दन एवं अवतार के शिर की उपमा शीघ्र में किया है । वे शाहमीर द्वारा छल से मारे गये थे । द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : श्लोक : २८० । श्रीविर ने श्लोक ४ : १३० को उपमा पुनः यह दुहराई है । तुर्क तथा मंगोल प्रथा है कि आतंक उत्पन्न करने के लिए मुन्हागार या मुन्डों की नीमार बनाते या बछों तथा आठियों पर मुन्ड गाड़ कर धुमाते हैं । यहाँ प्रतीत होता है । काष्ठ पर दीपक तुल्य मुन्ड रख दिये गये थे । श्रीमालिका के अवतार पर लम्बे काष्ठ पर पक्षिबद्ध दीपगान्धा सजाये जाते हैं । उसी की उपमा यहाँ दी गयी है ।

वितस्तायां शवाः केचित् सलिलोच्छूनविग्रहाः ।

विसस्रुर्विस्रगन्धात्था महापद्मसरोन्तरे ॥ १९९ ॥

१९९ वितस्ता में जल से फूले शरीरवाले दुर्गन्धिपूर्ण कुछ शव, महापद्मसर^१ में बह गये थे ।

अत्रान्तरे समानीयावशिष्टान् परितो भटान् ।

काश्मीरिकाः पुनश्चक्रुः पूर्ववत् सैन्यसंग्रहम् ॥ २०० ॥

२०० इसी बीच काश्मीरी चारो ओर से अवशिष्ट भटो को लाकर, पूर्ववत् पुन सैन्य संग्रह करने लगे ।

श्रीज्यहाङ्गिरज्यल्लालसैफडामरकादयः ।

मुख्यान् सैदान् पुनर्जेतु रणोपायं व्यचिन्तयन् ॥ २०१ ॥

२०१ श्री जहाँगीर, जल्लाल, सैफ डामर आदि लोगो ने प्रमुख सैध्यदो को पुन जीतने के लिये, रण का उपाय सोचने लगे ।

स सैफडामरः प्राप्तसिद्धादेशपदस्ततः ।

उच्चावचेषु व्यभजद् विषयान् सप्तविंशतिम् ॥ २०२ ॥

२०२ तत्पश्चात् सिद्धादेश^१ प्राप्तकर, उस सैफ डामर ने, ऊँचे नीचे स्थानो पर, सत्ताइस विषयो^२ (भागो) में बाट दिया ।

पाद-टिप्पणी

१९९ (१) महापद्मसर वितस्ता महा-पद्मसर (ऊलर लेक) में पूव से आकर गिरती और पुन पश्चिम से निकल जाती है । अतएव शव वितस्ता में बहते महापद्मसर में तैर रहे थे । यह इस वान को भी प्रकट करता है कि लाश इतने कायर हो गये थे और उनका मनावल इतना गिर गया कि शवों को निकाल कर, उनकी अन्तिम क्रिया भी नहीं किये । काशी में आज भी गरीब से गरीब का सम्बन्धी डूबता है, ता उसकी लाश खाजने का प्रयास किया जाता है और मीला दूर लोंग लाश को दूदते जात है कि लाश कहीं न कहीं फूली अवश्य मिल जायगी ।

पाद-टिप्पणी

२०२ (१) सिद्धादेश प्राचीन काल में

भूमि आपके लिए प्रयोग किया जाता था । मुसलिम काल में इस पद का नाम 'दीवाने कुल' था—द्र० शुक० १ १०३ ।

(२) विषय परगना । क्षेमेन्द्र के अनुसार काश्मीर सप्तविंश परगना थे । लो० पृष्ठ ६० । कुल परगनों की संख्या ४२ है । मराज में २४ तथा कमराज में १८ परगने थे । द्र० ४ ५६७ ।

अबुल फजल ने परगनों की संख्या ३० दिया है । सिखकाल में परगनों की संख्या मूरक़ाफ़्ट की तालिका के अनुसार ३२ है । वॉन हुगेल ने संख्या ३४ दिया है । वाइन ने ३१ तथा वेट्स गज़ेटियर में ४० दी गयी है । परगना की सीमा तथा सप्त्या कालानुसार बढ़ती-घटती रही है । भारत में ही उत्तर प्रदेश के जिलो की संख्या गत तीस वर्षों में चार से अधिक बढ़ गयी है ।

काष्ठागता लसत्पक्षास्तीक्ष्णाश्च सफलीकृताः ।

यन्त्रेषवश्च योधाश्चाघटंस्तेषु दिने दिने ॥ २०३ ॥

२०३. उनमें काष्ठागत^१ पक्ष युक्त तीक्ष्ण एवं फल युक्त यन्त्र वाण^२ तथा योधा प्रतिदिन एकत्रित किये जाने लगे ।

क्षुभ्यद्बैतस्ततीरद्वयजयघटनारब्धयन्त्रेषुयुध्य-

त्क्रुध्यद्वीरेक्षणाप्तप्रचुरपुरजनस्वान्तसंक्रान्तशौर्यम् ।

धावत्संनाहिताश्वोत्कटसुभटघटाघातजाताग्निवर्ष

चक्रुः क्रोधात् पुनस्ते प्रवरपुरवरे युद्धमत्युद्धृतं तत् ॥ २०४ ॥

२०४. वितस्ता के दोनों तट पर जै-जैकार एवं यन्त्र वाण से युद्ध करते क्रोधपूर्ण वीरों को देखने से समस्त पुरवासी, जहाँ स्वयं अत्यधिक शौर्य का अनुभव कर रहे थे, दौड़ते वर्म (सन्नाह) युक्त अश्वों^१ से उक्तट सुभट समूहों के आघात से जहाँ अग्निवर्षा-सी हो रही थी, इस प्रकार क्रोध से उन लोगों ने प्रवरपुर^२ में अत्युद्धृत युद्ध किया ।

यामदुन्दुभिवाद्यानां ध्वनिः सर्वैस्तदा श्रुतः ।

पूर्वं राजगृहे पश्चात् सैदकाश्मीरसैन्ययोः ॥ २०५ ॥

२०५. उस समय सब लोगों ने याम^१ दुन्दुभी^२ वाद्यों की ध्वनि पहले, राजगृह में तत् पश्चात् सैय्यियों एवं काश्मीरियों की सेना में सुना ।

पाद-टिप्पणी :

२०३. (१) उक्त श्लोक में श्लिष्ट शब्दों की बहुलता है । श्लोक में काष्ठागत—काष्ठ अथवा दिग्गा से, पक्ष—वाण में लगा पक्ष अथवा पक्ष, तीक्ष्ण—तीक्ष्ण वाण अथवा तीक्ष्ण रोग, सेनानी अथवा वषिक, फलयुक्त—फलयुक्त वाण अथवा सैनिक सफल थे ।

(२) यन्त्र वाण : ३० : जैन० : ४ : २०६ ।

पाद-टिप्पणी :

१०४. (१) संनाहित अश्व : मध्ययुग में अश्वों को भी वर्मयुक्त करते थे । अश्वों पर दौठा वर्मयुक्त घोड़ा की रक्षा उसका कठोर लौह वर्म करता था, उसी प्रकार अश्वों को अस्त्र-घात से बचाने के लिए अश्वों का शरीर लौह कवच से ढँक

जै. रा. २५

दिया जाता था । यूरोप में इस प्रकार के वर्म एवं कवचों का बहुत विकास हुआ था । काश्मीर में यह प्रथा भारत तथा तुर्किस्तान से पहुँची थी ।

(२) प्रवरपुर : श्रीनगर । ग्राहजहाँ के समय में भी प्रवरपुर का नाम श्रीनगर प्रचलित था । लोक० : पृष्ठ : ३५ ।

पाद-टिप्पणी :

२०५. (१) याम = पहर : तीन घण्टे का समय, यामिनी = रात्रि । पहर का समय ज्ञात कराने के लिए बजाया जानेवाला घण्टा, दुन्दुभी आदि । याम का अर्थ घोष किंवा आवाज से है । यहाँ अर्थ दुन्दुभी की आवाज से है । दिन का आठवाँ भाग याम होता है । पश्चिमाद्यामिनी यामात्प्रसाद मित्र चेतना—रघु० : १७ : १ ।

(२) दुन्दुभी : ३० : ३ : ३९७ ।

अवतीर्णा जलार्थं याः पारावारपुराङ्गनाः ।
यन्त्रेषुभिविंदीर्णाङ्गा बह्व्यस्तत्र विपेदिरे ॥ २०६ ॥

२०६. दोनो तट की जो पुरस्त्रियाँ जल लेने के लिये गयी थी, यन्त्र बाणों से उनके अग विदीर्ण हो गये और बहुत वही पर मर गयी ।

स नासीद् दिवसो यत्र द्वित्रा वीराः पतत्रिभिः ।
विद्धा मुमूर्ष्वस्तीरान्न नीताः स्वगृहान् प्रति ॥ २०७ ॥

२०७. ऐसा कोई दिन नहीं था, दो-तीन बाणों से विद्ध एव मुमूर्ष दो-तीन वीर, तट से अपने घर न लाये गये हो ।

बह्निदानस्फुरद्योघसंहाराद्यैरुपद्रवैः ।
एकमेकं दिनं तत्रानेहस्याभूद् भयावहम् ॥ २०८ ॥

२०८. वहाँ पर, उस समय आग लगने और योद्धावा के सहार आदि उपद्रव के कारण, एक-एक दिन भयावह हो गया था ।

पाद-टिप्पणी

२०६ (१) यन्त्रबाण · यन्त्रचालित शर । बड़ा घनुष तथा यन्त्रबाण दो प्रकार के घनुषों का प्रयोग होता था । उन्हें अंग्रेजी में 'लॉग वो' तथा 'शॉर्ट वो' कहते हैं । घनुष साधारण घनुषों के समान होता है । इसे 'लॉग वो' कहते हैं । एक छोटा यन्त्र तुल्य होता था, जिसमें बाण रखकर मारा जाता था । इसका आकार घनुष से बहुत छोटा होता था । इसे हाथ में लेकर चलते थे । उस पर बाण रखकर चलाया जाता था । अंग्रेजी में इसको 'शॉर्ट वो' कहते थे ।

एक बाण ओर होता था । उसे फलदार घनुष या गोफन कहते थे । उसमें बाण या पत्थर रखकर फेंकते थे । पश्चिम में तथा पश्चिम के प्रभाव से मुसलिम काल भारत में तोप के स्थान पर घनुष होता था । उस पर जलती लुकारी या लुक लगाकर बाण की तरह फेंकते थे । वह किले का प्राकार पार कर भीतर गिरता या अथवा शत्रु के शिविर में

गिर कर आग लगा देता था । मैंने अपनी बाल्या-वस्था में इस प्रकार के दोनो घनुष देखे थे । विजय-दशमी के दिन काशिराज की सवारी निकलती थी । उसमें आधुनिक सैनिक साज-भज्जा के साथ प्राचीन हथियार भी निकलते थे । ऊँट पर से चलनेवाली छोटी तोपें भी ऊँट पर लगी रहती थी । इस समय मैं उनका नाम भूल गया हूँ । मैं समझता हूँ कि श्रीवर वर्णित यन्त्रबाण रहा होगा ।

श्रीवर ने बज्रबाण (जैन० १ १ ७२) का उल्लेख किया है । वहाँ पर बाण, गोली तथा गोले के लिए प्रयोग किया गया है । यन्त्रभाण्ड शब्द तोप के लिए प्रयोग किया गया है (जैन० · १ १ ७७) ।

जिस समय का यह वर्णन है, उसके पूर्व काश्मीर में तोप अग्नि शस्त्रों का प्रवेश हो चुका था । यन्त्र-बाण यदि शॉर्ट वो के लिए नहीं प्रयोग किया गया है, तो इसका तात्पर्य यहाँ बन्दूक से है ।

पाद-टिप्पणी .

२०७. 'विद्धा' पाठ-बन्धई ।

अश्लीलालापिनोऽन्योन्यं रहस्योद्घाटनोद्यताः ।

तटद्वये भटाः क्रूरा अवाच्यमपि तेऽब्रुवन् ॥ २०९ ॥

२०९. दोनों तट पर, अश्लील^१ भाषी, परस्पर के रहस्य के उद्घाटन के लिये उद्यत, क्रूर वे भट, अवाच्य^२ का प्रयोग करते थे ।

राजसैदद्विजद्रोहरोहत्पापादिवादिनः ।

मिथो गालीं वदन्तस्ते किं नावाच्यं वभाषिरे ॥ २१० ॥

२१०. राजा, सैथियद एवं द्विजों के द्रोह^३ से उत्पन्न पाप आदि को कहनेवाले परस्पर गाली देते हुए, कौन-सा अपशब्द नहीं कहते थे ?

प्राप्ता दौलतसीहाद्याः कण्टवाटादिदेशतः ।

शिष्टाः सल्हणहंसारच शाहिमङ्गलपात्मजाः ॥ २११ ॥

२११. काण्टवाट^४ देश से आगत दौलत सीह^५ आदि शिष्ट सल्हण हंस एवं शाहि^६ भंग नृपति के पुत्र—

पाद-टिप्पणी :

२०९. (१) अश्लील : असंस्कृत = अशोभनीय = गौरव = देहकानी = लज्जा का उल्लंघन, अमंगल तथा जुगुप्सा की भावना उत्पन्न करनेवाले गन्दे शब्दों से तात्पर्य है ।

—अश्लील प्रायान् कलकलान्—दश० : ४९ ।

(२) अवाच्य : जिन शब्दों का उन्वोधन या प्रयोग निन्दित, अकथनीय तथा बोलना अनुचित माना जाता है—(देवकुमनहस्य वचसः) अनक्षरमवाच्यं स्याद् । न कहने योग्य अनक्षर तथा अवाच्य है—अवाच्यो द्रीक्षितो नाम्ना धनीनामपि धोमवेत्—मनु० : २ : १२८; अवाच्य वागंश्च ब्रह्मवादिष्यन्ति तवाहिताः—भग० : २ : ३६, अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव—अथो० : ३६ ।

पाद-टिप्पणी :

२१०. (१) द्रोह : राजा, सैथियद एवं द्विजों तीनों मुख्य लोगों के कारण काश्मीर मण्डल वस्त

हो गया था, जिन पर काश्मीर सुरक्षा, व्यवस्था तथा शान्ति स्थापना का उत्तरदायित्व था । क्रफ, पित्त, वायु तीनों प्रकृतियों के त्रिगुणने से जिस प्रकार शरीर में त्रिदोष उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार देश में राजा, सैथियद एवं द्विजों के द्रोह के कारण राज्य किंवा काश्मीर में त्रिदोष उत्पन्न हो गया था ।

पाद-टिप्पणी :

२११. (१) काण्टवाट : किश्तवार । द० : पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : ४६ तथा जैन० : श्लोक ७६ तथा ३१३ । एक काण्टवाट का उल्लेख कल्हण ने किया है (रा० : ६ : २०२; ८ : ३००) । यह काण्टवाट काश्मीर मण्डल के अन्तर्गत क्रुहिन परगना में पश्चिम कहीं था । दोनों काण्टवाटों में अन्तर है ।

(२) दौलत सीह : इस नाम का पुत्र उल्लेख नहीं मिलता ।

(३) शाहिभंग : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : ३ : ११४; ४ . २७०, २७२, ५५९ ।

पञ्चगह्वरजाः केचित् सिन्धुपत्यन्वयोदिताः ।

खशा म्लेच्छास्तथान्येऽपि रुरुधुः सर्वतो दिशः ॥ २१२ ॥

२१२ कुछ सिन्धुपति-वशोय, पचगह्वर^१ के लोग तथा खश^२, म्लेच्छ^३ एव अन्य लोग भी सब दिशाओ से घेर लिये ।

काश्मीरिकाः स्वभेदेन बलप्राप्त्या तथापरे ।

ययुस्त्रासविसूत्रत्वमज्ञातान्योन्यनिश्चयाः ॥ २१३ ॥

२१३ अपने भेद के कारण काश्मीरी लोग तथा सेना के प्राप्त होने से अन्य लोग एक-दूसरे का निश्चय जानने के कारण असंगठित हो गये ।

अत्रान्तरे नभस्युल्का साय दीप्तोदभूत् स्फुटम् ।

उदीच्या दक्षिणां याता प्रज्वलद्बहुमस्तका ॥ २१४ ॥

२१४ इसी बीच सायकाल आकाश में स्पष्ट रूप में एक दीप्त उल्का^१ उत्पन्न हुई, जिसमें बहुत से चमकते शिर (ज्वालापुज) थे, जो उत्तर से दक्षिण^२ का जा रही थी ।

पाद-टिप्पणी :

२१२ (१) पचगह्वर द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० : ३ १०१, जोन० श्लोक १३२ ।

(२) खश द्रष्टव्य परिशिष्ट न' खश राज० खण्ड एक लेखक तथा पाद टिप्पणी जोन० श्लोक ५२५, शुक्र १ ६२, जैन० ४ ११३, ४९४, ६५० ।

(३) म्लेच्छ द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० १ ५ ५९, जोन० श्लोक ५६१, राज० १ १०७ ।

पाद-टिप्पणी

२१४ (१) उल्का रामायण में उल्कापात अशुभ माना गया है (अरण्य० २३ १५) । ऋग्-वेद (४ ४ २७, १० ६८ ४), अथर्व वेद (१९ ९ ९), महाभारत, चीन, यूरोप, भारत प्राचीन साहित्यों में उल्का की चर्चा मिलती है । उनकी उपमा कवियों ने दी है । भाषा में इनको तारा टूटना, लूक टूटना आदि कहते हैं । वे अधिक-तया रात्रि के पिछले पहर में आकाश में एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर प्रज्वलित शिखा

समान जाती लाप हो जाती हैं । वे जैसे-जैसे अधोगति की अग्रसर होती हैं, उनका प्रकाश कम होता जाता है । उल्का का वग प्रति सेकेण्ड दश मील से लेकर चालीस मील तक होता है । उल्काओ का एक बड़ा समूह है, जो सूर्य के चारों ओर केतुओ की कक्षा में घूमता है । पृथ्वी उस उल्का क्षेत्र से होकर प्रत्येक तैतीसवें वष कन्या राशि पर अर्थात् नवम्बर मास की चौदहवी तिथि के लगभग निकलती है । उल्का-पात जनवरी से जुलाई की अपेक्षा जुलाई से नवम्बर तक अधिक होता है । उल्का पृथ्वी से चालीस मील से एक शत मील की ऊँचाई से जाते दृष्टिगोचर होते हैं और पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं । फलित ज्योतिष के अनुसार मंगला आदि आठ दशाओ में से एक है । यह दशा छह वर्षों तक रहती है ।

उल्काएँ एक बिन्दु से चलती हैं । उन्हें उल्कामूल कहते हैं । वे एक बिन्दु से चलती अनेक भागों में अग्नि गाले के रूप में विभक्त होकर, बौछार रूप गिरने लगती हैं । उन्हें उल्का श्रेणी कहा जाता है । अग्नि गोले, चन्द्रमा के ममान बड़ा दिखायी पड़त हैं । कुछ देखते-देखते फूट जाते हैं । उल्काओ का

दृष्ट्वा तामद्भुतां सर्वे सैन्ययोरुभयोरपि ।

संग्रामाशङ्कितानिष्ठा बभूवुर्भयविह्वलाः ॥ २१५ ॥

२१५. दोनों सेनाओं में सब लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर, संग्राम में होनेवाले अनिष्ट की आशंका पर, भय विह्वल हो गये ।

अत्रान्तरे सैदलेखैः प्रेरितो देशलिप्सया ।

तत्तारखानो व्यसृजत् तौरुष्कं पुष्कलं बलम् ॥ २१६ ॥

२१६. इसी बीच सैय्यद के पत्रों से प्रेरित होकर, देशप्राप्ति की लालच से, तातार खाँ ने तुरुष्कों की बहुत बड़ी सेना भेजा ।

जो अंग वायुमंडल में जलने में बचकर पृथ्वी पर आता है उसे उल्कापिण्ड कहा जाता है । कुछ उल्कापिण्ड अधिकांशतः लौह, निकल या मिश्रधातु के होते हैं, उन्हें धात्विक तथा कुछ सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर तुल्य होते हैं, उन्हें आंशिक कहा जाता है । कुछ में दोनों पदार्थ होने से धात्वांशिक उल्कापिण्ड कहते हैं ।

श्रीवर के वर्णन से प्रकट होता है कि पहले एक प्रज्वलित उल्का प्रकट हुई । उसमें बहुत-से शिर किंवा ज्वालापुंज थे । रात्रि में उल्कापात होते हैं । कभी-कभी ध्वनि होती है । ध्वनि के साथ विस्फोट होता है और एक पिण्ड से कितने ही छोटे पिण्ड हो जाते हैं । वे सीधी लकीर बनाते एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाते हैं । श्रीवर का वर्णन वास्तविकता के अत्यन्त समीप एव सजीव है (द्रष्टव्य : ४ : ३५९) ।

उल्का पिण्ड विशेष आकार के नहीं होते । जर्बा या कंकड़ के समान ऊबड़-खाबड़ होते हैं । उल्का का रंग काला होता है । उस पर पालिग की तरह चमक रहती है । उल्का धातुमय एवं पापाणमय होते हैं । धातुमय में लौह धातु की बहुलता रहती है । निकल भी मिल जाता है । कभी-कभी किंचित ताम्र एवं रांगा मिला भी मिलता है । पापाण पिण्ड में भी प्रायः लौहकण मिलते हैं । धातु उल्कापात कम तथा पापाण विशेष होता है । उल्का का वेग प्रति

सेकण्ड दस मील से चालीस मील होता है ।

(२) दक्षिण : काल की दिशा, मृत्यु की दिशा, यम की दिशा, दक्षिण दिशा है । यह अशुभ एवं आपत्ति की दिशा मानी गयी है । दक्षिण दिशा में ही स्मशान स्थान रखा जाता है । मृत्यु पश्चात् दक्षिण दिशा की ओर पैर रख कर, आदमी सुलाया जाता है । कब्र में दक्षिण दिशा ही की ओर पैर कर शव दफन किया जाता है । द्र० : पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : १ : १६५ ।

पाद-टिप्पणी :

२१६. (१) तातार खाँ : फिरिस्ता लिखता है—'अब सैय्यदों ने एक दूत तातार खाँ पंजाव के सूवेदार के पास सहायता माँगने के लिये भेजा । तातार खाँ ने एक सेना सहायता के लिये काश्मीर की राजधानी की तरफ भेज दिया (४८३) ।'

तबकनाते अकवरी में उल्लेख है—'तदुपरान्त सैय्यदों ने पंजाव के हाकिम तातार खाँ को पत्र लिखकर, उसे सहायतार्थ बुलवाया । उसने अत्यधिक सेना उनकी महायतार्थ भेजी (४५३-६८५) ।'

म्युनिख पाण्डुलिपि में भी यही बात लिखी है कि 'सैय्यदों ने दिल्ली के मुल्तान इब्राहीम लोदी के पंजाव के सूवेदार तातार खाँ से सहायता की याचना की (८० ए०) ।'

द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : ३ : ३१८-३१९ तथा ४ : ३२ ।

प्राप्ताः शस्त्रगलस्थानं तुरुष्कास्ते सुदुष्कराः ।

हता भोडनराजाद्यैः प्रालेयैः शलभा इव ॥ २१७ ॥

२१७ वे सुदुष्करकारी तुरुष्क, शस्त्रगल^१ स्थान पहुँचने पर, भोडन राजा^२ आदि लोगो द्वारा प्रालेयो^३ से शलभो के समान मार डाले गये ।^४

कालीधारापदेशेन काली भगवती क्रुधा ।

व्यधात् तद्भक्षणं नूनं सतीदेशहितेच्छया ॥ २१८ ॥

२१८ निश्चय ही काली धारा^१ के व्याज से, भगवती काली, सती देश^२ के हित इच्छा से, उनका भक्षण कर लिया ।

आदामखानजस्तस्मै विसृज्य इति चोदितः ।

निवर्त्य तं तुरुष्कः स स्वान्तिके समरक्षत् ॥ २१९ ॥

२१९ यह (राज सन्देश) कहकर आदम खाँ का पुत्र उसके पास भेजा गया, किन्तु उस तुरुष्क ने उसे लौटाकर, अपने पास रख लिया ।

पाद-टिप्पणी

२१७. (१) शस्त्रगल फिरिस्ता स्थान का नाम भीमवर देता है (४८३) । तवक्काते अकवरी में नाम (भनवर) स्थान का नाम दिया गया है (४५३-६८५) । तवक्काते अकवरी की एक पाण्डुलिपि में 'बहज' तथा दूसरी में 'बहटह' दिया गया है । लीयो सस्करण में 'बहतर' नाम दिया है । फिरिस्ता के लीयो सस्करण में 'वनीर' नाम दिया गया है । कर्नल ब्रिगस ने 'भीमवर' तथा रोजर्स ने 'भीमवर' लिखा है ।

(२) भोडन राजा फिरिस्ता नाम हंस देता है । भीमवर का राजा था । (४८३) तवक्काते अकवरी में भी नाम 'हनस' दिया गया है (४५३-६८५) ।

तवक्काते अकवरी की पाण्डुलिपि में 'पेश' तथा लीयो सस्करण में 'हन्स' दिया गया है । फिरिस्ता भी 'हन्स' देता है । कर्नल ब्रिगस ने 'हीन्स' नाम दिया है (४ ४८३) ।

(३) प्रालेय हिम = कुहरा = ओस = तुपार । जिस प्रकार तुपारपात किंवा हिमपात द्वारा शलभ अर्थात् फसिगे मर जाते हैं, उसी प्रकार राजा द्वारा

मारे जाकर ठण्डे पड गये (द्र० • २ ४ • ४८) ।

(४) फिरिस्ता लिखता है—'तातार खा की फौज के भीमवर पहुँचने पर, उस स्थान के राजा ने उसे पूर्णतया छिन्न-भिन्न कर दिया (४८३) ।'

तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'जब उसकी सेना भनवर (भीमवर) के समीप पहुँच गयी तो उस स्थान के राजा हनस ने उन लोगो से युद्ध करके, बहुतसे लोगो की हत्या कर दी (४५३-६८५) ।'

म्युनिख पाण्डुलिपि में भी उल्लेख है—'तातार खा ने सहायता के लिये कुछ सेना भेज दिया । किन्तु जब वह भीमवर के समीप पहुँची तो वहाँ के राजा ने उनकी वाढ रोक कर, पाछे लौटने के लिये विवश किया (८० ए०) ।'

पाद-टिप्पणी .

२१८. (१) काली धारा^१ किलदार स्थान है । द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी शुक्र० • १ • १३६ तथा जैन० : २ १४७ ।

(२) सती देश : सतीसर = काश्मीर उपत्यका (द्र० : १ : १८५; ४. १९) ।

तर्दायास्त्रपदार्यौषप्राप्त्या तद्देववासिभिः ।
अनन्यसुलभां प्राप्य अियं वैश्रवणायितम् ॥ २२० ॥

२२०. उनके अस्त्र एवं अन्य पदार्यों की प्राप्ति से तद्देववासी, अनन्य सुलभ सम्पत्ति प्राप्त कर, कुवेरवत् आचरण करने लगे ।

अथ कार्शमीरिकाः श्रुत्वा तद्वधं वाद्यवादनम् ।
चक्रुर्येनाभवन् सैदा विच्छायवदनाः श्रुतः ॥ २२१ ॥

२२१. उनका वध सुनकर, कार्शमीरियों ने वाद्य वादन किया, जिसे श्रवण कर सैव्यियों के सुख की प्राप्ति समाप्त हो गयी ।

गतावशिष्टा दुर्निष्ठदुष्टतत्कटकान्तरात् ।
सहस्रद्वितयी तत्र शवानां निहिताभवत् ॥ २२२ ॥

२२२. दुष्टवत्या में स्थित सेना के मध्य से जाने से शेष बचे दो सहस्र शव वहाँ पर पड़े थे ।

विशुद्धपाणिंसंत्यक्तभयाः प्राप्तबलोद्भयाः ।
कार्शमीरिका मतं चक्रू रणार्थं हृष्टमानसाः ॥ २२३ ॥

२२३. विशुद्ध पाणियों के कारण, भयरहित सैन्य प्राप्ति से उद्वेग, कार्शमीरों प्रसन्न-
न होकर, रण के लिये विचार किये ।

पाद-टिप्पणी :

२२१. (१) वाद्य वादन : तबकाले अक्षरी में उल्लेख है—'विद्रोही यह समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुए । ४५३) । सुगी से जाजा बजाने लगे ।

पाद-टिप्पणी :

२२२ (१) दो सहस्र : तबकाले अक्षरी में उल्लेख है—'हैं उनके साथ लडा और उनके सर्व-
श्रेष्ठ आशुनियों को मार डाला । (४५३-६८५) ।'

पाद-टिप्पणी :

२२३. (१) पाणिः : सैन्यपृष्ठ = प्रतिरक्षक =
मित्र राजा जो किसी राजा की सहायता करता है ।
(मनु० : ७ : २०७) । राज्य के सन्तान में सतत
अंग मित्र का है । शत्रु का सामान्य अर्थ है—जो

पीछे से पकड़ या आक्रमण कर सके—सैन्यपृष्ठ ।
अरि की श्रेणियों में अरिनिव, अरिनिव-मित्र, पाणि-
ग्राह एवं पाणिः ग्राहसार हैं । पाणि वास्तव में
शत्रु है । इस प्रकार का शत्रु अग्निदान के समय
अथवा विजिगीषु के आक्रमण काल में विपत्ति उत्पन्न
कर देता है । आक्रमण मित्र वह है जो पाणिग्राह की
सहायता से मिला रहता है । पाणिग्राह के मित्र को
पाणिग्राहसार कहा जाता है । जिस समय अरि
विजिगीषु के सम्मुख रहता है, तो विपरीत दिशा के
राज्य का शासक परचात होता है (नितासरा :
पाद-टिप्पणी : १ : ३४५ : द्रष्टव्य : हिन्दू डॉक वर्म-
शास्त्र : ३ : २२१. (मन्वन्त स्योरी : संस्करण :
१९४६ ; हिन्दू अनुवाद : द्वितीय भाग : पृष्ठ :
६९०-६९१, संस्करण १९६५ लखनऊ) ।

मध्ये ससैन्यास्तिष्ठन्तु मार्गेशाद्याः पुरान्तरे ।

राजानकाद्या मद्राश्च स्थामस्था यान्तु दिग्द्वयम् ॥ २२४ ॥

२२४ मार्गेश आदि सैन्य सहित पुर के मध्य स्थित रहे और स्थाम^१ में स्थित राजानक आदि एव मद्र लोग दो दिशाओ में गये ।

एकतश्चेज्जिताः सर्वे नश्यन्त्यल्पबलाः पुनः ।

इत्येकमतनिष्ठास्ते संमन्त्र्य कृतनिश्चयाः ॥ २२५ ॥

२२५ यदि एक तरफ से अल्प बलवाले सब लोग जीत लिये जायेंगे, तो नष्ट हो जायेंगे,—
अतः एकमत स्थित, उन लोगो ने मन्त्रणापूर्वक, निश्चय करके,—

स्थामार्थमादिशंल्लोकं स्वप्रदेशादुपर्यधः ।

नावा सिन्धुं प्रतीर्याथ जोनराजानको द्रुतम् ॥ २२६ ॥

२२६ स्थाम के लिये अपने प्रदेश से ऊपर एव नीचे रहने के लिये आदेश दिया । शीघ्र ही जोन राजानक नाव से सिन्धु को पार कर—

स्थामस्थान् पञ्चपान् हत्वा पलायनपरान् व्यधात् ।

वस्त्रवाजितनुत्रादि हत्वा सैदबलान्तरात् ॥ २२७ ॥

२२७ शिविर में स्थित पाँच-छ लोगो का मारकर पलायित कर दिया । सैथियद सेना से वस्त्र, अश्व अग्नरक्षक आदि का हरण कर—

काश्मीरिका व्यभाव्यन्त प्रयाताः प्रतिवासरम् ।

किमन्यत् स्फुटमेवाह्वि येऽवसन् सैदसंनिधौ ॥ २२८ ॥

२२८ काश्मीरी लोग प्रतिदिन जाते देखे गये । अधिक क्या कहा जाय, दिन में जो लोग स्पष्ट रूप से सैथियदो के पास रहते थे—

निर्लज्जास्ते व्यलक्ष्यन्त काश्मीरिकबलान्तरे ।

इतो याति ततश्चैति लोको विगतयन्त्रणः ॥ २२९ ॥

२२९. निर्लज्ज वे लोग काश्मीरी सेना में दिखायी पड़ते थे । नियन्त्रण-रहित लोग यहाँ से आते, वहाँ से आते—

पाद-टिप्पणी

४ . १०७, १३५) ।

२२४ (१) स्थाम स्थान का अर्थ सेना का

पाद-टिप्पणी

शिविर = छावनी = बँस्य = वैरिक होता है (द्र०

'द्वत्येक' पाठ—वम्बई ।

वाले राजनि मन्दाज्ञे कोऽप्यजुम्भत विप्लवः ।

गृहेषु लुपत्यमानेषु विद्वैर्विहितपेटकैः ॥ २३० ॥

२३०. सिधिल आजावाले उस बाल मृषति के समय उपज्व (विप्लव) हुआ। पिटारी बजानेवाले दृष्ट विद्वों द्वारा घरों के लूटे जाने पर—

निरुद्धमार्गमञ्चारे देशोऽभूद् भयविह्वलः ।

सामुद्रये व्यतीतेऽपि पारावारयोग्यमैः ॥ २३१ ॥

२३१. मार्ग संचार बध्द हो गया और सम्पूर्ण देश भयविह्वल हो गया। दो मासों बीत जाने पर भी, दोनों तट पर होनेवाले रफाड़नों से,—

जिर्गायां नात्यजस्तत्र सैदाः कार्मगिरिणा अपि ।

पूर्वमङ्कुरितः सैद्वये पल्लवितः क्रमात् ॥ २३२ ॥

२३२. वहाँ पर सैथियों एवं कार्मगिरियों ने विजयानिजाया नहीं त्यागी। पहले सैथियों का बध्द होने से अङ्कुरित और क्रम में पल्लवित,—

परस्परं वैतरुस्तदागाच्छत शासनाम् ।

दक्षिणे राजकोशादि वामे सेनायवेक्ष्य च ॥ २३३ ॥

२३३. वह पारस्परिक वैर दृश्य उस समय बाखाओंवाला हो गया। दक्षिण भाग में राजकोशादि तथा वाम भाग में सेना आदि देखकर,—

बलद्वयेऽपि विजयः भंडिरयः प्रत्यभाद् विद्याम् ।

पुंसां निरुद्धे मञ्चारे नावा नद्यास्तदद्वये ॥ २३४ ॥

२३४. प्रजा को दोनों बलों की विजय में नन्देह हो गया। तटों के दोनों तटों पर, नाव द्वारा पुंशों का संचार बध्द किये जाने पर,—

मित्रय एव नदाङ्कुर्वन् पारावारगतागतम् ।

पारादेत्य विद्वैर्बुधैर्मुषिते पांथकत्रजे ॥ २३५ ॥

२३५. उस समय स्थियाँ ही इस प्राण उस पार आने-जाने का कार्य करने लगीं। पार से आकर लोनी विद्वों द्वारा अधिक बृन्द के लूटे जाने पर—

पाठ-टिप्पणी :

२३०. (१) विट्ट : उच्छ्रुत पाठ-टिप्पणी :

जैन० : १ : ३ : १९० तथा राज० : १ : ३५३ ।

पाठ-टिप्पणी :

२३१. (१) दो मास : तद्वक्त्रते अकवरी में

उल्लेख है—दो मास तक वरावर कार्मगिरियों तथा सैथियों के बीच संघर्ष होता रहा (४९३-३८५) ।

ज. रा. २३

पाठ-टिप्पणी :

२३२. (१) पल्लवितः यही उरना श्रीधर

ने पुनः ४ : ३३३ तथा शुक ने १ : १३२ में किया है ।

पाठ-टिप्पणी :

२३५. 'पारादेत्य' पाठ-बदलई ।

अधिष्ठानादिदेशेषु मार्गः प्रचलितोऽभवत् ।
पारावारगतान् कांश्चिदन्योन्यच्छलनोद्यतान् ॥ २३६ ॥

२३६ अधिष्ठान आदि देशों में मार्ग चलने लगा । परस्पर छलने के लिये उद्यत पारावार (नदी) गये कुछ लोगों को—

निरुध्य प्रत्यहं द्वित्रान् क्रोधाच्छूले न्यरोपयन् ।
अवोचन्नेकदा सैदा भटान् काश्मीरमन्त्रिणः ॥ २३७ ॥

२३७ रोक कर प्रतिदिन क्रोध के कारण दो-तीन को शूली पर चढा देते थे । एकवार सैय्यदों ने काश्मीर के मन्त्री भटों से कहा—

आयान्तु यदि शक्तिर्वो युध्यन्तु पुनरप्यलम् ।
भीमा व दीयतां तावत् प्रतीक्षामो रणं प्रति ॥ २३८ ॥

२३८ 'यदि तुम लोगों में शक्ति हो तो आओ युद्ध करो अथवा कोई समय की सीमा (अवधि) निर्धारित करो, तब तक हम लोग युद्ध की प्रतीक्षा करेंगे ।'

नित्यं जनवधे लोका उद्विग्नाः शरवर्षणैः ।
भजतां विभवं सोऽत्र विधिर्यस्मै प्रयच्छति ॥ २३९ ॥

२३९ नित्य बाणों की वर्षा से, लोगों का जन वध होने से, लोग उद्विग्न हो गये, (और विचार किये) यहाँ, वह वैभव का भागो बने, जिसे विधाना दे ।

निशम्येति पुरप्रान्ते सीमार्थं वामपार्श्वणैः ।
चिच्छिदुः सन्धितां रज्जुं तूर्णं सैदभटास्तटात् ॥ २४० ॥

२४० नगर के किनारे इस प्रकार सुनकर, शीघ्र सैय्यद भटों ने तट से ही वाम पार्श्व' के लोगों द्वारा सीमा निर्धारण के लिये बाधी गयी रस्सी को काट दिया ।

पाद-टिप्पणी

२३७ 'निरुध्य' 'द्वित्रान्' पाठ-बम्बई ।

पाद टिप्पणी

२३८ 'भटान्' पाठ-बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

२४० (१) वामपार्श्वं श्रीकण्ठ कौल ने वामपार्श्व को नामवाचक शब्द नहीं माना है । श्रीदत्त

(पृष्ठ ३ २९१) ने भी वामपार्श्व का अनुवाद 'बायी ओर के लोग' किया है । परन्तु यह स्थान-वाचक है । क्षेमेन्द्र ने 'वामपार्श्व' का उल्लेख किया है । वहाँ यह नामवाचक शब्द है (पृष्ठ २८) । वामपार्श्व वर्तमान परगना खीबुरपोर है । अबुल फजल, मूरक़ापट, हुगोल, वाइन ने अपने पर्यटनों तथा वेट्स ने गज़ेटियर में उल्लेख किया है ।

तितीषून् वैरिणो ज्ञात्वा सैदाः काष्ठीलतस्ततः ।

न्यधुहस्सनराजानकादीन् स्थामार्थमाकुलाः ॥ २४१ ॥

२४१. शत्रुओं का काष्ठील^१ से (नदी) पार करने के लिये इच्छुक जानकर, आकुल होकर, सैय्यियों ने हस्सन राजानक आदि को स्थाम के लिये रख दिया ।

छिन्नेषु सेतुबन्धेषु सैदैनौपुरकादिषु ।

नगरीं दुर्गमां दुर्गतुल्यां चक्रुर्द्विषद्भ्यात् ॥ २४२ ॥

२४२. नौपुर^१ आदि से सैय्यियों द्वारा सेतुबन्ध काट दिये जाने पर, शत्रुभय से दुर्ग के संदृश, नगरी को दुर्गम बना दिये ।

अथ काश्मीरिकाः प्रोचुः सैदांस्तीरान्तिकस्थितान् ।

नौसेतुबन्धरज्जुर्यद्दत्तश्छिन्नो भयेन नः ॥ २४३ ॥

२४३. तट पर स्थित सैय्यियों से काश्मीरियों ने कहा—‘नाव सेतुबन्ध रज्जु (डोरी) को हम लोगों के भय से (तुम लोगों ने) काट दिया है ।

पुरमात्रावशिष्टत्वादुत्तिष्ठध्वं कियच्चिरम् ।

पर्याप्तं भुज्यते धान्यं किं कुरुध्वं पुनः पुरे ॥ २४४ ॥

२४४. ‘पुर मात्र अवशेष रहने के कारण कितने अधिक दिनों तक ठहर सकते हो ? पर्याप्त धान्य खाया जाता है, तो पुनः नगर में क्या करेगा ?’

श्रुत्वेति सैदास्तांस्तारमूचुरित्थं स्वसेवकैः ।

अन्नाभावाद् बुभुक्षार्त्या न चलामो भयादितः ॥ २४५ ॥

२४५. यह सुनकर सैय्यियों ने अपने सेवकों द्वारा तार (उच्च) स्वर में इस प्रकार कहे— ‘अन्न की कमी से, भूख की पीड़ा से, अथवा भय से, यहाँ से, नहीं जायँगे—

पाद-टिप्पणी :

‘तितीषून्’ पाठ—बम्बई ।

२४१. (१) काष्ठील : वर्तमान श्रीनगर स्थित कथूल है । कुतकुल तथा वितस्ता के वामतटीय भाग का मध्यवर्ती स्थान शेरगढ़ी राजप्रासाद के अधोभाग से हवा कदल अर्थात् द्वितीय पुल तक है । विल्हण ने विक्रमांकदेवचरित में (१८ : २५) काष्ठील का उल्लेख किया है । विल्हण के अनुसार इस क्षेत्र में ब्राह्मण रहते थे । यहाँ पर यशस्कर ने अग्रहार की स्थापना किया था (रा० : ६ : ८९) । क्षेमेन्द्र ने लोकप्रकाश में ‘कष्ठील’ नाम दिया है (पृ० २४-२५) ।

गर्जं द्वातायन विततपः शास्त्र गोष्ठी वरिष्ठं स्ताः काष्ठीलद्विज वसतयो यत्र नेत्रोत्सवाय ।

यासुत्रासं विदधति कलेर्दर्शनादेव विप्राः सायं प्रातः प्रहुतहुत भुग्धूमधूम्रैः शिरोभिः

(१८ : २५) ।

पाद-टिप्पणी :

२४२ (१) नौपुर : महासरित अर्थात् मर नहर अथवा मारी नदी पर, जो पुल उस समय बना था, उसका नाम नौपुर सेतु था । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : रा० : २ : ४ टिप्पणी संख्या २ । श्रीवर ने इसका उल्लेख जैन० : ४ : १२१ में किया है ।

पाद-टिप्पणी :

२४५. ‘बुभुक्षार्त्या’ पाठ—बम्बई ।

का जुगुप्सा तुरुष्केषु सर्वमांसभुजो वम् ।
यावत् पुंशुगोमांसपर्याप्तिस्तावदास्यते ॥ २४६ ॥

२४६ 'तुरुष्को को किस वस्तु की घृणा है ? हम लोग सर्वमामभोजी है । जब तक पुरुष, पशु गोमाम पर्याप्त है, तब तक रहेगे—

पुरश्चेद् गम्यतेऽस्मान् कः शक्तो रोद्धुं त्वदन्तरात् ।
श्रुत्वेत्युत्पुलकास्तीरे ज्यल्लालमल्लिकादयः ॥ २४७ ॥

२४७ 'यदि हम लोग सम्मुख जाय तो (हम लोगो को) तुम लोगो मे कौन रोकने मे समर्थ है ?'—यह सुनकर, तट पर जल्लाल मलिक आदि पुलकित हो उठे ।

एकत्र मिलिताः सर्वे चक्रुः संमन्त्र्य निश्चयम् ।
सैन्यं स्थामविभागेन विभज्य पथिभिस्त्रिभिः ॥ २४८ ॥

२४८ और सब लोग एक स्थान पर मिलकर, मन्त्रणा कर, निश्चय किये 'सेना को स्थाम विभाग द्वारा विभक्त कर तीन मार्गों से—

उनीर्य यामः शीर्यन्ति मैदाः कटकभेदतः ।
अन्यथैकत्र सन्नद्धा दुर्जेयाः सैदपक्षगाः ॥ २४९ ॥

२४९. (नदी) पार करके, हमलोग चले'—सैन्य-भेद से सैथियद नष्ट हो जायेंगे, अन्यथा एकत्र सन्नद्ध सैथियद पक्ष के लोग दुर्जेय होंगे—

एकतश्चेज्जिताः सर्वाञ् जेष्यामोऽल्पबलानमून् ।
अस्माकं प्रबल सर्वं न विलम्बोऽधुनोचितः ॥ २५० ॥

२५० 'एक ओर से यदि जीत लिये जायेंगे, तो अल्प बलवाले, उन सबो को जीत लेंगे । हम लोग सब प्रबल है । अब विलम्ब करना उचित नहीं है ।'

श्रुत्वेति मद्रसयुक्ता जोनराजानकादयः ।
मृत्युर्वा नो जयो वेति युद्धसन्नद्धतां दधुः ॥ २५१ ॥

२५१ यह सुनकर, मद्र सयुक्त जोन राजानक आदि लोग—'हम लोगो की मृत्यु हो जाय (किन्तु) विजय हो'—इस प्रकार (निश्चय के साथ) युद्ध मे सन्नद्ध हो गये ।

पाद-टिप्पणी

२४७ 'पुर' पाठ-बम्बई ।

तीन भागो में विभाजित करके नदी पार कर लिया ।
(५५३ = ६८५) ।'

पाद-टिप्पणी

२४८ (१) तीन मार्ग तबकाते अकबरी में उल्लेख है—'बन्त में काश्मीरियों ने सेना का

फिरिस्ता लिखता है—'काश्मीरियों ने तीन स्थानों से वेहूत नदी को नाव के पुलों से तीन स्थानों से पार कर लिया (४८३-४८४) ।'

अथैकं मतसाश्रित्य स्थामस्थाः सैन्यनायकाः ।

पुराणतक्षकस्थानत् - तीर्त्वा पर्वतमासदन् ॥ २५२ ॥

२५२. एक का मत मानकर, स्थामस्थ सैन्य नायक पुराण तक्षक^१ स्थान से नदी पार कर, पर्वत पर पहुँचे ।

प्रौलभद्वादयो हस्तवालिकाख्यप्रदेशतः ।

नौभिस्तीर्णा धृतोत्साहाः सौत्सेकान् स्वभटान् व्यधुः ॥ २५३ ॥

२५३. प्रौल्ल भट्ट^१ आदि उत्साही लोग हस्त वालिका^२ प्रदेश से नौका द्वारा पार कर, अपने भटों को गर्व युक्त किये ।

दृष्ट्वा धैर्यं द्विजस्यापि रणाग्रे सरतः क्षणात् ।

गक्कादयो भटाः सर्वे शशंसुर्वीरमानिनः ॥ २५४ ॥

२५४. रण समक्ष चलते द्विज का धैर्य देखकर, गक्क आदि वीरों को मान देनेवाले सब भटों ने प्रशंसा की ।

अन्योन्यप्रहृतिर्माभूदिति काश्मीरिका भटाः ।

पत्रशाखा न्यधुर्मूर्ध्नि हतुं निजपरभ्रमम् ॥ २५५ ॥

२५५. परस्पर प्रहार न हो जाय, इसलिये काश्मीरी लोगों ने अपना और पराया भ्रम दूर करने के लिये, शिर पर पत्र शाखा रख लिये ।

पाद-टिप्पणी :

२५२. (१) पुराण तक्षक स्थान : क्षेमेन्द्र के लोकप्रकाश में इसका उल्लेख आता है ।

अत्र प्रतिभूः; पुराणतक्षकेयडामरामुकः—पृ० १९ ।

विल्हण विक्रमांकदेवचरित में तक्षक स्थान का उल्लेख करता है—

तस्मादस्ति प्रवरपुरतः साव्यगव्यूति मार्गं

भूमिं त्यक्त्वा जयवनमिति स्थानमुत्तुङ्ग चैत्यम् ।

कुण्डं यस्मिन्नमलसलिलं तक्षकस्याहिभर्तु

धर्म ध्वंसोद्यत कलिशिरश्छेदचक्रत्वमेति ॥

१८ : ७० ।

[प्रवरपुर से तीन कोस की दूरी पर जयवन नाम का ऊँचा चैत्यस्थान है, जहाँ सर्पराज तक्षक का

जलपूर्ण वह कुण्ड, धर्म का नाश करने में तत्पर, कलि के मस्तक का छेद करने के लिए, चक्र का काम करता था ।]

एक मत से यह स्थान श्रीनगर में वितस्ता तट पर कहीं था ।

पाद-टिप्पणी :

२५३. (१) प्रौल्लभट्ट : केवल यहीं उल्लेख मिलता है ।

(२) हस्त वालिका : इस समय इसका नाम अस्तवोल है । श्रीनगर का एक भाग है ।

पाद-टिप्पणी :

२५४. (१) गक्क : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : २ : १६२; ४ : ५५५ ।

सैफडारादिवीरेषु शक्तयः कारगा वभुः ।

निर्गतास्तान् रिपून् हन्तुं मूर्तिमत्य इवान्तरात् ॥ २५६ ॥

२५६ सैफडार (डामर) आदि वीरो के हाथ में शक्तियाँ शोभित हो रही थी, और उनसे निकल कर, मानो मूर्तिमती-सी होकर, उन शत्रुओं का विनाश करने के लिये, उनसे निकल रही है ।

तानुत्तीर्णान् समाकर्ण्य सैदाश्चकितमानमाः ।

हाशिमं व्यसृजस्तूर्णं प्राग्जयोद्धतमानसम् ॥ २५७ ॥

२५७ उन लोगो को नदी पार किया सुनकर, सैद्यिद चकित हो गये और शीघ्र ही पूर्व विजय से उद्धत मनवाले हाशिम को भेजे ।

सम्प्राप्तोऽभिवनायुक्तमठं तीराध्वना व्रजन् ।

गिरिशृङ्गतैर्दृष्टस्तैः शिलाभिरवार्यत ॥ २५८ ॥

२५८ तटवर्ती मार्ग से जाते हुए, आयुक्त मठ पहुँचने पर, उसे पर्वत शृंग पर स्थित, उन लोगो ने पत्थरो से रोका ।

तच्छिलावर्षणत्रस्तस्तुरङ्गात् पतितः क्षितौ ।

पदातिः स चलन् कृच्छान्निस्तीर्णो रणसङ्कटात् ॥ २५९ ॥

२५९ उस शिला वर्षण से त्रस्त, वह तुरग (अश्व) से पृथ्वी पर गिर पडा और पैदल चल कर, बड़े कष्ट से रण सकट पार किया ।

तदीय तुरगं बद्धखङ्गं संनाहभूपितम् ।

काश्मीरिकाः करगत मूर्तं जयमिवासदन् ॥ २६० ॥

२६० बर्मभूपित, खग युक्त, उसके तुरग को काश्मीरियो ने मूर्तमान विजय सहस्र, प्राप्त किया ।

पाद-टिप्पणी

२५७ (१) हाशिम अरबी नाम है । हाशिम हजरत मुहम्मद साहब को पूर्वपुरुष थे ।

पाद-टिप्पणी

'आयुक्त' पाठ—वम्बई ।

२५८ (१) आयुक्त मठ श्रीवर ने अहमद आयुक्त द्वारा मठ निर्माण का वर्णन किया है (जैन० : ३ : ३७) । मठ का नाम नहीं दिया गया है । आयुक्त ने इस मठ का निर्माण किया था अतएव श्रीवर के समय ही वह आयुक्त मठ नाम से प्रसिद्ध हो गया था ।

आज कल उत्तर प्रदेश में आयुक्त डिवीजन अर्थात् कमिश्नरी के कमिश्नर को कहते हैं ।

(२) पर्वत : तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'नदी पार कर पर्वतीय पडोस के स्थानों पर अधिकार कर लिया (४५३ = ६८५) ।'

पाद-टिप्पणी .

२६० (१) बर्म संनाह = जिरहवस्तर : इस लोक से प्रकट होता है कि यूरोप के समान काश्मीर के युद्धक अश्व भी मनुष्यों के समान बर्मयुक्त होते थे । यूरोप के वीरयुग में अश्वारोही तथा अश्व दोनों ही लोहवर्म से ढके

तं पराभूतमालोक्य तद् युद्धार्थं भटान्वितान् ।

सैदाः पिरुजखानादीन् रात्रावेव व्यसर्जयन् ॥ २६१ ॥

२६१. उसे पराभूत देखकर, उनसे युद्ध करने के लिये, सैय्यियों ने भटों सहित, पिरुज खान आदि को रात्रि में भेज दिया ।

दुग्धाश्रमागता मेयाभाकेराद्याश्च तत्क्षणात् ।

वर्षौघा इव गर्जन्तः प्रापुः पूपामठान्तिकम् ॥ २६२ ॥

२६२. उसी समय, दुग्धाश्रम^१ पर आये, मियां बाकर आदि वर्षा समूह सहश, गरजते हुए, पूपा मठ^२ के पास पहुंच गये ।

तावन्मद्रप्रतीहारडामराद्या महाभटाः ।

संनद्धाः सुमनोवाटप्रदेशान्तं समासदन् ॥ २६३ ॥

२६३. तबतक मद्र, प्रतिहार, डामर आदि महाभट, सन्नद्ध होकर, सुमनोवाट^१ प्रदेश के समीप पहुँच गये ।

सैदखानादयः सैदहोसनादिसमन्विताः ।

सैदानां सुभटाश्चान्ये प्रापुस्तत्रैव ते प्रगे ॥ २६४ ॥

२६४. सैय्यिद हुसेन आदि सहित सैय्यिद खान आदि, सैय्यियों के सुभट, वहाँ पाँ फटते पहुँच गये ।

जाते थे । अश्वों का केवल पैर की केहुनी से खुर तक का स्थान खुला रहता था । यूरोप में वीर-कालीन चित्रों में इस प्रकार के अश्व तथा अश्वारोही चित्रित दिखाये गये हैं । मनुष्यों के वर्म कुलीन तथा गणमान्य नागरिक मानव प्लस्तर यथा काष्ठमूर्ति पर पहनाकर शोभा के लिए अपने यहाँ सजा कर रखते हैं । आधुनिक यन्त्र युग में युद्ध यान्त्रिक हो जाने के कारण अश्वारोही तथा अश्वों का महत्व कम हो गया है । वर्म पहनने की प्रथा समाप्त हो गयी है । क्योंकि ढाल, तलवार, धनुष-बाण एवं बर्छा से युद्ध करने की प्रथा नहीं रह गयी है । गोली, गोला तथा बम्ब के प्रयोग के कारण वर्म आदि अनुपयोगी हो गये हैं । अब तो युद्ध बिना विरोधी सैनिकों के

बिना सीधे सम्पर्क में आये, मीलों दूर से संचालित होता तथा लड़ा जाता है । वर्म युक्त अश्व का प्रस्तर मूर्तियाँ काश्मीर में मिली हैं । उनका चित्र काश्मीर के इतिहास लेखकों ने दिया है ।

द्रष्टव्य : जैन० : ४ : २०४ ।

पाद-टिप्पणी :

२६२. (१) दुग्धाश्रम : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : १०९ ।

(२) पूपा मठ : स्थान का अनुसन्धान अपेक्षित है ।

पाद-टिप्पणी :

२६३. (१) सुमनो वाट : द्र० : २ : १२१ ।

करवालाः स्फुरज्ज्वाला वभुः श्यामलकान्तयः ।

भूषीडनादिव व्यालाः पातालविवरोद्गताः ॥ २६५ ॥

२६५ श्यामल कान्ति एव स्फुरित ज्वालावाली करवाले^१, (तलवारें) पृथ्वी पीडन के कारण, पाताल विवर से निकले, सर्प सदृश शोभित हो रही थी ।

अथोदतिष्ठत् तुमुलः समरः सैन्ययोर्द्वयोः ।

सखड्गफलकक्षुद्रमद्रव्यूहसुदुःसहः ॥ २६६ ॥

२६६ खग, फलक (ढाल) सहित, छुद्र मद्रो के व्यूह के कारण, दुस्सह, भयकर युद्ध प्रारम्भ हुआ ।

भो वीराः समरेऽत्र युध्यत मुदा मा यात पश्चादमी

जेतारो यदि तद्भरन्ति सकलं सैदाः क्रुधा निर्घृणाः ।

प्राप्तश्चेद्विजयः सुखं स्वविभवात् स्वर्गोऽपि तच्चेन्मृता

युद्धादाविति मद्रपः स परशुः काश्मीरिकानव्रवीत् ॥ २६७ ॥

२६७ 'हे वीरो ! समर मे प्रसन्नतापूर्वक युद्ध करो । पीछे मत हटो । ये निर्दयी सैन्यिक विजयी होंगे, तो क्रोध के कारण सर्वस्व हर लेंगे । यदि विजय प्राप्त करोगे, तो अपने वैभव से सुख मिलेगा ।' इस प्रकार युद्ध के प्रारम्भ मे उस मद्रपति परशुराम ने कहा ।

पूर्वं पिबजखानोऽग्रे निर्ययौ रणगर्वितः ।

तं पिरुजप्रतीहारो रामो राममिवाभ्यगात् ॥ २६८ ॥

२६८ पहले सम्मुख रणगर्भित परवेज खान निकला और परवेज (पिरुज) प्रतीहार, उसके समक्ष, उस प्रकार आया, जिस प्रकार राम^१ के समक्ष राम^२ (परशुराम) ।

अनभिज्ञतया युद्धे स्फुरन्तं वीक्ष्य तं द्रुतम् ।

स्वभटान् प्रैरयन् मद्रास्तुच्छुरच्छिदे ॥ २६९ ॥

२६९ उस युद्ध मे अनभिज्ञतापूर्वक स्फुरित होते उसे देखकर, शीघ्र ही मद्रो ने उसके अश्व का खुरच्छेद करने के लिये, अपने भटो को प्रेरित किया ।

पाद-टिप्पणी

२६५ (१) करवाल क्षेमेन्द्र ने खड्ग, अमि-पट्टम्, करवालम् को समानार्थक माना है (लोक० पृष्ठ ५) ।

पाद-टिप्पणी .

२६७ 'समरे' पाठ—वम्बई ।

२६७ श्रीवर ने गीता के निम्नलिखित श्लोक के भाव को प्रकट किया है—

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसेमहीम् ।

तस्मादुतिष्ठ कोन्तेथ युध्याय कृत निश्चय ॥२ ३७॥

पाद-टिप्पणी .

२६८ (१) राम : यह शब्द द्रिष्ट है ।

इसका तात्पर्य दाशरथी राम तथा परशुराम दोनों से है । दोनों को राम शब्द से सम्बोधित करते हैं । द्रष्टव्य . पाद-टिप्पणी . जैन० . १ १ २० ।

(२) राम = परशुराम जमदग्निपुत्र परशुराम । जैन० : २ : १०२ ।

खड्गकृत्तुराश्वोद्यत्प्लुतिनप्तरणक्रियम् ।

गक्काद्याः प्राहरन् सर्वे शक्त्या शक्तिरसमन्वितम् ॥ २७० ॥

२७०. खंग (तलवार) से खुर काट दिये जाने पर, घोड़े के तीव्र उछाल के कारण, उनकी रण क्रिया नष्ट हो गयी, शक्ति (बर्छा) समन्वित उसके ऊपर, गक्क आदि सब लोगों ने शक्ति से प्रहार किया ।

तद्भृत्याः शाहिभङ्गीया भ्रमरा इव सारवाः ।

ददंगुः कटकं क्रुद्ध्या स्फुरन्तः खड्गकण्टकैः ॥ २७१ ॥

२७१. भ्रमरों सहजा शब्द युक्त उनके भृत्य शाहिभंगीयों क्रोधपूर्वक स्फुरित होते हुए, खड्ग कटकों से सेना को डसने लगे ।

पतितं सम्मुखं दृष्ट्वा त कार्मीरा रणाङ्गने ।

जयोऽथ वर्ततेऽस्माकमित्युक्त्वात्साहमाद्युः ॥ २७२ ॥

२७२. कार्मीरियों ने रणप्रांगण में समक्ष उसे गिरा देखकर—'आज हमलोगों को विजय है'—यह कह कर, उत्साहित हुए ।

व्याहन्यमानाः कार्मीरैर्भटैर्मद्रसमन्वितैः ।

भृत्यास्ते शाहिभङ्गीयाः कृत्यं सत्त्वोचितं दधुः ॥ २७३ ॥

२७३. मद्रों सहित कार्मीरियों द्वारा आहत होनेवाले, वे भृत्य शाहिभङ्गीय, बलोचित कार्य किये ।

एहि तिष्ठात्र युध्यस्व गच्छस्यधुना मम ।

इत्यन्योन्यं भटास्तत्रात्तजयन् रणगर्जितैः ॥ २७४ ॥

२७४. 'आधो', 'ठहरो', 'युद्ध करो', 'अब कहाँ जा रहे हो ।' इस प्रकार वहाँ पर भटों ने रण-गर्जनाओं से एक-दूसरे को तर्जित किये ।

पाद-टिप्पणी :

२७०. (१) शक्ति : बर्छा, भाला, बूल । एक प्रकार का अस्त्र था । कार्मीर में उस समय यह किस अस्त्र-शस्त्र का नाम था, कहना कठिन है । शक्ति धार का प्रयोग पूरा साहित्य में भाला या बर्छा-धारी में किया गया है—शक्ति खड्गानपितेन गाण्डो-विनोक्तम् । वेगी० ३, —नतो विभेद मौलम्यः नक्त्या वक्षसि लक्ष्मणम् ।—२४० : १२ : ७७ ।

पाद-टिप्पणी :

२७१. (१) शाहिभंगीय : द्रष्टव्य : पाद-
ज. रा. २५

टिप्पणी : जैन० : ३ : ११४; ४ : २११; २७२, ५५९ । नामवाचक शब्द है । वस्तु ने शाहिभंगीय गाण्डो (शक्क) अनुवाद किया है । श्रीधर ने स्पष्टतया उनके लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग किया है ।

(२) कटक : सेना । नैतिक दृष्टि से सुरक्षित स्थान, सैन्य शिविर, नैतिक छावनी राजधानी है । किन्तु कल्हण तथा राजतरंगिणी में कटक शब्द का प्रयोग सेना के लिए किया है । द्रष्टव्य : रा० : ४ : २९३; मंत्र ने भी सेना अर्थ किया है । मंत्र० : कोश० : ४५ ।

काश्मीरपृष्ठगः सूर्यः खड्गान्तःप्रतिविम्बितः ।

जयोऽथ युष्मास्वित्येव वक्तुं व्योम्नोऽवतीर्णवान् ॥ २७५ ॥

२७५. काश्मीर के पृष्ठभाग में गये सूर्य खड्ग^१ के अन्दर प्रतिविम्बित होकर, (आज) तुम लोगों की विजय है, मानो यही कहने के लिये आकाश से अवतरित हो गये ।

अहंपूर्विकया सर्वे ते वीरभ्रमरास्तदा ।

रणोद्याने स्फुटं चेर्यशःकुसुमलम्पटाः ॥ २७६ ॥

२७६. उस समय यश-कुसुम के लोभो वे वीर भ्रमर रणोद्यान में स्पर्धापूर्वक, हम पहले जीतेंगे^१ कहते, विचार रहे थे ।

तद्रणाङ्गनरङ्गातःसङ्गतास्ते भटा नटाः ।

त्वङ्गदङ्गविभङ्गाढ्या नाट्यभङ्गिमदर्शयन् ॥ २७७ ॥

२७७ उम रणाङ्गण रूप रगमच^१ पर स्थित, वे भट रूप नट चलते अग-विभग से पूर्ण होकर, युद्ध करके, अपनी वीरता प्रदर्शित किये ।

पाद-टिप्पणी •

२७५ (१) खड्ग • तलवार, कृपाण, डमी का अपभ्रंश 'खाडा' है । चौड़ी फलवाली तलवार को खाडा या खग कहते हैं । तलवार का फल पतला होती है ।—

नरि खड्गो विजानाति कर्मकार स्वकारणम्—

उम्दट

पाद-टिप्पणी •

२७६ (१) अहंपूर्विकया हम पहले-हम पहले जीतेंगे-इस प्रकार की पारस्परिक स्पर्धा का भाव अहंपूर्विकया में है ।

पाद-टिप्पणी

२७७ (१) रगमच और रणाङ्गण शीघ्र ने युद्ध की उपमा रगमच से दिया है । रगमच पर जिस प्रकार अनेक प्रकार के दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं, डमी प्रकार नमरभूमि में बहुरंगी दृश्य दिखायी पड़ते हैं । रगमच पर विविध घटना घटती दिखाई जाती हैं । युद्धभूमि में विविध घटनाओं का शीघ्रतापूर्वक दर्शन तथा पटाक्षेप होना है ।

नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में

हुआ था । ऋग्वेद में यय-यमो, पुरुस्वा-उर्वशो आदि के सदादों से विद्वान नाटकों का विकास मानते हैं । भरतमुनि ने उसे शास्त्रीय रूप दिया । त्रेतायुग में पितृमह ब्रह्मा से मनोरंजन का साधन मांगा गया । ब्रह्मा ने ऋग्वेद से कयनौपकयन, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय एवं अथर्ववेद से रम लेकर, नाटक का निर्माण किया । विश्वकर्मा ने नाटक के लिये रंग मंच बनाया ।

भरतमुनि ने तीन प्रकार के नाट्य मण्डप या मंच की कल्पना की है—(१) विकृष्ट-आयताकार, (२) चतुरस्र-वर्गाकार तथा (३) त्र्यस्र (त्रिभुजाकार) । उनमें (१) ज्येष्ठ देवता, (२) मध्यम राजा, (३) अवर की अन्य लोगों के लिये वर्गीकरण किया है । ज्येष्ठ की लम्बाई १५ मीटर, मध्य की २५ मीटर और अवर की १४॥ मीटर होती थी । चतुरस्र मण्डप की लम्बाई और चौड़ाई बराबर, विकृष्ट की लम्बाई की आधी चौड़ाई होती थी । यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में एम्पी थियेटर बनाने की प्रथा प्रचलित थी । यह एक प्रकार से अर्ध गोलान्तर सोपानमय बैठने के लिये सीपानों से युक्त होता था ।

ज्यहाङ्गिराद्यास्तद्भृत्याः प्रविष्टाः संमुखे रणे ।

विधाय युद्धं संनद्धा वीरवृत्त्या विचक्रिरे ॥ २७८ ॥

२७८. उसके भृत्य जहाँगीर आदि रण में सम्मुख प्रविष्ट हुए और सन्नद्ध होकर, युद्ध करके, अपनी वीरता प्रदर्शित किये ।

ववर्ष शरधाराभिः स सैन्यकटकाम्बुदः ।

स्फुरच्छस्त्रतडिज्ज्योतिर्युक्तो गम्भीरगर्जितः ॥ २७९ ॥

२७९. स्फुरित होते शस्त्र रूप, विद्युत् ज्योति एवं गम्भीर गर्जनपूर्ण वह सैन्य रूप मेघ वाण धारा बरसाने लगा ।

सैदेषु भाकरस्तत्र संमुखस्थविभाकरः ।

शौर्यशोभाकरः प्रापदग्रे भाःकरवालभृत् ॥ २८० ॥

२८०. शौर्यशोभाशाली, देदीप्यमान खड्गधारी सैन्यद श्रेष्ठ भाकर' (वाकर) वहाँ आगे आया, जिसके समक्ष सूर्य चमक रहे थे ।

त्वङ्गुत्तुङ्गतुरङ्गस्थो रणरङ्गान्तरे स्फुरन् ।

सोऽङ्गहारसमासङ्गो नाट्यभङ्गिमदर्शयत् ॥ २८१ ॥

२८१. रण रंगमंच पर दौड़ते, उन्नत अश्वों पर स्थित एवं स्फुरित होते, उसने अंगहार से युक्त होकर, नाट्य-भङ्गिमा^१ प्रदर्शित की ।

प्रहारविक्षतं सर्वे मिलित्वापि रणान्तरे ।

शेकुः संनाहिताश्वस्थं चिरात् पातयितुं क्षितौ ॥ २८२ ॥

२८२. रण में सब लोग मिलकर भी, प्रहार से क्षत-विक्षत वर्म युक्त अश्वारूढ़, उसे बहुत देर से, पृथ्वी पर गिरा सके ।

द्वित्रान् हत्वा भटान् वीरो विक्षितः श्लाघ्यविक्रमः ।

अभजद् वीरशय्यां स रक्तस्यन्दोत्तरच्छदाम् ॥ २८३ ॥

२८३. दो-तीन भटों को मारकर, प्रशंसनीय पराक्रमी वीर, रक्त-स्पन्द रूप उत्तरच्छद^१ (चादर) युक्त वीरशय्या का आश्रय ग्रहण किया ।

रोम में रंगमंचों का सर्वाधिक विकास हुआ । एक-एक एम्पी थियेटर में ७० या ८० हजार व्यक्ति एक-साथ बैठकर नाटक देख सकते थे ।

पाद-टिप्पणी :

२८०. (१) भाकर : प्रचलित नाम वाकर तथा बुद्ध अरवी शब्द 'वाकिर' है । द्र० : ४ : ३१८, ३३७ ।

पाद-टिप्पणी :

२८१. (१) नाट्य-भङ्गिमा : हाथ, पैर एवं अवयवों द्वारा अनेक प्रकार के भावों एवं अंग-विन्यास नाटक के पात्रों के समान प्रकट करना है ।

पाद-टिप्पणी :

२८३. (१) उत्तरच्छद : आवरण । विस्तर के

येषां प्राणपरित्यागे निर्णयं ब्रध्नतामपि ।

रणयोग्ये क्षणेऽपेक्षा नास्ति किं तैः पशूपमैः ॥ २८४ ॥

२८४ रणोचित काल में प्राण परित्याग का निर्णय करनेवालो को जिन्हे अपेक्षा नहीं होती, उन पशु सदृश लोगो से क्या लाभ ?

सैदहोसनमुख्या ये काश्मीरा सदपक्षगाः ।

भाकरादीन्हतान् दृष्ट्वारण त्यक्त्वा पलायिताः ॥ २८५ ॥

२८५ सैय्यिद पक्षगामी सैय्यिद हसन प्रमुख. काश्मीरी वाकर आदि को मृत देवकर, रण त्यागकर पलायित हो गये ।

ततः काश्मीरसेनान्या वात्ययेव तटद्रुमाः ।

भग्नास्तन्नीडनिःसृता भृत्याः शवा इवाहताः ॥ २८६ ॥

२८६ तत्पश्चात् काश्मीरी सेनानी ने उन लोगो को उसी प्रकार भग्न कर दिया, जिस प्रकार वायु तट वृक्ष को, और उन वृक्षो के नीडो से निकले पक्षिशावक सदृश, सब भृत्य मार डाले गये ।

न खड्गी न हयारोहो न चापि न च शक्तिमान् ।

व्यावृत्य प्रेक्षितुं कश्चिन्नाशकद् विद्रुताद् बलात् ॥ २८७ ॥

२८७ पलायित सैन्य में से कोई भी खड्गी, अश्वारोही, चापधारी एव शक्तिमान (आदि) लौटकर, देखने में समर्थ नहीं हुआ ।

हठलुण्ठितविध्वस्ताः समस्तास्ते विरोधिनः ।

वृक्षारूढानपि ध्वन्तः प्रापुस्ते नगरान्तरम् ॥ २८८ ॥

२८८ हठपूर्वक लूटे गये एव विध्वस्त वे सब विरोधी, वृक्ष पर चढ़े लोगो का भी वध करते हुए, नगर में पहुँच गये ।

ऊपर विछाई जाने वाली चादर । कल्हण का भाव श्रीवर ने लिया है । कल्हण ने देवी वाक्पुष्टा के सती होने के समय वर्णन करता अग्निज्वाला को 'नलिन-प्रच्छद' लिखा है । वही देवी वाक्पुष्टा की अन्तिम शय्या की चादर थी (रा० : २ : ५६) ।

पाद-टिप्पणी :

२८६ (१) बहुरिस्तान शाही का यह मत है

कि संय्यिदों तथा काश्मीरियों में मुल्गजों के कारण शान्ति स्थापित हुई और काश्मीरी अपने कार्यों पर पश्चाताप किये कि संय्यिद मुहम्मद की हत्या की गयी (पाण्डु० : ६५ बी-६६ बी०) ।

पाद-टिप्पणी

२८७ "विद्रुताद्" पाठ-बम्बई ।

आ समुद्रमठात् पूर्वाधिष्ठानान्तं निरम्बराः ।

मार्गेष्विन्धनगण्डौघा इवासन्निहिताः शवाः ॥ २८९ ॥

२८९. समुद्रमठ^१ से लेकर पूर्वाधिष्ठान^२ तक, मार्गों में इन्धन^३ के गट्टर समान, निर्वास्त्र शव पड़े हुए थे ।

केचित् कृत्यान्तरे मग्ना भग्नाः केऽपि रणान्तरे ।

केचित् प्रमुषिता नग्ना भयोद्विग्ना दिशोऽचलन् ॥ २९० ॥

२९०. कुछ कुल्या में डूब गये, कुछ रण में मारे (भग्न हो) गये, कुछ लूट लिये गये तथा नग्न एवं भयोद्विग्न होकर, दिशाओं में चले गये ।

तद्वीरावयवैः कृतैः पूरिता विपुलैर्मही ।

तद्ग्रासार्थं प्रवृत्तस्य मृत्योरिव महानसः ॥ २९१ ॥

२९१. उन वीरों के कटे विपुल अंगों से पूर्ण पृथ्वी, उन्हें ग्रास हेतु प्रवृत्त मृत्यु के रसोई-घर^१ के सदृश हो गयी थी ।

ये सुन्दरा विपुलभोगपुरन्दराभा-

श्चेरुर्नरेशविभवप्रथितप्रपञ्चाः ।

नग्नान् विलोक्य भुवि तान् धृतदुष्टगन्धान्

क्रस्यापि शाम्यति न देहभवोऽभिमानः ॥ २९२ ॥

२९२. जो सुन्दर लोग विपुल भोग में पुरन्दर सदृश थे, और राजा के वैभव से ख्याति-प्राप्त कर, विचरण करते थे, उग्र गन्ध से युक्त, नग्न उन लोगों को भूमि पर पड़ा देख कर, किसका शरीर पर होनेवाला अभिमान शान्त नहीं हो जाता ?

वरं मरणमेवास्तु रणे स्वर्गसुखप्रदम् ।

न सहैऽद्यत्तनस्वामिवृत्तियाच्छाकदर्थनाः ॥ २९३ ॥

२९३. 'रण में स्वर्ग सुखप्रद मरण ही हो, यह अच्छा है किन्तु आज के स्वामियों की वृत्ति याचना की कदर्थना^१ नहीं सह सकता ।'

पाद-टिप्पणी :

२८९. (१) समुद्रमठ : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० : ३ : १२०, १६८ ।

(२) पूर्वाधिष्ठान : पुराधिष्ठान होना चाहिए । वर्तमान पण्डरेथन स्थान है ।

(३) इन्धन : श्रीवर ने इन्धन की ही उपमा शव की ढेरियों से श्लोक जैन० : ४ : १८९ में दिया है । दोनों ही श्लोकों में 'इवा सन्निहिताः' शब्दों का प्रयोग एक जैसा किया है । इस उपमा को दुहरा

देना श्रीवर के लिये साधारण बात है ।

पाद-टिप्पणी :

२९१. (१) महानस = पाकशाला = रसोई-घर = महाकाल की पाकशाला में प्राणी पकते हैं । प्राणियों की रसोईयाँ बनती हैं ।

पाद-टिप्पणी :

२९३. 'कुत्सित प्रार्थना' पाठ-वन्वई ।

(१) कदर्थना = तिरस्कार = अपमान = अव-हेलना = दुर्दशा = दुर्गति ।

इत्युक्त्वा प्रविशन् युद्धे घीराश्वस्थोऽप्यकातरः ।
हभेभमेरः शस्त्रेण स श्लाघ्यमरणोऽभवत् ॥ २९४ ॥

२९४ यह कह कर, घीर अश्व पर स्थित हबीब मीर, युद्ध में प्रवेश करते हुए, शस्त्र द्वारा प्रशसनीय मृत्यु वरण किया ।

अन्यान् प्रचलितान् दृष्ट्वापीक्षिताग्राप्तवैरिणः ।
पलायनेच्छा नैवाभूद् युयुत्सोर्यस्य मानसे ॥ २९५ ॥

२९५. सम्मुख आये शत्रुओं को देखकर, पीछे हटनेवाले लोगों को देखकर भी, जिस युद्धेच्छुक के मन में भागने की इच्छा नहीं हुई ।

छिन्नाङ्गुलिकरोऽप्यश्वमारुह्य स्वसुतान्वितः ।
अकरोत् क्षणमात्रं यः शस्त्रप्रचारणं रणे ॥ २९६ ॥

२९६ हाथ की उँगलियों के कटने पर भी, घोड़े पर चढ़कर, जिसने क्षण भर रण में शस्त्र-चालन किया ।

स्थामस्थितः पुरस्यान्ते स राजानकहस्सनः ।
हतः सेरङ्गमेराद्यैर्मारीकुल्यातटान्तगः ॥ २९७ ॥

२९७ पुर के अन्त में स्थाम स्थित, वह राजानक हस्सन, जोकि मारी कुल्या के तट पर सेरग मीर आदि लोगों द्वारा मारा गया ।

प्रच्छिन्नाङ्गुलिहस्तेन सममस्य शिरो भटैः ।
नीत्वा न्यदर्शि हर्षार्थं मार्गेशादिसभान्तरे ॥ २९८ ॥

२९८ भटों ने कटे उँगलियोंवाले हाथ के साथ, इसके शिर को लाकर, हर्ष हेतु, मार्गेशादि की सभा में दिखाया ।

किमाकारनिकारेण कुर्वन्त्वस्तात्यसत्क्रियाम् ।
इत्युक्त्वास्मै स मार्गेशः शवमुक्षितमकारयत् ॥ २९९ ॥

२९९ 'इस आकृति की निन्दा करने से क्या लाभ ? इसकी अन्तिम सत्क्रिया करो'— ऐसा कहकर, मार्गेश ने उसका शव मुक्त कराया ।

पाद-टिप्पणी

२९६. "सुता" "प्रचारण" पाठ-बम्बई ।

पाद-टिप्पणी :

"सिद्ध" पाठ-बम्बई ।

२९७. (१) मारी कुल्या : मर नहर । द्रष्टव्य •

पाद-टिप्पणी जैन० . १ . ५ : ५४-५६; ३ :

२७६, रा० ३ ३३९-३४९; ५ . ४६ ।

(२) सेरग फारसी शब्द 'सहरग' जिसका अर्थ सेनानायक, कोतवाल, सैनिक होता है उसका अपभ्रंश है ।

योऽभूच्चिरं नृपगृहेऽखिलमन्त्रिचर्यो
 दुर्यः पदेषु विभवोचितदानमानः ।
 शोच्यां दशामितरवत् स मतः किलान्ते
 धिग् वासनां भविषु शान्तियान भोगेः ॥ ३०० ॥

३००. जो चिरकाल नृपति के घर सब मन्त्रियों में श्रेष्ठ और उन्नत पदों पर रहा, विभवोचित दान-मान से युक्त था, अन्त में सामान्य लोगों के समान उसकी भी शोचनीय दशा हुई । उस सांसारिक वासना को विककार है, जो भोगों से शान्त नहीं होती ।

स चेत् प्राप्तखलीकारस्तिष्ठेत् स्वसदने शमी ।
 सर्वो मन्त्रिगणस्तस्य भवेच्चाटुपरो न किम् ॥ ३०१ ॥

३०१. व्रणप्राप्त एवं शान्त वह यदि अपने घर रहता, तो क्या सब मन्त्रीगण उसकी चाटुकारिता नहीं करते ?

पुनर्विभवलोभेन सैदपहं समाश्रयन् ।
 आगामिकम्पनेशाधिकारतां प्रार्थयन् निजाम् ॥ ३०२ ॥

३०२. पुनः विभव-लोभ से सैय्यद पद का ग्रहण करते और अपने लिये आगामी कम्पनेशाधिकार की प्रार्थना करते हुए—

अज्ञातदैववृत्तान्तो ययौ लोकेषु हास्यताम् ।
 अथवा नाशकाले स्याद् बुद्धिः कुपयगामिनी ॥ ३०३ ॥

३०३. दैव वृत्तान्त से अनभिज्ञ, (वह) लोक में उपहास का पात्र बना, अथवा विनाश के समय बुद्धि, कुपयगामिनी हो जाती है ।

कुर्वन्ति ये परशरीरनिकारमार्जा
 दर्पान्धलोचनयुगाः स्वविचारबाह्याः ।
 ते प्रात्सुवन्ति वयमाशु तथा यथामी
 लोका वदन्ति नरकोचित एष मर्त्यः ॥ ३०४ ॥

३०४. दर्प से अन्धे युगल नैनवाले, जो लोग आचार-विचार त्याग कर, बुद्ध में दूसरे के शरीर का अपमान करते हैं, वे लोग, उन लोगों के समान, शीघ्र वध प्राप्त करते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

३०२. (१) कम्पनेश = सेनापति = कम्पन = कम्पनाधिपति = कम्पनाधिप = कम्पनाधीश = कम्पनापति समानार्थक शब्द है । रा० क० ५ : ४४७; ६ : २२८; ७ : १५४; ८ : १७३ । अनेन्द्र ने लोक-प्रकाश में (पृष्ठ २९) में उल्लेख किया है :

प्रजानां परमः कम्पो मोहकम्पं निवारयेत् ।

गजाङ्ग व ममाह्वातं स जयः कम्पनापतिः ॥२॥

अनेन्द्र ने 'कम्पनाधिपतिः' शब्द का प्रयोग सैनिक अधिकारी के रूप में 'द्वारपति' के पश्चात् तथा 'सेनाधिपतिः' के पूर्व किया है । लोक० पृष्ठ २ ।

धिग्धिग्धैभतखानन्तं वीरंमन्योऽपि यो रणात् ।

निर्गत्य सभयः प्राप्तः फासुवाविषयान्तरम् ॥ ३०५ ॥

३०५ लोग कहते हैं—'उस हैवत खा को धिक्कार है, जो वीरमन्य होकर भी, रण से निकल कर, सभय फासुवा' विषय चला गया ।'

त्यक्तोत्तुङ्गतुरङ्ग स निःशस्त्रिभृतकोज्झितः ।

तत्र प्राकृतवेशेन जुगोप स्वं भयादटन् ॥ ३०६ ॥

३०६ उन्नत तुरग को त्याग कर, निःशस्त्र भृत्य रहित, वह सामान्य जन के वेश में, भय से घूमत हुए, वहाँ अपनी रक्षा की ।

क्रुद्धैर्दोदमार्गेशवधात् मार्गपतेर्भटैः ।

स चौर इव वाद्यन्तर्हतोऽप्यार्त्तशिरोऽभवत् ॥ ३०७ ॥

३०७ दाऊद मार्गेश के वध से, मार्गपति के क्रुद्ध भटो द्वारा, चोर सदृश वह, वाटी' से मारा गया और उसका शिर भी लोगो ने प्राप्त कर लिया ।

छिच्चोत्तमाङ्गन्तस्याशु निन्युर्मन्युनिवृत्तये ।

मृतमार्गेशपुत्रस्य शवारात्रिकतां भटाः ॥ ३०८ ॥

३०८ भटो ने शीघ्र शिर काटकर, क्रोध निवृत्ति क लिये, मृत मार्गेश पुत्र के शव की उससे आरती' की ।

पाद-टिप्पणी

३०५ "फासुवा" पाठ—वम्बई ।

(१) फासुवा यह फाव परगना है । इसका उल्लेख परगनों की तालिका में अबुल फजल, मूर-कापट, वान हुगेल, वाइन तथा वेट्स ने गजेटियर में किया है । यह गहर-ग-खास जिला मराज मण्डल में श्रीनगर के उत्तर-पश्चिम में है ।

पाद-टिप्पणी

३०७ (१) वाटी श्री दत्त ने वाटी का अनुवाद हाउम गाडें किया है । बंगला में वाडी का घर कहते हैं । वाटी का अर्थ घर तथा उद्यान दोनों होता है । वाटी का अर्थ यहाँ घिरे हुए भूभाग अर्थात् हाना या वह भूखण्ड जिन पर मकान बनाया गया होता है । उद्यान एव उपवन प्रचलित अर्थ हैं ।

—वाटी भुवि क्षिति भुजाम्—आश्व० ५ ।

चौर घर में छिपता है । सम्भावना यही है कि घर से उभे पकड़ कर मारा गया । सम्भव है कि मकान से निकालकर, उसकी हत्या वाटिका किंवा गृह उद्यान में कर दी गयी ।

पाद-टिप्पणी

३०८ (१) आरती आरती ज्योति किंवा दीप से की जाती है । यहाँ पर मरल अर्थ यह है कि दाऊद के शव पर सैनिकों अर्थात् भटों ने मस्तक की आरती के समान घुमाया ।

आरती का विधान है । चार बार चरण, दो बार नाभि, एक बार मुख तथा सात बार सर्वाङ्ग के ऊपर घी अथवा कपूर की दीपशिखा घुमाते हैं । दीपक के वत्तियों की सख्या कई तक होती है ।

स चेत् पलायितः सैदशिविरं प्राप्नुयान्निशि ।

तद्वत् तज्जीवरक्षा स्यात् सुबुद्धिः पापिनां कुतः ॥ ३०९ ॥

३०९. यदि वह भाग कर, रात्रि में ही, सैथियद शिविर पहुँच जाता, तो इस प्रकार इसकी जीवन रक्षा हो जाती—पापियों को सुबुद्धि कहाँ ?

तद्भृत्यलुण्ठितो देशो गोवधो यत् पुरे कृतः ।

जाने भृत्यापराधेन प्राप्तास्ते तादृशीं दशाम् ॥ ३१० ॥

३१०. उसके भृत्यों ने देश को लूटा, नगर में गोवध किया मानो भृत्यों के अपराध के कारण ही, अन्त में उसकी यह दशा हुई ।

दौहित्रोऽपि महीभर्तुर्जातो वीरकुलादपि ।

तत्पापेनाभवत् तस्य चित्तं वीररसोज्झितम् ॥ ३११ ॥

३११. राजा का दौहित्र भी, जो वीर कुल में उत्पन्न हुआ था, उसका भी चित्त, उसके पाप के कारण, वीररस-रहित हो गया था ।

विप्रा राजसुताः सैदाः काश्मीरा अपरेऽपि ये ।

सहस्रसङ्ख्याः समरे तद्दिने प्रलयं ययुः ॥ ३१२ ॥

३१२. विप्र, राजपुत्र, सैथियद, काश्मीरी और दूसरे लोग भी, हजार की संख्या में उस दिन, समर में मारे गये ।

निहतानीकसुभटसमूहान्तरलक्षितान् ।

भूमिदाहाय निष्क्रष्टुं नाभूत् कस्यापि पौरुषम् ॥ ३१३ ॥

३१३. निहत सेना के सुभट समूहों के बीच, दिखाई देनेवाले, लोगों की भूमिदाह हेतु खींचने का किसी ने साहस नहीं किया ।

ये सर्वचङ्गाः पीनाङ्गा भोगैर्मण्डलवर्धिताः ।

याता धर्मोत्थदुर्गन्धास्ते श्वायसभोज्यताम् ॥ ३१४ ॥

३१४. जो लोग पूर्ण रूप से चंगा^१ (स्वस्थ), पीतांग भोगों से मण्डल को वर्धित करनेवाले थे, वे धूप से उत्पन्न, दुर्गन्धित होकर, कुक्कुर और काकों के भोज बने ।

पाद-टिप्पणी :

३१३. (१) भूमिदाह : चिता पर मरम करने के लिए अग्निदाह संस्कार कहा जाता है । श्रीवर ने नदीन शब्द गड़ा है । अग्निदाह के समान उसने भूमिदाह लिखा है । दाह का अर्थ जलाना होता है । भूमि से कोई जलाया नहीं जा सकता । अतएव उसका सरल अर्थ है—मिट्टी देना, भूमि में गाड़
ज्ञ. रा. २८

देना । भाषा में अग्नि देना, बाग देना, स्मशान में जलाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है । भूमि देना या मिट्टी देना कदर में दफन करने से तात्पर्य है ।

पाद-टिप्पणी :

३१४. (१) चंगा : यह शब्द संस्कृत है । इसका अर्थ स्वस्थ होना है । यद्यपि चंगा शब्द बाज-

रक्ताक्तकर्तरीशक्तिमुद्गरद्रुघनादिभिः ।

शाल्मलिद्रुमवत् पुष्पैर्वभुर्युद्धगता भटाः ॥ ३१५ ॥

३१५. युद्ध में गये भट लोग, रक्तरंजित, कर्तरी (कटारी), शक्ति, मुद्गर, द्रुघन आदि से उसी प्रकार शोभित हो रहे थे, जिस प्रकार पुष्पो से शाल्मलि^३ वृक्ष ।

स्मृत्वा रुद्रविहाराग्निदाहं सैदकृतं क्रुधा ।

अलाभपुरदाहाय मार्गपोऽग्निमदापयत् ॥ ३१६ ॥

३१६ सैव्यदो द्वारा किया गया, रुद्रविहार के अग्निदाह का स्मरण कर, क्रोध से मार्गपति ने अलाभपुर जलाने के लिये, आग लगा दिया ।

कल ग्रामीण भाषा में बहुत प्रचलित हो गया है और उसे लोग फारसी या उर्दू शब्द मान लेते हैं। पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बोला जाता है ।

पाद-टिप्पणी

३१५ (१) मुद्गर=गदा = गतका = मुगरी और लकड़ी की एक बड़ी लम्बी बजनी जोड़ी होती है। व्यायाम के समय दोनों हाथों से फेरी जाती है ।

(२) द्रुघण . कुठार या कुल्हाड़ी । परसु या फरसा के आकार का एक अस्त्र जिसका सिरा मुड़ा होता था ।

(३) शाल्मलि . मेरे वाग में शाल्मली किवा सेमर का बहुत बड़ा वृक्ष था । बाल्यावस्था में उसके फूल से हमलोग खेलते थे । श्रीवर का यह श्लोक पढ़ने पर मुझे उस पुष्प की स्मृति हरी हो गयी । शाल्मली की लकड़ी बड़ी हलकी होती है । उसका फूल बहुत बड़ा गाढ़ा लाल होता है । रक्त जम या सूज जाने पर लाल न होकर गाढ़ा लाल होता है । उस रंग में कुछ मलिनता आ जाती है । शाल्मली का पुष्प भी इसी रंग का होता है । मैं फौजदारी का यकौल हूँ । रून तथा मारपीट के बहुत मुकदमों को किया है । अमलहो अर्थात् हथियारों तथा बस्त्रों पर रून लगा देगा है । मानव रक्त तथा अन्य रक्तों में

अन्तर होता है । वैज्ञानिक जाँच से उसका पता लग जाता है । लोहे के हथियार पर खून जमकर सेमर किवा शाल्मली वृक्ष के पुष्प के रंग का हो जाता है । श्रीवर की यह उपमा अनोखी है । उसकी पैनी दृष्टि तथा अनुभव की परिचायक है ।

शाल्मली वृक्ष के फल से रुई निकलती है । उसे सेमल की रुई कहते हैं । इस रुई से तकिया भरी जाती है । साधारण रुई दबकर कड़ी हो जाती है परन्तु सेमल की रुई कड़ी न होकर, सर्वदा फूली और हलकी रहती है । सेमल का फल पक कर फूट जाता है । उससे रुई हवा में उड़ती अथवा भूमि पर गिरने लगती है । कवियों ने शाल्मली वृक्ष की प्राय उपमा दी है ।

पाद-टिप्पणी :

३१६ (१) अलाभपुर श्लोक ३१६ में अलाभदीन नगर का उल्लेख मिलता है । दोनों एक ही मालूम होते हैं । पाठभेद से प्रकट होता है कि अहला मठ के लिये अलाभपुर लिखा गया है । वर्णन क्रम से प्रकट होता है कि यह श्रीनगर में ही स्थान था क्योंकि इसके पश्चात् ही हमदान अग्निकाण्ड का वर्णन किया गया है । दोनों ही स्थान नगर में थे । अग्नि ने उन्हें जला दिया था । एक की अग्नि फैलकर दूसरे तक पहुँच गयी थी ।

ज्वालाजालकरालोऽसावग्निर्वेश्मोष्मदारुणः ।

अलाभदीननगरं दग्धारण्यमिवाकरोत् ॥ ३१७ ॥

३१७. ज्वाला जाल से कराल एवं गृह की उष्मा दारुण, उस अग्नि ने अलाभदीन नगर को दग्ध अरण्य सहस्र कर दिया ।

श्रीमत्सैद्धमादानखानगाहोदितानलः ।

राजप्रजापचारोत्थतत्क्रोधाग्निरिवाद्युतत् ॥ ३१८ ॥

३१८. श्रीमत् सैथियद हमदान^१ के खानकाह में लगी आग, राजा एवं प्रजा के प्रति हुए, अत्याचार से उठी क्रोधाग्नि सदृश, प्रज्वलित हो रही थी ।

हेतुषु भाकराद्येषु पलाय्यान्येषु यात्स्वपि ।

विदधुर्नगरे लुण्ठितं तद्भृत्याः श्वपचादयः ॥ ३१९ ॥

३१९. वाकर आदि लोगों को मार दिये जाने पर और अन्य लोगों के भाग कर चले जाने पर, उसके भृत्य चाण्डालादि नगर को लूटे ।

आसञ्ज् जन्मदरिद्रा ये ते महाद्वयत्वमाययुः ।

सदैवाद्या दरिद्रत्वमुत्पिञ्जोपप्लवे तदा ॥ ३२० ॥

३२०. उस समय उत्पिञ्जोद्रव में जो जन्म-दरिद्र थे, महावनी हो गये, तथा जो सदैव वनी थे, वे दरिद्र हो गये ।

पाद-टिप्पणी :

३१८. (१) सैथियद हमदान : सैथियद अली हमदानी का उल्लेख जोनराज नहीं करता । मुसलमान लोग उसका बड़ा आदर करते हैं और काश्मीर के इस्लामीकरण का मुख्य प्रेरक मानते हैं । काश्मीर के प्राचीन तीर्थ लोक श्री को तोड़कर उसी स्थान पर शाह हमदान का खानकाह बनाया गया है । उसे बनीर कदौर या बर्लीसानो भी काश्मीर में कहते हैं । हमदानी का जन्म अक्तूबर वाईस सन् १३१४ ई० में हुआ था । उनका वंश सैथियदा अलवी या । पिता सैथियद गहावुद्दीन हमदान के भूवेदार थे । काश्मीर में सर्वप्रथमवार सितम्बर मास सन् १३७२ ई० में आये थे । चार मास काश्मीर में रहकर, मक्का चले गये । द्वितीयवार सन् १३७९ ई० में अपने साथ सौ शिष्यों के साथ काश्मीर में आये । ढाई वर्ष काश्मीर में निवास करने के पश्चात्

लद्दाख मार्ग से तुर्किस्तान लौट गये । तैमूरलांग से हमदानी की पटरी नहीं खाती थी । अतएव उससे भयभीत होकर, काश्मीर आया था । हमदानी की मृत्यु १९ जनवरी सन् १३८५ ई० में हो गयी । वह खतलान में दफन किया गया ।

तबकनाते अकबरी में उल्लेख है—'नगर में आग लगा दी गयी । जिसमें मीर सैथियद अली हमदानी की खानकाह जल गयी । और उस स्थान पर अग्नि का अन्त हो गया । उस दिन मरे हुए लोगों की संख्या दश हजार थी (४५३ = ६८६) ।'

फिरिश्ता भी यही लिखता है कि—'खानकाह तक आग न पहुंचकर बुझ गयी और खानकाह को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची ।' 'फिरिश्ता और लिखता है कि—इस दिन मरे हुए लोगों की संख्या दश सहस्र से कम नहीं थी ।'

कंचिच्छवान् विचिन्वन्तो यत्र कुत्रापि तिष्ठतः ।

प्रीतिं प्राप्तैस्तदीयार्थैर्युः कापालिका इव ॥ ३२१ ॥

३२१. यत्र, तत्र पडे शवो को ढूँढनेवाले, कुछ लोग उनके अर्थ को पाकर, कापालिक^१ सदृश परम प्रसन्न हो गये ।

विरुद्धसञ्चयापूर्णगृहलुण्ठिविधायिनाम् ।

अभूत् परस्परं युद्धं समांसास्थिन शुनामिव ॥ ३२२ ॥

३२२ विरुद्ध सचय से घर के पूर्ण करनेवाले एव लूटनेवालो मे, उसी प्रकार परस्पर युद्ध हुआ, जिस प्रकार मास सहित हड्डी के लिये कुत्तो मे ।

आदावेकेन यत्नीतं तस्मादन्येन तद्धृतम् ।

तस्मादप्यपररेणेत्य मात्स्यो न्याय इवोत्थितः ॥ ३२३ ॥

३२३ प्रारम्भ मे जिमको एक ने ले लिया, उसमे अन्य ने उससे ले लिया और उससे भी दूसरे ने इस प्रकार मत्स्य न्याय^१ की स्थिति हो गयी ।

पाद-टिप्पणी

३२१ (१) कापालिक शैवमत के तान्त्रिक साधु कापालिक होते हैं । वे हाथ में मानव कपाल, त्रिशूल लिये रहते हैं । जटाजूटधारी होते हैं । भैरव के उपासक होते हैं । उसे बलि चढ़ाते हैं । बगाल में कापालिक एक जाति थी ।

नकुलीश तथा लकुलीश को पाशुमत का प्रवर्तक माना जाता है । शैव सम्प्रदाय की शाखाएँ पाशुपत, कापालिक एव श्रीभाष्य में शैव, पाशुपत, कापाल और कालामुख चार प्रकार के शैव सम्प्रदाय का उल्लेख श्री रामानुजाचार्य ने किया है—'कपालेन, नुककपालेन, चरति अम्पवहारादिक करोति कापालिक ।' यह उग्र शैव तान्त्रिक सम्प्रदाय है (ग्रह्या २ ३१ ६५, धायु ५८ ६४) । शंकर दिग्विजय के अनुसार कापालिक उच्छिष्ट गणपति अथवा हेरम्ब सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं । लगगुड कालामुख हैं । इनका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । कापालित-मत समस्त भारत में फैल गया, जबकि कालामुख केवल नगरों तक ही सीमित रह गया । कापालिकों के देवता माहेश्वर हैं । गौरक्ष-सिद्धात-संग्रह के अनुसार श्रीनाथ के दूतों ने जब विष्णु के चौबीस भवतारों के कपाल काट लिये, उस समय से उनकी

सजा कपाल काटने के कारण कापालिक हो गयी । शैव सम्प्रदाय की इस शाखा में वामाचार अपनी धरम सीमा पर पहुँच गया है । कापालिक साधक नाथ-सम्प्रदायवादियों के समान चक्र एव नाडियों के योगिक सिद्धात में विश्वास करते हैं । जीव एव शिव में अभिन्नता मानी गयी है । योग द्वारा ही शिव का साक्षात्कार सम्भव मानते हैं । शिव का शक्ति समन्वित रूप ही समर्थ एव प्रभावकारी माना गया है । शिव एव शक्ति के इस मिलन सुख को कापालिक अपनी कपालिनी के माध्यम से अनुभव करता है । उसे वह महासुख की सजा दता है । मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा तथा मँयुन पंच मकारों का साधन करते हैं । कापालिक हठयोगी होते हैं । 'ह' का अर्थ सूर्य तथा 'ठ' का चन्द्रमा है । यही इडा चन्द्र नाडी है । वाम नासिका छिद्र इसका स्थान है । पिङ्गला मूर्ध्ना नाडी है । इसका स्थान दक्षिण नासिका छिद्र है । दोनों नाडियाँ सम चलने लगती हैं, तो उसे ही सुषुम्णा कहते हैं । कापालिक स्वास साधना द्वारा योग करता है ।

पाद-टिप्पणी :

३२३. (१) मत्स्य न्याय : मनुस्मृति एव

द्विधा जयप्रवाहो यस्तद्वाहिन्योरभूत् पुरा ।

एकपार्श्वार्गमात् सोऽत्र शाख्युन्मूलनमातनोत् ॥ ३२४ ॥

३२४. पहले जो उन दोनों वाहिनियों^१ का जो प्रवाह द्विधा विभक्त था, वह यहाँ एक पार्श्वगत होकर, सैय्यद पक्ष का उसी प्रकार उन्मूलन कर दिया, जिस प्रकार नदी का द्विधा प्रवाह, एक भाग में होकर, महान वृक्ष का उन्मूलन कर देता है ।

आढ्यान् द्विजवणिकप्रायान् पौरान् नित्यसुखोजितान् ।

मुष्णन्तस्तद्द्रुटाश्चक्रुर्दरिद्रान् दुःखभागिनः ॥ ३२५ ॥

३२५ उसके भटों ने समृद्ध द्विज, वणिकप्राय लोगों को, तथा नित्य सुख से प्रसन्न पुरवासियों को लूटकर, दरिद्र एवं दुःखभागी बना दिया ।

दारुणोष्मचयात् तत्तद्वस्तुनाशादितान्यपि ।

पौराणां समदह्यन्त सदनानि मनांसि च ॥ ३२६ ॥

३२६. दारुण अग्नि समूह से, तत्-तत् वस्तुओं के विनाश के कारण भी पुरवासियों के सदन एवं मन जल उठे ।

महाभारत में मत्स्य न्याय पर विशद चर्चा की गयी है । मत्स्य न्याय का रोकना राजा का प्रथम कर्तव्य माना गया है । छोटी मछली अकारण बड़ी मछली के क्षुधा शान्ति का साधन बन जाती है । बड़ी मछलियाँ विना विवेक अपनी ही जाति की छोटी मछलियों को निगल जाती हैं । दुर्बल पर सबल हावी हो जाता है । जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है । सबलों से दुर्बलों की रक्षा करने के लिये राज्य तथा राजा का संघटन हुआ है । नारद का कहना है—मानव में नैतिकता एवं धर्म का ह्रास होने लगा तो धर्म एवं न्याय का प्रवर्तन हुआ । राजा विवादों को दूर करनेवाला दण्डधर घोषित किया गया (नारद : १ : १ : २; स्मृति चन्द्रिका अ० २) । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जोन० : श्लोक ७७५ । द्रष्टव्य : शतपथ ब्राह्मण : ३ : ९ : ३ : ७, ११ : १ : ६ : २४; मनु० : ७ : ३; १४ : २०; रामा० अयो० ६७; महाभारत

शांति० : ६८ : ८५; १५ : ३०; ६७ : १६-१९; १८८ : १८-१४; ५९ : १०६ : १०८; १२३ : १६; अर्थ० : १ : १३, २२; नारद० : १८ : १५-१६; ऋग० : १० : ९०; याज्ञ० : १ : ३५५-३५६ ।

पाद-टिप्पणी :

३२४. (१) वाहिनी : शब्द यहाँ श्लिष्ट है । सेना तथा नदी दोनों अर्थ हैं । कल्हण ने 'वाहिनी' का प्रयोग सरिता तथा सेना दोनों के लिये किया है । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : रा० : ४ : ३०३. ३०६; द्र० लोक० पृष्ठ ५ ।

मंख ने भी इसी अर्थ में शब्द का प्रयोग किया है—

अब्जा करेज्जे नलिनी वाहिनी सिन्धु सेनयोः ।

॥ ४६९ ॥

पाद-टिप्पणी :

३२६. पाठ : 'नाशादितानीः' वम्बई ।

नगरान्तः कुलीनानां पुण्याः कन्याश्च योषितः ।

विटाः केऽप्यघमाश्चक्रुर्हृत्संभोगदूषिताः ॥ ३२७ ॥

३२७. नगर के कुछ विटो ने कुलीनों को पुण्य (पवित्र) कन्याओं एवं स्त्रियों को हठात् संभोग से दूषित कर दिया ।

व्यघायि यत्र निर्माणं कल्पान्तस्थिरताशया ।

कोटिकोटिघनं दत्त्वा दग्धं मृद् भस्मसादगात् ॥ ३२८ ॥

३२८. कल्पान्त (प्रलय) तक, स्थिरता की आशा से, कोटि-कोटि धन देकर, जो निर्माण किया गया था, वह जल कर मिट्टी (भस्म) हो गया ।

आसदन् केऽपि केऽप्युच्चैरनदन् केऽप्यलुण्ठयन् ।

दस्यवो दक्षिणे पारे क्षीवा इव जयोद्धताः ॥ ३२९ ॥

३२९. दक्षिण पार (तट) विजय से उद्धत, दस्यु^१ लोग मदमत्त से होकर, कुछ लोगों को सताने लगे, कुछ उन्नाद करने लगे, कुछ लूटने लगे ।

पाद-टिप्पणी .

३२८ पाठ 'तद्' बम्बई ।

पाद-टिप्पणी

३२९ (१) दस्यु वैदिक काल से इस शब्द के अनेक अर्थ किये गये हैं । प्रचलित अर्थ—दुष्ट, उत्पातशील, आततायी, उद्धत, अत्याचारी, डाकू, चोर, लुटेरा, उचक्का आदि हैं । ऋग्वेद में शब्द अमानवीय शत्रुओं के लिये आया है (ऋ० १, ३४, ७, १ १००, १८, २ १३ . ९) ।

दस्युओं को एक जाति रूप में चित्रित किया है । आर्यों एवं दस्युओं में अन्तर का कारण धर्म था । दस्युओं को अयजनशील, अयज्ञिय, शपथ खाने का आदी तथा देवताओं से घृणा करनेवाला बताया गया है (ऋ० . १० २२ : ८) । दस्युओं को अनास कहा गया है । अनास का अर्थ अस्पष्ट है । परन्तु इतना मान सकते हैं कि वे चिपटी नाक वाले थे । इरानी भाषा में दस्यु को दहू या बश्यु कहते हैं । यह एक प्रदेश का नाम है ।

मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों

एवं शूद्रों में जो क्रियालुप्त और जाति बहिष्कृत हो गये थे, वे चाहे आर्य अथवा म्लेच्छभाषी ही क्यों न हों उन्हें दस्यु कहा जाता था । महाभारत में उल्लेख आता है कि अर्जुन ने दरदों सहित, कम्बोज तथा उत्तर-पूर्व के दस्यु जाति को परास्त किया था । दरद जातिकाश्मीर के उत्तर रहती थी । कम्बोज दक्षिण-पश्चिम रहते थे । अनास अर्थात् चिपटी नाक वाले तिब्बती होते हैं, उनकी दिशा उत्तर-पूर्व है । काश्मीर के उत्तर-पूर्व दस्यु जाति का निवास स्थान महाभारत के अनुसार मान सकते हैं ।

पुराणों के अनुसार आभीर तथा म्लेच्छ हैं जिनके लिये श्राद्ध वर्जित है (ब्रह्मा० . ३ : १४, ४३, विष्णु० ५ : ३८ : १३; २५ : २७ : ४९७) । इनका मुख्य अस्त्र दण्डा था । अर्जुन ने इनका सहार किया था । इन लोगों ने १६००० स्त्रियों को बन्दी बनाया था (विष्णु० ५ : ३८ : ५१, ७०, ८२, ८४) । मंत्र कोश में दस्यु के लिए लिखा गया है—
रिपुतस्करयोर्दस्युर्वयः प्राच्यप्रधानयो ॥ ६१५ ॥

न शीघुचषकोऽप्यास्त येषामुत्सवतर्पणे ।
सहस्रसङ्ख्याः कुम्भानाम्भोवन्नगराद्दृताः ॥ ३३० ॥

३३०. जिन लोगों के पास उत्सव के समय एक शीघु चषक भी नहीं था, वे नगर से सहस्रों की संख्या से भरा कुम्भ हर लाये^२ ।

केचिद् वन्धुवियोगार्ताः केचित् सञ्चयवञ्चिताः ।
विरुद्धत्वकृताक्षेपा जितरुद्धभुवः परे ॥ ३३१ ॥

३३१. कुछ वन्धु वियोग से आर्त; कुछ संचित धन से वंचित होकर, कुछ विरोधियों के आक्षेप से, और कुछ भूमि ले लिये जाने से, दुःखी थे ।

बहवो दुःखिताश्चेरुः शतैकीयोऽभवत् सुखी ।
तत्तद्रणविपन्नैश्च क्षतैः प्रेतैः स्ववेशमनि ॥ ३३२ ॥

३३२. इस प्रकार बहुत से लोग, दुःखित विचर रहे थे और सौ में कोई एक सुखी था, तत्-तत् रण में मृत तथा प्रहारों के कारण, अपने घर में मरे—

उच्चावचैर्जनैः सार्धं सहस्रद्वितीयी मृता ।
इत्थं षष्टितमे वर्षे श्रावणप्रतिपदिने ।
एकान्तविजयात् तेषां तत्तल्लोकक्षयोऽभवत् ॥ ३३३ ॥

३३३. ऊँचे-नीचे^१ सब लोगों के साथ, दो सहस्र^२ लोग इस प्रकार, साठवें^३ वर्ष के श्रावण मास में प्रतिपद तिथि को, उनके एकान्त विजय से, तत्-तत् प्रकार से लोगों का विनाश हुआ ।

पाद-टिप्पणी :

३३०. (१) शीघु : मदिरा = मद्य = सुरा, क्षेमेन्द्र ने लोकप्रकाश (पृष्ठ ६) में अर्थ किया है । मुख्यतः अंगूर की शराव के लिये शब्द का प्रयोग होता रहा है । शीघुप का अर्थ शरावी होता है । इस वर्णन से प्रकट होता है कि जनता मुसलिम होने पर भी शराव पीती थी । शराव पीना बुरा नहीं माना जाता था ।

(२) उक्त श्लोक का एक अर्थ और हो सकता है—जिन लोगों के पास उत्सव में देने के लिये एक प्याला सुरा भी नहीं थी, वे कुम्भ जल के समान सुरापूर्ण सहस्रों घड़े नगर से हर लाये ।

उक्त श्लोक का एक अर्थ और हो सकता है— 'जिनके पास उत्सव में देने के लिये एक प्याला शराव भी नहीं था, वे जल के समान सुरापूर्ण सहस्रों

घड़े नगर से हर लाये' । भावार्थ होगा—जल के समान उस समय शराव का मूल्य नगण्य हो गया था, जबकि उत्सव में एक प्याला शराव भी नहीं दे सकते थे ।

पाद-टिप्पणी :

३३३. (१) उच्चावच : ऊँचे-नीचे, छोटो-बड़े, ऊँच-नीच ।

(२) दो सहस्र : फिरिश्ता लिखता है—'उन लोगों ने दो सहस्र सैय्यियों के दल के लोगों को हत किया (४८४) ।'

तदवकाते अकबरी में उल्लेख है—'उस दिन दो हजार व्यक्ति मारे गये । यह घटना ८९२ हिजरी में घटी (४५३ = ६८६) ।'

(३) साठवाँ वर्ष : सप्तपि सम्वत् ४५६० = सन् १४८४ = विक्रमी १५४१ = शक १४०६ द्र० : ४ : ९२ ।

पूर्वमङ्कुरितः सैदवघात् पल्लवितः क्रमात् ।
परस्परं वैरतरुस्तद्दिने फलितोऽभवत् ॥ ३३४ ॥

३३४. सैय्यद के वध से पहले अकुरित, क्रम से पल्लवित', पारस्परिक वैर वृक्ष, उस दिन फलित हो गया ।

पौराणां वीरवर्गः प्रतिदिनमहरत् सञ्चय वञ्चयित्वा
दुःस्थावस्थः समस्तः कृषिफलहृतिभागास्त वास्तव्यलोकः ।
उच्छेदं शाटवाटावनिसफलतरुष्विन्धनार्थं दुरन्तः
सैदद्वैधात् समुत्थः प्रवरपुरवरोपप्लवोऽभूत् समन्तात् ॥ ३३५ ॥

३३५ वीर (सैनिक) वर्ग प्रतिदिन ठग कर, पुरवासियो का संचित धन हरता रहा, पुर-वासियो की दुरवस्था हो गयी और लोगो का कृषि फल हर लेते थे । शाटवाट' भूमि मे फलयुक्त वृक्षो का इन्धन के लिये दुरन्त उच्छेद किया गया । इस प्रकार सैय्यदो के पारस्परिक द्वेष के कारण चारो ओर प्रवरपुर मे महान उपद्रव हुआ ।

अग्रान्तरे वधं श्रुत्वा सैदाः काश्मीरिकोज्जिताः ।
आलिखानमुखास्तस्थुर्दासमात्रावशेषिणः ॥ ३३६ ॥

३३६. काश्मीरियो द्वारा त्यक्त, अली खा प्रमुख सैय्यद, केवल कुछ दासो के साथ अवशिष्ट रह गये ।

द्वित्रान् निहत्य नगरे निवृत्तः सेत्वभावतः ।
मेयामहम्मदः प्रापत् तावत् स्वशिविरान्तरम् ॥ ३३७ ॥

३३७ सेतु अभाव के कारण लौटकर, मीया मुहम्मद नगर मे दो-तीन लोगो को मारा, और अपने शिविर मे पहुँच गया ।

माकरादीन् हतान् श्रुत्वा सैदा भीता अपि व्यधुः ।
द्वितान् निहत्य नगरे पुनर्युद्धाय निश्चयम् ॥ ३३८ ॥

३३८. बाकर आदि लोगो को मारा गया सुनकर, भयभीत भी सैय्यद लोग, नगर मे दो-तीन आदमी को मारकर, पुन युद्ध के लिए निश्चय किये ।

पाद-टिप्पणी :

३३४ (१) पल्लवितः श्रीवर के पल्लवित
भाव को दुरु ने (शुक्र० : १ . १६२) व्यक्त किया
है । ३० : ४ : २३२ ।

पाद-टिप्पणी :

पाट-'घाट' बम्बई ।

३३५. (१) शाट वाट : अनुसन्धान अपेक्षित
है । श्रीदत्त ने इस श्लोक का अनुवाद नहीं
किया है ।

पाद-टिप्पणी :

३३६. 'काश्मीरिकोज्जिता' पाट-बम्बई ।

पश्चात् प्रतीर्य मार्गेशो हन्यान्नस्तद्रणोऽस्त्वह ।

इत्युक्त्वा ताजभट्टस्तान् निन्ये त्रासविघ्नताम् ॥ ३३९ ॥

३३९. 'पीछे से पार कर, मार्गेश हमलोगों का वध कर देगा, अतः रण यहीं पर हो'—
ऐसा कहकर, ताजभट्ट ने उनलोगों का त्रास (भय) दूर कर दिया ।

अस्मिन्नवसरे पारादागतो युक्तिपूर्वकम् ।

सैदानादाय रावत्रः स्वालयं तान् व्यसर्जयत् ॥ ३४० ॥

३४०. इसी अवसर पर सैथियदों को लेकर पार से आये हुये, रावत्र^१ ने युक्तिपूर्वक, उन्हें अपने घर भेज दिया ।

कृत्वा त्रालनृपेन्दुं तं सैदाभ्रपटलोद्भिन्नम् ।

पौरानानन्दयामासुर्मन्त्रिणो मरुतो यथा ॥ ३४१ ॥

३४१. मन्त्रियों ने मरुतों^२ के समान, उस बाल चन्द्र^३ को, सैथियद रूप मेघ पटल से रहित कर, पुरवासियों को आनन्दित किया ।

पाद-टिप्पणी :

३४०. (१) रावत्र : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी :
जैन० : १ : १ : ८६ तथा २ : १२ ।

तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'सैथियद मुहम्मद पुत्र सैथियद हसन ने गदाय नामक व्यक्ति, जो रावत्र जाति का था, उसके यहाँ धारण लेकर मोर्चे-बन्दी कर ली (४५३-६८६) ।'

तवक्काते अकवरी के दोनों पाण्डुलिपियों में 'रावत' लिखा है । लीयो संस्करण में 'रावत' शब्द 'रावण' हो गया है । फिरिस्ता के लीयो संस्करण में 'रवात' लिखा है । द्र० : क्षेमेन्द्र : लोक० : पृ० : ४ । 'रावत्र' का उल्लेख महाकवि, धनुर्विद्या पण्डित के साथ किया गया है । अतएव 'रावत्र' जाति एक प्रतिष्ठित जाति थी । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रावत्र (रावत) प्रतिष्ठित ब्राह्मण जाति है । कुछ विद्वान रावत्र को राजपुत्र का अपभ्रंश मानते हैं ।

पाद-टिप्पणी :

'नृपेन्दुं तं' पाठ—वम्बई ।

३४१. (१) मरुत : वैदिक साहित्य में सैन्य संघटन एवं सैनिक संचालन का प्रतीक देवता है ।

जै. रा. २९

ऋग्वेद में तैत्तिरीय सूक्त मरुत को समर्पित किया गया है । मरुत एक गण अथवा देव समूह रूप में चित्रित किये गये हैं । उनका निर्देश बहुवचन में ही सर्वत्र प्राप्त होता है । इनकी संख्या, सात, इक्कीस तथा सठ कही गयी है । इन्हें रुद्र का तथा पृथिवी का पुत्र कहा गया है । रुद्रिय गण, पृथिवी मातार— इनका नाम पिता एवं माता के कारण पड़ा है । सभी एक-दूसरे के भाई तथा समवयस्क हैं । उनका आवास एक है । इनकी पत्नी का नाम रोदसी है । इनका रथ स्वर्णिम है । वायु के समान वेगवान हैं । वायु की ध्वनि ही इनकी ध्वनि है । इनका कार्य पानी वरसाना है । संज्ञावात के देवता हैं । वैदिकोत्तर ग्रंथों में इन्हें 'धायु' माना गया है । मरुत ज्ञानी, दूरदर्शी, कवि, उत्तम सैनिक, उग्र तथा शत्रु-हन्ता हैं । शत्रुओं को स्थानभ्रष्ट कर देते हैं । उनका गिरस्त्राण हिरण्यमय होता है । उनके स्कन्ध पर भाला, अग्नि, सद्यश् तेजस्वी अस्त्र रहता है । कुठार एवं धनुष धारण करते हैं । सात-सात सैनिक पंक्तियों में उनका होते हैं । प्रत्येक पंक्ति के दोनों पाश्र्वों में एक पादर्वरत्नक होना है । इस प्रकार रत्नक चौदह होते हैं । उनका एवं चौदह

दुर्योधनैःशरणाः

कृतशल्ययोगा

ये धर्मजातिविरसाः कलिदत्तकर्णाः ।

अन्यायवृत्तिधृतराष्ट्रकृतावसादा-

स्ते कौरवा इव रणे न जयं लभन्ते ॥ ३४२ ॥

३४२ एकमात्र दुर्योधन^१ के शरणवाले (दुष्ट लडाई लडनेवाले) शल्य^२ द्वारा सहायता प्राप्त (उत्प्लोढक), धर्मराज^३ के प्रति विद्रोही (धर्म एव जाति के प्रति उदासीन), कलह के लिये कर्ण^४ का लगानेवाला (कलह में सर्वदा सावधान), अन्याय वृत्ति से धृतराष्ट्र^५ वश का अवसान करनेवाला (अन्याय वृत्ति से सम्पन्न राष्ट्र को नष्ट करनेवाले), जो लोग हैं, कौरवों के समान युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करते ।

का याग तिरमठ हाता है । मरुता का एक गण बिचा मघ इम प्रकार तिरमठ मैनिको का होता है । धावर न मरुतों क गुणों की तुलना मन्त्रियों म बिचा है । पुराणा में मरुत कश्यप एव दिति क पुत्र माने गये है । सात वात मन्त्रियों के निवासी है (वायु० १०१ २९) । इतर अरव का नाम पुषत है । वायुकीण के दिक्पाल है । वायु० ६७ १२९) ।

(२) बालचन्द्र बाग्न सुल्तान मुहम्मद । तवबकाते अक्बरी में उल्लेख है—'समस्त विद्रोही एकर हाकर मुहम्मदगाह के अभिवादन हेतु पहुँचे (४५३-६८६) ।

किरिस्ता रिस्ता है—'काश्मीरी एक गाल बना कर राजा के प्रागाद में पहुँच । उहाँन बालक राजा को अपने हाथ म हिजरी ८९२ म ताज पहनाया (४८८) ।'

भुनिल पाण्डुलिपी में उल्लेख है—'काश्मीरी अमारों नोगहर क जिल में प्रयोग कर, सुल्तान का अभिवादन किया (८०-१० बी०) ।'

पाद-टिप्पणी .

३४२ (१) दुर्योधन कौरव वंशीय, धृतराष्ट्र पुत्र, महाभारत का कारण दुर्योधन था (इ० १ १९८) ।

(२) धर्म मद्र का राजा था । पाण्डु-वर्णों

माद्री का भाई तथा माद्रीपुत्र नकुल एवं सहदेव का सगा मामा था । कौरवपक्ष स युद्ध किया था । महाभारत युद्ध के सालहवें तथा सप्तहवें दिन कर्ण का सारथी बना था । कर्ण की मृत्यु पश्चात अट्ठारहवें दिन कौरव सेनापति बना था । कौरवपक्ष स युद्ध करता था परन्तु विजय पाण्डवों की चाहता था । अर्जुन द्वारा युद्ध में मारा गया था (आदि० १८५ १३-१४, १८९ २३-२९, कर्ण० ३१ ५८-६०, शल्य० ४६-२८ ।

(३) धर्मराज पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर इ० १ १ २३ ।

(४) कर्ण कुन्ती का सूय द्वारा ज्येष्ठ पुत्र एवं युधिष्ठिर का ज्येष्ठ भ्राता । दुर्योधन का पदा पाती एव कौरवों का समथक (इ० १ : १ १६६ १ ७ १४०, १५५ ।

(५) धृतराष्ट्र कौरव राजा और विद्विष वीर्य का पुत्र था । दुर्योधन आदि एक सत कौरव भ्राताओं का पिता था । वेदध्याय क नियामक अम्बिका के गम म जन्म लिया था । माता के दाय क कारण अन्धे हो गय थे । अम्बालिका के गम म पाण्डु हुये थे । धृतराष्ट्र अन्धे थे अत पाण्डु राजा बने । पाण्डु की मृत्यु पश्चात धृतराष्ट्र राजा हुआ । गान्धारी उनकी धर्मपत्नी थी । गान्धारी क गम म १०० पुत्र हुए । उनकी गणा कौरव परी ।

राजधानी समानीय नवां पञ्चपुरान्तरात् ।

खानगाहं नवीचक्रुर्दग्धं श्रीनगरान्तरे ॥ ३४३ ॥

३४३. पञ्चपुर^१ से लाकर, नवीन राजधानी (नृपावास) बनवाया और श्रीनगर में दग्ध खानकाह^२ को नवीन बना दिये ।

भाभसैदहमादानखानगाहो

नदीतटे ।

पूर्णस्तत्पुण्यसंभारस्तदाकार

इवोत्थितः ॥ ३४४ ॥

३४४. नदी के तट पर पूर्ण, भाभ (बाबा) सैय्यद हमदान^३ खानकाह, इस प्रकार लग रहा था, जैसे उन मन्त्रियों का पुण्य ही खानकाह के आकार में खड़ा है ।

सर्वस्वमपहृत्याथ सैदास्ते सङ्कुटुम्बकाः ।

मण्डलादालिखानाद्या निरवास्यन्त मन्त्रिभिः ॥ ३४५ ॥

३४५. मन्त्रियों ने सब सम्पत्ति अपहृत कर, कुटुम्ब सहित अली खान आदि सैय्यदों को मण्डल से निर्वासित कर दिया^४ ।

पाद-टिप्पणी :

३४३. (१) पञ्चपुर = पानपुर : द्रष्टव्य :
पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : ५ ६०; १ : ६ : १;
४ : १३१; जैन० : श्लोक ५५१ ।

(२) खानकाह : सैय्यद अली हमदानो का खानकाह । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : २ : १२२; ३ : १७७, १८४, १९३, १९७, २००; ४ : ११७ : ३१७ । पूर्व काल में अली हमदानो ने यहाँ नमाज पढ़ने का ऊँचा चबूतरा बनाया था । सिकन्दर वृत्तशिकन ने सन् १३९६-१३९७ ई० में एक खानकाह का निर्माण कराया । वह खानकाह मुअल्ला के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसने इसके व्यय के लिये तीन गाँव, वाची, घौरा तथा नमावानी बक्र क्रिया था । इसमें आग लग जाने पर, हुसैन गाह ने इसका पुनः निर्माण कराया । काष्ट निर्माण का यह दर्शनीय स्थान है ।

पाद-टिप्पणी :

३४४. (१) हमदान : प्राचीन नाम इब्ने-वेठना है । फारस में है । एक शहर है । यहाँ के निवासी मीर सैय्यद मुहम्मद हमदानो थे । उन्होंने

काश्मीर में मुसलिम धर्म का प्रचार किया था । काश्मीर में २२ वर्ष की आयु में आया था (सन् १३९३-१३९४ ई०) । सिकन्दर वृत्तशिकन उसका विषय बन गया था । उसने हमदानो के लिए खानकाह निर्माण कराया था । सिंहमट्ट (सूरहमट्ट) को मुसलिम धर्म में दीक्षित कर उसका नाम सैफुद्दीन रखा था । सूरहमट्ट की पुत्री से विवाह किया था । वह बीबी माजी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी । द्र० : ४ : ३१७ ।

पाद-टिप्पणी :

३४५. (१) सैय्यद निर्वासित : तबक़ाते अकबरी में उल्लेख है—'सैय्यद अली खां तथा अन्य सैय्यदों को निर्वासित कर दिया गया (४५३-६८६) ।'

फ़ारिस्ता लिखता है—'उन लोगों (काश्मीरियों) ने जोर दिया कि सैय्यद अली खां तथा अन्य सैय्यदों को निर्वासित कर दिया जाय (४८४) ।'

न्युनिख पाण्डुलिपि में उल्लेख है—'सैय्यद लोग पुनः एकद्वार निर्वासित कर दिये गये । उनकी सम्पत्ति जप्त कर ली गयी और काश्मीर के अमीरों

एकमत्येष्वमात्येषु काश्मीरेष्वविशङ्किताः ।

ययुः परशुरामाद्याः स्वदेशं प्राप्तसत्क्रियाः ॥ ३४६ ॥

३४६. काश्मीरी मन्त्रियो के एकमत हो जाने पर, अविशक्ति परशुराम' सत्कार प्राप्त कर, अपने देश लौट गया ।

शिशौ दत्त्वा राज्यं वयमिह भजामः सुखमिति

व्यधुः स्वार्थं शिष्टा गलितमतयः सैदपतयः ।

हतेष्वेवं तेषु प्रसभमभजन् मन्त्रिपदवीं

परे तत्तज्जुष्टां विधिरिह बलीयान् न पुरुषः ॥ ३४७ ॥

३४७ शिशु को राज्य देकर, हमलोग सुख का भोग करेंगे, इस प्रकार शिष्ट एव निर्वृद्धि, सैय्यदपति स्वार्थ साधन में लग गये,—उन लोगों के मार दिये, जानेपर दूसरे लोग हठात् उन-लोगों द्वारा प्राप्त मन्त्रि पदवी को ग्रहण कर लिये—विघाता बलवान' होता है, न कि पुरुष ।

भेयाहस्सनसामग्रीं नाग्रामादिप्रमेयजाम् ।

ज्यल्लालठक्कुरोऽगृह्णात् तत्पुत्रो लहरादिकम् ॥ ३४८ ॥

३४८ जल्लाल ठाकुर ने नाग्राम' के मोया हस्सन की सामग्री तथा उसके पुत्र ने लहर' आदि को लिया ।

गृहीत्वा वाङ्मिलं राष्ट्रं स्वकं मार्गेशमागतः ।

स सूयादिप्रमेयांश्चामज्ज्वीमान् ज्यहाङ्गिरः ॥ ३४९ ॥

३४९ श्रीमान् जहाँगीर ने अपना वागिल' राष्ट्र लेकर मार्गेश के पास आया और सूया' आदि प्रमेयो को भी प्राप्त कर लिया ।

जिन्होंने विशोह में सकलता प्राप्त की थी उनकी जागीर परस्पर बाँट लिये (८० ए०-बी०) ।'

पाद-टिप्पणी .

३४६. (१) परशुराम . तदवशाते अवररो में उल्लेख है—'परशुराम को पर्याप्त धन देकर विदा किया (४५३-६८६) ।'

किन्तु विरिस्ता कुछ और लिखता है—'काश्मीरियों ने राजा के मन्त्रि परिषद से जम्मू के राजा परशुराम को हटाने की माँग किया । उसी माँग में मन्त्रियों को निर्वासित करने तथा परशुराम के हटाने की मान ली गयी (४८४) ।'

पाद-टिप्पणी :

३४७ (१) बलवान . प्रतिद्व पद है—

पुरुष बली नहि होत है, बली होत भगवान ।

भिल्लिन लूटी गोपिका बहि अजुन बहि थाण ॥

पाद-टिप्पणी :

३४८. (१) नाग्राम : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी .

जैन० : २ . १०, ३ : २४ ।

(२) लहर द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० :

१ : ५ : १२ तथा जैन० : दलोक १६७ ।

पाद-टिप्पणी :

३४९. (१) वागिल : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी

जैन० : २ . २०; ४ : १०७ ।

माक्षाश्रमादिराष्ट्रेषु स्वान्यभूत् सैफडामरः ।

अन्यां च ग्रामसामग्रीं सोदरेषु यथोचिताम् ॥ ३५० ॥

३५०. सैफ डामर मक्षिका^१ आश्रम आदि, राष्ट्रों का स्वामी हुआ और सहोदर भाइयों में यथोचित अन्य ग्राम सामग्री आदि वितरित कर दिया ।

परिहासपुराधीशो जोनराजानकोऽभवत् ।

सैन्याधिकारनिर्देन्यस्वातन्त्र्योऽज्झितयन्त्रणः ॥ ३५१ ॥

३५१. सैन्याधिकार प्राप्त, स्वतन्त्र एवं नियन्त्रण रहित, जोन राजानक परिहासपुर^१ का स्वामी बना ।

एभ्राहिमश्च मार्गेशो द्वारपालाधिकारभाक् ।

चक्रे सैदादिभृत्यानां रक्षामक्षामपौरुषः ॥ ३५२ ॥

३५२. पराक्रमी एवं द्वारपालाधिकारी, मार्गेश इब्राहीम ने सैय्यद भृत्यों की रक्षा की ।

राज्ञोऽधिकारसामग्रीं भूमेर्द्रव्यावलीमिव ।

महाभूता इवामात्याः संभूय व्यदधुर्नवाम् ॥ ३५३ ॥

३५३. भूमि की द्रव्यावली के समान, राजा के अधिकार सामग्री को महाभूतों^१ सदृश, अमात्यों ने मिलकर नवीन बना दिया ।

एको मार्गपतेः पक्षष्टक्कुरो डामरोऽपरः ।

राजानकीयो दीप्तास्ते सर्वेऽग्नय इवाद्युत्तन् ॥ ३५४ ॥

३५४. मार्गपति का एक पक्ष ठाकुरों का, दूसरा पक्ष डामर और तीसरा राजानक का दीप्त में सब अग्नि^१ के समान चमक रहे थे ।

(२) खूया : न्यूय परगना है । अबुल फजल, मूरजाफ्ट, वान हुगेल, वेदस ने गजेटियर में उल्लेख किया है । पाटन तथा तिलग्राम के उत्तर में है ।
३० : १ : ४ : ३२ ।

पाद-टिप्पणी :

३५०. (१) मक्षिका आश्रम : माक्षाश्रम : मांज होम परगना : पाटन जिला में है । श्रीनगर के दक्षिण-पश्चिम है । मूरजाफ्ट : इवेले० : २ : ११३, वान हुगेल काश्मीर : २ : २०६, वाइन इवेले० : १ : २७२, वेदस गजेटियर : २ । क्षेमेन्द्र ने माक्षाश्रम का उल्लेख किया है (पृ० ३७) । इससे प्रकट होता है कि क्षेमेन्द्र काल में इस

स्थान का अस्तित्व था और यह स्थान चार शताब्दियों तक अपने मूल नाम से ही अभिहित होता था ।

पाद-टिप्पणी :

३५१. (१) परिहासपुर : द्रष्टव्य परिशिष्ट : 'ख' पृष्ठ ५४१ । जोनराजतरंगिणी ।

पाद-टिप्पणी :

३५३. (१) महाभूत : (१) पृथ्वी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु एवं (५) आकाश ।

पाद-टिप्पणी ।

३५४. (१) अग्नि : यहाँ तीन पक्षों का

आत्मेव निष्क्रियः साक्षिमात्रं बालनृपोऽभवत् ।

सर्वं प्रकृतिनिष्पन्नं राज्यतन्त्रमभूत् तदा ॥ ३५५ ॥

३५५. वह बालक राजा आत्मा के समान, निष्क्रिय एव साक्षी मात्र था। उस समय सम्पूर्ण राजतन्त्र मन्त्रियो द्वारा सम्पन्न होता था।

विभजन्तो भुवं सर्वां यथेच्छं स्वेषु केवलम् ।

अलेखयन् नृपं पत्रे स्वाङ्गीकाराक्षरत्रयीम् ॥ ३५६ ॥

३५६ अपने लोगो मे स्वेच्छापूर्वक, पृथ्वी का विभाजन करते हुए, राजा द्वारा पत्र पर स्वीकार-सूचक, केवल तीन अक्षर (स्वाङ्गीकार) लिखा लिये।

कष्टप्रदाः प्रजानिष्ठा दुष्टभृत्यविचेष्टिताः ।

यथेष्टं समचेष्टन्त हृष्टास्तेऽरिष्टचेष्टया ॥ ३५७ ॥

३५७ कष्टप्रद, प्रजाओ के अनिष्ट, दुष्ट भृत्यो द्वारा दुष्कर्मी प्रसन्न वे सब, इच्छानुसार दुश्चेष्टा मे रत रहते थे।

स्वपक्षरक्षणे दक्षाः परपक्षेष्टखण्डनाः ।

तार्किका इव ते तस्थुर्वितण्डावादशिक्षिताः ॥ ३५८ ॥

३५८ स्वपक्ष रक्षण मे दक्ष, परपक्ष खण्डन मे रत, वितण्डावाद मे, शिक्षित, वे लोग तार्किक सदृश हो गये थे।

उल्लेख किया गया है। उनकी उपमा तीन प्रकार की अग्नियो—ग्राहपत्य, आह्वनीय एव दक्षिणाग्नि से दी गयी है।

पाद-टिप्पणी

३५५ (१) साक्षी आत्मा को इस जगत में जीवन धारण करने और ईश्वर के साक्षी होने का प्रमाण माना गया है। जिस प्रकार आत्मा निष्क्रिय, निर्विकार आदि होती है, उसी प्रकार बालक राजा आत्मा के समान राजसत्ता का साक्षी मात्र था। अपनी आंखो मे किसी घटना को देखनेवाला साक्षी होता है। परमात्मा भी साक्षी कहा गया है क्योंकि वह सब कुछ देखता है तथापि निरपेक्ष रहता है।

पाद-टिप्पणी

३५६ 'स्वाङ्गी' पाठ—वम्बई।

पाद-टिप्पणी :

३५८. (१) वितण्डावाद गौतम ने वितण्डा की परिभाषा दिया है—'प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितण्डा।' सदोप आक्षेप, निराधार छिद्रान्वेषण, निरर्थक तर्क-वितर्क अथवा प्रचलित भाषा में तू-तू, मैं-मैं करना वितण्डावाद कहा गया है।

(२) तार्किक नैयायिक, तर्कशास्त्र पारंगत, वाद-विवाद निपुण व्यक्ति को तार्किक कहते हैं। किसी वस्तु के विषय में अज्ञात तत्व को कारणोपपत्ति द्वारा निश्चित करनेवाली उक्ति का बोध तर्क से होता है। न्याय के सोलह पदार्थों में एक तर्क है। प्राचीन भारतीय दर्शनशास्त्र में तर्कशास्त्र नामक कोई ग्रन्थ नहीं है। यह न्याय के अन्तर्गत है। पश्चिम के लौजिक शब्द का अनुवाद तर्क है।

मण्डलं तापयन्ति स्म सर्वे तीक्ष्णकरा न के ।

कल्पान्तकाले भुवनं द्वादशार्का इवोदिताः ॥ ३५९ ॥

३५९. कल्पान्त काल में उदित द्वादश सूर्य^१, जिस प्रकार भुवन को तप्त करता है, उन्ही प्रकार सब ही तीक्ष्ण करारोपण कर, कौन-से मण्डल को तप्त नहीं करते थे ?

श्वाक्रन्दितोल्कादाहैश्च भूरिभूकम्पसंपदा ।

शेषमानो जनो जज्ञे प्रत्यावृत्तमुपद्रवम् ॥ ३६० ॥

३६० कुत्तों के आक्रन्दन^१, उल्का^२ दाहों एवं बार-बार भूकम्प^३ से लोग काँपते हुए, उपद्रव का आगमन जान लिये ।

शिशौ नृपे व्यधुः पीडां विशां चैतन्नियोगिनः ।

आमया इव देहानां वार्द्धके शक्तिवर्जिते ॥ ३६१ ॥

३६१. शिशु नृपति के काल में, नियोगियों ने प्रजाओं को उसी प्रकार पीड़ित किया, जिस प्रकार शक्ति रहित वृद्धावस्था में रोग शरीर को ।

भारत में इस प्रकार का कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं है । न्यायदर्शन में 'प्रमाण' नाम का विषय या पदार्थ है । प्रमाण शास्त्र के अन्तर्गत ही तर्कशास्त्र को रखा जा सकता है । प्रमाण की संख्या चार—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) सपमान एवं (४) शब्द है । बौद्ध तर्कशास्त्री वर्म नीति के अनुसार तीन हेतु अनुमान के कारण हैं । उसके अनुसार पक्ष, सपक्ष और असपक्ष या विपक्ष है । श्रीवर ने स्वपक्ष अर्थात् पक्ष, विपक्ष अर्थात् परपक्ष का उल्लेख किया है ।

तदवकाते अकवरी में उल्लेख है—'प्रत्येक काश्मीरी नेतृत्व का दावा करता था । अतः अल्प समय में उनके मध्य विरोध उत्पन्न हो गया । और राज्य के कार्य अव्यवस्थित हो गये (४५३-६८६) ।'

फिरिश्ता लिखता है—'प्रत्येक काश्मीरी अपनी सेवा के बदले में कुछ माँग करता था, राज्य उन्हें देने में अमर्ष्य था । अतएव इनसे गृहयुद्ध आमन्त्र प्रतीत होता था (४८४) ।'

पाद-टिप्पणी :

'तीक्ष्ण' पाठ-वन्धई ।

३५९. (१) द्वादश सूर्य : द्वादश सूर्य के नाम महाभारत के अनुभार (१) दिवम्भुव, (२) वृहद्भागू,

(३) चक्षु, (४) आत्मा, (५) विभावसु, (६) सवितृ, (७) ऋचीक, (८) अर्क, (९) भानु, (१०) आनावह, (११) रवि तथा (१२) विवस्वत (आ० : १ : ४०) है । वे द्वादश सूर्य वर्ष के १२ मासों के ही रूप हैं । सूर्य ने बारह की संख्या का भी बोध होता है ।

मान्यता है कि प्रलय काल में द्वादश सूर्य अपनी पूर्ण गरिमा में तपते हैं, जिनमें संसार भस्म हो जाता है ।

पाद-टिप्पणी :

३६०. (१) कुत्ता का आक्रन्दन : कुत्तों का रोना घोर अशुभ सूचक है । मैंने स्वयं अनुभव किया है कि कुत्ता जब पाम-पड़ोस में रोता है, तो महाल में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा दुर्घटना घटती है । यदि घर में रोता है, तो कुल में अशुभ घटना या किसी की मृत्यु होती है ।

(२) उल्का : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० ४ : २१४ ।

(३) भूकम्प : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : २ : ११४ ।

पाद-टिप्पणी :

३६१. (१) वियोगी : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी :

नृपतेर्यदि मत्सरात् सहाया
 रचयन्ति प्रबला मिथो विरोधम् ।
 कुपिता इव घातवः शरीरं
 क्षपयन्ति प्रसभं महर्द्धिं राज्यम् ॥ ३६२ ॥

३६२. राजा के प्रबल सहायक, यदि मात्सर्यवश परस्पर विरोध करते हैं, तो हठात् समृद्ध राज्य को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार कुपित घातु शरीर को ।

ये सर्वकण्टकास्तीक्ष्णाः परेषां छिद्रकारिणः ।
 करभाणामिवैतेषां ते तेऽप्यासन्नतिप्रियाः ॥ ३६३ ॥

३६३ जो सब कण्टक, तीक्ष्ण एवं दूमरो के छिद्रकारी थे, वे (कण्टकप्रिय) ऋटो के समान उन लोगो को अति प्रिय हो गये ।

पैशुनोपायनाद् भेदं नयद्भिः प्रतिवासरम् ।
 चाक्रिकैः कृतसञ्चारैर्वैरं प्रौढिमनीयत ॥ ३६४ ॥

३६४ पैशनोपायन (चुगुलखोरी) द्वारा प्रतिदिन भेद उत्पन्न करनेवाले संचरणशील, षड्यन्त्रकारियो ने वैर को अत्यधिक बढ़ा दिया ।

उक्तं यन्नैव केनापि स्वबुद्ध्या परिकल्पितम् ।
 तेषां तद्भृत्यपैशुन्यं हृद्यं काव्यमिवाभवत् ॥ ३६५ ॥

३६५ जिसको किसी ने नहीं कहा, अपनी बुद्धि से परिकल्पित, उनके भृत्यो का पैपुण्य, उन लोगो के लिये, काव्य के समान आल्हादक हो गया ।

जैन० २ * ३० ३०, राज० ६ ८ । मुसलिम काल में तहसीलदार थे ।

पाद-टिप्पणी :

३६२. (१) घातु * घातु की उपमा श्रीवर ने श्लोक १ : ७ ६६, ११० तथा १८५ में दिया है । आयुर्वेद के अनुसार घातुयें ७ हैं—(१) रस, (२) रक्त, (३) मास, (४) मेद, (५) अस्थि, (६) मज्जा और (७) शुक्र । भोज्य एव पेय पदार्थ का पचकर रस बनता है । उसका स्थान हृदय है । घमनियो द्वारा समस्त शरीर में पहुँचता है । रक्त से मास बनता है । मास से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है । बात,

पित्त एवं कफ की सजा घातु से दी गयी है । पचभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) तथा पच पदार्थ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) तन्मात्राओं को भी घातु कहते हैं ।

मख अपने कोश में घातु के विषय में लिखता है—

श्लेष्मादिरस्थिकतादि महाभूतानि तद्गुणा ॥२६५॥
 इन्द्रियाण्यश्मविकृति शब्द योनिश्च घातव ॥२६६॥

पाद-टिप्पणी

३६३ (१) ऊँट करभ का अनुवाद ऊँट किया है । करभ हाथी के बच्चा को भी कहते हैं श्रीदत्त ने हाथी अनुवाद किया है परन्तु काँटा अर्थात्

इत्थं मन्त्रिहृदादर्शवैषद्यान्योन्यविम्बिताः ।

तद्भृत्यपैशुनश्वासैर्मालिन्यमभजन्त ते ॥ ३६६ ॥

३६६. इस प्रकार वैशद्य के कारण, अन्योन्य प्रतिविम्बित, मन्त्रियों का हृदय रूप दर्पण, उन भृत्यों के पैशुन श्वासों से मलिन^१ हो गया ।

अथ मार्गपतेरुच्चपदवीं प्राक्क्रमागताम् ।

नासहन्तापरे रम्यां चक्रवाका इवैन्दवीम् ॥ ३६७ ॥

३६७. मार्गपति के पूर्व से क्रमागत, उन्नत एवं रम्य पदवी दूसरे लोगों को उसी प्रकार अभीष्टकर नहीं हुई, जिस प्रकार चक्रवाकों^१ को पूर्ण चान्दनी ।

कटीला घास या पादप हाथी को नहीं ऊंट को प्रिय होता है । बबूल की पत्ती जिसमें काँटा होता है, हाथी नहीं खाता है । परन्तु ऊंट बबूल की पत्ती प्रसन्नता से उसी प्रकार ग्रहण करता है, जिस प्रकार तीली नीम की पत्ती को । अतएव करभ का अनुवाद प्रसंग वर्णन से ऊंट ही बैठता है ।

पंच सहस्र सादी परे, करभ कटिट सत पेत ।

डेठ अहन रण भुंम मह, वही श्रोण मिल रेत ॥

॥ परमाल रासो ॥

पाद-टिप्पणी :

३६६. (१) मलिन : दर्पण पर यदि स्वास पड़ता है तो उस पर भाप की परत बैठ जाती है । दर्पण साफ दिखाई नहीं पड़ता । उसमें प्रतिविम्ब स्पष्ट नहीं होता । भाप साफ कर देने पर दर्पण शुद्ध हो जाता है । मलिनता न होने के कारण उसमें रूप एवं प्रतिविम्ब स्पष्ट देखा जा सकता है ।

पाद-टिप्पणी :

३६७. (१) चक्रवाक : इसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्व वेदों में मिलता है । ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में अश्वमेध की बोलियों की तालिका में इसका नाम है । अथर्व वेद में चक्रवा एवं चकई के दाम्पत्य व्रत का विवरण मिलता है । (ऋ० : २ : ३९ : ३; मै० सं० : ३ : १४ : ३; १३; वा० सं० : २४ : २२, ३२; २५ : ८; अथ० : १४ : २ : ६४) । हंस कुल का पक्षी है । गीत जै. रा. ३-

ऋतु के आरम्भ में उत्तर भारत में इसका आगमन होता है और शीघ्र आरम्भ होते ही चला जाता है । दक्षिणी पूर्वी यूरोप, मध्येशिया, उत्तरी अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण भारत में यह नहीं जाता । उक्त प्रदेशों के सरोवरों, झीलों, नदियों के तट इनको प्रिय है । वहीं प्रायः निवास करते हैं । इनकी बोली कर्कश होती है । इसीलिये कवियों ने इनका नामकरण 'चक्रवाक्' रखा है । कवि कल्पना है कि रात्रि में वह अपनी पत्नी से विलग हो जाता है । चान्दनी रात उसके विरह की रात होती है, जबकि वह सबको प्रिय लगती है । उनका मिलन सूर्योदय के समय पुनः हो जाता है । चक्रवाक अपने जोड़े के साथ रहते हैं । समूह में भी चलते हैं । वह अण्डा देने के लिये घोंसला नहीं बनाते । पर्वतीय गतों एवं छिद्रों में चकई अण्डा देती है । अण्ड फूटते ही बच्चे फुदकने लगते हैं । कवियों की संयोग एवं वियोग सम्बन्धी कोमल व्यंजनायें, इसके साथ सम्बन्धित है । चक्रवाक लगभग एक हाथ लम्बा होता है । इसके शरीर पर विविध रंग के पर होते हैं । पीठ तथा छाती का रंग नारंगी तथा पीछे की ओर का खैरा होता है । बीच में काली और लाल धारियाँ भी होती हैं । पूँछ का रंग हरा होता है । पंखों पर अनेक रंगों का मिश्रण रहता है । यह पर्वतों पर रहना अधिक पसन्द करता है ।

शाङ्गिधर पद्धति में उल्लेख मिलता है कि चन्द्रकिरणों को पीता जीवित रहता है (१ : २३) । इस-

इहास्माभिर्हताः सैदा यद्धीत्या विद्रुतोऽप्ययम् ।

नृपस्यास्य सभाज्येष्ठः स्थापितः कुरुते मदम् ॥ ३६८ ॥

३६८. हमलोगो ने सैधियदो को मार डाला, जिसके भय से भागा हुआ भी, इस राज्य का सभा ज्येष्ठ बनकर, गर्व कर रहा है ।

इत्यादि शृण्वस्तद्भृत्यवर्गान्मार्गपतिस्ततः ।

ताटस्थ्य राजकार्येषु विरक्तः सोऽभजद् रुपा ॥ ३६९ ॥

३६९ इत्यादि बातों को उसके भृत्य से सुनकर, मार्गपति विरक्त होकर, राजकार्यों में क्रोध से तटस्थ रहने लगा ।

बहामखाननयनोत्पाटनेन निज वपुः ।

विशामनाशिपां पात्र जोनराजानकोऽनयत् ॥ ३७० ॥

३७० जोन राजानक वहराम खाँ के नेत्रोत्पाटन के कारण, अपने शरीर का प्रजा के शाप का पात्र बना लिया ।

शस्त्राधिपत्यानौचित्यनिग्रहानुग्रहक्रमैः ।

ग्रहाणामिव तेषां स क्रूरो राहुरिवाभवत् ॥ ३७१ ॥

३७१ शस्त्राधिपत्य के अनुचित निग्रह एव अनुग्रहों के कारण, ग्रहों में राहु^१ के समान, उन (मन्त्रियों) में वह क्रूर हो गया ।

छुन्दानकादिदेशस्थग्राम्याणामनियन्त्रणः ।

लोद्रभूम्यपहारेण तदेशेशोऽपि सोऽभवत् ॥ ३७२ ॥

३७२ अनियन्त्रित उसने छुन्दानक^१ आदि, देश के ग्रामीणों के लोद्र भूमि का अपहरण कर देश का मालिक भी बन गया ।

लिये इसे चन्द्रिकाजीवन एव चन्द्रिकापायी कहत है । कवियों की मान्यता है कि वह अन्धेरी रात्रि में अग्निक्षण खाता है । परन्तु यह इसलिय कहा जाता है कि वह जुगनु को खाता है जो ज्योति तुल्य अन्धेरी रात्रि में चमकते हैं । एक यह भी मान्यता है कि विप देखत ही इसकी आँखें लाल हो जाती हैं ।

चकोर (चुकर) काश्मीर के चट्टानी पहाडियों तथा पवतीय ढाल पर काश्मीर उपत्यका के चारों ओर मिलता है ।

पाद-टिप्पणी ।

३७१. (१) राहु इ० . पाद टिप्पणी जान० श्लोक १६४ तथा ८०९ । जैन० ४

५८५ । राहु नवग्रहों एक पापग्रह है । सिंहिका के गम से उत्पन्न विप्रचित्त का पुत्र था । देवताओं की पक्ति में बैठ कर छल से अमृतपान कर लिया । सूर्य एव चन्द्रमा ने यह कपट विष्णु से कह दिया । चक्र द्वारा विष्णु ने मुण्ड छिन्न कर दिया । अमृतपान के कारण मर नहीं सका । मुण्ड राहु तथा घड केतु ग्रह हो गये । इसी वर के कारण ग्रहण काल में राहु सूर्य एव चन्द्र को ग्रसता है (वायु० २३ ९०, ५२ ३७, ९२ ९, विष्णु० १ ९०, ८० १११, मत्स्य० १ ९, अ० २५० तथा २५१) ।

पाद टिप्पणी

३७२ (१) छुन्दानक किस स्थान के लिये

सैदद्वैधान्तरे लब्धैः सर्वत्र मुषितप्रजः ।
तत्पदारथैर्गृहे पूर्णां कोष्ठागारावलीं व्यधात् ॥ ३७३ ॥

३७३. सैव्यियों के मतभेद के अवसर पर, सर्वत्र प्रजा को लूटकर, प्राप्त होनेवाले उनके पदारथों से घर का कोष्ठागार भर लिया ।

यत् कष्टेनार्जितं लोकैर्वलात्कारहतं धृतम् ।
स्वं ब्रह्मदेयमिति तत् परस्वं वेत्ति लुब्धधीः ॥ ३७४ ॥

३७४. जिसे लोगों ने कष्टपूर्वक अर्जित किया था । उसे बलपूर्वक अपहृत कर लिया । वह लोभी ब्रह्मदेय पराया धन अपना मानता था ।

संगृह्य वाहिनीः सर्वास्तदीयार्हतजीवनैः ।
और्वाग्निरिव तृप्तोऽसौ न बभूव कदाचन ॥ ३७५ ॥

३७५. वह सब वाहिनी (नदी-सेना) को संग्रहीत कर, उनके जीवन (जल-प्राण) को लेकर भी, वड़वाग्नि^१ सदृश, तृप्त नहीं हुआ ।

द्वेषान्निरर्थकाक्षेपे ग्रामे वा नगरान्तरे ।
नाशकद् रक्षितुं कश्चिद् बलिना तेन पीडितम् ॥ ३७६ ॥

३७६. द्वेषवग, अथवा निरर्थ आक्षेपपूर्वक, ग्राम अथवा नगर में उस बली के द्वारा पीडित (व्यक्ति) की कोई रक्षा नहीं कर सका ।

यदि धर्मधिया कश्चित् प्रवृत्तो दीनरक्षणे ।
स तन्महत्तरै राजसदस्याप खलीकृतिम् ॥ ३७७ ॥

३७७. यदि धर्म बुद्धि से, कोई दीन रक्षा हेतु प्रवृत्त हुआ, तो राजसभा में ही, वह उसके अधिकारियों के अभद्रता का पात्र बना ।

स्वप्रमेयेषु वास्तव्यांल्लुब्धा निरपराधिनः ।
अन्येऽपि पीडयामासु रोगा इव नियोगिनः ॥ ३७८ ॥

३७८. अपने प्रमेयों (साध्य) में निरपराधी निवासियों को, दूसरे लोभी अधिकारियों ने भी, रोग की तरह पीडित किया ।

श्रीवर ने छन्दानक लिखा है, निश्चित करना कठिन है । श्रीदत्त ने इसे स्यान् तथा श्रीकण्ठ कौल ने नाम-वाचक शब्द माना है ।

पाद टिप्पणी :

३७५. (१) वड़वाग्नि : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जेत० : श्लोक : ५०६ । यह अग्नि समुद्र

के गर्भ में रहती है । कालिकापुराण के अनुसार काम नाश हेतु शिव ने क्रोधानल उत्पन्न किया था । उसे ब्रह्मा ने घोड़ी अथवा वड़वा रूप में समुद्र को दे दिया । वाल्मीकि रामायण के अनुसार वड़वाग्नि ऋषि का क्रोध स्वरूप तेज है । कल्पांत में विस्तृत होकर संसार को भस्म करता है ।

राजा शिशुर्गतवया बहवः सहाया
 यत्रातिमत्सरभृताश्च मिथः स्वतन्त्राः ।
 राज्याङ्गभङ्गमसमं नृपतेर्दिशन्त-
 स्तत्राचिरात् समुदयन्ति न के ह्यनर्थाः ॥ ३७९ ॥

३७९ जहाँ राजा शिशु^१ हो, और बहुत से वृद्ध सहायक लोग परस्पर अति मात्सर्य युक्त, एव स्वतन्त्र हो, राजा के राज का अग-भग कर रहे हो, वहाँ शीघ्र ही कौन-से अनर्थ उठ खड़े नहीं होते ?

अत्रान्तरे बाह्यदेशे यात्रार्थं यौ विसर्जितौ ।

एदराजानकष्ठकुराह्वदश्चापतुः पुरम् ॥ ३८० ॥

३८० इसी बीच बाह्य देश से, यात्रा के लिये भेजे गये, एद राजानक एव ठक्कुर अहमद मार्गेश के दर्शन के व्याज से, पुर में प्रवेश किये ।

तद्दर्शनापदेशेन श्रुत्वा किमपि मन्त्रिणाम् ।

नगरे नागमद् दूतैर्मार्गेशः शङ्कितो भृशम् ॥ ३८१ ॥

३८१ दूतो द्वारा मन्त्रियो के (पड्यन्त्र) सुनकर, अत्यन्त शक्ति मार्गेश नगर में नहीं गया ।

स सैफडामरेणाशु गत्वा स चकितो गृहे ।

वैदेशिकभटाह्वानात् साशङ्कः सोऽनयन्निशाम् ॥ ३८२ ॥

३८२ सैफ डामर सहित चकित वह घर जाकर, वैदेशिक^१ भटो को बुलाकर, सशंकित हो, उसने रात्रि व्यतीत किया ।

शङ्क्येषु सदनाप्तेषु प्रातस्तन्मतमास्थितः ।

अह्वदष्टकुरो जोनराजानकमथावधीत् ॥ ३८३ ॥

३८३ शकनीय लोगो के प्रातः सदन पहुँचने पर, उमकी सलाह मानकर, अहमद (अल्हाद) ठाकुर ने जोन राजानक का वध कर दिया ।

पाद-टिप्पणी

३७९ (१) शिशु श्रीवर ने शिशु राजा के सम्बन्ध में तथा उससे होनेवाले परिणाम के विषय में एक राजनीतिक सिद्धान्त का प्रतिपादन जैन० • ३ ४७३ में किया है ।

पाद-टिप्पणी

३८२ (१) वैदेशिक भट काश्मीर की

सेना में विदेशी सातवीं शताब्दी से ही प्रथम पाते रहे हैं । सीमान्तवर्ती लडाकू जातियाँ काश्मीर की सेना में स्थान पाती रही हैं । सीमान्तवर्ती जातियो के हिन्दू से मुसलमान हो जाने पर नई स्थिति उत्पन्न हो गयी और विदेशी मुसलम सैनिको पर सैन्यद काश्मीरी सैनिको की अपेक्षा अधिक विश्वास करते थे ।

शस्त्रव्रणमुखोद्गच्छद्रक्तसंसिक्तमण्डपम् ।

तद्गृहे तं शवं दृष्ट्वा न को रोमाञ्चितोऽभवत् ॥ ३८४ ॥

३८४. शस्त्र के घाव से, शस्त्र व्रण मुक्त मुख से निकलते रक्त से मण्डप सिक्त हो गया था और उससे घर उस शव को देखकर, कौन रोमांचित नहीं हो उठा ?

दत्तकन्यस्यं जन्यमवधीद् गृहमागतम् ।

दिव्यं कृत्वापि साश्वस्तं धिग् भोगाभ्यासवासनाम् ॥ ३८५ ॥

३८५. इसने कन्या प्रदाता, गृहगत, एक आश्वस्त्य संवन्त्री का, सपथ खाकर के भी, वव कर डाला—भोगाभ्यास वासना को विककार है !

मिथोऽसहिष्णवो भेदान्मन्त्रिणः प्रभविष्णवः ।

विनश्यन्त्यचिरेणैवं द्रोहेणेत्यपि केचन ॥ ३८६ ॥

३८६. 'भेद के कारण परस्पर असहिष्णु एवं प्रभावशाली मन्त्री लोग इस प्रकार द्रोह से शीघ्र ही नष्ट हो जायगें'—ऐसा कुछ लोगों ने कहा ।

क्रेण्युचुः स यथा सैदानवधीन्मद्रूपैः सह ।

वर्षेणैकेन तत्पापात् तद्वद् व्यापादितोऽग्निभिः ॥ ३८७ ॥

३८७. कुछ लोगों ने कहा—'मद्रों के साथ उसने जिस प्रकार सैय्यियों का वव कर दिया, उसी प्रकार एक वर्ष के भीतर उसी पाप से, वह भी शत्रुओं द्वारा मारा गया ।'

भृत्या वृथैव रक्ष्यन्ते पोषिता ये सहस्रजः ।

नैकोऽपि तेभ्यस्तस्यान्ते प्राणप्राणक्षमोऽभवत् ॥ ३८८ ॥

३८८. वृथा ही सहस्रों भृत्यों का पोषण कर, उनकी रक्षा की जाती है, उनमें से एक भी वन्त में उसकी प्राणरक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ ।

अजितं यद् यथैवानु तद् तथैव हृतं परैः ।

न तिष्ठन्ति चिरं गेहेष्वन्यायोपाजिताः त्रियः ॥ ३८९ ॥

३८९. जो जिस प्रकार अजित किया गया, शीघ्र ही शत्रुओं ने उसी प्रकार (उसे) अपहृत कर लिया । पाप द्वारा अजित सन्तियाँ चिरकाल तक घरों में नहीं रहतीं ।

पापं पुण्यं बलं दास्यं परं स्त्रं दूषणं स्तुतिम् ।

नो वेत्ति राजपुरुषः कदाचिद् विधुरे विधौ ॥ ३९० ॥

३९०. विद्याता के प्रतिकूल होने पर, राजपुरुष पाप, पुण्य, बल, वक्षता, पर अपना दूषण-स्तुति कुछ नहीं समझता ।

वैदेशिकभटैः किं नस्त्याज्या सैन्याधिकारिता ।

इत्युक्तोऽपि म पुत्रेण नाग्रहीद् भाग्यवर्जितः ॥ ३९१ ॥

३९१ 'विदेशी भटो से क्या लाभ ? सैन्याधिकार त्यागिये,'—इस प्रकार पुत्र के कहने पर, भाग्यहीन उसने उसकी बात को ग्रहण नहीं किया ।

विपरीता मतिः पुत्रे विश्वासः परसेवके ।

जायते गतभाग्यानां विनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ ३९२ ॥

३९२ विनाश उपस्थित होने पर, अभागो की पुत्र के प्रति विपरित एव पर-सेवक पर, विश्वास-वृद्धि हो जाती है ।

वैदेशिकभटान् मेने यत् सजातीनिवान्वहम् ।

अत्रत्याज् शस्त्रिणो वीरान् मेने भीरून् परानिव ॥ ३९३ ॥

३९३. (उसने) सर्वदा विदेशी भटो को सजातीय (महवन्धु) सहज माना और यहाँ के शस्त्रधारी वीरो को भी शत्रु तुल्य मानता था ।

स सैफडामरो वीरवरस्तच्छौर्यशङ्कितः ।

भीतः समर्पिपच्छस्त्रं वीरवृत्तेर्न निश्चयः ॥ ३९४ ॥

३९४ उसके शौर्य से शकित, वीरवर सैफ डामर डर कर, शस्त्र समर्पित कर दिया—वीर वृत्ति का भी कुछ निश्चय नहीं होता ।

ज्यल्लालठक्कुरस्तावद् राजधान्यङ्गनस्थितः ।

वद्वोऽन्तः स्वैर्द्वारपालैर्गतिः क विधुरे विधौ ॥ ३९५ ॥

३९५ तब तक जल्लाल ठाकुर जो राजप्रासाद के प्रागण में था, अपने द्वारपालो द्वारा अन्त पुर में बाँध दिया गया—विधाता के विपरीत कहा गति है ?

भास्वानपि प्रतिदिनं मृदुतौण्यभिन्न-

स्तां तां विभतिं गगनान्तरगोऽप्यवस्थाम् ।

नित्याकुलस्य मनुजस्य बलप्रभावे

को निश्चयो भवति तत्र विचित्रवृत्तौ ॥ ३९६ ॥

३९६ सूर्य भी प्रतिदिन मृदु एव उष्णता से भिन्न-भिन्न हाकर, आकाश में गमन करते हुये, तत्-तत् अवस्था को धारण करता है, तो नित्य आकुल विचित्र वृत्तिवाले प्रभाव का, क्या निश्चय हो सकता है ?

मसोदडामराद्यास्ते छिन्ननौसेतु वन्धनाः ।

प्राग्वत् ते जालद्रगडं विदधुः सैन्यसङ्ग्रहम् ॥ ३९७ ॥

३९७. वे मसूद डामर आदि नौ-सेतुवन्धन को काट दिये और पहले के समान जाल द्रगड^१ में सैन्य सङ्ग्रह किये ।

शृंगारसीहनिकटं ययुः शूरपुराध्वना ।

ठक्कुराः सालियाद्यास्तेऽप्यसक्ताः स्वयमागताः ।

कारागारान्तरं प्रापुः कस्य स्युः सम्पदः स्थिराः ॥ ३९८ ॥

३९८. शूरपुर^१ के मार्ग से शृंगार सींह^२ के निकट ठाकुर सालिय आदि चले गये थे, वे भी असक्त होकर आ गये—और कारागार में वन्द कर दिये गये—‘किसकी सम्पत्तियाँ स्थिर रहती हैं?’

जेराकनामा तद्भृत्यः साहसी नगरान्तरात् ।

ठक्कुराह्लादतुरगान् हत्वा राजपुरीं ययौ ॥ ३९९ ॥

३९९. उसका साहसी भृत्य जेराक^१ नगर से ठक्कुर अह्लाद (अहमद) के तुरंगों को अपहृत कर राजपुरी चला गया ।

इत्थं तत्सैदवधतो जोनराजावधोऽधिकः ।

पाददाहादिवासहो गलरोगो व्यथावहः ॥ ४०० ॥

४००. इस प्रकार सैय्यद वध^१ की अपेक्षा जोनराज का वध अधिक कष्टकर हुआ, जिस प्रकार कि पाददाह की अपेक्षा गले का रोग अधिक असह्य होता है ।

पाद-टिप्पणी :

‘द्रगड’ पाठ—वन्धई ।

३९७. (१) जाल द्रगड : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : १०४; शुक्र० : १ : ३५, १४५, २२८ तथा हैदर मल्लिक : पाण्डु० : २०२ वी० तथा २०३ ए० ।

पाद-टिप्पणी :

‘सींह’ पाठ—वन्धई ।

३९८. (१) शूरपुर : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : १ : १ : १०७, १६४; १ : ५ : २२; ३ : ४२७; ४ : ४४२, ५२६, ५३१, ५५८, ५८४, ६०६ तथा राज० : ५ : ३९ ।

(२) सींह = सिंह : ग्यारहवीं शताब्दी से

ही सींह एवं सिंह समानार्थक शब्द हो गये थे । राजस्थान में बकवर के समय में राजस्थानी में राणाप्रताप सिंह को प्रताप नींह लिखा मिलता है ।

पाद-टिप्पणी :

३९९. (१) जेराक : फारसी शब्द जीराक प्रतीत होता है । नामवाचक शब्द है । अर्थ प्रतिभा-शील, चतुर तथा होशियार है ।

पाद-टिप्पणी :

४००. (१) सैद वध : कलकत्ता में सैन्य वध तथा वन्धई में सैद वध पाठ है । परन्तु श्लोक ४४७ के सन्दर्भ से सैद पाठ ठीक किया गया है ।

यावन्नरस्त्यजति कार्यकृदेकचिन्तां
चिन्तान्तरं सृजति तावदमुत्स्य घाता ।
घाते क्रशिमिनि शशिनः किल पूर्णिमाप्तौ

सञ्जायते द्युतिहरो ग्रहणप्रचारः ॥ ४०१ ॥

४०१ जब तक मनुष्य एक कार्य की चिन्ता त्यागता है तब तक विघाता उसके लिये दूसरी चिन्ता का विषय उपस्थित कर देता है । पूर्णिमा आने पर चन्द्रमा की कृपता, समाप्त होते ही, (पूर्ण होने पर) कान्ति के हरणकर्ता ग्रहण का भय उपस्थित हो जाता है । (अथवा पुनः हास की स्थिति उपस्थित हो जाती है) ।

निष्प्रतिद्वन्द्वि निश्चिन्त्यं मार्गेशो यावदाप सः ।

तावच्छुश्राव सप्राप्तं पुत्रमादमखानजम् ॥ ४०२ ॥

४०२ जब तक, मार्गेश ने प्रतिद्वन्दिता रहित, निश्चिन्त्यता प्राप्त की, तब तक आदम खान के पुत्र (फतह खान) का आगमन सुना ।

स यथाम्यन्तरं प्राप्तो यथा राज्यं गृहीतवान् ।

बाल्यात् प्रभृति वृत्तान्तं तत् खानस्य ब्रवीम्यहम् ॥ ४०३ ॥

४०३ वह जिस प्रकार (काश्मीर में) भीतर आया, राज्य प्राप्त किया, बाल्यावस्था से लेकर, खान का वह वृत्तान्त कहता हू ।

पितुः श्रीजैननृपतेः प्रमये निर्गतो बहिः ।

आदामखानो वित्राणः प्रपेदे मद्रमण्डलम् ॥ ४०४ ॥

४०४ पिता जन नृपति की मृत्यु पर, बिना रक्षक के, आदम खान बाहर निकल गया और मद्र^१ मण्डल में पहुँचा ।

फतह खान का वायत्काल

भावीश्वरांशतैश्वर्यप्राप्तिसूचकपर्वणि

शिवरात्र्यन्तरे तस्य तत्रस्थस्य सुतोऽजनि ॥ ४०५ ॥

४०५ भावी राज्य एव ऐश्वर्य प्राप्ति के सूचक पर्व शिवरात्रि की रात्रि में वहाँ पर स्थित आदम खान को उत्पन्न हुआ ।

पाद-टिप्पणी

४०४ (१) मद्र परशियन इतिहासकारों का मत है कि वहराम खान का विवाह मद्र की राज-कन्या से हुआ था । परशियन इतिहासकार मद्र को जम्भू मानते हैं । द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जौन० ७१२-७१४, जैन० २ १४८-१५३, १ १ १ . ४७ ।

पाद-टिप्पणी

४०५ (१) जन्म स्थान : श्रीवर के वर्णन से प्रतीत होता है कि फतह खा का जन्म मद्र देश में हुआ था । शुक ने स्पष्ट लिखा है कि फतह का जन्म काश्मीर के बाहर हुआ और काश्मीर के बाहर ही मर भी गया (शुक० १ : १६५) ।

जनक्रेऽस्य दिवं याते तुरुष्कसमरान्तरे ।
मातामहगृहे चन्द्रो ववृधेऽम्बुनिधाविव ॥ ४०६ ॥

४०६. तुरुष्कों के समर^१ में इसके पिता के मरने पर, मातामह के घर उसी प्रकार प्रवृद्ध हुआ, जिस प्रकार चन्द्रमा^२ समुद्र में ।

काले तात्तारखानेन रक्षितः स गतः स्वयम् ।
जालन्धरमहीपीठे निनाय कतिचित् समाः ॥ ४०७ ॥

४०७. समय पर तातार खाँ^१ द्वारा रक्षित, वह स्वयं जाकर, जालन्धर^२ भूमिपीठ में कुछ वर्ष व्यतीत किया ।

पाद-टिप्पणी :

४०६. (१) समर : आदम खां राजा जम्मू श्री माणिक्य देव के पक्ष से लड़ता तुकों के युद्ध में मारा गया था (म्युनिख० : एम० ७८ ए०) ।

(२) चन्द्रमा : पौराणिक गाथा है कि चन्द्रमा समुद्र से उत्पन्न हुआ और त्रार्वक्य प्राप्त किया था ।

पाद-टिप्पणी :

४०७. (१) तातार खाँ : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ३ : ३१९; ४ : ३२, २१६ ।

(२) जालन्धर : भारतीय साहित्य में जालन्धर का बहुत उल्लेख मिलता है । यह अभि-भक्त पूर्व पंजाव का एक जिला था और आज भी पंजाबी सूबा का एक जिला है । इसका क्षेत्रफल १९४१० वर्ग मील है । बाहरी हिमालय-कांगड़ा की पहाड़ियों के अतिरिक्त उपजाऊ मैदान भी है । इसमें ६४१५ ग्राम तथा ३७ नगर हैं । कांगड़ा तथा ज्वालामुखी धार्मिक केन्द्र है । व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है । गेहूँ मुख्य पैदावार है । जाट, खोखर और गूजर जिले की मुख्य जातियाँ हैं ।

स्कन्दपुराण की तालिका में इसकी क्रम संख्या चौदहवीं तथा ग्रामों की संख्या ९ लाख दी गयी है । मुसलिम आक्रमण तथा पंजाद उनके आधीन चले पर, जालन्धर राज्य मुख्यतः कांगड़ा में सीमित हो गया था । सातवीं शताब्दी में हुएन्त्सांग ने जालन्धर

जै. रा. : ३१

का उल्लेख किया है, जो १००० ली अर्थात् १६७ मील लम्बा तथा ८०० ली अर्थात् १३३ मील चौड़ा उत्तर से दक्षिण था । उसके समय में जालन्धर राजधानी था । नगर १२ या १३ ली अर्थात् दो वर्ग मील में विस्तृत था । पद्यपुराण के अनुसार जालन्धर नगर दैत्यराज जालन्धर की राजधानी था । अत्याचार के कारण शिव द्वारा दैत्य का वध किया गया । उसके शव को योगनियाँ भक्षण कर गयीं । उसके मृत्यु के सम्बन्ध में एक और कथा है । शिव ने उसे पर्वत से दवा दिया । जालन्धर के मुख से अग्नि-ज्वाला निकलने लगी । वह ज्वालामुखी के अन्दर था । उसके शरीर का पीठ दोआव का ऊपरी भाग था । जालन्धरपीठ नाम से विख्यात था । उसका पैर नीचे की तरफ मुलतान तक फैला था । जालन्धर का राज्य प्राचीन काल से बहुत प्रसिद्ध रहा है । राजा वे सोमवंशी थे । महाभारत में यहाँ का राजा कौरवों की तरफ से युद्ध किया था । पाँचवीं शताब्दी में त्रिगर्त राजा काश्मीर के राजा द्वारा प्रवेश को दिया गया था । सातवीं शताब्दी में यहाँ के राजा ने हुएन्त्सांग का अतिथ्य किया था । सन् ८०४ ई० में जालन्धर राज का नाम जयचन्द्र मिलता है । जालन्धर तीर्थ है (ब्रह्म० : ४ : ४४ : ९५) । सर्ता देवी की एक मूर्ति विश्वमुक्ती का स्थान तथा पितरों के श्राद्धादि के लिये पवित्र माना गया है (मत्स्य० : १३ : ४६; २२ : ६४) ।

ज्यहाङ्गरोऽस्य मार्गेशः सैदभीत्या गतो बहिः ।

सोपधिं व्यसृजल्लेखं घर्तुं पैतामहं पदम् ॥ ४०८ ॥

४०८ सैध्विदो के भय से बहिर्गंत, मार्गेश जहाँगीर ने पैतामह पद प्राप्त करने के लिये, इसके पास छलपूर्ण पत्र भेजा ।

तत्तारखानप्रमये ततः खानमिमं पुनः ।

सुतो हस्सनखानोऽस्य कञ्चित् कालमपालयत् ॥ ४०९ ॥

४०९ तातार खान की मृत्यु^१ हो जाने पर, उसके पुत्र हस्सन खान^१ ने पुनः उस खान^२ का कुछ समय तक पालन-पोषण किया ।

तुरुष्कान् वञ्चयित्वाथ विहितोत्साहसाहसः ।

खानोऽमितपरीवारः प्रापद् ग्रहणमण्डलम् ॥ ४१० ॥

४१० तुरुष्को को ठगकर, महान उत्साह करके, (फतह) खान अमित भृत्यो के साथ ग्रहण^१ मण्डल ने प्रविष्ट हुआ ।

फतह खान राजपुरी में .

इतः काश्मीरिका दूता मार्गेशेन विसर्जिताः ।

शृङ्गारसीहेनानीतस्तावद् राजपुरीं प्रति ॥ ४११ ॥

४११ वहाँ से जब तक, मार्गेश ने काश्मीरी दूतों को भेजा, तबतक शृंगार सीह उसे राजपुरी^२ लाया ।

पाद-टिप्पणी

४०९ (१) मृत्यु तबक्काते अकबरी में उल्लेख है—'फतह खान बिन आदम खान जो तातार खा की मृत्यु के पश्चात् पजाब का हाकिम हो गया था, जालन्धर से अपने पैतृक राज्य के लिये राजौरी पहुँचा वही निवास करने लगा (४५४) ।'

(२) खान = फतह खान तबक्काते अकबरी में उल्लेख है—'फतह खा पुत्र आदम खा जो कि तातार खा की मृत्यु के पश्चात् पजाब का सूबेदार हो गया था, वह जालन्धर से राजपुरी आया । वहाँ वह ठहर गया । ताकि वह अपना पैतृक राज्य प्राप्त करे (४५४-६८६) ।'

पाद-टिप्पणी

४१० (१) ग्रहण श्री कण्ठ कौल ने ग्रहण नामवाचक शब्द माना है । श्रीदत्त ने ग्रहण देश

अनुवाद किया है (३ ३०९) । अनुसन्धान अपेक्षित है ।

यहाँ ग्रहण का अर्थ मैं साधारण ग्रहण लगाता हूँ । चन्द्रमा की उपमा फतह खान से दी गयी है । राहू ग्रहण काल में चन्द्रमण्डल को ग्रसता है । फतह खा भी उसी प्रकार कश्मीर स्वरूप ग्रहण-मण्डल में प्रवेश किया, जहाँ उसे सफलता के स्थान पर क्षति उठानी पड़ी थी ।

पाद-टिप्पणी

४११. (१) राजपुरी = राजौरी तबक्काते अकबरी में उल्लेख है—'फतह खा राजौरी में आ गया (४५४) ।' फिरिस्ता लिखता है—'इस समय फतह खा राजौरी आया और जलिनदुर पहुँचा ताकि वह परिस्थियों का लाभ उठा सके (४८४) ।'

ततो राजपुरीनाथो मार्गेशद्वेषनिष्ठितः ।

फताहखानमानिन्ये स्वान्तिकं स्वाश्रयेच्छया ॥ ४१२ ॥

४१२. मार्गेश के द्वेषी, राजपुरी के स्वामी, अपने आश्रय की इच्छा से, फतह खान को अपने पास लाया ।

जोनराजानकवधात् कश्मीरेभ्यो विनिर्गतैः ।

डामरैरैधराजानठक्कुरदौलतादिभिः ॥ ४१३ ॥

४१३. जोन राजानक के वध पश्चात् काश्मीर से निकले हुए, एद राजानक, ठक्कुर दौलत आदि डामर—

तत्रस्थैः शिश्रिये खानस्तरुर्मधुकरैरिव ।

प्रथां निन्ये यथा पूर्वं वुप्पेदेवात्मजोऽभवत् ॥ ४१४ ॥

४१४. जो कि वहाँ स्थित थे, खान का उसी प्रकार आश्रय^१ ग्रहण कर लिये, जिस प्रकार मधुकर वृक्ष का और पूर्वकालीन वुप्पेदेव^२, आत्मज (जस्सक) के समान, उसे प्रख्यात किया ।

यौनसम्बन्धवद्भोऽपि मार्गैरक्षाधिकारभाक् ।

मसोदनायकः सोऽपि खानपक्षं समाश्रयत् ॥ ४१५ ॥

४१५. मार्गैरक्षाधिकारी मसोद नायक वैवाहिक सम्बन्ध से बद्ध होने पर भी, खान का पक्ष ग्रहण किया ।

दीनो ग्राम्यजनो दुष्टबहुनायकतादितः ।

तदागमनवार्ता तां क्षते क्षारमिवाविदत् ॥ ४१६ ॥

४१६. दीन एवं बहुत से नायत्व^१ से पीड़ित ग्रामीण जन उसके आगमन की बात को कटे पर, नमक के समान जाने ।

पाद-टिप्पणी :

४१४. (१) आश्रय : फिरिस्ता लिखता है— 'फतह खां से काश्मीर के बहुत से विगड़े उमरे मिल गये और काश्मीर की तरफ बढ़े (४८४) ।'

(२) वुप्प देवात्मज : वुप्प देव काश्मीर का राजा (सन् ११७१ से ११८१ ई०) था । उसके भाई का नाम जस्सक था । वह काश्मीर का राजा (सन् ११८१-११९९ ई०) वुप्पदेव या वुप्पदेव की मृत्यु के पश्चात् हुआ था । फतह खान को जिस प्रकार सहायकगण राजा बनाना चाहते थे, उसी

प्रकार लवन्यों ने वुप्पदेव की मृत्यु के पश्चात् जस्सक का अभिषेक कर दिया था (द्रष्टव्य : जोन० : श्लोक ५६-६५) । जोनराज जस्सक को अनुज लिखता है, जब कि श्रीवर उसे आत्मज लिखता है । जोनराज ही श्रीवर का स्रोत है अतएव जोनराज का ही मत ठीक है ।

पाद-टिप्पणी :

४१६. (१) नायक : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : ४४२, ४७३ ।

मापराधणिकन्यायप्रेष्यब्रूद्धसेवकाः ।

चौरा विटा दरिद्राश्च तुत्पुः खानवार्तया ॥ ४१७ ॥

४१७ अपराधी एव ऋणी जो कि एक भूत्य के समान सेवक बना लिये गये थे, वे एव चोर, विट, दरिद्र, लोग खान के आने की वार्ता से प्रसन्न हुए ।

ग्रामे वा नगरे वापि त्यक्त्वा गृहकुटुम्बकम् ।

बद्धाशो राजविभवे न कः प्राप तदन्तिकम् ॥ ४१८ ॥

४१८ ग्रामो अथवा नगर मे, गृह एव कुटुम्ब त्यागकर, राजवीभव मे आशा रखनेवाला कौन उसके साथ नही पहुँचा ?

तांस्तान् देशाद् विनिर्यातान् खानोऽगृह्णात् समृद्धिमान् ।

एच्छन्लब्धप्रतिष्ठः स राज्ञः प्रत्यभियोगिताम् ॥ ४१९ ॥

४१९ समृद्ध एव लब्धप्रतिष्ठ, उस खान ने देश से निर्वासित, तत् तत् लोगो को साथ मे कर लिया और राजा से प्रतियोगिता की इच्छा की ।

पौत्रः श्रीजैननृपतेर्योग्योऽयमिति सर्वतः ।

त्यक्त्वान्यान् सर्वराष्ट्रेभ्यस्तमेवाशिथियज्जनः ॥ ४२० ॥

४२० यह श्री जैन नृपति का पौत्र^१ योग्य है, अतः सब राष्ट्रो से लोग उसका आश्रय ग्रहण किये ।

तद्वार्ताश्रवणात् तुष्ठाश्चौराद्याश्छन्नमास्थिताः ।

तत्कालमुत्प्लवन्ति स्म मत्स्या इव तडागगाः ॥ ४२१ ॥

४२१ उसके आगमन की बात सुनकर, छिपकर स्थित चोर आदि लोग, उसी समय तडाग-गत मछलियो के समान चंचल हो (उछल) उठे ।

न मम महती सेनैकोऽरिर्जितोऽस्त्यपरो महान्

क्षितिरतिबलै रुद्धा भिन्नाः परैश्चरसेवकाः ।

स वरतुरगोऽस्वस्थः कोशे न चाधिकृतो हित-

स्तरुमिव घुणास्तास्ताश्चिन्तास्तुदन्ति विभुं न कम् ॥ ४२२ ॥

४२२. मेरी सेना बडी नही है, एक शत्रु को जीत लिया, किन्तु दूसरा महान शत्रु है । पृथ्वी को अति प्रबल लोग आक्रान्त कर लिये हैं । शत्रुओ ने चर सेवको को फोड लिया है । वह श्रेष्ठ अश्व अस्वस्थ है, और कोश मे हित अधिकृत नही है, इस प्रकार वृक्ष को घुन के समान तत् तत् चिन्ताये किस राजा को व्यथित नही करती ?

पाद-टिप्पणी

४२० (१) पौत्र तबकाले अकबरी में उल्लेख है—'क्योंकि वह जैनुल आबदीन का पौत्र था, अतएव वे लोग जो अमीरों में साहसी थे, वे उसके

पास आये और सैय्यद भी उसके पास बडी सख्या मे पहुँचे । एक एक को इनाम आदि देकर उन्हें भविष्य में और देने की आशा दिया (४५४-६८६) ।'

तुष्टो ज्यहाङ्गिरो यावत् तत्प्राप्त्या प्रेषितोपधिः ।

तावत् तन्मतगं ज्ञात्वा सचिन्तः समयद्यत ॥ ४२३ ॥

४२३. छलपूर्ण पत्र भेजनेवाला जहाँगीर^१, उस (खान) के जाने से, तबतक उसके मत में स्थित, जानकर सचिन्त हो गया ।

अहितोन्मूलनोद्भूतदेशैकविभवाप्तितः ।

सुखेच्छुः प्रत्युत प्रापद्दुःखमुद्भूतविप्लवः ॥ ४२४ ॥

४२४. शत्रुओं के उन्मूलन से, देश का सब वैभव प्राप्त करने के कारण सुखेच्छुक (जहाँगीर) विप्लवग्रस्त होने से उल्टे दुःख का भागी बना ।

प्रवर्धमानया नित्यं खानागमनवार्तया ।

वेपमानोऽभवल्लोको वात्ययेव वनावलिः ॥ ४२५ ॥

४२५. नित्य बढ़ती हुई, खान आगमन की वार्ता से, लोग दात (बन्वड़) से, वन पंक्ति के समान काँप उठे ।

चन्वि वार्ता :

चाक्रिकारचतुराः खानमन्त्रिणोऽथ जिर्गापवः ।

इत्थंलैखाङ्कितं दूत व्यसृजन् मार्गपं प्रति ॥ ४२६ ॥

४२६. जीतने के लिये इच्छुक, चाक्रिक एवं चतुर खान के मन्त्रियों ने मार्गपति^१ के पास इस प्रकार के लेख के साथ, दूत को भेजा—

भो भो मार्गपते सर्वसर्वखर्चितविक्रमः ।

काश्मीरान्तः सुपर्वेव भवांश्चर्चितसद्यशाः ॥ ४२७ ॥

४२७. 'भो ! भो !! मार्गपते !!! गर्वाधिक्य से सब लोगों का पराक्रम दबा देनेवाले, और सर्वकीर्तिपात्र आप, काश्मीर के अन्य देवोपम हैं—

पाद-टिप्पणी :

४२३. (१) जहाँगीर : तबकाले बकवरी ने उल्लेख है—'फतह खां इस बात की प्रतीक्षा किया करता था कि जहाँगीर बाकरी सबसे पहले, बाकरी उससे भेंट करेगा । जहाँगीर बाकरी इन भय से कि उसके विरोधियों ने सर्वप्रथम उससे भेंट की है, फतह खां के पास न गया, और उनको काश्मीर की विजय करने की इच्छा करने से मना किया (४५४-६८६) ।'

किरिस्ता लिखता है—'फतह खां को आधा यी कि जहाँगीर मारे, उसको सहायता करेगा परन्तु राजा की सफलता देव कर, उसका दल राजा से मिल गया (४८४) ।'

पाद-टिप्पणी :

४२६. (१) मार्गप : मार्गप : जहाँगीर ।

पाद-टिप्पणी :

श्लोक ४२६-४३० तक मन्वेग-मन्त्र का वर्णन है ।

४२७. (१) मार्गपति : मार्गप इब्राहीम ।

सोऽय खानस्त्वयानीतो लेखैस्तौरुष्कदेशतः ।

उपेक्ष्यते कुलस्वामी कथ मार्गपतेऽधुना ॥ ४२८ ॥

४२८ लखो द्वारा तुरुष्क देश से इस खान को तुम्ही लाय हो, हे । मार्गपति ॥ आप कुल स्वामी की उपेक्षा क्यों कर रहे हो ?

स्वय कृत कथ कार्यं पश्चात्तापाय जायते ।

शिशौ राज्य परिस्थाप्य भुज्यते मण्डल परैः ॥ ४२९ ॥

४२९ 'स्वय किया हुआ काय पश्चात्ताप के लिये कैसे हो गया ? शिशु के ऊपर राज्यभार डालकर, दूसरे लोग मण्डल का भोग कर रहे हैं,—

व्यवहारोचितः शुद्धः सोऽय किं तिष्ठते बहिः ।

अथवा पितृभाग चेत् प्रयच्छस्यस्य मण्डलात् ॥ ४३० ॥

४३० व्यवहारी चित एव शुद्ध यह क्यों मण्डल के बाहर स्थित है ? अथवा यदि मण्डल (कश्मीर) से इसका पितृभाग दे दैते हो तो—

बहिरेवास्त्वय राजाप्ययमस्त्वन्तरे स्थितः ।

अथ कि बहुनोक्तेन मान्यो यदि न तेऽस्त्ययम् ॥ ४३१ ॥

४३१ यह बाहर ही स्थित रहे । भीतर यह बालक मुहम्मदशाह राजा बना रहे । अधिक कहने से क्या लाभ है ? यदि तुम्हे यह मान्य नहीं है, तो—

रणोभयबलवघात् पाप ते परिणस्यति ।

श्रुत्वेति लेख मार्गेशः खानदूतोपदर्शितम् ॥ ४३२ ॥

४३२ युद्ध में दोनों सेनाओं के वध का पाप तुम पर फलगा ।' खान के दूत द्वारा प्रदर्शित, इस प्रकार का लेख सुनकर,—

प्रत्युत्तरमय पत्र तस्मै दत्त्वाब्रवीदिति ।

भो भो मण्डलगोप्तारो भोक्तारो नृपसम्पदाम् ॥ ४३३ ॥

४३३ मार्गेश ने प्रत्युत्तर युक्त पत्र उसे देकर, इस प्रकार कहा—'भो । भो ॥ मण्डल रक्षक नृप सम्पत्तियों के भोक्ता—

सर्वथा हितकर्तारः पुराणोक्तं विचार्यताम् ।

कश्मीराः पार्वती तत्र राजा ज्ञेयः शिवाशजः ॥ ४३४ ॥

४३४ 'एव सर्वथा हितकर्तागण पुराणोक्त इस पर विचार करो— काश्मीर भूमि पार्वती' है, वहाँ का राजा शिवाशज है,—

पाद टिप्पणी

४२८ (१) तुरुष्क देश पूर्वकालीन अवि भाजित पजाब से तात्पर्य है ।

पाद टिप्पणी

४३४ (१) काश्मीर पावती नीलमत का श्लोक क्षमन्द्र कल्हण, श्रीवर न उद्धृत किया है ।

नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता ।

देशेऽस्मिंस्तपसा राज्यं प्राप्यते न पराक्रमैः ॥ ४३५ ॥

४३५. 'कल्याणच्छुक् विद्वान को दुष्ट होने पर भी उसकी उपेक्षा अथवा अपमान नहीं करना चाहिए । इस देश में तपस्या द्वारा राज्य प्राप्त होता है, न कि पराक्रमों' से,—

अन्यथादमखानाद्यैः किं नाप्तं स्वक्रमोचितम् ।

अन्यथाप्येतन्न चिरादनौचित्यचितं फलम् ॥ ४३६ ॥

४३६. 'नहीं तो आदम खान आदि लोगों ने अपने क्रमागत (राज्य) को क्यों नहीं प्राप्त किया ? चिरकाल तक अनौचित्य फलित नहीं होता ।

क्रमेण येनायातोऽसौ तं त्यक्त्वा त्वद्वलार्थिनः ।

सति राज्यस्य विघ्नाय प्रवेशो दीयते कथम् ॥ ४३७ ॥

४३७. 'जिस क्रम से वह आया उसे त्यागकर, राजा के रहते विघ्न हेतु, उसे प्रवेश कैसे दिया जाय ?

न मयायं धृतो राज्ये वालोऽप्यन्याभिपेक्षितः ।

कः शक्नोत्यधुना हन्तुं मयि सन्निहिते स्थिते ॥ ४३८ ॥

४३८. 'मैंने इसे राज्यपर नहीं वैठाया है, बल्कि बालक (राजा) का अन्य लोगों ने अभिषेक कर दिया, अब इसे मेरे निकट स्थित रहते, कौन मार सकता है ?

नीलमतपुराण के इस सिद्धांत को जोन, श्रीवर ने भी अपने राजतरंगिणियों में उद्धरण देकर, इस सिद्धांत को स्वीकार किया है । नीलमतपुराण में श्लोक का निम्नलिखित रूप मिलता है—

कश्मीरायां तथा राजा त्वया ज्ञेयो हरांशजः ।

तस्यावज्ञा न कर्तव्या सततं भूतिमिच्छता ॥

२४६

क्षेमेन्द्र ने लोकप्रकाश में निम्नलिखित रूप से दिया है—

सती च पार्वती ज्ञेया राजा ज्ञेयो हरांशजः ।

तेन नामांकिता यत्र कृताश्च नगरादयः ॥

पृष्ठ : ६१, श्लोक ३ ।

कल्हण ने भगवान श्री कृष्ण की वाणी उद्धृत किया है—

कश्मीराः पार्वती तत्र राजा ज्ञेयः शिवांशजः ।

नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता ॥

१ : ७२ ।

जोनराज ने भी उक्त श्लोक कुछ भिन्न शब्दावली के साथ लिखा है—

काश्मीराः पार्वती तत्र राजा ज्ञेयो हरांशजः ।

इत्ये तत्प्रत्यमायेव यस्यासी चक्षुषां त्रयम् ॥ १३४

नीलमतपुराण में इसी मत का प्रतिपादन किया है, जिसे परवर्ती लेखकों ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है—

यैव देवी उमा शैव कश्मीरा नृपसत्तम ।

आसीत सरपूर्ण जलं सुरम्यं सुमनोहरम् ॥ १२ ॥

पाद-टिप्पणी :

४३५. (१) पराक्रम-पुण्य : श्रीवर ने उक्त श्लोक में रा० : १ : ३९ का भाव दुहराया है—

विजीयते पुण्य बलैर्वलैर्यत्तु न शास्त्रिणाम् ।

परलोकात् ततो भीतिर्यस्मिन् निवसतां परम् ॥ ३९ ॥

[उस पर पुण्य बल द्वारा ही विजय प्राप्त किया जा सकता है । अतएव वहाँ के निवासी केवल परलोक से भयभीत रहते हैं न कि शस्त्रधारियों से ।]

खानोऽप्य सर्वथा पूज्यो यद्यस्मिन्मतमिच्छति ।

अग्रसरारुणः सूर्यः पूज्यते ह्युदयोन्मुखः ॥ ४३९ ॥

४३९ 'यदि यह खान मेरा मत मानता है, तो सर्वथा पूजनीय है, अरुण को अग्रसर करके, उदयोन्मुख सूर्य पूजित होता है ।

श्रियः कृतघ्नभावाप्ता न सुखाय चिरं नृणाम् ।

भोगा रोगाय देहानामपथ्याशनसंभृताः ॥ ४४० ॥

४४० 'कृतघ्नभाव प्राप्त, सम्पत्तियाँ चिरकाल तक मनुष्यों के सुख के लिये नहीं होतीं, अपथ्य-अशन युक्त भोग, शरीर के रोग के लिये ही होते हैं ।

किं वान्यत् सैदहस्तस्थो यद्वद् राजा विमोचितः ।

तद्वत् तद्वस्तगः सोऽयं प्राप्यते तद् विधेर्मतम् ॥ ४४१ ॥

४४१ 'दूसरा क्या कहा जाय ? जिस प्रकार राजा सैय्यदो के हाथों से मुक्त किया गया, उपी प्रकार उनके हस्तगत यह प्राप्त किया जाय—'यही विधाता की इच्छा है ?'

फतह खा का आक्रमण

इति लेख विमृज्यैतत्पक्षपातात् क्रुधान्वितः ।

रथ्याधिकारं जग्राह मसोदस्य ज्यहाङ्गिरः ॥ ४४२ ॥

४४२ इसके पक्षपात के कारण क्रोधान्वित जहाँगीर, इस प्रकार का लेख भेजकर, मसोद का रक्षाधिकार ले लिया ।

बहामनायकदीनां दत्त्वा तन्मार्गरक्षणम् ।

शृङ्गारराजानकादीन् स्थामार्थं व्यसृजद् द्रुतम् ॥ ४४३ ॥

४४३ वह मार्ग रक्षाधिकार बहराम नायकादि को देकर, शीघ्र ही शृंगार राजानक आदि को स्थाम के लिये भेजा ।

खान विप्लव

अथ खान पुरस्कृत्य नायकोऽसुखदायकः ।

क्रुद्धः पथोऽपहरणात् प्रापच्छूरपुरान्तरम् ॥ ४४४ ॥

४४४ खान को आगे कर, क्रुद्ध एव असुखदायक, वह नायक' मार्ग भ्रष्ट होने से शूरपुर पहुँचा ।

पाद-टिप्पणी

४४० 'सभृत' पाठ-वन्वई ।

पाद-टिप्पणी

४४४ (१) नायक प्राचीन काल में नायक

दश ग्रामों के ऊपर अधिकारी होता था । कौटिल्य एव शुक दोनों ने इसका उल्लेख किया है (अर्थ० १ १२) । कौटिल्य ने बीस हाथियों या अश्वों के अध्यक्ष को नायक माना है ।

तद्भृत्याः खशडौम्बाद्यास्तद्विसृष्टाः पदे पदे ।

देशे मडवराज्यान्तश्चक्रुत्पिञ्जमञ्जसा ॥ ४४५ ॥

४४५. पग-पग पर उसके द्वारा भेजे गये, उसके भृत्य, खश^१, डोम्बादि^२, देश में मडवराज^३ के अन्दर उत्पिञ्ज (उपद्रव-षड्यन्त्र) करने लगे ।

एकतो नृपतेः सेना कष्टा खानस्य चान्यतः ।

दंष्ट्राद्वयी यमस्येव लक्षिता सर्वभक्षिका ॥ ४४६ ॥

४४६. एक तरफ राजा की तथा दूसरी तरफ खान की कष्टप्रद सेना थी । जो कि, सर्व-भक्षिका यमराज की दंष्ट्र द्वैः^१ (दाँतों की दोनों पंक्तियों) तुल्य दिखायी दे रही थी ।

अधिकृतो दश ग्रामे नायकः स च कीर्तितः ।

आशा पालोयुत ग्राम भागभाक् च स्वराऽपि ॥

(शु० नीति : १ : ९२)

काश्मीर के प्रवेश मार्ग दरौं अर्थात् पासों के रक्षक (अकबरनामा : ८३०) द्वारपति के समकक्ष थे । प्राचीन मान्यता के अनुसार नायक राजकीय अधिकारी अथवा एक प्रकार के छोटे-छोटे राजा या सामन्त थे । अर्थशास्त्र में दश ग्रामों का मुखिया माना गया है (१ : १२ शुकनीति १ : १९२) । विजयानगरम् राज्य में नायक उन्हे कहा जाता था, जो सैनिक सेवा के बदले में भूमि प्राप्त करते थे । तामिल में उन्हें जिले अर्थात् नाडू का अधिकारी मानते हैं । उत्तर प्रदेश में गढ़वाल, कुमायूँ, अल्मोड़ा आदि में एक जाति है । उड़ीसा में भी यह जातिबोधक शब्द है । अकबरनामा में नायक का स्पष्ट उल्लेख तथा उनके कार्यों का वर्णन है । अकबर की सेना राजौरी से काश्मीर की ओर बढ़ी, तो राजौरी में बहराम नायक आदि सेनापति के पास गये थे (अकबरनामा : ५०३ = ७६४, ५०५; ७६८; ५४० : ८२२) । नायक लोगों का सैनिक पद आधुनिक काल के कर्नल के समकक्ष था ।

(२) शूरपुर : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : १ :

जै. रा. ३२

१ : १०७ । तबकाते अकवरी में उल्लेख है— 'फतह खां हूरपुर के मार्ग से औदन (अडविन परगना) के समीप पहुँचा और जल के झरने को बीच में करके सुलतान के बराबर पड़ाव किया (४५४) । 'फिरिस्ता लिखता है—'फतह खां इसी समय हूरपुर के मार्ग से आगे बढ़ा (४८४-६८७) ।'

पाद-टिप्पणी :

४४५. (१) खश : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : ११३ : २१२, ९९४; ६५० ।

(२) डोम्ब : वर्तमान डुम्ब जाति । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : १६९, ४९४ जोन० : श्लोक ९५२; कल्हण : ५ : ३५४ ।

(३) मडवराज : मराज ।

पाद-टिप्पणी :

४४६. (१) दंष्ट्र द्वैः दाँतों की दोनों ऊपरी और नीचे की पंक्तियों से तात्पर्य है । मनुष्य भोजन करता या कुछ खाता है, तो दाँतों की ऊपरी और निचली पंक्तियाँ दिखाई देती हैं । भक्ष्य पदार्थ उन पंक्तियों के नीचे दब कर चूर्ण हो जाता है । यमराज के दाँत खुले थे, जो भक्षण के लिये तत्पर थे । अत्यन्त क्रूर रूप दिखाने के लिये राक्षसों हंश पशुओं को दाँत निकाले दिखाया जाता है ।

प्राक्सैदविप्लवात् खानविप्लवः सोऽधिकोऽभवत् ।

पाददाहादिवासह्यो गलरोगो व्यथावहः ॥ ४४७ ॥

४४७ पूर्व के सैय्यिद विप्लव की अपेक्षा, खान का यह विप्लव बड़ा था । पाद-रोग^१ की अपेक्षा, गले का रोग अधिक व्यथावह होता है ।

तस्कराक्रान्तपथिको बलवन्निहताबलः ।

अराजक इवानीशो देशः कष्टां दशमगात् ॥ ४४८ ॥

४४८ पथिक, चोरो द्वारा आक्रान्त होते थे, बलवान द्वारा निर्बल सताये जाते थे, इस प्रकार नृप रहित के समान, देश में अराजकता और कष्टकर दशा हो गयी थी ।

जग्मुर्दक्षिणपारादीन् प्रमेयांस्तद्दिगाश्रिताः ।

गृहीत्वा गौधनं सर्वं त्यक्त्वा स्ववसतीर्भयात् ॥ ४४९ ॥

४४९ उस दिशा के लोग भय से अपना निवास त्याग कर, तथा गोधन आदि सब कुछ लेकर, दक्षिण पार^१ आदि प्रमेयो में चले गये ।

खेरीं चार्धवनं राष्ट्रं भ्रष्टमग्निशिखेव सा ।

अतापयन्महोष्माद्या प्रविष्टा कटकद्वयी ॥ ४५० ॥

४५० महोष्मापूर्ण दोनो सेनाये, खेरी^१ एव अर्धवन^२ राष्ट्र में, प्रवेशकर, उसी प्रकार उसे प्रतापित करने लगी, जिस प्रकार अग्निशिखा भ्राष्ट्र^३ (भाड) को ।

पाद-टिप्पणी

४४७ (१) पाद दाह शीवर पाद-रोग की उपमा बहुत दुहराता है ।

पाद-टिप्पणी

४४९ (१) दक्षिण पार यह दक्षिण पोर परगना है । मराज में है । अबुल फजल ने आइने अकबरी तथा मूरकाफट, वाइन (ट्रेवेलम) एव हुगेल न (काश्मीर) तथा वेट्स ने गजेदियर में उल्लेख किया है । अनन्तनाग जिला में है । झेलम के दक्षिण तट पर है । इसमें लिदर नदी बहती है । यहाँ क टट्टू अच्छे होते हैं ।

पाद-टिप्पणी

४५० (१) खेरी काश्मीर का एक प्रशासकीय विभाग है । खुरनरवाव कहते हैं । इसके प्रशासकीय विभाग को खेरी कहते थे । पीर पन्तमल से

विशोका नदी के दक्षिण तटवर्ती कौसरनाग शिवर तथा मोही दर्रे के मध्य पड़ता है । इस क्षेत्र को खुरनरवाव कहते हैं । यह दो शब्दों से मिलकर बना है । खुर नामक एक बड़ा ग्राम है । वह विशोका से दो मील दूर है । इसे कूरी भी कहते हैं । कल्हण वर्णित (१ ३३५) खेरी वर्तमान खुर है । हिन्दू राज्यकाल में राजवशवालो की यह जागीर रहा करती थी । सिख तथा डोगरा काल में भी, राजवशियों की जागीर थी ।

(२) अर्धवन दिवसर के उत्तर में जिला आडविन है । वह खुरनरवाव के पश्चिमी छोर से विशोका के अधोभाग तक फैला है । अडविन इस समय एक बड़ा ग्राम है ।

वह विशोका के वामतट पर विजयेश्वर से तीन मील दक्षिण-पश्चिम है । कथा है कि सर्वप्रथम

राजसैन्यं समालोच्य प्रसुप्तं चारचक्षुषा ।

एकदा जेरकाद्यास्ते स्वास्कन्दं शिविरे ददुः ॥ ४२१ ॥

४२१. एकवार राज सैन्य को प्रसुप्त जानकर, जेरक आदि लोगों ने शिविर पर, आक्रमण कर दिया ।

प्रजागरचरन्यासगस्त्राभ्यासविवर्जिताः ।

सर्वे पशूपमास्त्रासाद् विदद्रुः शिविरान्तरात् ॥ ४२२ ॥

४२२. जागरण, गुप्तचर एवं चास्त्राभ्यास से रहित, वे सब पशुओं के समान वस्तु होकर, शिविर से भाग गये ।

सेनापतेनिजाः केषपि युद्धादौ भेदिताः परैः ।

चक्रुस्तत्कटकं त्यक्त्वा द्रोहं वैरिसमाश्रयात् ॥ ४२३ ॥

४२३. यद्दुओं ने युद्ध के पूर्व ही सेनापति के कुछ निजी लोगों को फोड़ लिया और वे यद्दुओं का आश्रय ग्रहण करने से, उसका सैन्य त्यागकर विद्रोह कर दिये ।

राज्यं नश्यति हृष्यति प्रतिदिनं बाह्या खगाली न का

लोकः क्लिरयति लुण्ठिदाहकरणैश्चौरैः स्वकं पश्यति ।

सेना अश्रयति धीरवीरसहिताप्यन्विव्यति स्वं रिपुः

काश्मीरप्रभविष्णुषु प्रभवति द्वेषात् स्वभेदो यदा ॥ ४२४ ॥

४२४. काश्मीर के प्रभावशाली लोगों में जब अपना मतभेद हो जाता है, तो राज्य नष्ट हो जाता है, और दहिर्दोषीय कौन से खस खुस नहीं होते ? लूट एवं दाह के कारण लोग दुःखी होते हैं, और वन देखते हैं । धीर एवं वीर युक्त होकर भी सेना नष्ट हो जाती है और यद्दु सन्धि हो जाता है ।

द्रोघृं स्तानवलोक्यैव सस्तां ज्ञात्वा स्ववाहिनीम् ।

सेनानाश्चकितः सैन्यान् पलायनपरोऽभवत् ॥ ४२५ ॥

४२५. उन्हें द्रोही देखकर और अपना सेना को शिथिल जानकर, चकित सेनानायक, सैन्य से पलायित हो गया ।

वही परगना बनाया गया था । इसको प्राचीन काल में कर्णाल विजय कहते थे । उच्छ्रब्द कर्णाल : १ : १७ । मराठ का उच्छ्रब्द अर्थात् कर्णाल एक परगना है । इसका उल्लेख अश्वमेध उच्छ्रब्द, नृच्छ्रब्द, हृच्छ्रब्द, वाहन तथा वेदस ने किया है । उच्छ्रब्द अश्वमेध में नाम उच्छ्रब्द दिया गया है (४२४-३८७) । क्रिश्चिदा ने नाम 'उच्छ्रब्द' दिया है (४८४) ।

उच्छ्रब्द अश्वमेध में उल्लेख है—'फतह खां अश्वमेध' (४२४-३८७) । क्रिश्चिदा लिखता है—'फतह खां अश्वमेध' और एक कछारी मूनि के पीछे पड़ाव डाला (४८४) ।

(३) आश्रुः वाता मूनि अथवा अनाद मूनि का नाइ । नाइ में वाता मूनिवाले को काश्मीरी मंडूका कहते हैं । मूना एक जाति ही

हतेऽथ विद्रुते तस्मिन् पश्चादेत्य महाभटैः ।

सर्वस्वाप्त्या जहर्षाथ खानस्तत् प्रथम जयात् ॥ ४५६ ॥

४५६ उमके भागने पर पीछ से पहुँचकर, महाभटो ने उसे मार दिया और खान सर्वस्व प्राप्ति एवं विजय^१ से परम प्रसन्न हुआ ।

तुरुष्कदेशाद् यद्बुद्ध्या खानः प्राप्तो निर्गलः ।

स भागसीहस्तत्पक्षात् केनापि प्रचलन् हतः ॥ ४५७ ॥

४५७ जिसकी बुद्धि से बिना अवरोध खान तुरुष्क देश से आया था, उस भागसीह को किसी ने मार दिया, जबकि उसका पक्ष से वह जा रहा था ।

अथ मल्लशिलास्थाने तुष्टः खानो जयोन्मदः ।

स्वमैन्यसग्रह कुर्वन् जिगीषु शिविर व्यधात् ॥ ४५८ ॥

४५८ विजय में उन्मत्त एवं सन्तुष्ट खान जीतने की इच्छा से, सैन्य सग्रह करते हुए मल्लशिला^१ नामक स्थान पर शिविर लगाया ।

विकरालान् भटान् क्षिप्त्वा करालविषयावनी ।

मुमुषुनिष्करालम्भान् वास्तव्यान् तस्य शस्त्रिणः ॥ ४५९ ॥

४५९ उसके शस्त्रधारी सैनिकों ने कराल^१ देश की भूमि में विकराल भटों को पछाड़कर, निरालम्ब, वहाँ के निवासियों को लूट लिया ।

अत्रान्तरे मार्गपतिर्गृहीत्वा बालभूपतिम् ।

तज्जयाय बलोद्युक्तो निर्ययौ नगरान्तरात् ॥ ४६० ॥

४६० इसी बीच बालभूपति को लेकर सेना सहित, मार्गपति उसके विजय के लिय निकल पड़ा ।

होती है उसे काश्मीरी भाषा में बरबूजा कहा जाता है । भ्राष्ट्र उस बतन को कहते हैं । जिसमें भडभूजा अनाज रखकर भूत ह ।

पाद टिप्पणी

४५६ (१) विजय तबबकात अकवरो में उल्लेख है—'सेना की पकितया ठीक करके फतह खा न युद्ध की अग्नि प्रज्वलित कर दी । सबप्रथम फतह खा को सफलता हुई । सुल्तान की सेना छिन भिन्न हो गयी (४५४) ।'

फिरिस्ता लिखता है—फतह खा पर काश्मीरी

सेना न आक्रमण किया । वह हरा कर पीछे खदेड़ दी गयी (४८४-४८५) ।'

पाद टिप्पणी

४५८ (१) मल्लशिला द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० १ १ ११५, १४७, ५७६ ।

पाद टिप्पणी

४५९ (१) कराल यह अडबिन परगना है । द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० ३ १९१, ४ ४४८, जान० इलोक २५३, कल्हण १ ९७ ।

प्राक्सैदकदनाभ्यस्तन्यस्तवस्तुविलुण्ठनाः ।

पुराद् गृहरमां भीताः पौरा ग्रामेषु न्यक्षिपन् ॥ ४६१ ॥

४६१. पूर्वकाल में सैय्यियों के कदन^१ के अभ्यस्त एवं रखे वस्तुओं के लूटे जाने के अनुभवी पुरवासी लोग भयभीत होकर, गृह सम्पत्ति (गृहिणी ?) को पुर से गावों में रख दिये ।

निष्कृष्टवस्तुभावा सा मुषितेव वराङ्गना ।

अभवद् राजरहिता नगरी न गरीयसी ॥ ४६२ ॥

४६२. समस्त वस्तुभाव अपहृत कर लिये जाने पर, नृप रहित वह नगरी, मुषित वारांगना^१ सदृश उत्तम नहीं रह गयी ।

वैदेशिकटकाटोपक्रोपोत्कररटद्भटः ।

गुसिकोड्डारभूवाटे पाटवाच्छिविरं व्यधात् ॥ ४६३ ॥

४६३. विदेशी सैन्य के गर्व से क्रोधपूर्वक जिसके भट शब्द कर रहे थे, उसने गुसिकोड्डार^१ भूवाट^२ में अतिचातुर्य से शिविर स्थापित किया ।

पाद-टिप्पणी :

४६१. (१) कदन : विनाश, हत्या, मरण, युद्ध ।

पाद-टिप्पणी :

४६२. (१) वारांगना : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ३ : २५३ । स्त्री नामवाचक शब्द के पूर्व 'वार' शब्द लगाया जाता है । तो उसका अर्थ वेश्या, नर्तकी आदि पण्योपजीवी होता है । क्षेमेन्द्र में लोकप्रकाश ने वारांगना को रसा, मदना, महीषी, वेश्या, पण्यस्त्री के समकक्ष रखा है (लोक : ५३) ।

पाद-टिप्पणी :

४६३. (१) गुसिकोड्डार : एक करेवा का नाम है । तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'सुल्तान मुहम्मदशाह काश्मीर (श्रीनगर) के बाहर जहाँगीर माक्रे के समझाने पर आया और करसवार के मैदान में शिविर लगाया (४५४-६८६-८७) ।'

तवक्काते अकवरी एक पाण्डुलिपि और फरिश्ता के लीथो संस्करण में 'करसवार' लिखा गया है । दूसरे पाण्डुलिपि में 'किस्तवार' लिखा गया है । और

लीथो संस्करण में 'गिरसवार' लिखा गया है । कर्नल ब्रिगस तथा रोजर्स स्थान का नाम नहीं देते । मैं समझता हूँ कि 'गिरसवार' किंवा 'करसवार' ही गुसिकोड्डार है । उन दिनों कश्मीर शब्द का प्रयोग श्रीनगर के लिये किया जाता था । काश्मीर के बाहर का अर्थ काश्मीर के बाहर लगाया गया है । अतएव परशियन लेखक ने 'किस्तवार' अर्थ लगा लिया है । अर्थ होना चाहिए श्रीनगर के बाहर गुसिकोड्डार में सुल्तान का शिविर लगाया गया था ।

गुसिकोड्डार के भौगोलिक स्थिति तथा कथा प्रयोग से परशियन लेखकों का 'करसवार' 'किवा' 'गिरसवार' गुसिकोड्डार ही ठहरता है ।

गुसिका नाम है । रामुह के उत्तर में एक अधित्यका उठती है । वह श्रीनगर जानेवाली सड़क से कटती है । यह गुस उदर नाम से प्रसिद्ध है । इसका नाम गुस गाँव के नाम पर पड़ा है । गाँव रामुह से दो मील पूर्व पर्वत पादमूल में है । श्रीवर वर्णित गुसिका यही है ।

परन्तु यह वर्तमान गुस उदर रामुह और खानपुर सराय के मध्य पड़ता है ।

मस्थाप्य तत्र भूपाल त्रिधा कृत्वा स्ववाहिनीम् ।
कल्याणपुरम् श्रुत्वा खान योद्धुं विनिर्ययौ ॥ ४६४ ॥

४६४ वहाँ पर भूपाल को स्थापित कर तथा अपनी सेना को त्रिधा विभक्त कर, वह खान का लेकर कल्याणपुर^१ गया मुक्तकर, युद्ध के लिये निकल पड़ा ।

द्रामग्रामान्तमीमान्ते ममामन्नोऽधिकार्तर्थाः ।
तस्थौ खानान्तिकं प्राप्य स खानमरुगान्तरे ॥ ४६५ ॥

४६५ द्राम ग्राम^१ के समीप पहुँचकर, अधिक दुःखिन बुद्धिवाला वह, खान मरुग^२ में खान के पास जाकर, स्थित हो गया ।

क्रमराज्यस्फुरत्प्राज्यचक्रवाटादिदुःमहाम् ।
वैदूर्यभट्टः पाञ्चाच्यां जग्राह गिरिपद्वतीम् ॥ ४६६ ॥

४६६ वैदूर्य भट्ट ने क्रमराज्य के स्फुरित हात चक्रवाड^१ आदि से दुस्सह पश्चिम दिशा के गिरिमार्ग का पकड़ा ।

मपिर्वजप्रतीहाग्गराजसुतादयः ।
चतुरङ्गोपमां लीलां क्षण चक्रुः पुगेगताः ॥ ४६७ ॥

४६७ पिर्वज^१ प्रतिहार सहित गक्क^२ राजपुत्र आदि जा कि पुरागत थे, क्षणभर चतुरंग सहच लीला किये ।

(२) भूवाट श्रोत ने अर्थ दगावा लगाया है ।
पाद टिप्पणी

४६४ (१) कल्याणपुर कल्पार स्थान है । जयापीठ का राजा कल्याण देवा ने इस ग्राम का स्थापना किया था । कल्याण के समय वह दामरों का एक कन्द्र था । द्रष्टव्य पाद टिप्पणी राज० कल्या ४ ४८३ तथा जैन० ४ ५०० ।

पाद-टिप्पणी

४६५ (१) द्राम ग्राम वर्तमान ग्राम द्राम ग्राम है । कल्पार अथवा प्राचीन कल्याणपुर से उत्तर तीन मील पर स्थित है । रामचू नदी के दाहिने तट पर है । दूर से गाँव दिखाई पड़ता है । यहाँ पुराने ध्वन्नावशेष के दो एक विंगाल सिगा-खण्ड पड़े हैं । गुनियान में ९ माल उत्तर, शीनार

सत्क के पश्चिम है ।

(२) खान मरुग यह स्थान द्राम गाँव के समीप ही होना चाहिए ।

पाद टिप्पणी

४६६. (१) चक्रवाड श्री कच्छकील तथा दत्त ने इस स्थानवाचक शब्द माना है । श्रोत ने नाम चक्रवाट दिया है । यह पाठभेद के कारण है (इ० ३ ५८) ।

पाद टिप्पणी

४६७ (१) पिर्वज पर्वज फारसा नामवाचक शब्द है । उसका अर्थ प्रतिष्ठित तथा सम्मानित होता है ।

(२) गक्क द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० २ १४८, ४ २५३ ।

व्यूहवद्ध युद्ध :

अथैकतः स्वकारमीरवैदेशिकबलान्विताः ।

मसोदनायकसुता योद्ध्युं व्यूहात् समाययुः ॥ ४६८ ॥

४६८. एक तरफ कारमीरी एवं विदेशी सेना सहित मसोद नायक के पुत्र युद्ध करने के लिये व्यूह^१ से आ गये ।

फलकासिस्फुरत्पक्षा नदन्तोऽन्तिकमागताः ।

चेरुः पङ्क्तया भटास्तत्र हंसा इव नभोन्तरे ॥ ४६९ ॥

४६९. आकाश में हंसां के समान, ढाल एवं तलवार रूप पक्ष से स्फुरित होते, एवं शब्द करते, समीपागत भट वहाँ पर पंक्तिवद्ध होकर, विचर रहे थे ।

यावत् प्रवृत्तो योद्ध्युं तांस्तावद् वीक्ष्याग्रमागतान् ।

अह्लादठक्कुरव्यूहो निरीहः समपद्यत ॥ ४७० ॥

४७०. जवतक लड़ने के प्रवृत्त हुआ, तवतक उन्हें समक्ष आया देखकर, आल्हाद (अहमद) ठाकुर का व्यूह निरीह हो गया ।

चैलाहिकाभुजः केऽपि गर्जन्तो जलदा इव ।

स्फुरच्छस्त्रतडिज्ज्वालाः सौत्फाला निर्ययुर्मृधे ॥ ४७१ ॥

४७१. मेघ सदृश कुछ तुच्छ दैनिक भोजी गरजते हुए, स्फुरित शस्त्र, विद्युत् ज्वाला से युक्त होकर, छलांग मारते, (ढाल सहित) युद्ध में निकल पड़े ।

विषमा पङ्कसंकीर्णा जाड्यदुर्मार्गदूषिता ।

तेषामापततां साध्या वासनेव निजाजिभूः ॥ ४७२ ॥

४७२. उन आनेवालों के लिये वासना सदृश विषम पंकभूमि संकीर्ण एवं जाड्य (जड़) दुर्मार्ग दूषित युद्धभूमि साध्य हो गयी थी ।

पाद-टिप्पणी :

४६८. (१) व्यूह : मंख ने अर्थ किया है—
वर्गविन्यासयोर्व्यूहो विस्तारे पृथुले त्रिषु ॥९५५॥
मनु ने सैन्य विन्यास अर्थ किया है । ७ : १८७
—व्यूहावुभौ तावितरेतरस्मात् भङ्ग जयं चापतुर-
व्यवस्थम्—रघु० ७ : ५४ ।

अनेक प्रकार के व्यूहों का वर्णन मिलता है ।
यथा—दण्डव्यूह, शकटव्यूह, दराहव्यूह, मकरव्यूह,
सूचीव्यूह, पद्मव्यूह, चक्रव्यूह, वज्र व्यूह, गरुड़-
व्यूह, श्येनव्यूह, मण्डलव्यूह, द्युर्व्यूह, सर्वतोभद्र-

व्यूह आदि हैं । राजा या व्यूह का प्रधान मध्य में रहता है । उस पर सहसा आक्रमण नहीं हो सकता । किसी प्रकार के आक्रमण या विपत्ति आदि से रक्षा के लिये जो योजनायें बनायी जाती हैं, उनकी संज्ञा व्यूह-रचना से दी जाती है ।

व्यूहपांति, व्यूहपृष्ठ सेना के पृष्ठभाग को कहते हैं । व्यूहभंग, व्यूहभेद का अर्थ सैनिकों की स्थिति का क्रम टूटना है ।

पाद-टिप्पणी :

४७२. पाठ : 'वासना' वम्बई ।

वैदेशिकभटान् दृष्ट्वा नटत्खेटकपीठकान् ।

चटका इव जग्मुस्ते विदूरं पाटवोज्झिताः ॥ ४७३ ॥

४७३ अश्वो को नचाते विदेशी भटो को देखकर, वे समस्त चतुराई भूलकर, गौरैया सदृश दूर चले गये ।

न सस्तम्भयितुं सेनामशकत् तां पलायिनीम् ।

अह्लादठक्कुरो दीर्णां सेतुभङ्गानदीमिव ॥ ४७४ ॥

४७४ आल्हाद (अहमद) ठाकुर भागनेवाली उस सेना को टूटी सेतुबन्ध वाली नदी^१ के समान रोकने में समर्थ नहीं हुआ ।

अहमहमिकायातजातघातव्रणादिताः ।

प्राणत्यागेन ते केऽपि चक्रुर्वेतननिष्कृतिम् ॥ ४७५ ॥

४७५ स्पर्धापूर्वक आये और प्रहार के व्रण स पीडित होकर, कुछ लोगो ने प्राण त्याग कर, मूल्य चुकाये ।

स्रवच्छोणितमिक्ताङ्गाः शालिक्षेत्रगताः शवाः ।

यागोपहारपशुतां ययुः कार्पिकभूमिषु ॥ ४७६ ॥

४७६. कृषको को भूमि पर पड़े, बहते रक्त से रजित अगवाले, शालि क्षेत्रगत शव, यज्ञ के (बलि) पशु सदृश हो गये थे ।

सेना खानस्य वात्येव सा नैऋतदिगागता ।

तत्तल्लोकक्षय चक्रे वेगभग्नभटद्रुमा ॥ ४७७ ॥

४७७ अन्धड सदृश नैऋत्य दिशा से आयी, खान की सेना वेग से, भटद्रुमो का भजन कर, तत्-तत् प्रकार से लोगो का विनाश किया ।

केऽपि काश्मीरिकास्तत्र वैदेशिकभटानले ।

शस्त्रज्वालावलीदीप्त जुहुवुः श्रीफलं वपुः ॥ ४७८ ॥

४७८ वहाँ पर काश्मीरियो ने शस्त्र-ज्वालापुज से दीप्त वैदेशिक भटाग्नि में, श्रीफल^१ सदृश अपने शरीर की आहुति दिये ।

पाद-टिप्पणी

४७४ (१) नदी नदी का बाध जब टूट जाता है, तो कोई भी शक्ति नदी को रोक रखने में असमर्थ हो जाती है । समस्त पानी वह जाने पर ही नदी का जल पुन बाधकर रोका जा सकता है परन्तु टूटने की अवस्था में वह जल विप्लव करके ही रुकना है ।

पाद-टिप्पणी •

४७७ (१) नैऋत्य दिशा : काश्मीर में दक्षिण-पश्चिम की वायु के कारण अन्धड तथा तूफान आता है, उसमें वृक्षादि उखड़ जाते हैं । श्रीवर खान की सेना की उपमा नैऋत्य वायु के तूफान से देता है ।

पाद-टिप्पणी :

४७८. (१) श्रीफल . बेल = बिल्व = नारि-

किं नामोदीरणैस्तेषां दृष्ट्वा व्यूहं समागतम् ।
तिर्यग्भिरिव पातुं स्वं भीत्या यैयैः पलायितम् ॥ ४७९ ॥

४७९. उन लोगों का नाम लेने से क्या लाभ, 'जो समागत व्यूह को देखकर, पक्षियों के समान भय से अपनी रक्षा के लिये, पलायित हो गये ।

प्रमेयभाजो मुख्या ये दृष्टा राजसभान्तरे ।
अदृष्टपूर्वं सन्त्रासं तेष्यशस्त्रिवदाययुः ।
वीरवृत्त्या त्यजन् प्राणान् केवलं श्लाघ्यतामगात् ॥ ४८० ॥

४८०. जो प्रमुख भागी लोग राजसभा में देखे गये थे, वे भी विना शस्त्र के लोगों के समान अपूर्व सन्त्रासपूर्वक आये । केवल वही वीरतापूर्वक प्राण त्याग कर प्रशंसनीय हुआ ।

तस्य त्रिचतुरास्त्यक्तप्राणा अनुचरा रणे ।
दिवं यियासोर्भोगार्थं बभूवुस्ते पुरःसराः ॥ ४८१ ॥

४८१. वही और रण में उसके तीन-चार अनुचर प्राण त्याग कर, स्वर्ग जानेवाले, उसके अग्रगामी बने ।

हतावशिष्टान् विद्राव्य ते खानस्य महाभटाः ।
निवृत्ता मार्गपत्यग्रे स्वीयभ्रान्त्या समाययुः ॥ ४८२ ॥

४८२. खान के उन महाभटों ने हतावशिष्ट लोगों को भगा कर, लौटकर, अपने पक्ष की भ्रान्ति से, मार्गपति के समक्ष आ गये ।

आकस्मिक विजय :

मसोदखानः क्वेत्येवं वदन्तो विजयोद्यताः ।
वीरा हस्सनमीराद्या ज्ञाता मार्गपतेर्भटैः ॥ ४८३ ॥

४८३. 'मसोद खान कहा है ?' इस प्रकार कहते हुए, विजयोद्यत वीर, हस्सन मेर आदि लोगों को मार्गपति के भटों ने जान लिया ।

पञ्चशस्तस्य सम्बन्धिभृत्यास्ते नौरुजादयः ।
सगौरभद्वाश्चान्ये च हता मार्गपतेः पुरः ॥ ४८४ ॥

४८४. उसके पाँच सम्बन्धी मृत नौरुज आदि तथा गौरभट्ट सहित अन्य लोग भी मार्गपति के समक्ष मार डाले गये ।

यल । हवन में श्रीफल की आहुति दी जाती है ।
कहीं बेल काट कर तथा कहीं समूचा हवनाग्नि में
डाल दिया जाता है । श्रीवर श्रीफल की उपमा

बहुत देता है । मंख श्रीफल का नाम बेल या बिल्व
देता है ।

—नीलिन्यां श्रीफली बिल्वे नेभरोगे तु पाकलः ॥

८४० ॥

विमुखोऽभूत् कियत्कालं यः स सांमुख्यमाययौ ।

बालभूभृत्प्रभावेण कश्मीरकटकै विधिः ॥ ४८५ ॥

४८५ कुछ समय के लिये जो दैव (भाग्य) विमुख हो गया था, वह बाल-भूपति के प्रभाव से काश्मीर सेना के अनुकूल हो गया ।

मार्गेशस्याथवा स्तुत्यं धैर्यं तस्यात्र संयुगे ।

सन्नद्धः सबलस्तस्थौ जयस्तम्भ इवाचलः ॥ ४८६ ॥

४८६ इस युद्ध में उस मार्गेश का धैर्य प्रशसनीय था और सेना सहित सन्नद्ध, वह अचल जयस्तम्भ तुल्य स्थिर रहा ।

पदैकमात्रं पश्चाच्चेदगमिष्यञ्च तत्स्थलात् ।

काश्मीरकटकस्यास्य नावशिष्येत किञ्चन ॥ ४८७ ॥

४८७ यदि उस स्थान से एक पद मात्र भी पीछे जाता, तो काश्मीर सेना का कुछ भी अवशेष नहीं रहता ।

भिन्नप्रकृतिसन्धानकौशल श्रीज्यहाङ्गिरे ।

भिषजीव तदा दृष्टं भैषज्यं सांनिपातिके ॥ ४८८ ॥

४८८ उस समय जहाँगीर में विभिन्न प्रकृति का सन्धान कौशल उसी प्रकार देखा गया, जिस प्रकार सन्निपातग्रस्त में प्रकृति अनुसन्धानपूर्वक औषध-कौशल भिषक में देखा जाता है ।

प्रागल्भ्यमप्रतिहतं प्रतिभानमोज-

स्तत्तत्प्रयोगचतुरत्वमसंभ्रमश्च ।

एतानि यस्य समयेऽप्यतिसङ्कटे स्यु-

स्तुप्तेव तं प्रति समेति रणे जयश्रीः ॥ ४८९ ॥

४८९ अप्रतिहत प्रागल्भता, प्रतिभा, भोज, तत्-तत् प्रयोग की चतुरता, असंभ्रम (घबड़ाहट) अति सकट काल में भी, जिमके पास रहते हैं, युद्ध में प्रसन्न-सी होकर, जयश्री, उसके पाम धाती है ।

पाद-टिप्पणी

४८६ (१) जयस्तम्भ विजयी राजा विजय-सूचक जयस्तम्भ लगाता है । किसी दश पर विजय के स्मारक स्वरूप, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ तथा अशोक के अनेक स्तम्भों का उदाहरण मिलता है । ललितादित्य आदि कश्मीर के दिग्विजयी राजाओं ने इस प्रकार के स्तम्भों को विजित क्षेत्रों में आरोपित

किया था । रघुवंश में भी जयस्तम्भ का उल्लेख मिलता है ।—निचखान जयस्तम्भान गङ्गा श्रोतो-स्तरेषु स—रघु० ४ ३६, ६९ ।

पाद-टिप्पणी

४८८ (१) प्रकृति प्रकृति शब्द यहाँ शिल्प है । आयुर्वेद के वात, पित्त, कफ तथा राज्य की सप्त प्रकृतियों से तात्पर्य है (४० . ३ . ३८) ।

खानोऽस्मत्करमाप्तोऽत्र मिथ्योद्धोष्यात्र संयुगे ।

रणात् प्रचलितान् दूरं युक्त्या सर्वानुपानयत् ॥ ४९० ॥

४९०. 'युद्ध में खान' हमलोगों के हाथ आ गया है'—ऐसी मिथ्या घोषणा करके, रण से दूर चले गये लोगों को युक्तिपूर्वक समीप ले आया ।

मार्गेशमधुसान्निध्ये तद्रणोपवनान्तरे ।

ते वीरभ्रमराश्चेरुः स्फुरत्पक्षरवोद्धताः ॥ ४९१ ॥

४९१. मार्गेश रूप वसन्त के समीप आने पर, उस युद्धरूपी उपवन में, वे वीर रूपी भ्रमर, स्फुरित पक्ष एवं रव युक्त होकर विचरण करने लगे ।

अथ खानस्य शिविरे गक्काद्या जयदुर्मदाः ।

नीतावशिष्टां सामग्रीं हत्वा भूरीनलुण्ठयन् ॥ ४९२ ॥

४९२. जय से दुर्मति गक्क आदि लोग, खान के शिविर में बहुत से लोगों को मार कर, ले जाने से बची सामग्री को लूट लिये ।

खान सेना का पलायन एवं दुर्गति :

एभराहिममार्गेशः समृत्यः समराग्रगः ।

मसोदनायकमुखान् विमुखांस्तर्जनैर्व्यधात् ॥ ४९३ ॥

४९३. समर में अग्रगामी भृत्य सहित इब्राहीम मार्गेश के तर्जनों से मसोद नायक आदि लोगों को विमुख कर दिया ।

अन्ये शृङ्गारसीहाद्या दृष्ट्वा तस्सैन्यमद्भुतम् ।

भेडावनपथात् तूर्णं विद्रुताः स्वां भुवं ययुः ॥ ४९४ ॥

४९४. अन्य शृङ्गारसीह आदि, लोग उस अद्भुत सैन्य को देखकर, भेडावन' मार्ग से शीघ्र भाग कर अपनी भूमि को चले गये ।

पाद-टिप्पणी :

४९०. (१) खान : तबक्काते अकवरी मे खान के स्थान पर मुहम्मदशाह का बन्दी होना लिखा—'फतह खां बन्दी बनाया जानेवाला ही था कि एक पड्यन्त्रकारी ने यह झूठा समाचार प्रसारित कर दिया कि सुल्तान मुहम्मदशाह विद्रोहियों द्वारा बन्दी बना लिया गया है (४५४-६८७) ।' फ़िरिश्ता

लिखता है—'इसी बीच शिविर में यह बात फैल गयी कि सुल्तान को शत्रु ने पकड़ लिया है (४८५) ।

पाद-टिप्पणी :

४९४. (१) भेडावन : विरानी उपत्यका में भेडावन है । मैं यहाँ की यात्रा कर चुका हूँ ।
द्रष्टव्य : परिशिष्ट : कल्हण : खण्ड : एक 'भेदा देवी' ।

सर्वं राजपुरीसैन्य सदैन्यं वेष्टितं भटैः ।

दत्त्वाभय ररक्षायौ गक्को गणपतिर्यथा ॥ ४९५ ॥

४९५ भटो द्वारा घिरी हुई, दीनतापूर्ण राजपुरी को सेना को युद्ध में अभयदान देकर, गणपति के समान गक्क ने रक्षित किया ।

त्यक्त्वा सन्नाहसामग्रीं केऽप्येते विद्रुता द्रुतम् ।

मुपिताः सखशैर्दोम्बैः पृष्ठभग्नाः प्रशान्तयः ॥ ४९६ ॥

४९६ कुछ लोग वर्म सामग्री त्याग कर, शीघ्र पलायित हो गये और उनके पीछे सेना लग गयी, और खमो^१ और डोम्बो^२ द्वारा लूट लिये गये ।

वृक्षानपि वने जज्ञुरयोऽनुलगन्त्यमी ।

वैदेशिकैर्हृतं यत्तद् ग्रामेषु जनपीडया ।

काश्मीरिकैभ्यो मुपिता निक्षेपमिव ते ददुः ॥ ४९७ ॥

४९७. वन में वृक्षों को भी पीछा करनेवाले शत्रु जान रहे थे । विदेशियों ने ग्रामों में लोगों को पीड़ित कर, जो अपहृत किया था, उसे लूटे जाने पर, निक्षेप^१ के समान उन लोगों ने काश्मीरियों को दे दिये ।

पाद-टिप्पणी

४९५ (१) गणपति गणेश की पूजा प्रत्येक कार्यारम्भ के पूर्व की जाती है । यह केवल महा-भारत के लिपिक, महाविद्वान ही नहीं परन्तु सफल सेनानी भी रहे हैं । भण्ड के सैनिकों का इन्होंने नाश किया था तथा शक्ति के अनुयाइयों को शक्ति प्रदान की जिससे विजय हुई थी (ब्रह्मा० ३ ४१ ३७-४१, ४२ २ ३३, ४३ : १८ : ३१, ४४ : २४, ४ २७ • ७२-१०४, ४४ ६७-७०, मत्स्य० १५४ ५०२-५, नील० १०३०) ।

हिन्दुओं के पाँच प्रधान देवताओं में एक है । शास्त्रों में गणेश को ओकारत्मक रूप माना गया है । ओकार से ही गजमुख विकसित माना जाता है । पाँचवीं शताब्दी के पूर्व की हाथीमुख, गजानन, अथवा हाथी के सूड के साथ मुख की मूर्ति अभी तक नहीं मिली है ।

गणेश के हाथों में पाश, अंकुश, पद्म तथा परशु हैं । चार हाथ, एक दन्त, लम्बोदर, त्रिनेत्र तथा ललाट पर अर्धचन्द्र है ।

मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको के खनन कार्य में गणेश की पुराकालीन मूर्तियाँ मिली हैं । कोपन नामक स्थान में मूर्ति मिली थी । मैक्सिको में 'विरा-

कोचा' नाम से गणेश की पूजा होती थी । 'विनायक' का यह अपभ्रंश प्रतीत होता है ।

कृतयुग में कश्यपपुत्र विनायक सिंहालुड थे और देवातक तथा नरातक का नाश किया था । त्रेतायुग में मयूरालुड, शिवपुत्र मयूरेश्वर नाम से सिंधू का वध किया था । द्वापर में शिवपुत्र गजानन रूप से सिन्दूर का वध किया था तथा वरेण्य राजा को गणेश गीता सुनाया था । कलियुग में अश्वालुड धूमकेतु रूप में अवतार लेकर म्लेच्छों का सहार करेंगे (गणेश० २ १४९) । गणेश को चतुर्थी कृष्ण एव शुक्लपक्ष दोनों प्रिय हैं ।

पाद-टिप्पणी :

४९६ (१) खस द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी

जैन० • ४ ११३, २१२, ६५० ।

(२) डोम्ब द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी • जैन० : ४ १६९, ४४३, जैन० श्लोक ९५२, कल्हण • ३५४ ।

पाद-टिप्पणी

४९७ (१) निक्षेप • द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० • ३ • ४०५ ।

शीतज्वरादिताः केचित् केचिच्छ्रान्ता बुभुक्षया ।

वैदेशिकारच काश्मीराः शतसङ्ख्याः क्षयं ययुः ॥ ४९८ ॥

४९८. कुछ शीत एवं ज्वर से, कुछ श्रान्त एवं बुभुक्षा से, शत संख्यक काश्मीरी एवं विदेशी नष्ट हो गये ।

संरूढं कमपि निपातयत्यकाण्डे

पाताहं नयति च कञ्चन प्ररूढिम् ।

सङ्कल्पाविषयविचित्रकाकताली-

वायौघस्तरुमिव पूरुषं विधाता ॥ ४९९ ॥

४९९. कल्पना से परे, विचित्र काकताली^१वत् वायुपुंज, जिस प्रकार से संरूढ किसी वृक्ष को गिरा देता है, और गिरने योग्य को उठा देता है, उसी प्रकार विधाता भी किसी प्रवृद्ध पुरुष को अनीसर ही अवनति के गर्त में गिरा देता है, और किसी गिरते योग्य को उन्नत कर देता है ।

यादृक् सुवामनः खानस्तादृशस्तस्य चेद् भटाः ।

भवेयुः किं न जायेत किं तु धर्मानुगोजयः ॥ ५०० ॥

५००. जिस प्रकार खान उत्तम संस्कार (विचार) वाला था, यदि वैसे ही उसके भट होते, तो क्या नहीं हो सकता था ? जय धर्मानुगामी^१ होता है ।

इत्थं फतहखानेऽस्मिन् प्राप्ते कश्मीरमण्डलम् ।

एकषष्टितमे वर्षे परुद्वच्छ्रावणान्तरे ॥ ५०१ ॥

५०१. इस प्रकार इस फतह खान के ६१वें वर्ष^१ श्रावण मास में काश्मीर मण्डल में प्रवेश करने पर गत वर्ष के समान—

कटकद्वयसंयोगे कल्याणपुरसन्निधौ ।

अत्रत्यानां च बाह्यानां तत्तल्लोकक्षयोऽभवत् ॥ ५०२ ॥ युगलकम् ॥

५०२. कल्याणपुर^१ के निकट दोनों सेनाओं का संयोग होने पर, यहाँ के तथा बाहर के लोगों का अनेक प्रकार से विनाश हुआ । युगलकम् ॥

पाद-टिप्पणी :

४९९. (१) काकताली : द्रष्टव्य : पाद-
टिप्पणी : जैन० : ४ : १२९ ।

पाद-टिप्पणी :

५००. (१) जय-धर्म : प्रचलित श्रुति है कि
जहाँ धर्म होता है—वहाँ जय होती है—यतो धर्मस्-
ततो जयः ।

पाद-टिप्पणी :

५०१. (१) इकसठवें वर्ष : सप्तर्षि ४५६१ =
सन् १४८५ ई० = विक्रमी : १५४२ = शक =
१४०७ = कलि० ४५८६ । इसके ठीक १०० वर्ष
पश्चात् १५८६ में कश्मीर पर मुगलों का शासन हो
गया था ।

पाद-टिप्पणी :

५०२. (१) कल्याणपुर : द्रष्टव्य : पाद-
टिप्पणी : जैन० : ४ : ४६२ ।

मैत्रर्क्षशनिसयोगं मीलापं शनिजीवयोः ।

भौमाब्दं तत्क्षये हेतुं देशे दैवविदो विदुः ॥ ५०३ ॥

५०३ ज्योतिषियो ने अनुराधा^१ शनि का सयोग, शनि और बृहस्पति^२ का मिलाप, मगल^३ का वर्ष का राजा हाना, देश में उसके क्षय का हेतु जान लिया था ।

श्रीजैननृपते राज्ये षड्दर्शनरताः प्रजाः ।

दृष्टाः स्वधर्मनिरता निरातङ्का निरीतयः ॥ ५०४ ॥

५०४ जैन (जैनुल आबदीन) के राज्य में प्रजा षड्दर्शन^१ रत, स्वधर्म निरत, धातक^२ (भय) रहित एव ईति^३ भयमुक्त थी ।

तस्मिन् स्वर्गं गते राज्ञि नष्टाचारेऽत्र मण्डले ।

प्रजापचाराल्लोकानां क्षयोऽभूदिति मे मतम् ॥ ५०५ ॥

५०५ उम राजा के स्वर्गगत होने पर, इस मण्डल में आचार, विचार नष्ट हो गया, और प्रजा के दुराचार से ही लोगो का विनाश हुआ—यह मेरा मत है ।

पाद-टिप्पणी

५०३ (१) अनुराधा शनि : कुलूत देश के निवासी जन का और पवत निवासी कश्मीर जन, समस्त राष्ट्र का अग कुम्भकार आदि विशेष जाति सभी अशान्ति में पड़ जाते हैं । विशेषकर घण्ट वजानेवाले (घण्टावादी) और शिल्पीगण भी उपद्रवग्रस्त होते हैं । मित्रो में परस्पर भेद उत्पन्न होता है । वराहमिहिर बृहदसहिता अ० १० श्लोक० १२ ।

मैत्रे कुलूततङ्गणखसकाश्मीरा समन्त्रिचक्रचरा ।
उपताप यान्ति च घण्टिका विभेदश्च मित्राणाम् ॥

(२) शनि एव बृहस्पति शनि एव बृहस्पति के योग से गुरु-चाण्डाली याग बनता है । जिसमें देश के अन्दर धार्मिक भावना का ह्रास और अनैतिकता की वृद्धि तथा नौकरशाही का प्रभुत्व रहता है ।

(३) मगल राजा मगल के वर्षेण होने पर रक्नपात, दुषटना, प्रशामन की उग्रता, तानाशाही, रक्नदोष (फोडा फुन्सी रक्त विकार), परस्पर सघर्ष एव विवाद होता है ।

पाद-टिप्पणी

५०४ षड्दर्शन • (१) सारय, (२) न्याय, (३) वैशेषिक, (४) योग, (५) मीमांसा (६) एव वेदान्त ।

(२) निरातक इसी अर्थ में कालिदास ने रघुवश में निरातक का प्रयोग किया है ।

पुरुपायुष जीविन्यो निरातङ्का निरीतयः ।

यन्मदीया प्रजस्तस्य हेतुस्त्वद् बरमवर्चसम् ॥

रघु० १६३

(३) ईति अतिवृष्टिरनावृष्टिर्भूपिका शलभा खगा ।

प्रत्यासन्नाश्चराजान पडेल्ले इत्य स्मृताः ॥
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूपको द्वारा कृपिनाश, शलभ, फतिभियों टिड्डियों का आक्रमण, पक्षी, तथा विदेशी राजा का आना छह प्रकार की ईतियाँ कही गयी है (द्र० ३ २२) ।

पाद-टिप्पणी •

'ससैद' पाठ—बम्बई ।

५०५ (१) प्रजा द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० ३ ४४, तथा जैन० • श्लोक ७२७, ८७६, सुक० १ ११९, २ ७४, ८८, ११४ ।

तथा हि वणिजः केचित् स्वाचारं हिन्दुकोचितम् ।

त्यक्त्वा पुरान्तरे चक्रुर्हत्वा गोमांसभक्षणम् ॥ ५०६ ॥

५०६. जैसा कि कृछ वणिकों ने हिन्दुकोचित अपना आचार त्याग कर, पुर में मार कर, गो-भक्षण किये ।

येनैव पितरौ याता येन याताः पितामहाः ।

तद्दर्शनेऽत्र तत्पुत्रास्त्रपन्ते मौसुलप्रियाः ॥ ५०७ ॥

५०७. जिसका विश्वास कर, पिता एवं पितामह चले गये, उनी शास्त्र पर, मौसुल (मुसलिम) प्रिय उनके पुत्र लज्जित होते थे ।

पाद-टिप्पणी :

५०६. (१) गोमांस : वणिकों के गोवध का उल्लेख श्रीवर इसके पूर्व कर चुका है । मुसलमान हुए, जिसना दिन बीतता जाता था, काश्मीरी अपना पूर्व आचार-विचार त्यागते जा रहे थे । उनमें कट्टरता तथा मुसलिम आचार-संहिता तथा खान-पान का प्रवेश विदेशी मुसलमानों तथा उन व्यापारियों किंवा वणिकों के द्वारा हो गया था, जो काश्मीर के बाहर पंजाब तथा अन्य स्थानों के मुसलिमों के सम्पर्क में आ गये थे और गोवध करना हिन्दू विरोधी कार्य के कारण, उसे करने में गर्व का बोध करते थे । ३० : पाद-टिप्पणी : जैन० : ३ : २७० तथा ४ : ५०, १२४, २४५, ३०९ ।

पाद-टिप्पणी :

५०७. (१) लज्जित : काश्मीरी हिन्दू ने मुसलमान हुए थे । इसलाम पुरानी परम्परा तथा धर्म त्याग कर, पूर्णतया इसलाम के प्रति निष्ठा चाहता है । वह इतिहास तथा प्राचीन रीति-रिवाज सबको भुलाकर, नव-मुसलिम समाज को कठोर इसलामी श्रृंखला में बद्ध कर देता है । फल यह होता है कि मुसलमान को अपने पूर्व धर्म, कर्म, आचार-विचार अथवा इतिहास में कोई आस्था अथवा आकर्षण नहीं रह जाता । वह एक नये धर्म तथा मिलित का अभिन्न अंग बन जाता है । वह इसलामी रीति-रिवाज परम्परा चलाने में रुचि रखता है न कि देशीय

अथवा प्रदेशीय ।

श्रीवर स्पष्ट कहता है कि जो कल तक काश्मीरी थे, हिन्दू थे, अथवा मुसलमान हो जाने पर भी पूर्व संस्कार के कारण काश्मीरी परम्परा मानते थे, उनकी सन्तानों जिन्होंने शूद्र मुसलिम संस्कार में जन्म प्राप्त कर, कट्टर मुसलमान थे, उनके लिये काश्मीरी आचार-विचार का कोई मूल्य नहीं था । उनकी कट्टरता इतनी बढ़ गयी थी कि उन्हें काश्मीरी कहने में लज्जा का बोध होता था । काश्मीरी आचार-विचार मानना बर्न विरुद्ध कार्य था । भारत में मुसलमानों ने अपना नाम बदल दिया था । वे गिराजी, इराकी, अन्सार, मुगल, पठान, सेख, सैय्यद, गमनानी आदि अपने नाम के साथ जोड़कर, अपनी वंश परम्परा विदेश से जोड़ने लगे । उन्हें यह कहने में लज्जा लगने लगी कि उनका कुल कभी ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य था, अथवा वे भारत के किसी भाग के निवासी थे और उनके पूर्वकों ने इसलाम कबूल किया था । इसी कठोर दृष्टिकोण के कारण भारत का विभाजन हुआ और भारतीय संस्कृति के स्थान पर, मुसलिम और हिन्दू संस्कृति और इतिहास की परंपरा खड़ी कर, दोनों जातियों में भेदभाव को बीवार खड़ी कर दी गयी । यही परिक्रिया श्रीवर के समय में होने लगी । पाकिस्तान के जनक मुहम्मद इकबाल के पूर्वक सद् ब्राह्मण थे, परन्तु उन्होंने इनमें न तो गर्व का अनुभव किया और न यह जानने की कोशिश की कि वे काश्मीरी थे ।

प्रत्यब्दं तिथिकार्याणि पुराणोक्तानि कानिचित् ।

विस्मृतानि दुराचारात् कथं न स्युर्दुरापदः ॥ ५०८ ॥

५०८ पुराणोक्त कुछ तिथि कार्यों को दुराचार के कारण प्रतिवर्ष विस्मृत कर दिये—
आपत्तियाँ क्यों न आये ?

मण्डलेऽस्मिन् दुराचारचातुर्वर्ण्यविराजते ।

प्रसङ्गपतिताचारविपर्ययादितीरितम् ॥ ५०९ ॥

५०९ इस मण्डल मे चारो वर्णों धर्म ससर्ग मे दुराचार फैल जाने पर पतित एव
आचार-विपर्यय सब ओर हो गया ।

पाद-टिप्पणी

५०८ (१) तिथि कार्य कम से कम ५८ तिथियो पर पूजा आदि कार्य किये जाति थे । उन्हें मुसलमान हो जान पर शनै शनै नव-मुसलिम काश्मीरियो ने त्याग दिया, इसी ओर धीवर लक्ष्य करता है । नीलमत पुराण के अनुसार निम्नलिखित तिथियाँ भिन्न-भिन्न अवसरो पर मनायी जाती थी— (१) पूर्णमासी, असूज, (२) कार्तिक कृष्ण पन्द्रह, दीपावली (३) कार्तिक पूर्णिमा, (४) कार्तिक प्रथम दिन, (५) सूर्य पूजा माघ तथा आषाढ शुक्ल सप्तमी, (६) माघ पूर्णिमा, (७) प्रथम तुषार वर्षा दिन, (८) पौष कृष्ण अष्टमी, (९) पौष पूर्णिमा, (१०) उत्तरायण, (११) पौष कृष्ण द्वादशी, (१२) पौष कृष्ण चतुदशी, (१३) पौष कृष्ण अथवा श्रावण पचदशी, (१४) माघ शुक्ल चौथ-उमा पूजा, (१५) माघ पूर्णिमा, (१६) महिमान, अष्टमी नवमी तथा दशमी फाल्गुन, (१७) फाल्गुल कृष्ण द्वादशी विष्णु पूजा, (१८) फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, शिवरात्रि, (१९) अष्टमी, नवमी, दशमी, फाल्गुन शुक्ल, (२०) फाल्गुन पूर्णिमा, (२१) पचमी तथा दशमी चैत्र कृष्ण, (२२) चैत्र कृष्ण एकादशी, (२३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, (२४) चैत्र कृष्ण अमावस्या, (२५) परिव्रा शुक्ल, (२६) चैत्र शुक्ल पचमी, (२७) चैत्र शुदी पष्ठी, (२८) चैत्र शुक्ल नवमी,

(२९) चैत्र शुदी एकादशी, (३०) चैत्र शुक्ल द्वादशी, (३१) चैत्र शुदी त्रयोदशी, (३२) पूर्णिमा, (३३) वैशाख शुक्ल तीज, (३४) वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जन्मदिवस, (३५) ज्येष्ठ पूर्णिमा, (३६) यवाग्रान्य (यव पकने पर), (३७) आषाढ कृष्ण अष्टमी विनायक अष्टमी, (३८) आषाढ स्वाती योग-स्वाती नक्षत्र मिलने पर, (३९) एकादशी तथा पूर्णिमा शुक्लपक्ष आषाढ, (४०) दक्षिणायन, (४१) कश्यप पूजा श्रावण मास रोहिणी नक्षत्रसयोग, (४२) श्रावणी, (४३) जन्माष्टमी भाद्रपद, (४४) भाद्रपद अमावस्या, (४५) भाद्र शुक्ल चौथ धनद चतुर्थी, (४६) भाद्र शुक्ल पचमी नील-नाग पूजा आदि, (४७) पष्ठी, सप्तमी तथा अष्टमी भाद्र शुक्लपक्ष, (४८) भाद्र शुक्लपक्ष नवमी, (४९) भाद्र शुक्लपक्ष द्वादशी-महाद्वादशी, (५०) भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी वितस्ता जन्मोत्सव, (५१) असुज कृष्ण चतुर्थी दिक्पाल पूजा, (५२) असुज कृष्ण नवमी, (५३) प्रथम से पन्द्रह असुजकृष्ण पितृपक्ष, (५४) नवान्न विधान, (५५) असुज शुक्ल चतुर्दशी, (५६) असुजशुक्ल अष्टमी, (५७) प्रथम दिन कार्तिक, (५८) प्रथम से सप्तमी कृष्ण कार्तिक नववर्ष उत्सव ।

पाद टिप्पणी

५०९. (१) चतुर्वर्ण : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र ।

युद्ध पश्चात् स्थिति :

राजाक्रान्तः परैर्मिथ्यावार्तायेति विसूत्रितः ।

मार्गेशस्ताजभट्टादीन् वृत्वा स्वशिविरं ययौ ॥ ५१० ॥

५१०. 'राजा शत्रुओं से आक्रान्त हो गया है'—इस मिथ्या वार्ता से, विसूत्रित (अस्तव्यस्त) होकर, मार्गेश ताजभट्ट आदि को रखकर, अपने शिविर चला गया ।

पश्चाच्चेदलगिष्यत् स नष्टांस्तान् बलवर्जितान् ।

न किञ्चिदवशिष्येत खानस्य चलतः पथि ॥ ५११ ॥

५११. नष्ट एवं सेना रहित, उन लोगों के पीछे लगा होता. तो मार्ग में जाते हुए, खान (फतह) का कुछ भी शेष नहीं रह जाता ।

मार्गानभिज्ञो मार्गेशः सर्वेऽप्युभयवेतनाः ।

दायाददुःस्थितिं लोके काङ्क्षन्तः स्वार्थलिप्सया ।

प्रैरयंस्तद्रणाद् गन्तुं मार्गेशं चाप्यदीदरन् ॥ ५१२ ॥

५१२. मार्गेश मार्ग से अनभिज्ञ था, उभयतः वेतन ग्रहण करने वाले लोग, स्वार्थलिप्सा के कारण, संसार में दायनों की बुरी स्थिति चाह रहे थे, अतः मार्गेश को रण से जाने की प्रेरणा दिये और स्वयं चले गये ।

सन्तृपं सैन्यमुत्थाप्य ततो जिष्णुर्ज्यहाङ्गिरः ।

ज्यमालमरुगास्थानं ययौ स विजयोजितः ॥ ५१३ ॥

५१३. विजयोजित एवं विजयो जहाँगीर नृप सहित सेना को वहाँ से लेकर, जमाल मरुग स्थान पर चला गया ।

क्रिमेते मिलिताः खानमिति तेन विसर्जिताः ।

ददाह ताजभट्टः स ग्रामान् मङ्गल्यनादगान् ॥ ५१४ ॥

५१४. क्या ये लोग खान (फतह) से मिल गये हैं ? यह सन्देह करके, उसने उन्हें विसर्जित कर दिया । उस ताजभट्ट ने मंगलनाद में स्थित ग्रामों को जला दिया ।

तत्तद्गृहोर्ज्ज्वालधूमजालाकुलं नभः ।

घनकालोद्भवोदीप्ततडिदभ्रोपमां दधौ ॥ ५१५ ॥

५१५. उनके जलते घरों के ज्वाला एवं धूम-पुंज से व्याप्त आकाश, वर्षाकाल के चमकती विजली एवं बादल की तरह लग रहा था ।

पाद-टिप्पणी :

५१३. (१) जमाल मरुग : शुक्र ने भी इस स्थान का उल्लेख किया है (२ : ३४) । तबककति जै. रा ३५

अकवरी में 'जहाल' नगरी नाम दिया है । कुछ प्रतियों में 'ज्यमा' का जंमा' पाठभेद और 'मरुग' का 'मडुगा' मिलता है । फारिश्ता ने नाम 'जमाल' दिया है । ब्रिगस ने

लुण्ठन कार्य .

कृत यद् बाह्यदेशेषु काश्मीरैर्दिग्जयक्षणे ।

दाहलुण्ठ्यादिकं तद्वद् दृष्टमत्रेव मण्डले ॥ ५१६ ॥

५१६ 'दिग्जय' के समय काश्मीरियो ने बाह्य देशो मे, जो दाह एव लुण्ठनादि कार्य किये, वैया ही इम मण्डल मे भी देखा ।

अकिञ्चनान् नग्मान् विज्ञप्त्यै समुपागतान् ।

अद्यैव जातान् दृष्ट्वा तान् न कोऽप्याच्छादन ददौ ॥ ५१७ ॥

५१७ विज्ञप्ति के लिये अकिञ्चन एव नग्न लोगो को जो आज ही, जैसे पैदा हुए लग रहे थे, देखकर, उन्हे किसी ने शरीर ढकने के लिये वस्त्र नहीं दिया ।

तत्रत्यास्तद्धृतं कुप्यं रूप्यं धेनूः पशूनपि ।

दृष्ट्वाच्छ्वासाकुलाश्चक्रुराक्रन्दमुखरा दिशः ॥ ५१८ ॥

५१८. उन लोगो द्वारा कुप्य और रूप्य' एव पशुओ के अपहृत किया गया देखकर, वहाँ के लोग उच्छ्वास' से व्याकुल होकर, दिशाओं को आक्रन्दन से मुखरित कर दिया—

सर्वस्वहरणं यद्वत् कृतमस्मास्वहेतुकम् ।

युष्मास्वपि तथा भूयादचिरेण विरोधिभिः ॥ ५१९ ॥

५१९ 'जिस प्रकार हमलोगो का अकारण ही सर्वस्व हरण कर लिया, उसी प्रकार शीघ्र ही, तुम लोगो का भी विरोधियो द्वारा सर्वस्व अपहृत कर लिया जायगा ।'

तत्पापफलमेतेषु त्रिषु तन्मरणक्षणम् ।

फताहशाहराज्याप्तौ दृष्टं लोकैर्विगर्हितम् ॥ ५२० ॥

५२० फतहशाह के राज्य प्राप्त करने पर 'निन्दित पाप का फल, इन तीनों' को मिला, यह उनके मरने के समय लोगो ने देखा ।

'कहुलग्री' (४ ४९२) तथा रोजम ने 'जहल' (जे० ए० एस बी० ५४ ११४) तथा फारसी में 'चहल' कही-कही लिखा मिलता है । पहाडी के ऊपर के समतल क्षेत्र को 'मर' कहते हैं ।

पाद-टिप्पणी

५१६. (१) दिग्जय श्रीवर ने जोनराज वर्णिन मुल्तान महाबुद्दीन के दिग्जय यात्राकाल में अष्टनगर (आसनगर), पेशावर, नग्नहार आदि स्थानों के उत्पीडन आदि की ओर संकेत किया है ।
द्रष्टव्य : पाद टिप्पणी जोन० श्लोक ३७९-३८८ ।

पाद-टिप्पणी

५१८ (१) कुप्य एव रूप्य श्रीवर ने कुप्य एव रूप्य का उल्लेख जैन० ४ ७१ में किया है ।
द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० ४ ७१, ३ ४०१ । मख ने रूप्य के सन्दर्भ में लिखा है—

आहते हेमि रजतो वा रूप्य रजतेपि च ॥६०५॥

(२) उच्छ्वास दुःख से निकलनेवाली ऊपर की खोबी हुई साँस है । आह को श्वास या उसास का उच्छ्वास कहा जाता है—

मुसोच्छ्वास गन्धम्—विक्रम० ४ २२,
ऋतु० १ : ३, मेघ० १०२ ।

उत्पिञ्जोत्पादनाद् देशे शृण्वन्नित्यादि दूषणम् ।

प्रजापापादसन्धिदत्सुमार्गेशः स न्यवर्तत ॥ ५२१ ॥

५२१. देश में उत्पिञ्ज (उपद्रव-पड्यन्त्र) उत्पन्न करने के कारण, इस प्रकार के दोष सुनकर भी, प्रजा पाप ने सन्धि करने के लिये अनिच्छुक, मार्गेश लौट आया ।

सन्तृपो नगरं प्राप्तो विधाय विजयोत्सवम् ।

उच्चावचान् खानपक्षगतान् सर्वानदण्डयत् ॥ ५२२ ॥

५२२. नृप सहित नगर में पहुँचकर, विजयोत्सव करके, खान पक्ष में गये छोटे-बड़े सबको दण्डित^१ किया ।

एकं खानाग्रगं ज्ञात्वा शिष्टं तस्य कुटुम्बकम् ।

अवाधत न को देहे दुष्टरोग इवोल्बणः ॥ ५२३ ॥

५२३. एक खान के अग्रगामी व्यक्ति को अवशेष जानकर उसके परिवार को शरीर में उग्र दुष्ट रोग के समान किसने पीड़ित नहीं किया ?

कदाचिद् सुप्रीतो जनयति सुखं सार्वजनिकं

कदाचिद् वक्रेच्छुः सृजति जनतामीतिचकिताम् ।

फलं नीचं चौच्चं भविषु परिवृच्या विदधतो

ग्रहस्येवाकाशे गतिरिह विचित्रा वत विधेः ॥ ५२४ ॥

५२४. कभी प्रसन्न होकर, सार्वजनिक सुख पैदा करता है, कभी कुटिल होकर, जनता को ईति भीति से चकित^२ कर देता है, इस प्रकार संसार को परिवर्तनपूर्वक नीचा-ऊँचा फल देने-वाले, ग्रह के आकाश गति^३ के समान, आश्चर्य है, विधि की गति, विचित्र होती है ।

कञ्चित्कालं द्रवस्तः खानस्त्राणविवर्जितः ।

ययावकिञ्चित्करतां सावग्रह इवाम्बुदः ॥ ५२५ ॥

५२५. कुछ समय तक वस्तु एवं त्राणरहित खान, अनावृष्टि काल के मेघ सदृश, अकिञ्चितकर^४ हो गया ।

पाद-टिप्पणी :

५२२. (१) दण्डः तवकाते अकवरी में उल्लेख है—'मुल्तान विजय कर कादमीर (श्रीनगर) लौट आया और शरीरभृ को भेजा कि उन ग्रामों को उत्पादित करे, जिन्होंने फतहवाह को आश्रम दिया था (४५४-६८७) ।'

पाद-टिप्पणी :

५२४. (१) ईति : द्रष्टव्यः पाद-टिप्पणी :
जैनः ५०२ ।

(२) चकितः आतंक भीति से चकित होना यहाँ अभिप्रेत है ।

(३) ग्रहगतिः रात-दिन में जितना ग्रह चलता है, वह उसकी गति है । मंगल, बुध, बृहस्पति एवं शुक की गति मार्गी एवं वक्री दोनों होती हैं । मूर्य एवं चन्द्र सर्वदा मार्गी हैं । राहू एवं केतु सर्वदा वक्री हैं ।

पाद-टिप्पणी :

५२५. (१) अकिञ्चितकरः अशक्त =

फतहखा का पुन दश प्रवेश

अत्रान्तरे स्थितः खानः स भैरवगलान्तरे ।

अचिन्तयत् पुनर्देशप्रवेश नायकोर्जितः ॥ ५२६ ॥

५२६ इसी बीच भैरवगल^१ में स्थित, खान नायक से उर्जित होकर, पुन दश-प्रवेश के लिये विचार किया ।

मासद्वयमतिक्रम्य कश्मीराभिमुखस्ततः ।

आययौ स पुनः खानः सत्राण उद्भटभट्टैः ॥ ५२७ ॥

५२७ दो मास व्यतीत कर, रक्षक सहित खान, उद्भट भट्टों के साथ, काश्मीर की ओर पुन आया ।

तस्मिन् शूरपुरं प्राप्ते सनृपोऽथ ज्यहाङ्गिरः ।

निर्ययौ नगरात् तूर्णं संपूर्णः सैन्यसम्पदा ॥ ५२८ ॥

५२८ उसके शूरपुर^२ पहुँचने पर, नृप सहित जहाँगीर, तुरन्त सैन्य-सम्पत्ति से पूर्ण होकर, नगर से निकल पड़ा ।

तुच्छ = नितान्त निर्धन = अयहीन = परतत्र = कुछ करने में असमर्थ हो गया है—परतत्र मिदम् किञ्चित्-कर च—वेणी० . ३। तवक्काते अकबरी में उल्लेख है—‘आदम खा एव फतह खा जा कुछ समय के लिये गायब हो गये थे, पुन बहरामगला के आस-पास सर उठाये (४५५ = ६८७) ।’

तवक्काते अकबरी का वणन भ्रामक है। दानो पाण्डुलिपियो तथा लीयो सस्करण में आदम खा एव फतह खा दोनों नाम दिये गये हैं। किन्तु आदम खा पहले ही मर चुका था। फिरिस्ता के लीयो सस्करण में आदम खा का नाम नहीं है। यह ठीक है।

पाद-टिप्पणी

५२६ (१) भैरवगल वर्तमान बहरामगल। पुशियान से मार्ग पश्चिम की ओर प्रुन्तप्रदेशीय तीसी नदी अथवा तोही नदी के साथ जाता है। भैरवगल अथवा बहरामगल यही पर एक पर्वतीय ग्राम है। पुशियान के पश्चान यह पडाव का स्थान था। बहरामगल से यह मार्ग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और रतनपीर पास जो आठ हजार

दो सौ फीट की ऊँचाई पर है, जाता है। यह शिखर पीर पन्तशाल की ही एक शाखा है। मार्ग आगे चलकर, राजपुरी अथवा राजौरी उपत्यका में पहुँचता है। तवक्काते अकबरी में नाम ‘वैरम कल्ला’ अथवा ‘भरम कल्ला’ और फिरिस्ता ने ‘पुरम गोला’ लिखा है।

तवक्काते अकबरी में उल्लेख है—‘आदम खा तथा फतह खा बहुत समय तक गायब रहे और वैरम कल्ले के समय प्रकट हुए। दूसरी बार सेना एकत्रित करके काश्मीर पर चढ़ाई कर (४५४-४५५ = ६८७) ।’

फिरिस्ता लिखता है—‘फतहशाह कुछ समय के लिये गायब हो गया। कुछ समय पश्चात् वह जिला पुरमगोला में सेना एकत्रित कर काश्मीर की तरफ बढ़ा (४८५) ।’ द्र० ४ ५८४।

पाद टिप्पणी.

५२८ (१) शूरपुर द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० १ १ १०७।

प्राग्वत् स गुप्तिकास्थाने निषण्णः शिविरान्तरात् ।

गक्कराजसुतं रात्रौ सोऽशृणोद् विद्रुतं द्रुतम् ॥ ५२९ ॥

५२९. पूर्ववत् गुप्तिका^१ स्थान पर स्थित, उसने रात्रि में शिविर से गक्क^२ राजपुत्र को भागा हुआ सुना ।

आरोहणक्षणे तस्य तुरङ्गस्त्रासमग्रहीत् ।

क्षणं स शकुनशोषि नातिष्ठन्नित्पुरः क्रुधा ॥ ५३० ॥

५३०. उसके अव्वारोहण के समय अव्ववस्त हो गया, क्रोध से नित्पुर बह, शकुन का जानकार होने पर भी, क्षणभर^३ नहीं ठहरा ।

गृहीतभूरिचित्तोऽपि यत्रैष द्रोहितामगात् ।

कोऽन्यस्तिष्ठति तत्रेति त्रस्तः प्रत्यागतोऽभवत् ॥ ५३१ ॥

५३१. प्रचुर सम्पत्ति लेने पर भी, जब यह द्रोही हो गया, तो वहाँ दूसरा कौन ठहरेगा ? इस प्रकार दुःखी होकर, वह लौट आया ।

सुलग्ने निर्गतो भूयो मार्गेशः शिविरान्तरात् ।

उपायांश्चिन्तयाञ्चक्रे खानस्य बलभेदने ॥ ५३२ ॥

५३२. पुनः मार्गेश शुभ लग्न^४ में निकल पड़ा और खान के बल-भेदन का उपाय सोचने लगा ।

पाद-टिप्पणी :

५२९. (१) गुप्तिका : यह वर्तमान ग्राम गुप्त है । रामूह स्थान से दो मील पर गुप्त उदर के पूर्वोद मूल में गुप्त ग्राम स्थित है । इस अविव्यका का नाम गुप्तिकाड्डार है । इस उदर से मार्ग श्रीनगर जाता है । तत्रकाले अक्षरों के पाण्डुलिपियों में 'कसर-वार' तथा 'केसवालाहू' तथा लीथो संस्करण में 'गोसवार' लिखा गया है । फिरस्ता के लीथो संस्करण में 'कहवाकह' लिखा मिलता है (द्र० : ४ : ५८) ।

(२) गक्क : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० । २ : १३२ ।

पाद-टिप्पणी :

५३०. (१) क्षणभर : यदि अव्वकृत हो जाता है, तो कुछ समय तक कर पुनः यात्रा की जाती

है । उससे अव्वकृत दोष का परिमार्जन हो जाता है ।

पाद-टिप्पणी :

५३२. (१) शुभ लग्न : मंगल षड्। सन्मर्क विन्दु, मियरछेदन विन्दु, वह विन्दु जहाँ कि अतिज की क्रान्तिवृत्त या ग्रहपथ मिलते हैं । वह समय जिस समय सूर्य का प्रवेग किसी राशि-विशेष में होता है । वह समय जब क्रान्तिवृत्त का विन्दु अतिज के अनुसार अथवा यान्योत्तर रेखा पर होता है । ज्योतिष चिन्त का उत्तम अंश जितने में किसी एक राशि का उदय होता है । पृथ्वी जितने समय तक एक राशि में रहती है, उतने समय तक का लग्न होता है । किसी राशि में कुछ समय कम और किसी में अधिक लगता है—भीत राशि में लगनग पीने चार षड्, कन्या में प्रायः साढ़े पांच षड्, वृश्चिक में प्रायः पीने छः षड् ।

अत्रान्तरे शूरपुराज् जेरकाद्या महाभटाः ।

प्रविश्य नगरं रात्रौ बन्धनस्थानमोचयन् ॥ ५३३ ॥

५३३ इसी बीच शूरपुर^१ में जेरक^२ आदि महाभट्ट, रात्रि में नगर प्रवेश कर, बन्धन स्थान (कारागार) खोल दिये ।

ते सर्वे बन्धनान्मृत्युद्वारादिव विनिर्गताः ।

सैफडामरमुख्यास्ते संप्राप्तुर्विजयेश्वरम् ॥ ५३४ ॥

५३४ मृत्यु द्वार सदृश बन्धन से निकलकर, वे सब सैफ डामर प्रमुख लोग विजयेश्वर पहुँच गये ।

स सैफडामरः पूर्वं बन्धने स्वप्नमैक्षत ।

केनाप्येतत् पदद्वन्दं छिन्न शस्त्रेण तन्निशि ॥ ५३५ ॥

५३५. उस सैफ डामर ने पहले ही बन्धन में उसी रात यह स्वप्न देखा था—किसी ने शस्त्र से दोनों पैर काट^३ दिये ।

वीरस्य बन्धनं ह्यस्य स्फूर्जत्पक्षस्य रक्षणम् ।

सौष्मणः पतितं मेने वह्नेर्वस्त्रावगूहनम् ॥ ५३६ ॥

५३६ प्रबल पक्ष वाले इस वीर का बन्धन में रखना, ज्वाला युक्त अग्नि को वस्त्र से ढकने के समान माना ।

तथापि रक्षणं वह्नेरिव वस्त्राव गूहनम् ।

जयापीडपुराद् दुर्गाद् बन्धनं नगरे कथम् ॥ ५३७ ॥

५३७ जयापीडपुर^१ के दुर्ग से लाकर, नगर बन्धन में कैसे रखा गया ?

पाद-टिप्पणी .

५३३ (१) शूरपुर . द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी
जैन० १ १ १०७ ।

(२) जेरक : शुद्ध फारसी शब्द जीरक है ।
अर्थ प्रतिभाशाली = होशियार या चतुर होता है ।
तबक़ाते अकबरी में उल्लेख है—'फतह खा का सेवक
जैरक अबसर पाकर, नगर में चला गया । बहुत से
अमीर जो बन्दे थे, उन्हें निकाला । उनमें सैफ़ी
दानकारी भी था (४५५-६८७) ।'

फिरिस्ता लिखता है—'किन्तु उसका ध्यान यह

सुनने पर, पुन श्रीनगर की तरफ गया, जहाँ दो
राजकीय बन्दी सफ़ी और सगराम दूसरों के साथ
जो श्रीनगर में बन्दी थे, मुक्त हो गये (४८५) ।'

पाद-टिप्पणी

५३५ (१) पैर काटना अशुभ स्वप्न है ।

पाद-टिप्पणी .

५३७ (१) जयापीडपुर . द्रष्टव्य . पाद-
टिप्पणी : जैन० १ : ३ . ३३-४४, जौन० .
श्लोक० ३००, कल्हण ४ . ५०६, ५११ ।

इत्यपायोऽप्युपायोऽस्य जातो मार्गपतेर्यतः ।

एभ्राहिमः स मार्गेशस्तावत् पश्चाद्विनिर्गतः ॥ ५३८ ॥

५३८. इस प्रकार उनका उपकार भी इन मार्गपति के लिये उपकार हो गया । वह मार्गेश इब्राहिम, तब तक पीछे से आकर—

गंगनायकमुख्यानां बहूनां कदलं व्यधात् ।

ठक्कुराहमदजेराकप्रतीहारान्वयादयः ।

इत्थं तत्साहसं चक्रुर्लङ्घितक्रोशपष्टयः ॥ ५३९ ॥

५३९. गंगनायक^३ प्रमुख बहूत से लोगों का बध कर दिया । ठक्कुर अहमद, जेराक^४ प्रतीहार-वंशीय आदि लोग सा : कोस पारकर, यह साहस किये ।

विपदि समनुभूय कोऽपि कष्टं

भवति पदं नृपसम्पदां नितान्तम् ।

कनकमनलपातघातमाप्त्वा

शिरसि विभाति नृपस्य मौलिरूपम् ॥ ५४० ॥

५४०. विपत्ति में कष्ट का अनुभव कर, कोई सम्पत्ति का पात्र बनता है, सुवर्ण अग्निपात एवं आघात सहन कर, राजा के शिर पर मुकुट रूप शोभित होता है ।

कारापञ्जरनिमुक्तः

पक्षीवक्षतपक्षतिः ।

पुनर्जातमिवात्मानममन्यत

स डामरः ॥ ५४१ ॥

५४१. बक्षत पंख वाले पक्षी के समान, कारापंजर^५ से मुक्त वह डामर, अपना पुनर्जन्म माना ।

पाद-टिप्पणी :

५३९. (१) गंग : गमगुद्वीप के लिये पूर्व लेखकों ने व्यवहृत किया है । गृह अर्थां गच्छ नमस है जिसका अर्थ मृत्य होजा है ।

(२) जेराक = जीरक : तदवकाले अकवरी में उल्लेख है—'कदह खाँ का एक सेबक जीरक या जीराक अवसर पाकर, श्रीनगर में गया और बहूत अमीरों को जो बन्दी थे मुक्त कर दिया । उनमें मैक डामर भी था (४१५-६८८) ।'

पाद-टिप्पणी :

५४१. (१) कारापंजर : इसका यहाँ दो अर्थ है । पक्षी के लिये इसका अर्थ पिंजड़ा है, जिसमें पक्षी बन्दी बनाकर, रखा जाता है । मनुष्य के लिये शरीर है । शरीर पंजर में आत्मा बन्दी रहती है । आत्मा का शरीर त्याग मुक्ति है । इस शरीर के पश्चात् आत्मा दूसरा शरीर वारण कर पुनर्जन्म लेती है । कारागार से मुक्त होकर, उसने अपना पुनर्जन्म अनुभव किया, क्योंकि बन्दीकाल में कभी भी बध कर देने की वंका तत्कालीन स्थिति को देखते हुए बनी रहती थी ।

पूर्वं जयपुरे दुर्गे योऽभूद् बद्धः सहोदरः ।

काराग्राकारमुल्लङ्घ्य रज्जुनैकोऽपि निर्गतः ॥ ५४२ ॥

५४२ जो जयपुर दुर्ग^१ में बन्दी था, वह अकेल ही, जेल की चहारदिवारी, रस्सी द्वारा पार कर, निकल गया ।

रुद्धः सुप्तः पुनर्वद्वो नगरे बन्धनालये ।

निश्चिन्तितो वधस्तत्र द्विष्टैर्द्वित्रदिनान्तरे ॥ ५४३ ॥

५४३ सोते समय घेर लिया गया, और नगर में पुन बान्धकर, नगर के बन्धनालय (कारागार) में रख दिया गया । वहाँ पर दो तीन दिनों में शत्रुओं द्वारा वध होना निश्चित-प्राय था ।

एव कष्टात्ततो मुक्तः प्राप्तः खानान्तिकक्रमात् ।

प्रधानपुरुषाख्याति प्रापत् प्रकृतिमध्यगः ।

स सैफडामरस्तत्र यथा सख्यमतास्थितः ॥ ५४४ ॥

५४४ इस प्रकार बड़ी कठिनाई से, वहाँ से छूटकर, खान के पास (सैफ डामर) पहुँचा और क्रम से मन्त्रियों में प्रधान पुरुष के समान ख्याति प्राप्त कर ली । वहाँ उस सैफ डामर को समर्थन मिला ।

रामो रावणवञ्चितो यदि गृहान्नैवागमिष्यद् वनं

सुग्रीवः स च बालिना हृतपदो नैवाघटिष्यद् रुपा ।

लङ्कां प्राप्य रिपून् निहत्य समरे जेताभविष्यत् कथ

सयोग सुखदुःखयोः प्रतनुते धातैव भूत्यै द्वयोः ॥ ५४५ ॥

५४५ राम^१ यदि घर से वन न गये होते, और बालि^२ द्वारा पद अपहृत कर लिये जाने पर, सुग्रीव^३ क्रोध से न लडता, तो रावण^४ द्वारा प्रतारित होकर (राम) लका पहुँचकर, युद्ध में शत्रुओं को मारकर, विजेता कैसे होते ? विधाता ही कल्याण के लिये सुख एवं दुःख दोनों सयोग उपस्थित करता है ।

पाद टिप्पणी

५४२ (१) जयपुर दुर्ग अन्दरकाट ।

श्रीदत्त ने हादरा नामवाचक शब्द मानकर अनुवाद किया है ।

पाद टिप्पणी

५४५ (१) राम अयाध्यापति राम द्र०

पाद टिप्पणी १ १ २० ।

(२) बालि : सुग्रीव का ज्येष्ठ भ्राता था ।

सुग्रीव को इसने युवराज बनाया था । बाली महान पराक्रमी था । रावण को इसने पुष्कर क्षत्र में परास्त किया था (२० उ० ३४) । गोलभ गन्धर्व के साथ पन्द्रह वर्षों तक युद्ध किया किया था । अन्त में उसका वध किया था (कि० २२ २९) । यह इनना पराक्रमी था कि एक ही वाण से सात साल का भेदन करता था (कि० ११ ६७) । दुदुभी

राज्यार्थी विच्युतो देशात् खानो वीराप्तिलम्पटः ।

डामरो मार्गपक्रुद्धः सर्वनाशात् पदच्युतः ॥ ५४६ ॥

५४६. राज्याकांक्षी खान देश से निष्काशित कर दिया गया, और वीरों की प्राप्ति से लंपट हो गया, मार्गपति का क्रोधपात्र डामर सर्वनाशपूर्वक पदच्युत हो गया ।

एवमन्योन्यसापेक्षं नाभविष्यत् स्वयं यदि ।

प्रविश्य देशे राज्याप्तिः कथमस्य भविष्यति ॥ ५४७ ॥

५४७. इस प्रकार यदि स्वयं परस्पर की अपेक्षा न होती, तो देश में प्रवेशकर, इसे राज्य की प्राप्ति कैसे होती ?

राजा विभाति बहुवीरसमाश्रयेण

वीरा भजन्ति च तदाश्रयेण शोभाम् ।

अन्योन्यसंगतिरभङ्गुरभङ्गिरेषां

बालाङ्गनाकनकभूषणवद् विभाति ॥ ५४८ ॥

५४८. राजा बहुवीरों के आश्रय से शोभित होता है, और वीर भी राजा के आश्रय से शोभित होते हैं, इनकी स्थायी एवं छल-छद्म-रहित, पारस्परिक संगति बालाङ्गना के स्वर्ण-भूषण सदृश, शोभित होती है ।

राक्षस का बालि ने वध किया था । राम ने बालि का वध किया था । बालि पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ राजा था । चारों वेदों का अध्ययन किया था । अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था । नारद ने इसके धर्मपरायणता की स्तुति किया है (ब्रह्माण्ड . ३ : ७ : २१४-२४८) ।

(३) सुग्रीव : पिता का नाम महेन्द्र तथा माता का नाम ऋक्षकन्या विरजा था । महेन्द्र किष्किन्धा का राजा था । बाली का कनिष्ठ भ्राता था । बाली एक समय राक्षसों से युद्ध करने गया था । एक वर्ष तक किष्किन्धा नगरी लौट कर नहीं आया । सुग्रीव किष्किन्धा का राजा बन गया । ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी तारा को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया । बाली वापस लौट कर सुग्रीव को निष्काशित

जै रा. ३५

कर दिया । सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करने लगा । राम से सुग्रीव की मैत्री हो गयी । बाली का वध राम ने किया । सुग्रीव किष्किन्धा का राजा बन गया । बालीपुत्र अंगद किष्किन्धा का युवराज बनाया गया । सुग्रीव ने राम की सहायता किया । सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान अद्भुत था । वह कुशल सैन्य संचालक था । इसे कोई पुत्र नहीं था । इसकी पत्नियां तारा, रुमा तथा मोहना थीं । सुग्रीव के पश्चात् अंगद किष्किन्धा का राजा हुआ था । सुग्रीव ने लंका-विजय में राम की सर्वरूपेण सहायता किया था ।

(४) रावण : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : १ : ३ : ३७ ।

तेन प्राप्तेन सा खानसभा तत्र व्यराजत ।

मुक्तालतेवाङ्गनाङ्गे नायकेन शुभात्मना ॥ ५४९ ॥

५४९ इसके वहाँ आने से खान की वह सभा, उसी प्रकार शोभित हुई, जिस प्रकार अगना के अगो पर शुभ नायक' मणि से मुक्तालता ।

सन्धि प्रयास :

अत्रान्तरे मार्गपतिश्चकितस्तत्समागमात् ।

सन्धित्सुः शिखवाहावमुखान् खान व्यमर्जयत् ॥ ५५० ॥

५५० इसी बीच उनके समागम से चकित, मार्गपति सन्धि करने की इच्छा से, शेख वाहाव' प्रमुख लोगो को खान के पास भेजा ।

एधराजानको रिगडामरः केशवो बुधः ।

राजाग्रमेत्य सन्ध्यर्थं निन्यू राजपुरीपतिम् ॥ ५५१ ॥

५५१ एद राजानक, रिग डामर, बुध (विद्वान) केशव, सन्धि' के लिये राजपुरीपति को राजा के समक्ष ले गये ।

तावद् गदायरावुत्रमुखादाश्वास्य मार्गपः ।

शृङ्गारसीह तं भेदमनयद् द्वविणार्पणैः ॥ ५५२ ॥

५५२ तब तक मार्गपति ने गदारावुत्र के द्वारा शृङ्गार सिंह को आश्वासन एव धन देकर फोड़ लिया ।

पाद-टिप्पणी

५४९ (१) नायक मणि . हार के मध्य की मणि । माला के मध्य का नग ।

पाद-टिप्पणी .

५५० (१) वाहाव वहहाव नामवाचक अरथो शब्द है । वदान्य, अधिक दानशील अर्थ होता है ।

पाद-टिप्पणी

५५१ श्रोत ने 'केशव बुध' नामवाचक शब्द माना है । बुध का अर्थ यहाँ पर विद्वान किया गया है ।

(१) सन्धि . तबक्काते अकवरी में उल्लेख है—'जहागीर सँफी तथा अनकरी के मुक्त हो जाने से दु.गी हुआ और फतह खा से सन्धि करने का

विचार किया । उसने राजौरी के राजा को जिसकी सहायता से फतह खा काश्मीर पर आक्रमण किया था, सन्देश भेजा कि वह फतह खा की सेना में विद्रोह करे (४५५ = ६८८) ।'

फिरिश्ता लिखता है—'इस समय जहागीर मार्गेश ने भेदनीति से काम लेने का विचार किया क्योंकि उसने विचार किया कि जो नीति से सफल हो सकता है और इमानदारी से युद्ध के द्वारा सम्भव नहीं था (४८५) ।'

तबक्काते अकवरी एव फिरिश्ता पाण्डुलिपि तथा तीनो सस्करणों में—'इरादह सुलह व फतह खान नमूदह' लिखा है । इसमें प्रकट होता है कि सन्धि करना भी रणनीति वा एक अंग माना था ।

नीत्वा मार्गपतेः पुत्रं सन्धिस्तुः स बलद्वये ।
न्यवारयद् रणक्षोभं यावद् राजपुरीपतिः ॥ ५५३ ॥

५५३. जब तक राजपुरीपतिं सन्धि करने की इच्छा से मार्गपति के पुत्र को लेकर दोनों सेनाओं का रणक्षोभ निवारित कर रहा था—

तावन्मार्गेशपुत्रं तं रोद्धुमन्यैर्विनिश्चितम् ।
नामन्यत स यत्तेन साशङ्का मन्त्रिणोऽभवन् ॥ ५५४ ॥

५५४. तब तक अन्य लोगों ने उस मार्गेशपुत्र को अवरुद्ध करने का निश्चय किया, उस (राजपुरीपति) ने यह नहीं माना, जिससे मन्त्रि सशक्त हो उठे ।

यावत् प्रजासु सनृपासु विधिर्विरुद्धो
दायाददुःस्थितिरुपायशतैर्न याति ।
देहे दुराधिनिहते भिषजां प्रयुक्त्या
रोगाः कथं प्रविगलन्ति कृताधिकाराः ॥ ५५५ ॥

५५५. जब तक राजा एवं प्रजा पर विधाता प्रतिकूल रहता है, तब तक दायाद^१ (उत्तराधिकार) से उत्पन्न दुःस्थिति सैकड़ों उपायों से दूर नहीं होती, दुष्ट आधि^२ द्वारा शरीर के विनष्ट कर दिये जाने पर, श्रौषधियों के प्रयोग से जड़ जमाये रोग, कैसे दूर हो सकते हैं ?

खांन का पलायन :

खानान्तरङ्गैराक्षिप्ते भिन्ने राजपुरीपतौ ।
अकस्मादुदभूत् क्षोभः सर्वसैन्यभयावहः ॥ ५५६ ॥

५५६. खांन के अन्तरंगों द्वारा भेद पैदा कर, राजपुरीपति^१ के दूर कर दिये जाने पर, अकस्मात् सब सेनाओं को भयप्रद क्षोभ उठ खड़ा हुआ ।

पाद-टिप्पणी :

५५५. (१) दायाद : सम्बन्ध के कारण जिसकी चल एवं अचल सम्पत्ति में अधिकार होता है ।

(२) आधि : मानसिक व्यथा, चिन्ता = वेदना ।—न तेषामायदः सन्ति नाघयो व्याघय-स्तथा—महा०; अनोगतमाधि हेतुम्—श० : ३ : ११, रघु० : ८ : २७; ९ : ५४ ।

पाद-टिप्पणी :

५५६. (१) राजपुरीपति : फिरिस्ता लिखता है—‘इसलिये उसने (मार्गेश) राजपुरी के राजा को अनेक विश्वास दिलाया । प्रतिज्ञा किया और उसे सुल्तान की सेना में सम्मिलित होने के लिए फुसलाया (४८५) ।’

तबक्काते अकवरी में उल्लेख है—‘राजौरी के राजा को अन्य अमीर फतह खां से अलग होकर जहांगीर से मिल गये (४५५ = ६८८) ।’

गक्कशृङ्गारसीहाद्यास्त्रस्ता राजपुरी ययुः ।

खानोऽपि सखलो भीतो ययौ प्राग्बद् यथागतम् ॥ ५५७ ॥

५५७ गक्क, शृङ्गार सीह आदि त्रस्त होकर, राजपुरी चले गये और खान भी पूर्ववत् डर कर, सेना सहित यथागत चला गया ।

केचिज जेगकमेराद्याः प्राप्नुमर्गेशसन्निधौ ।

ज्यल्लालठक्कुरेष्णा कृतमाध्यस्थ्यसन्निधः ॥ ५५८ ॥

५५८ कुछ जराक मीर आदि लोग जल्लाल ठक्कुर के प्रेमवश मध्यस्थता की मन्त्रणा करके मार्गेश के समीप गये ।

एव क्षोभेण सा सेना खानस्याङ्गतरङ्गिता ।

ययौ सहस्रधा दीर्णा सेतुभङ्गादिवापगा ॥ ५५९ ॥

५५९ इस प्रकार क्षोभ से मद्य खान की वह तरङ्गित सना सेतुभङ्ग से नदी के समान सहस्रधा दीर्ण हो गयी ।

अथ मार्गपतिः श्रुत्वा तद्वृत्तान्तमनुद्रुतः ।

ययुत्सया ससैन्यः स प्रापच्छूरपुरान्तरम् ॥ ५६० ॥

५६० यह वृत्तान्त सुनकर अनुद्रुत मार्गपति युद्ध करने की इच्छा से सेना सहित शूरपुर पहुँचा ।

तत्र दूतमुखाच्छ्रुत्वा क्रमराज्यमुपद्रवम् ।

शाहिभङ्गवलप्राप्त्या चिन्ताद्वैगुण्यमादधे ॥ ५६१ ॥

५६१ यहाँ पर दूत के मुख से क्रमराज्य का उपद्रव सुनकर एव शाहिभग की सेना आ जाने से उसकी चिन्ता दूनी हो गयी ।

पाद टिप्पणी .

५५७ (१) खान तवक्काते अकवरी में उल्लेख है—'फतह खान परीशान हीकर भाग गया । जहाँगीर ने हीरापुर तक उसका पीछा किया (४५५-६८८) ।' फिरिस्ता लिखता है—'फतह खा दक्षिण पलायन करने के लिये वाघ्य कर दिया गया (४८५) ।' तवक्काते अकवरी में फतह खा के जम्मु विजय करने की बात लिखी गयी है—'फतह खा ने जम्मु पहुँच कर उसे विजय कर लिया । (४५५-६८८) ।' फिरिस्ता भी यही लिखता है—'फतह खा ने जम्मु का जिला जीत लिया (४८५) ।'

पाद-टिप्पणी

५५९ (१) दीर्ण विदारित = भयभीत = टुकड़-टुकड़े ।

पाद-टिप्पणी

५६० (१) अनुद्रुत अनुगत = अनुगमित = अनुधावित = जिसका जिसका पीछा गया हो ।

(२) शूरपुर द्रष्टव्य पाद टिप्पणी
जैन० १ १ १०७ ।

पाद टिप्पणी

५६१ (१) शाहिभग द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी
जैन० ३ ११४, ४ २११, २७०, २७२ ।

निवृच्य स ततो राज्ञः प्राप्तः सुय्यपुरान्तरम् ।

वन्नन्ध नौरुजं खानं युक्त्या यत् साधु तद् व्यधात् ॥ ५६२ ॥

५६२. वहाँ से लौट कर, वह सुय्यपुरः पहुँचा और नौरुज खां को युक्तिपूर्वक वन्दी बना लिया और जो उचित था किया ।

स हि तद्विसे प्राप्स्येन्मुष्णञ् श्रीगरं विटैः ।

किं तु तत्क्राड्क्षितं क्रूरं न सिद्धं पौरपुण्यतः ॥ ५६३ ॥

५६३. उस दिन वह निश्चय ही श्रीनगर' को विटों द्वारा लूटते हुए, पहुँचा किन्तु पुरवासियों के पुण्य से उसकी यह क्रूर अभिलाषा पूर्ण सिद्ध नहीं हुई ।

सोऽपेक्ष्य मार्गपं तत्र दौकितं क्रमराज्यतः ।

पदार्थराशौ दन्वाग्निं तद्रुपा भस्मसाद् व्यधात् ॥ ५६४ ॥

५६४. वह क्रमराज्य (कमराज) से मार्गपति के यहाँ उपस्थित होने की सम्भावना करके, क्रोध से वस्तुओं के ढेर में आग लगाकर, भस्मसात कर दिया ।

अन्यायतः प्रतिदिनं समुपार्ज्यं वित्तं

यदानभोगरांहतं निहितं गुहान्तः ।

तत् संप्रयाति कृपणेषु कृतानुतापं

भूपालसादनलसादरिदस्युसाच्च ॥ ५६५ ॥

५६५. अन्यायपूर्वक प्रतिदिन अर्जित करके, दान, भोगरहित, जो धन गुफा के अन्दर रख दिया जाता है, वह राजा, अग्नि, गन्धु एवं दस्युओं के अधीन होकर, कृपणों का सन्तापकारी होता है ।

ततस्तत्सहितः प्राप्तो नगरं स ज्यहाङ्गिरः ।

जयेन तावन्मात्रेण नगरे स व्यजृम्भत ॥ ५६६ ॥

५६६. उसके सहित वह जहाँगीर (श्री) नगर में पहुँचा और उतने ही विजय से नगर में (व्यजृम्भत्) बड़ा प्रसन्न हुआ ।

पाद-टिप्पणी :

५६२. (१) सुय्यपुरः द्रव्यव्यः पाद-टिप्पणी
 जैन० : १ : ३ : ११, १०८; १ : ७ : ३४, ४३,
 २०७; ३ : ४३, १८१ ।

पाद-टिप्पणी :

५६३. (१) श्रीनगरः द्र० : २ : ११९;
 ४ : १९४, ३४२ ।

सैदान् निष्कासितान् देशात् स्वपुत्रवधकानपि ।

लेखैरानाययामास सोपयोग्यतया स तान् ॥ ५६७ ॥

५६७ अपने पुत्र का वध करनेवाले, देश से निष्कासित^१ सैय्यदो को लेखों द्वारा उन्हें उपयोगी ममज्ञकर, ल आया ।

तदन्तरे जम्भवाटे वसन् खानो बलोजितः ।

मृगानिव हरिस्तत्र विदधे दुर्दशान् खशान् ॥ ५६८ ॥

५६८ इसी बीच बलोजित खान जम्भवाट^२ में रहते हुए, खशो की उसी प्रकार दुर्दशा को, जिस प्रकार सिंह मृगों को ।

सप्तविंशतिमह्वयान् स कश्मीरविषयान् यथा ।

तावतीः सिन्धुरीस्तत्र व्यधाद् दुःस्थः पराक्रमैः ॥ ५६९ ॥

५६९ उमन जिस प्रकार वहाँ पर पराक्रम से सत्ताईस काश्मीर विषयों^३ को पीड़ित किया, उसी प्रकार उतने ही सिन्धुरी^२ को दुःस्थ^३ कर दिया ।

साधं मल्हानहसैस्तत्कटकः सुभटोत्कटः ।

मद्रमण्डलमुल्लुप्य तुरुष्कांश्चकितान् व्यधात् ॥ ५७० ॥

५७० सुभटो स उग्र उसकी सेना मल्हान हसो^४ के साथ मद्रमण्डल को लूटकर तुरुष्कों को चकित कर दिया ।

पाद-टिप्पणी •

५६७ (१) निष्कासित सैय्यद तद्वक्त्राते अक्वरी में उल्लेख है—'इसी बीच जहाँगीर ने सैय्यदा को जिन्हें उसने इसके पूर्व निर्वासित कर दिया था प्रोत्साहन देकर बुलाया (४५५-६८८) ।' फिरीस्ता लिखता है—'इसी समय सुल्तान तथा जहाँगीर मारके ने निर्वासित सैय्यदा को पुन बुलाया (४८५-४८६) ।'

पाद-टिप्पणी :

५६८ (१) जम्भ-वाट जम्मू प्रदेश । श्रादत्त न मल जम्भ-वाट नाम ही अनुवाद में दिया है ।

पाद-टिप्पणी

५६९ (१) विषय श्रीवर ने शोमेन्द्र द्वारा

उल्लिखित सत्ताईस विषयों का उल्लेख किया है । धर्मशास्त्र ६४३ । द्रष्टव्य लोकप्रकाश पुष्ठ ६० । 'काश्मीरपु सप्तविंशति विषया' ।

(२) सिन्धुरी हाथी-वनराज का भी नाम है ।

(३) दुःस्थ दुर्दशाग्रस्त, दयनीय या गरीब ।

पाद-टिप्पणी

५७० (१) मल्हान हस • कल्हण ने भी 'मल्हण हम' का प्रयोग किया है (रा० ८ १०८४) । दोनों स्थानों पर वह जातिवाचक शब्द है । हरिहद स्थान निवासी मल्हण हस लाग थे । यदि मल्हन शब्द वशवाचक हा तो इस माल्हण हाना चाहिए । कल्हण वा मल्हण एव श्रीवर वा मल्हान एक ही प्रतीत होता है । जैसे मल्हण वा साल्हण एव 'कल्हण' का 'काल्हण' प्रयोग मिलता है ।

स मद्रमण्डलं जित्वा दत्त्वा राजपुरीपतेः ।
जिष्णुश्चैत्रे पुनः प्राप तद्युतो नायकालयम् ॥ ५७१ ॥

५७१. वह विजेता मद्रमण्डल को जीत कर तथा राजपुरीपति को प्रदान कर, पुनः उसके साथ चैत्र मास में नायक के घर पहुँचा ।

गृहं दैवतवत् प्राप्तं खानं तं मानयन् गुणैः ।
मसोदनायकोऽमुष्मिन्नाभवद् भक्तिखण्डितः ॥ ५७२ ॥

५७२. गुणों के कारण घर आये खान को देव के समान सम्मानित करते हुए, मसोद नायक उसके प्रति भक्ति-रहित हो गया ।

सागरस्त्यजति चेन्निजां स्थितिं
परिचमोदयसुपैति चैत्रविः ।

क्षत्रियः शरणमागतेऽर्थिनी

प्रायश्चलति न स्वधर्मतः ॥ ५७३ ॥

५७३. यदि सागर अपनी मर्यादा^१ त्याग दे, और यदि सूर्य पश्चिम उदय होने लगे, तो भी क्षत्री अर्थी के शरण आने पर, प्रायः अपने धर्म से विचलित नहीं होता ।

स सैन्यसंग्रहं कृत्वा छयिल्लकटकान्वितः ।
तस्थौ खानो गिरिशृङ्गे वैरिभङ्गविधित्सया ॥ ५७४ ॥

५७४. सैन्य संग्रह कर, छयिल्ल^१ की सेना सहित, वह खान वैरियों का विनाश करने की इच्छा से पर्वतशृंग पर स्थित हो गया ।

गेगैरिव भटैर्ध्वस्तसमस्तगृहवस्तुभिः ।

वास्तव्यानां स्थितिर्दुःस्था गेहे देहे यथाभवत् ॥ ५७५ ॥

५७५. देह में रोगी के समान भटों ने समस्त गृह वस्तुओं को ध्वस्त करके, घर में निवासियों की दयनीय स्थिति कर दिया ।

पाद-टिप्पणी :

५७३. (१) मर्यादा : समुद्र अपने निश्चित बाढ़ पंक्ति से ऊपर तथा निम्नतर जलन्तर में नहीं जाता है । शेर वर्ण आदि का कोई प्रभाव उसपर नहीं पड़ता । मर्यादा अपनी मर्यादा के अन्दर रहता है । मर्यादा की उपमा समुद्र से की जाती है ।

(२) शरण : रक्षा = आश्रय = पनाह । क्षत्रियों का धर्म शरणार्थी की रक्षा करना है । मंत्र ने शरण

की परिभाषा किया है—शरणं गृहरक्षित्रोः प्रोक्षणं मेचने वत्रे ॥ २३० ॥

मेवाड़ के राणा कितने ही मुसलिन सामन्तों आदि को शरण देकर, मुसलिन बादशाहों तथा सूबेदारों से युद्ध करते हुए, बलिदान हो गये हैं परन्तु शरणार्थी की अन्तिम स्वास तक रक्षा की है ।

पाद-टिप्पणी :

५७४. (१) छयिल्ल : छिडा स्थान है । इसका पुनः उल्लेख नहीं आता है ।

दौहित्रं हाज्यिखानस्य खानमेस्वन्दराभिघम् ।

कम्पनाधिपतिं कृत्वा स्वामार्थं स व्यसर्जयत् ॥ ५८३ ॥

५८३ उसने हाजी खा' के दौहित्र खान मीर सिकन्दर को कम्पनाधिपति' बनाकर, स्वाम को भेज दिया ।

ममोदनायकीयं च राष्ट्रं दत्त्वा स्वगुप्तये ।

यश्शराजानकं चापि मसैन्य प्रत्यमुच्यत ॥ ५८४ ॥

५८४ अपनी रक्षा के लिये मसूद नायक के राष्ट्र को देकर, सेना सहित यश्श' राजानक को मुक्त कर दिया (भेज दिया) ।

सम देशसुखेनाथ प्रालये तनुतां गते ।

स्वसैन्यमहितः खानो राजपुर्याः समाययौ ॥ ५८५ ॥

५८५ देश सुख के नाथ प्रालय' क्षीण हो जाने पर, अपने सेना सहित खान राजपुरी से चला गया ।

प्राप्तं खानं ममाकर्ण्य तं भैरवगलान्तरे ।

मार्गं शूरपुरे रोद्धु मार्गेशः सनृपो ययौ ॥ ५८६ ॥

५८६ उस खान को भैरवगल' में पहुँचा सुनकर, नृपति सहित मार्गेश शूरपुर' में उसका मार्ग रोकने के लिये आया ।

पाद टिप्पणी

५८३ (१) हाजी खाँ शाहमीर वस का नवा मुल्तान हैदरशाह (सन १४७०-१४७० ई०) नाम से गद्दी पर बैठा था । वह मुहम्मद शाह का पितामह था । सम्भव है, यह कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो क्योंकि श्रीवर मुल्तान शब्द का प्रयोग नाम के साथ नहीं करता ।

(२) कम्पनाधिपति राजतरंगिणी में कम्पना-पति, कम्पनश, कम्पनाधीश, कम्पनाधिपति समानार्थक गब्द है । इसका अर्थ सेनापति होता है (इ० कल्हण ५ ४४७, ७ १३६२-१३६६ तथा जैन० ४ : ३०१) । फारसी में सिपहसालार कहा जायगा ।

पाद टिप्पणी

५८४ (१) यश्श राजानव सम्भवत

ईशा का अपभ्रंश यश्शा राजानक शब्द है, यदि यह मुसलिम था अन्यथा यश्श नाम भी काश्मीर हिन्दुओं का होता था । जस्सक या यश्शक (सन ११८१-११९९ ई०) काश्मीर का राजा हुआ है । नामों के अन्त में 'क' जोड़ देना काश्मीरी परम्परा है ।

पाद-टिप्पणी

५८५ (१) प्रालेय हिम = तुपार = ईशा-चलप्रालेय प्लवनेच्छया—गीत० १, -प्रालेयशीतम-चलेश्वरमीश्वरोपि नि० ४ ६४, मेघ० ३९ ।

पाद टिप्पणी

५८६ (१) भैरव गल . द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी जैन० ४ ५२४ ।

(२) शूरपुर . द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० १ १ १०७ ।

प्रवेशरोधः खानस्य तदूर्ध्वगलवर्तिनः ।
 राहुदेहेऽमृतस्येव देशेऽभूच्चक्रभीतितः ॥ ५८७ ॥

५८७. चक्र भय से भैरवगल स्थित खान का देश में प्रवेश उसी प्रकार अवरुद्ध हो गया, जिस प्रकार विष्णु भय से गले^१ में स्थित अमृत का राहु^२ के देह में प्रवेश अवरुद्ध हो गया था ।

फतह खां का तृतीय आगमन :

पशुपादिष्टमार्गेण परुद्धच्छ्रावणान्तरे ।
 ततोऽगाद् गिरिमुल्लङ्घ्य खानः काचगलान्तराद् ॥ ५८८ ॥

५८८. पहले वर्ष के समान श्रावण में खान पशुओं^१ के पैरों से बने मार्ग के द्वारा पर्वत पारकर, वहाँ से काचगल^२ के मध्य से चला आया ।

ताजभट्टादिसैन्यौघो गुसिकोड्डारभूतले ।
 क्षुब्धं वायुरिवागत्य चक्रे खानवलाणवम् ॥ ५८९ ॥

५८९. गुसिकोड्डार^१, भूमि पर ताजभट्ट आदि का सैनपुंज वायु के समान आकर, खान के सैन्य-सागर को क्षुब्ध कर दिया ।

ध्वनिदुन्दुभिनादेन तर्जयन् परितो जनान् ।
 खानः सकटको भीत्या नगरं व्याकुलं कृतम् ॥ ५९० ॥

५९०. सेना सहित खान बजाते दुन्दुभी के शब्द से चारों ओर लोगों को तर्जित करते हुए, नगर को भय से व्याकुल कर दिया ।

उड्डीयेवागतं श्रुत्वा साश्चर्यो मार्गपस्ततः ।
 ससैन्यः सनृपस्तूर्णं तद्युद्धाय समाययौ ॥ ५९१ ॥

५९१. उड़कर आने के समान, उसका शीघ्र गमन सुनकर, मार्गपति आश्चर्य में पड़ गया । वहाँ से तुरन्त सेना सहित राजा को साथ लेकर उससे युद्ध के लिये आया ।

पाद-टिप्पणी :

५८७. (१) चक्र : शब्द श्लिष्ट है । चक्र का अर्थ षड्यन्त्र तथा छल और विष्णु का सुदर्शन चक्र है ।

(२) गल : गल शब्द श्लिष्ट है । इसका अर्थ स्थान, देश तथा कण्ठ भी होता है ।

(३) राहु : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : ३७० विष्णु के चक्र से राहु का कण्ठोच्छेदन होकर मुण्ड राहु तथा षड् केतु हो गया था ।

पाद-टिप्पणी :

५८८. पशुपादिष्ट : श्रीदत्त ने मूल शब्द रख कर 'खान पशुपादिष्ट सड़क से गत वर्ष के समान गया' अनुवाद किया है (पृष्ठ : २ : ३२८) ।

(२) काचगल : इस समय इस स्थान को काच गुलमर्ग कहते हैं । यह पीर पन्तसाल के उत्तरीय ढाल पर है ।

पाद-टिप्पणी :

५८९. (१) गुसिक : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : ४६१, ५९३ । गुसिकोड्डार एक करेवा का नाम है ।

राजसेना एव ग्वान मध्य युद्ध

उड्डामगे डामरः म शौर्यश्रीगरुडामरः ।

रणे डामरयागेऽन्तर्गभावुच्छुष्मरुद्रवत् ॥ ५९२ ॥

५९२ शौर्य एव शोभा में गरुड सदृश, अमर प्रचण्ड उड्ड डामर रण में उमी प्रकार शोभित हुआ, जिस प्रकार डामर याग^१ में उग्र रुद्र ।

केचित् मैदमटास्तत्र युध्यन्तः सुभटैः महः ।

अनिवर्तितया याता दिव्यस्त्रीसुखभागिताम् ॥ ५९३ ॥

५९३ वहाँ पर सुभटों के साथ युद्ध करते हुए, कुछ सैय्यदभट पीछे छूटने के कारण स्वर्ग-स्त्री^१ सुख क भागी बन ।

श्वभ्रपातरणाघातक्षतानां तत्समागमे ।

शवानां राशयस्तत्र पतिताः समरान्तरे ॥ ५९४ ॥

५९४ उस युद्ध में गर्त में गिरे, और रणाघात स क्षत शवा के ढेर पड़े थे ।

पाद-टिप्पणी

५९२ (१) याग यज्ञानुष्ठान जिसमें आहुति दी जाती है । थीदत्त ने नामवाचक शब्द माना है । उन्होंने याग डामर का नाम दिया है । शकर ने सतीयक के समय उग्र रूप धारण किया था ।

(२) डामर डामर शब्द श्लिष्ट है । डामर नामवाचक शब्द है । उसका दूसरा अर्थ भयानक भी होता है । इसी अर्थ में इसका निम्नलिखित प्रयोग मिलता है—पर्याप्त मपि रमणीय डामरत्व मघते गगन तल प्रयाण वेग—मातगलीला ५ ३ ।

पाद टिप्पणी

५९३ (१) सैय्यद तवकफाते अववरी में उल्लेख है—'मुल्तान तथा फनह खा में धार युद्ध हुआ, सैफी दानवरी ने फनह खा के तरफ से वीरता-पूर्वक युद्ध किया तथा मुल्तान की ओर में सैय्यदों

ने घोर परिश्रम तथा वीरता प्रदर्शित किया, उनकी बहुत बड़ी सेना गहीद हो गयी और जो लोग बच गये थे मुल्तान तथा जहांगीर के विश्वासपात्र हो गये (४५५-६८८) ।'

फिरिस्ता लिखता है—'फनह खा के आने पर मुल्तान तथा फनह खा की सेना में घोर युद्ध हुआ । दोनों तरफ लोग साहस से युद्ध किये, परन्तु फनहखाह हार गया (४८६) ।'

(२) स्वर्ग-स्त्री = अप्सरा । द्रष्टव्य . पाद-टिप्पणी . जैन० ४ १७८ । स्वर्गलोक सात लोकों में से तीसरा लोक है । उसका विस्तार सूर्यलोक से ध्रुवलोक तक माना गया है । देवताओं का निवास माना जाता है । सत्कर्मी एव पुण्यात्माओं की आत्मा इसी लोक में निवास करती है । वीरगति प्राप्त मानव भी इसी स्वर्ग लोक में जाता है ।

न सैद्युद्धे नो खानागमप्रथमसङ्गरे ।

भटक्षयोऽभवद् यादृग् गुसिकोड्डारसङ्गरे ॥ ५९५ ॥

५९५. न तो सैद्युद्ध के युद्ध में, और न खान के प्रथम युद्ध में, वैसा भट-क्षय नहीं हुआ, जैसा कि गुसिकोड्डार^१ के युद्ध में भट-क्षय हुआ ।

प्रमेयभाजोऽप्यासन् ये रणे मुख्या निजोचितम् ।

शौर्यं नादर्शयन् केचित् साक्षिभूता इव स्थिताः ॥ ५९६ ॥

५९६. युद्ध प्रमेयभागी जो प्रमुख लोग थे, वे भी अपने उचित शौर्य को प्रकट नहीं किये और साक्षी के समान स्थित रहे ।

पातनेनेव वृक्षस्य पक्षिणावा इव च्युताः ।

गता हताः क्षताश्चासन् यत्र तत्र शवत्रजाः ॥ ५९७ ॥

५९७. वृक्ष के गिर जाने से च्युत, पक्षी-सावकों के समान, हत एवं क्षत शव, यत्र-तत्र पड़े थे ।

पूर्वापकारी यो यस्य ग्रामे वा नगरेऽभवत् ।

स तस्य बाधं कृतवान् दुर्बलस्य बली तदा ॥ ५९८ ॥

५९८. उस समय गाँवों में अथवा नगर में जो जिसका पहले का अपकारी था, वह बली उस दुर्बल को पीड़ित किया ।

मसोदनायकस्तत्र सायकायुधवर्षणे ।

रुद्धाश्चो विजहौ प्राणान् भावि केन विलङ्घयते ॥ ५९९ ॥

५९९. बाणवर्षा मध्य अरुन रोककर, मसोद नायक ने प्राण त्याग कर दिया । भावी कौन लौंघ सकता है ?

कृत्वान्यान् युद्धगान् यत्र मार्गेशोऽगात् स्वरक्षया ।

श्रीसैफडामरो वीरयुतस्तत्रैव सोऽभवत् ॥ ६०० ॥

६००. मार्गेश अन्य लोगों को युद्ध में भेजकर, अपनी रक्षापूर्वक जहाँ पर गया, वहाँ पर, वीरों सहित सैफ डामर भी था ।

यो गवेष्यः स चावाप्त इति तुष्टो भटावृतः ।

प्रथमं प्राहरत् तस्य मूर्ध्नि श्रीसैफडामरः ॥ ६०१ ॥

६०१. 'अन्वेषण योग्य का वह प्राप्त हो गया',—इस प्रकार सन्तुष्ट, भटों के साथ सैफ डामर ने सर्वप्रथम उसके सिर पर प्रहार किया ।

पाद-टिप्पणी :

५९५. (१) गुसिकोड्डार : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : ४ : ४६१ ।

अलगिरो हँधरश्च स च क्रूरा इव ग्रहाः ।

मुखे भुजे कपाले च न्नन्तस्त विवश व्यधुः ॥ ६०२ ॥

६०२ क्रूर^१ ग्रह के समान अलीशेर और हैदर उसके मुख, बाहु एव कपाल पर प्रहार किये और उसे विवश कर दिये ।

अथ मार्गपतेः स्वर्णवर्णमङ्गलमालिकाम् ।

सचामरां डामरेशो जयश्रियमिवासदत् ॥ ६०३ ॥

६०३ डामरेश ने लक्ष्मी के समान, मार्गपति के चामर सहित, स्वर्णवर्ण मंगलमालिका^१ को ले लिया ।

उपेक्षितं तं तत्रस्थैर्निजैराश्वस्तमानसम् ।

ररक्ष केवल प्रीतो जात्यश्वः समराच्चलन् ॥ ६०४ ॥

६०४ वहाँ स्थित निजी लोगो ने आस्वस्य मन उस मार्गपति की उपेक्षा कर दी, केवल एक उत्तम अश्व^१ प्रसन्न होकर, युद्धभूमि में जाते हुए उसकी रक्षा की ।

पाद-टिप्पणी

६०२ (१) क्रूर ग्रह शनि, मंगल एव सूर्य क्रूर ग्रह हैं । राहु एव केतु यदि क्रूर ग्रह के साथ होंगे तो क्रूर और शुभ के साथ शुभ होते हैं । गुरु एव शुक्र शुभ ग्रह हैं । बुध सम ग्रह हैं । चन्द्रमा का क्रम उतार-चढ़ाव का होता है ।

पाद टिप्पणी

६०३ (१) मंगलमालिका यात्रा, रण-यात्रा अथवा शुभ कार्यों के प्रारम्भ काल में माल्या पंगु करने की प्रथा है । मन्त्रों के साथ रक्षाबन्धन तथा माला पहनाया जाता है । काश्मीर में यद्यपि जनता मुसलमान हो गयी थी परन्तु वह पुरातन संस्कारों को पूर्णतया त्याग नहीं सकी थी । मार्गपति को भी रणयात्रा के समय इस प्रकार की सुवर्णमयी मंगलमाला दी गयी थी । मुसलिम धर्म में सुवर्ण हराम है । मुसलिम बादशाहों तथा उमराओं के चित्रों में इसीलिये मोतियों की माला पहनी दिखाई

जाती है । सोना यद्यपि धारण किया जाता था, जैसे शराब हराम होने पर भी खूब पान की जाती थी ।

विवाह के समय गाये जानेवाले मंगल गीत को भी मंगलमालिका कहते हैं । यहाँ स्वर्णमयी विशेषण के कारण मंगल गीत से अभिप्राय नहीं है ।

पाद-टिप्पणी

६०४ (१) अश्व अश्व तथा स्वान दोनों स्वामीभवत होते हैं । उनके विषय में सभी देशों में अनेक प्रकार की गाथाएँ प्रचलित हैं । महाराणा प्रताप की भी प्राणरक्षा उनके अश्व चेतक के कारण हुई थी । अश्व स्वामी की रक्षा रणक्षेत्र में अपने प्राण की बाजी लगाकर करता है । स्वामी के गिर जाने पर, उसे मारने आते हुए सैनिकों पर आक्रमण करता है । स्वान भी अपने स्वामी पर आक्रमण होने के समय, उसकी रक्षा प्राणपन से करता है ।

विहितारित्रप्रसराः सचिवाः सममेकपार्श्वगताः ।

यत्र सुशस्त्रप्रचिता मज्जति नौकेव राजश्रीः ॥ ६०५ ॥

६०५. सुशस्त्र संग्रही एवं शत्रु से रक्षार्थी व्यवस्था करनेवाले सचिव एक तरफ हो जाते हैं, तब राजश्री नौका के समान डूब जाती है ।

वैदेशिकभटैर्द्रोहे विहिते समरागमे ।

तावत् ते कत्यवाडाद्या निन्युः खानं यथागतम् ॥ ६०६ ॥

६०६. युद्ध के समय विदेशी^१ भटों के द्रोह करने देने पर, वे कत्यवाड^२ आदि लोग खान को जैसे आया था, वैसे ले गये ।

खानो राजभटैर्वद्रो रणे मिथ्येति वार्तया ।

स सैफडामरो युद्धात् स्रस्तधैर्यो न्यवर्तत ॥ ६०७ ॥

६०७. 'खान युद्ध में राजभटों द्वारा बन्दी बना लिया गया'—इस मिथ्या घोषणा से उस सैफ डामर का धैर्य पस्त हो गया और युद्ध से विमुख हो गया ।

तत्तद्वराश्वसामग्रीं गृह्णन् शूरपुराध्वना ।

समरोड्डामरः सैफडामरः खानमासदत् ॥ ६०८ ॥

६०८. अनेक श्रेष्ठ अश्व आदि सामग्री ग्रहण कर, शूरपुर^३ मार्ग से युद्ध में भयावह सैफ डामर खान के पास पहुँचा ।

पाद-टिप्पणी :

६०५. (१) नौका : श्रीवर ने उत्तम उपमा दिया है । नौका पर जब नौकारूढ़ लोग एक ही तरफ हो जाते हैं, तो उन्हीं के भार से नौका या तो उलट जाती है या करवट लेकर डूब जाती है । मनुष्य फाँसी के कँदी के समान अपने भार के ही कारण अपनी मृत्यु का कारण हो जाता है । नौका में खड़े होना या अन्वड में फँसने पर उस पर हिलना-डुलना अथवा आतंकित होकर हटना-बढ़ना खतरनाक ही जाता है ।

शरित्र का अर्थ पतवार नौका का पतवार तथा शत्रु से रक्षा दोनों होता है । पतवार नौका का संचालन करती है, उसकी दिशा ठीक रखती है, रक्षा करती है । एकपार्श्व का अर्थ भी श्लिष्ट है । उसका अर्थ एक तरफ अथवा एकांगी हो जाना है । यदि सभी सचिव एक तरफ हो जाते हैं, तो राज्य का शक्ति सन्तुलन बिगड़ जाता है । वे सब कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं । राजा उनका कुछ अनिष्ट करने अथवा उनपर नियन्त्रण रखने में असमर्थ हो

जाता है । इसी प्रकार नौका में एक तरफ भार पड़ते ही सन्तुलन बिगड़ जाता है । पतवार रक्षा नहीं कर सकता । नाव डूब जाती है ।

पाद-टिप्पणी :

६०६. (१) विदेशी : काश्मीर तथा फतह खान की दोनों सेनाओं में विदेशी अर्थात् गैर-काश्मीरी सैनिक थे । उनकी ममता तथा निष्ठा किसी के साथ कभी नहीं रही है । यही काश्मीर का इतिहास रहा है । वे स्वयं के लिए लड़नेवाले भाड़े के सिपाही थे । जिवर पलड़ा भारी देखते थे, उसी तरफ झुक जाते थे । उनकी इस अर्थकरी नीति के कारण काश्मीर समृद्धि की ओर नहीं बढ़ सका ।

(२) कत्यवाड : तबक्काते अकवरी में उल्लेख है—'इस अवसर पर फतह खान पराजित हो गया । वापस लौट गया (५५५ = ६८८) ।' श्रीदत्त ने व्यक्तिवाचक नाम माना है ।

पाद-टिप्पणी :

६०८. (१) शूरपुर : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जै० : १ : १ : १०७ ।

इत्थं तृतीयवारं स प्रविष्टो मण्डलान्तरात् ।

वधं कृत्वा विनिर्गत्य खानः पर्णोत्समागतः ॥ ६०९ ॥

६०९ इस प्रकार खान^१ तृतीय वार देश में प्रवेश कर और वध करके मण्डल से पर्णोत्स^२ गया ।

मार्गेश का विषाद

अधर्मबहुलः कालः सर्वे द्रोहपरायणाः ।

राजा शिशुतरश्चाय स्वतन्त्र मन्त्रिमण्डलम् ॥ ६१० ॥

६१० 'समय अधर्म-बहुल हो गया है, सभी लोग द्रोहपरायण हैं, राजा बालक है, मन्त्रिमण्डल स्वतन्त्र (स्वेच्छाचारी) है—

अविधेया निजाश्चामी खानपक्षप्रतीक्षिणः ।

पौरा निरनुरागाश्च निष्क्रोग नृपमन्दिरम् ॥ ६११ ॥

६११ 'तथा अपने लोग नियन्त्रणहीन हैं, खानपक्ष में जाने के लिये उत्सुक हैं, पुरवासी अनुराग तथा राजगृह कोगरहित हो गया है—

सत्ता नाम न वृद्धस्य सर्वसामर्थ्यवर्जिता ।

इति सञ्चिन्तयन् शस्त्राघातजातव्यथाकुलः ।

मासौ द्वौ गमयामास मार्गेशोऽपि स्ववेश्मनि ॥ ६१२ ॥

६१२ 'सर्व-सामर्थ्य-रहित सत्ता मुझ वृद्ध के लिये नहीं रह गयी है',—इस प्रकार स्वयं चिन्तन करते हुए शास्त्राघात के व्यथा से व्याकुल, मार्गेश भी अपने घर में ही दो मास व्यतीत किया ।

दृष्ट्वा महार्धमणिमौक्तिकविद्रुमौघान्

रत्नाकरं श्रयतु सोऽपि सुलाभलोभात् ।

यस्तान् महाभयकरान् मकगंस्तदीयान्

वीर्येण वारयितुमुज्झितभीः समर्थः ॥ ६१३ ॥

६१३ बहुमूल्य मणि, मौक्तिक, विद्रुम समूहों को देखकर, सुन्दर लाभ के लोभ में वही सागर का आश्रय ले, जो भय त्यागकर, उसके महाभयकारी, उन मकरो को अपने पराक्रम से, दूर कर सने में समर्थ हो—

पाद-टिप्पणी

६०९ (१) खान तबकवाने अकबरी में उल्टे है—'इस वार फतह खा पगजिन हा गया । भाग गया (४५५) ।'

(२) पर्णोत्सम = पूछ द्रष्टव्य पाद टिप्पणी

जैन० १ १ ६७, ४ १८४, बल्हण०
१ ३१७ ।

फतह का चतुर्थ आगमन :

अत्रान्तरे पुनः खानचटिकाशारपर्वतात् ।

इतो यातैर्भटैः सार्धं लब्धत्राणः समाययौ ॥ ६१४ ॥

६१४. इसी बीच पुनः लब्ध त्राण (रक्षण प्राप्त) खान चटिकासार^१ पर्वत से, यहाँ से गये भटों के साथ, लौट आया ।

तस्मिन्नभ्यन्तरे प्राप्ते मुदितैरिव पर्वतैः ।

तदहःपतितं नद्ये तुपारं सुसिताम्बरम् ॥ ६१५ ॥

६१५. उसके अन्दर आने पर, मानों प्रसन्न होकर, पर्वतों ने उस दिन गिरे हुए, तुपार रूप स्वेत वस्त्र धारण किये ।

ग्रामान् प्रज्वलितान् दृष्ट्वा तद्वार्ताचकितस्ततः ।

मार्गेशो वाङ्मिलं त्यक्त्वा सवल्लो योद्धुमभ्यगात् ॥ ६१६ ॥

६१६. इस समाचार से चकित, मार्गेश गाँवों को प्रज्वलित देखकर, भांगिल त्यागकर, सेना सहित युद्ध के लिये आ गया ।

तावन्मितपरीवारो बहुरूपान्तराद् गतः ।

प्रापद् दामोदरोड्डारभूमिं डामरसंयुतः ॥ ६१७ ॥

६१७. तब तक थोड़े भृत्यों के साथ बहुरूप^१ से गया और दामोदरोड्डार भूमि पर पहुँचा ।

पाद-टिप्पणी :

६१४. (१) चटिकासार : चरिहार है ।
द्र० : शुक० : १ : १३४ । तद्वक्त्राते अकवरी में उल्लेख है—'किन्तु उसने पुनः एक बड़ी सेना एकत्रित किया और काश्मीर पर आक्रमण किया (५५५ = ६८८) ।'

पाद-टिप्पणी :

'प्रज्वलितान्' पाठ—ब्रम्बई ।

६१६. (१) भांगिल : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी :
जैन० : २ : २२; ३ : ३८०, ४५८; जौन० : श्लोक
२५१; शुक० : १ : ६८; १ : ११३; २ : १० तथा
कल्हण० : ७ : ४९८ ।

जै. रा. ३७

पाद-टिप्पणी :

६१७. (१) बहुरूप : वीरू परगना । द्र० :
पाद-टिप्पणी : जैन० : २ : १९; ३ : १५७; जौन० :
श्लोक : २५२; कल्हण० : ४ : ६७३ ।

(२) दामोदरोड्डार : दामोदर उदर =
दामोदर नूद ! इस समय यहाँ श्रीनगर का हवाई
अड्डा है । श्रीनगर से ७ मील दक्षिण है । यह उदर
६ मील लम्बा तथा दो मील चौड़ा है । इसके दक्षिण
में गुदनुय ग्राम है । उदर को फारसी में करेवा कहते
हैं । उदर शब्द संस्कृत शब्द उद्र का अपभ्रंश है ।
द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : कल्हण० : १ : १५७ ।
नूद शब्द करेवा या अवित्यक्ता के लिए प्राचीन
काल में प्रयोग किया जाता था—दामोदर नूद =
दामोदरोड्डार । द्र० : १ : १५७ ।

सन्तुपो मार्गपः पश्चात्तनवायुस्त्रिवोजितः ।

सैन्यं न्यवेशयत् तत्र सातदेवतमन्त्रियो ॥ ६१८ ॥

६१८ पीछे से वायु की तरह उजित, नृप सहित मार्गपति, सात देवतों के समीप वही सेना को स्थित किया ।

सव्यूहो जातयुद्धेहो निशान्ते मैफडामरः ।

बभञ्ज मार्गपानीकं दामोदर इवोत्थितः ॥ ६१९ ॥

६१९ रात्रि के अन्त में दामोदर (विष्णु) की तरह उठकर, व्यूह महित युद्धाकाक्षी सेफ डामर, मार्गपति की सेना को तोड़ डाला ।

चित्रं हैदरशाहस्य यत्न सिद्धं त्रिधागर्भैः ।

अहो हीनबलस्यापि सिद्धमस्य विधेर्वगात् ॥ ६२० ॥

६२० आश्चर्य है तीन वार आने से भी हैदरशाह, जो कार्य नहीं कर सका, वह विधि-वश हीनबल होनेपर भी, इसने कर दिया ।

किमन्यदल्पसैन्योऽपि खानः कश्मीरकुञ्जरान् ।

हतविद्रुतविध्वस्तयूथान् सिंह इव व्यधात् ॥ ६२१ ॥

६२१ अथिक् क्या ?—थोड़ी सेनावाला होनेपर भी, खान ने सिंह के समान, काश्मीर कुजरो को हत, विद्रुत एवं विध्वस्त कर दिया ।

पाद-टिप्पणी

६१८ (१) सात देवत स्थान का निश्चित पता अपेक्षित है ।

पाद-टिप्पणी :

६१९ (१) दामोदर श्रीकृष्ण = विष्णु । काश्मीर के दो दामोदर राजा हुए हैं । प्रथम दामोदर राजा गोनन्द का पुत्र था । गोनन्द भगवान् कृष्ण के भ्राता बलराम द्वारा मथुरा के युद्ध में मारा गया था । श्रीकृष्ण यादवी सेना के साथ जब गान्धार में स्वयंवर में भाग लेने जा रहे थे, तो पिता की प्रति-हिंसा भावना से प्रेरित होकर यादवी सेना पर आक्रमण किया और युद्ध में श्रीकृष्ण द्वारा स्वर्गगामी हुआ । कल्हण० १ ६४-७० । द्वितीय राजा दामोदर काश्मीर का राजा जलौक के पश्चात् हुआ था । कल्हण० १ १५६-१६७ । किन्तु श्रीवर

का तात्पर्य प्रथम दामोदर से ही है, जिसने भगवान् कृष्ण के सघर्ष किया था ।

पाद टिप्पणी

६२० (१) हैदरशाह काश्मीर का नवा मुल्तान था । जैनुल आबदीन का पुत्र हाजी खाँ था । पिता की जीवित अवस्था में ही उत्तराधिकार एवं राज्य सिंहासन प्राप्ति के लिये सघर्ष आरम्भ किया था । वह तीन वार काश्मीर प्रवेश सेना सहित किया था परन्तु उसे सफलता नहीं मिल सकी । पिता की मृत्यु के पश्चात् हैदरशाह नाम धारण कर, वह काश्मीर का मुल्तान होकर सन १४७० से १४७२ ई० तक शासन किया था । श्रीवर ने द्वितीय तरंग में हैदरशाह के राज्य का सविस्तार वर्णन किया है ।

पाद टिप्पणी

६२१ (१) विध्वस्त तबकाने अकबरी में

प्राग्वत् सोऽनिष्टमाशङ्क्य मार्गपः सैफडामरात् ।

अन्येषां वीक्ष्य ताटस्थ्यं प्रपेदे नगरान्तरम् ॥ ६२२ ॥

६२२. पूर्ववत् मार्गपति सैफ डामर से अनिष्ट की आशंका करके तथा अन्य लोगों की तटस्थता देखकर, नगर में चला गया ।

छिन्नेषु सेतुवन्धेषु प्राक्सैदद्वैधवत् तदा ।

पारावारगताः पौरा द्वैराज्याकुलतां दधुः ॥ ६२३ ॥

६२३. पूर्व में सैय्यियों के द्वैध समान, उस समय सेतुवन्ध काट दिये जाने पर, पारावार स्थित, पुरवासी द्वैराज्य (दुराज) से आकुल हो गये ।

पिर्वजप्रतिहाराद्याः प्राप्ता मडवराज्यतः ।

नृपपक्षं परित्यज्य खानपक्षं समाश्रयन् ॥ ६२४ ॥

६२४. पीरूज प्रतिहारादि मडवराज्य से आये और राजा का पक्ष त्यागकर, खान पक्ष का आश्रय लिये ।

स्वभेदजर्जरं ज्ञात्वा सैन्यं द्वित्रा निशोजनयत् ।

सैदवत् स्कन्दभवने किंकर्तव्यतयाकुलः ॥ ६२५ ॥

६२५. स्वभेद से, सैन्य को जर्जर जानकर, सैय्यियों की तरह, किंकर्तव्य-व्याकुल होकर, स्कन्द भवन में दो-तीन रात्रि वित्ताया ।

एकदा सर्वसैन्येशं कृत्वा मेयामहम्मदः ।

नोसराजानक्युतो द्रोहं स्वामिनि तद्व्यधात् ॥ ६२६ ॥

६२६ एकवार सर्व सेना का अधिकारी बनाकर, नोस राजानक सहित, मीयां मोहम्मद ने स्वामी के प्रति द्रोह कर दिया ।

उल्लेख है—'बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़ने के पश्चात् फतह खान विजयी हो गया (५५५ = ६८८) ।'

पाद-टिप्पणी :

६२३. (१) द्वैराज्य : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी :
जैन० : १ : ३ : ८६, ३ : ५८, ३ : १०५ ।

पाद-टिप्पणी :

६२४. (१) मडवराज्य = मराज । द्रष्टव्य
पाद-टिप्पणी जैन० : १ : १ : ४०; जोन : श्लोक
७८८ । श्रीनगर मडवराज्य में था । लोकप्रकाश में
मडवराज्य की सीमा दी गयी है (पृष्ठ : ६७) ।
मडवराज्य में चौबीस परगने थे ।

पाद-टिप्पणी :

६२५. (१) स्कन्द भवन : इसका पूरा नाम

स्कन्द भवन विहार था । काश्मीरराज बुधिष्ठिर
द्वितीय का मन्त्री स्कन्द था । उसी ने स्कन्द भवन
विहार की स्थापना किया था । यह स्थान श्रीनगर
में छोटे पुल तथा ईदगाह के मध्य स्थित था । कल्हण
ने स्वयं इसका आगे चलकर केवल स्कन्द भवन नाम
से ही उल्लेख किया है । स्कन्द भवन एवं स्कन्द
भवन विहार एक ही स्थान है । कालान्तर में यह
स्थान कश्मिस्तान में परिवर्तित हो गया । द्रष्टव्य
पाद-टिप्पणी : कल्हण : ३ : ३८०; तथा ८ : १४४२
एवं जैन० : ४ : १२२ ।

पाद-टिप्पणी :

६२६. (१) मीया मुहम्मद : तबक़ाते अकबरी

यथा चित्तं तथा कायो यस्य स्यात् साहसक्षमः ।

तस्यात्मनिरपेक्षस्य कर्तव्यं किं न सिध्यति ॥ ६२७ ॥

६२७ जिसका चित्त के समान शरीर, साहस करने में मक्षम हो, उस आत्म-निरपेक्ष जन का, कौन-सा कार्य सिद्ध नहीं होगा ?

भागिनेयं नृपपदेऽप्युपेक्ष्य स्वार्थलुब्धधीः ।

द्रोग्धाभूद् यत् स तेनाभूत् सर्वनाशस्य कारणम् ॥ ६२८ ॥

६२८ यह स्वार्थ-बुद्धि नृप पद पर, भगिनी-पुत्र की उपेक्षा करके, जो वह द्रोही बन गया, वही उसके सर्वनाश का कारण हुआ ।

नष्टसैन्यः सदैन्योऽथ मार्गेशः शरणं भयात् ।

ज्वल्लालठक्कुरं प्रायात् सर्वाश्रमस्थितं हितम् ॥ ६२९ ॥

६२९ सेना नष्ट हो जाने पर, दैन्य युक्त मार्गेश भय से हितकारी जल्लाल ठक्कुर के शरण में गया, जो खूया (खर्व) आश्रम में स्थित था ।

यथैव स विरुद्धानामकरोच्छसनादिकम् ।

तादृशीं स दशां प्रापद् धिक् चला राजसम्पदः ॥ ६३० ॥

६३० जैसा कि उसने विरोधियों का वधादि किया था, वैसी ही दशा उसकी हुई,— धिक्कार है, चंचल सम्पदाओं को ।

में उल्लेख है—संय्यिद मुहम्मद बिन संय्यिद हसन

भी फतह खा के पास पहुँचा (४५५) ।'

पाद-टिप्पणी :

६२९ (१) सर्वाश्रम = खूयाश्रम के लिये प्रयोग किया गया है । वज्रई सस्करण में पूर्वाश्रम मुद्रिन है । वर्तमान परगना खुय होम है द० ३ . ३४७, रा० क० ८ २६९८ ।

सवककाते अकवरी में उल्लेख है—'जहाँगीर आहत हाकर भाग गया (४५५) ।' फिरिस्ता लिखता है—'जहाँगीर मारके जो धामल हो गया था । भाग-कर जान बचायो (४८६) ।'

मुद्रण को गलती से खूयाश्रम का खर्वाश्रम छप गया है । खर्वट शब्द छोटे जन सन्निवेश के लिये प्रयोग किया जाता है । इसमें २०० ग्रामों के होने का

उल्लेख मिलता है—द्विशतग्राम्या खर्वटिकम्—अर्थ-

शास्त्र । अमरकोश के अनुसार—खर्वटश्चनु शत ग्रामाणा सग्रह स्थानम् । विष्णुपुराण में सार्वटिक के लिये

खर्वट शब्द का प्रयोग किया गया है । विष्णु० अ० १ अ० ६ । वात्स्यायन ने खर्वट को सज्जनाश्रम

लिखा है । बहुधा खर्वट पर्वत के सन्निवृत्त होने से । परन्तु यहाँ खूयाश्रम से ही तात्पर्य लगाना चाहिए ।

इसका बहुत उल्लेख राजतरंगिणियों में आया है ।

सप्तग्रहानुगुणधारितसप्तवार-

वर्णाशुक्रोपचितवेशविशेषभूपः ।

ब्रह्मभूप इव योऽभवदष्टभोगः

प्राप्तो दशामितरवत् सधिगस्तु लक्ष्मीम् ॥ ६३१ ॥

६३१. सप्तग्रहों^१ के अनुकूल सातो दिन उसी वर्ण के वस्त्र से शोभित होनेवाले, ब्रह्मभूपति के समान अष्टयोग^२ प्राप्त करनेवाले, उसकी भी तुच्छ जन की दशा हुई—लक्ष्मी को धिक्कार है ।

क नृपः क मदीयं तत्सर्वस्वं क परिच्छदः ।

नास्मरत् तद्दिने किञ्चित् प्राप्तो मुनिगुहान्तरम् ॥ ६३२ ॥

६३२. - कहाँ नृप, कहाँ मेरा वह सर्वस्व, कहाँ परिकर (परिच्छद), उस दिन (एक) मुनिगुहा में पहुँचकर, उसने कुछ भी स्मरण नहीं किया ?

राजदारापहारोत्थपापभारादिवादितः ।

तद्भ्राता नाशकद्भन्तुं नावं स्त्रीसहितोऽविशत् ॥ ६३३ ॥

६३३. राज, दारा, परहरण से होनेवाले पापभार से मानों पीड़ित होकर, उसका भ्राता जाने में समर्थ नहीं हुआ ।

अन्ये सैन्याः सदन्या गिरिविलविगलद्वासरा धूसराभाः

तिष्ठन्तो दिष्टरिष्टोद्गतघनविलसद्वृष्टिनिर्नष्टचित्ताः ।

द्विष्टैर्दुष्टैर्गारिष्टैः परिहृतवसनाः पृष्ठलग्नैर्निकृष्टाः

कारागारान्तराले पशव इव बलात् ते निरुद्धा विरुद्धाः ॥ ६३४ ॥

६३४. गिरि-गुफा में दिन व्यतीत करनेवाले, धूसरित कान्ति, दुर्भाग्यवशा उसे मेघ की अतिवृष्टि से नष्ट चित्त-वृत्तिवाले वस्त्ररहित, जो अन्य दैन्य युक्त विरोधी सैनिक थे, उन्हें पीछे लगे दुष्ट एवं क्रूर शत्रुओं ने पशुओं के समान बलात् कारागार के अन्दर डाल दिया ।

पाद-टिप्पणी :

६३१. (१) सप्तग्रह : (१) सूर्य, (२) चन्द्र,
(३) मंगल, (४) बुध, (५) वृहस्पति, (६) शुक्र एवं
(७) शनि, राहु-केतु की गणना नवग्रह में होती है ।

मूल सप्तग्रहों में राहु एवं केतु की गणना नहीं की जाती ।

(२) अष्टयोग : राहु या केतु के साथ जब सातो ग्रह होते हैं, तो उसे अष्टयोग कहते हैं ।

लूट-पाट

गर्जन्तो मुमुषुः परे जनपदान् दुष्टाः खशा दस्यव-

स्तद्धीत्या परिहृत्य सर्वमचलन् नगना नरा वा स्त्रियः ।

मार्गेष्वप्यवला हता बहुबलैः पूर्वापकारस्मृतेः

सोऽभूद् राज्यविपर्ययोऽतिभयदः कल्पान्तकालोपमः ॥ ६३५ ॥

६३५ गरजते हुए, दुष्ट खश^१ डाकुओ ने जनपदों को लूट लिया और उनके भय से सब कुछ त्यागकर, नर या नारी नग्न ही चली गयी। मार्ग में भी पूर्वापकार स्मरण कर, बहुत से बली लोगो को अबलाओ को मार डाला—वह राज-विपर्यय कल्पान्त काल के सदृश अति भयकारी था।

सर्वस्वोल्लुण्ठने तस्मिन् धनिनां दुःसहे पुरे ।

आसन् दरिद्रा अत्याह्या आह्या दरिद्रधभागिनः ॥ ६३६ ॥

६३६ नगर में धनियो के उस दुःसह सर्वस्व लुण्ठन के समय, दरिद्र अति धनी एव धनी दरिद्रध के भागी हो गये थे।

ये स्युर्द्रुमाः सदलपुष्पफलाभिरामा

नद्यस्तरङ्गतरलाः सरवाः पिकाद्याः ।

ते शीर्णशुष्कजलमूकमुरा हिमतीं

किं तत्र यद् भवति कालविपर्ययेण ॥ ६३७ ॥

६३७ पत्र, पुष्प एव फल से सुन्दर वृक्ष एव तरल तरंगो से युक्त नदियाँ, शब्द युक्त पिक^१ आदि जो हाते हैं वे हिम ऋतु में क्रमशः शीर्ण, शुष्क एव मूक हो जाते हैं, काल-विपर्यय से क्या नही होता ?

पाद-टिप्पणी

६३५ (१) खशा द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी
जैन० ४ ११३, २१२, ४९४, ६५०, जौन०
दत्तात्र ५२५, मुक० दत्तात्र १ ६२, बल्हण०
१ ३१७ ।

(२) जनपद राज्य की वह सीमा जिनमें राजधानी सम्मिलित नहीं रहती। राजधानी व अतिरिक्त शेष राज्य। एव ही भाषा भाषियों की आवादा में तात्पर्य है।

पाद टिप्पणी

६३७ (१) पिक कोयल। मोमासा ने भाष्यकार शबरस्वामी ने पिक शब्द को म्लेच्छ भाषा का शब्द माना है। संस्कृत में पिक शब्द का प्रचुर प्रयोग सुदूर प्राचीन काल से हो रहा है—कुसुमसरामन शामनवदिनी पिक निकरे भज भावम्—गीत० ११ तथा—उन्मीलति बुद्ध बुद्धरिति बलोत्ताला पिकाना गिर—गीत० १ । द्र० ४ • १८

मुहम्मद राज्यभ्रंश :

ते राजवल्लभा रम्यास्ताः स्त्रियस्ते च सेवकाः ।

कथावशेषतां यातास्तस्मिन् नष्टदले नृपे ॥ ६३८ ॥

६३८. उस राजा के बल सहित नष्ट हो जाने पर, वे राजवल्लभ जन, वे सुन्दर स्त्रियाँ, तथा वे सेवक, कथावशेष हो गये ।

इत्थं वर्षद्वयं सप्त मासान् भूत्वा नृपासने ।

नृपो द्वाषष्टिवर्षे स ह्यश्विने भ्रंशमाप्तवान् ॥ ६३९ ॥

६३९. इस प्रकार वह (राजा) दो वर्ष सात मास नृपासन पर रहकर, वासठवें वर्ष आश्विन मास में राज्यच्युत हो गया ।

राजा मल्लदशाहः स विंशप्रस्थान्तरात् ततः ।

आनीय फिर्यपालेन शत्रुपक्षे समर्पितः ॥ ६४० ॥

६४०. तत्पश्चात् फिर्यपाल ने उस राजा मुहम्मदशाह को विंशप्रस्थ से लाकर, शत्रुपक्ष को समर्पित कर दिया ।

राजधान्यङ्गने राजवासे तं मनुजैः सह ।

विधाय वृत्तिं संपूर्णां ररक्षुर्दामराधिपाः ॥ ६४१ ॥

६४१. राजधानी के प्रांगण में, राजगृह में, मनुजों के साथ, उसे सम्पूर्ण वृत्ति निश्चित कर, दामरादियों ने उसकी रक्षा की ।

पाद-टिप्पणी :

६३८. (१) कथावशेष : तत्रकाले अकबरी में उल्लेख है—'यहाँ तक कि सुल्तान के साथ कोई नहीं रहा । उसका समस्त खजाना नष्ट हो गया (४५५ = ६८९) ।' फिरिस्ता लिखता है—'मुहम्मदशाह अपने सेवकों द्वारा भी त्याग दिया गया (४८६) ।'

पाद-टिप्पणी :

६३९. (१) वासठवाँ वर्ष : सप्तपि ४५६२ - सन् १४८६ ई० = विक्रम १५४३ = शक १४०८ ।

(२) राज्यच्युत : फिरिस्ता लिखता है—'तथापि वह पुनः रणक्षेत्र में लौट आया । उनमें राजसत्ता पर आक्रमण कर पराजित कर दिया (४८६) ।' फिरिस्ता राजा का राज्यकाल देता है—'लगभग इग्यारह वर्ष के राज्य के पश्चात्, राज्यच्युत हुआ (४८६) ।'

तत्रकाले अकबरी में उल्लेख है—'उस समय उसके राज्य के दस वर्ष सात मास व्यतीत हो चुके थे (४५६ = ६८९) ।'

पाद-टिप्पणी :

६४०. (१) फिर्यपाल : श्रीदत्त तथा श्रीकण्ठ कौल दोनों ने फिर्यपाल को नामवाचक शब्द माना है ।

(२) विंशप्रस्थ : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० ४ : ९७ । तत्रकाले अकबरी में उल्लेख है—'कुछ समय पश्चात् जमीन्दारों ने सुल्तान मुहम्मदशाह को बन्दी बनाकर फतह खाँ को सौंप दिया (४५५-४५६ = ६८९) ।' फिरिस्ता लिखता है—'मुहम्मदशाह को काश्मीर के जमीन्दारों ने बन्दी बना लिया और श्रीनगर पहुँचने पर, उसे मुहम्मद शाह सुल्तान के मुपुर्द कर दिया (४८६) ।'

राज्यप्राप्त्या सुखं तादृक् तस्य नासीत् सुदुःस्थितेः ।

यादृक् तद्भ्रंशतस्तस्य नृपमन्त्रिप्रसादतः ॥ ६४२ ॥

६४२) उस सुदुःस्थिति वाले राज्य प्राप्ति से उसे (मुहम्मदशाह)^१ वैसा सुख नहीं मिला था, जैसा कि उस राज्यभ्रंश के पश्चान नृप-मन्त्रियों की कृपा से प्राप्त हुआ ।

छूट-पाट

सैदद्वैघवधेलुण्ठिः पुरेऽभूत् त्रिगुणा तदा ।

सशैः कृता दाहवर्जं तस्मिन् राजविपर्यये ॥ ६४३ ॥

६४३) उस राज्य-विपर्यय के समय, उस समय नगर में खशों ने दाह के अतिरिक्त सैय्यिदो-पद्रव काल में वध होन की अपेक्षा तीन गुनी लूट की ।

प्रधानवणिजः केचित् कोटिमञ्चयवञ्चिताः ।

तृणमात्रावृत्तैरङ्गैस्तस्थुस्ते रक्षितासवः ॥ ६४४ ॥

६४४) कुछ प्रधान वणिक, जा करोडों के सग्रह से वंचित हो गये थे, वे तृणमात्र से अंगों को ढककर, प्राणों की रक्षा कर स्थित रहे ।

दिनत्रय ददामो वो मोषण यदि जायते ।

इति वैदेशिकोत्कोचे सापेक्षा मन्त्रिणोऽभवन् ॥ ६४५ ॥

६४५) 'यदि तीन दिन तक लूट की छूट हो तो तुम्हें दोगे' इस प्रकार विदेशियों द्वारा उत्कोच (घूस) प्रलाभन देने पर मन्त्रियों लोग सापेक्ष हो गये ।

काश्मीरिका यथा लुण्ठि बहिर्यात्रागता व्यधुः ।

तथा वैदेशिकाश्चक्रुः काले किं किं न दृश्यते ॥ ६४६ ॥

६४६) जिस प्रकार काश्मीरों बाहर जाकर लूट^१ किये थे, उसी प्रकार यहाँ विदेशियों ने किया । समय पर क्या-क्या देखा नहीं जाता ?

फिरिस्ता लिखता है— सुल्तान मुहम्मदशाह व वन्दी बन जाने पर फतह खान ने राज्य शासन ग्रहण किया । उसका औपचारिक रूप में राज्याभिषेक किया गया और हिजरी ९०२ में काश्मीर का सुल्तान स्वीकार किया गया (४८६) ।

पाद टिप्पणी

६४२ (१) मुहम्मदशाह तबकाने अकबरी में उल्लेख है— फतह गा न उम तथा उमन भाइयो को शीवानमाने में वन्दा बना लिया और आदेश द दिया कि उमन भाजन तथा अन्य आवश्यकताओं का

पूरा प्रबन्ध रखा जाय (४५६ = ६८९) ।

फिरिस्ता लिखता है— 'उस समय से वह सुमीप ही वन्दी रहा, वह इतना उदार व्यवहार पाता रहा जितना उमन अनुरूप था (४८६) ।'

पाद-टिप्पणी

६४३ 'लुण्ठि' पाठ—वम्बई ।

पाद टिप्पणी

६४५ 'माषण' पाठ वम्बई ।

पाद टिप्पणी

६४६. (१) लूट जैन० ४ ५१४ म

प्रतिपद्रभ्रमणैः सपरिश्रमा
 मधुकरी तनुते मधुगोलकम् ।
 निहितधूमतया विनिवार्य तां
 तमुपलभ्य परः सुखमश्नुते ॥ ६४७ ॥

६४७. पद-पद पर भ्रमण करके, बड़े परिश्रम के साथ मधुकरी, मधुगोलक^१ को तैयार करती है, और रखे धुआँ के द्वारा उसे निवारित करके, उस मधु को लेकर, दूसरा सुख भोगता है ।

कष्टैः षण्मासपर्यन्तं महद्भिः सञ्चितं गृहे ।

अयत्नमपरैर्भुक्तं सर्वं तत् खानसंश्रितैः ॥ ६४८ ॥

६४८. बड़े कष्ट से घर में संचित, उन सब वस्तु का पराये खानाश्रित, तीसरों ने छह मास तक अनायास भोग किया ।

श्रीवर ने काश्मीरियों के बाहरी लूट-पाट का उल्लेख किया है । उसे पुनः दुहराता है । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जैन० : ४ : ५१४ तथा जोन० : श्लोक ३३९ ।

पाद-टिप्पणी :

६४७ (१) मधुगोलक : मधुमक्खी या शहद का छत्ता । मधु प्रथम मधुर पदार्थ था, जिसका ज्ञान मानव जगत को हुआ था । मधु का व्यवहार यूरोप आदि देशों में शर्करा के पूर्व होता रहा है । मधु भारतीय संस्कारों में श्राद्ध से लेकर चरणामृत तक में व्यवहार किया जाता है । पुष्पों के मकरन्द को मधुमक्खियाँ लाती हैं । छत्ता में रखकर, उनका परिपाक एवं संचय करती हैं । उसे भोजन व्यवस्था के काम में भी लाती हैं । पुष्पों के अभाव में तो मधुमक्खियाँ कुछ कीड़ों से मधु द्रव्य एकत्रित करती हैं । उन्हें मधुरस कहते हैं ।

आयुर्वेद की औषधियों में मधु का प्रयोग सर्वत्र होता है । वह ग्लूको का काम करता है । कफ का नाश करता है । उसके साथ औषधि का सेवन करने से औषधि की प्रतिक्रिया बहुत शीघ्र शरीर पर होती है । उत्तम पुष्पों के मकरन्द से बना मधु उत्तम होता है । पद्म-मधु श्रेष्ठ माना जाता है । काश्मीर में कमल दल प्रत्येक सरोवरों तथा जलाशयों में बहुत

जै. रा. ३८

होते हैं । काश्मीर का मधु पद्म-मधु होने के कारण बहुत श्रेष्ठ माना जाता है । उसे नेत्र की बीमारियों में लगाया जाता है । छत्ता से हाथ से गार कर मधु निकालने की पुरानी व्यवस्था है । पहले मधु छत्ता के नीचे धुँआ करके हैं । उनसे मक्खियाँ भाग जाती हैं । तत्पश्चात् छत्ता काट लिया जाता है । छत्ता ऊँचे स्थान पर, वृक्षों, पहाड़ी के निकले पत्थर, ऊँचे मकानों के बरामदों तथा छप्पों में मधुमक्खी छाता, लगाती है । फलवाले पुष्पों में मकरन्द अधिक होता है । पद्म मधु कुछ स्वेत तथा अन्य मधु विभिन्न रंगों के पुष्पों के रंग पर आधारित होते हैं ।

मधु-मक्खी के छाते में केवल एक मधु-मक्खी रानी ही अण्डा देनेवाली होती है । वह स्वतः मधु-संचय नहीं करती । उसे अन्य मक्खियाँ भोजन लाकर देती हैं । आजकल कृत्रिम ढंग से मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय हो गया है । काश्मीर में मधु बहुत मिलता है । आजकल कृत्रिम ढंग से बड़े पैमाने पर काश्मीर में मधु का उद्योग फैल गया है । जम्मू से वनिहाल तक के मार्ग में कई स्थानों पर मधु के केन्द्र मँने देखे हैं । उसे यात्री अपने गाड़ी में ही बैठ-बैठा देख सकता है । श्री गांधी आश्रम का व्यवसाय मधु का सबसे बड़ा काश्मीर में है ।

रक्ताक्ततृणपूगान्तः क्षिप्तं कैरपि यद्धनम् ।

न नीतमशुचिस्थानसूतिकास्तरणभ्रमात् ॥ ६४९ ॥

६४९ जो घन रक्त से लथ-पथ तृणपुज में फेक (छिपा ?) दिया गया था, उसे अपवित्र स्थान एवं प्रसूती के वस्त्र के भ्रम से किसी ने नहीं लिया ।

सद्युन्निम्नकुम्भाम्भःपक्षिपुष्करिणीकृतैः ।

रक्षितं कैरपि द्रव्यं नीतं ताडितदर्शनात् ॥ ६५० ॥

६५० कुछ लोगो ने घन सहित कुम्भो को पक्षियो के तालाबो में जो द्रव्य रक्षित किया था, उसे भी ताडना दिखाकर ले लिया ।

सत्यं ब्रवीमि धनिकाः शृणुतास्मदुक्तं
यत् सञ्चितं वसु गृहे परवञ्चनाद्यैः ।

तद् भोगदानसफलं कुरुताविलम्बं
नो चेद् वृथा स्मरत राज्यविपर्ययेऽस्मिन् ॥ ६५१ ॥

६५१ 'हे । धनिको ॥ सुनो—मैं सत्य कहता हूँ, दूसरे के प्रतारण आदि द्वारा घर में संचित जो घन है, उसे अविलम्ब दान-भोग द्वारा सफल करो, नहीं तो इस राज-विपर्यय में वृथा हो जायगा ।'

भग्नभाण्डकरण्डालीः प्रसार्य परितो गृहे ।

मुपिताः स्मइति व्याजात् खशाः कैरपि वञ्चिताः ॥ ६५२ ॥

६५२ कुछ लोगो ने टूटे-फूटे भाण्ड एवं करण्ड^१ आदि को घर में चारों ओर फैलाकर—'लुट गया हूँ'—इस व्याज से खशा को भी ठग लिया ।

जलान्तरशवागारान् शून्यानापूर्य वस्तुभिः ।

ररक्षुर्नागराः कैरपि शून्यीकृतगृहा घनम् ॥ ६५३ ॥

६५३ कुछ नागरिको ने घर खाली कर, जल के बाहर स्थित, शून्य शवागारों को वस्तुओं से भर कर घन की रक्षा की ।

पाद-टिप्पणी

६५२. (१) करण्ड चाँम की बनी टोकरी या पिटारी । कालान्तर में किसी चीज की बनी टोकरी या पिटारी के लिये शब्द प्रयुक्त होने लगा ।

पाद-टिप्पणी

६५३ (१) शवागार कब्रिस्तान = तकिया = शवाजिर = भूतागण । इष्टव्य पाद टिप्पणी जैन० १ ७ २५६, १ ७ २२६, २ ८५, ८९, ९२, ३ ३५५ ४ ८७ ।

तैर्निर्वर्तितगतान्तः क्षिप्तैः पौरघनैर्घनैः ।

तस्मिन् काले प्रतिपदं सत्यार्थाभूद् वसुन्धरा ॥ ६५४ ॥

६५४. नगर में उन घनिकों द्वारा गर्त में हर कदम पर रखे गये घनों से, उस समय वसुन्धरा^१ वास्तव में (वसुन्धरा) घन को धारण करने वाली हो गयी ।

मार्गारोघोद्यतैः सर्वैः क्षेपणीयाश्मवर्षिभिः ।

राजानवाटिकीयैस्तैस्तत्कालं साहसं कृतम् ॥ ६५५ ॥

६५५. मार्गाविरोध के लिये उद्यत, राजान वाटिका^१ के सब लोगों ने डेल वास द्वारा पत्थरों की वर्षा करके, उस समय साहस का काम किया ।

कर्मस्थाननिधानसर्पसदृशप्रोत्सारणाजिण्डिमो

द्विष्टप्राक्तनसेवकाम्बुजघटाहेमन्तकालोदयः ।

भूपक्षामधुगोलकस्थसरवासङ्घातधूमोद्गमः

सोऽभूद् राज्यविपर्ययो नवसभोद्यानद्रुमालीमधुः ॥ ६५६ ॥

६५६. वह राज-विपर्यय सार्वजनिक कोश रूप सर्प को दूर करने के लिये डिण्डिम^१ (नगाड़ा-डुग्गी), द्वेपी प्राचीन सेवक रूप कमलवन के लिये हेमन्त काल का उदय, भूपति के पृथ्वी रूप मधुगोलक^२ (छत्ता) पर स्थित सरवा (मधुमक्खी) समूह के लिये धूमोद्गम तथा नवसभा रूप उद्यान द्रुमावली के लिये वसन्त ऋतु था ।

किं स्वाचारविपर्ययात् किमु घनस्यान्यायतोपार्जनात्

किं वा द्रोहितया सतां किमथवा सद्वर्णसाङ्कर्यतः ।

निःसामर्थ्यतया यथा शिशुविभोर्द्वेषेण वा मन्त्रिणां

राज्ये सुस्सलभूपतेरिव वभूवायं प्रजोपद्रवः ॥ ६५७ ॥

६५७. अपने आचार-विपर्यय या अन्याय से घनोपार्जन के कारण, सज्जनों के साथ द्रोह करने, अथवा अच्छे लोगों के वर्णसंकरता के कारण, शिशु राजा के असामर्थ्य अथवा मन्त्रियों के द्वेष के कारण, सुस्सल^१ भूपति के राज्यकाल के समान राज्य में प्रजा का यह उपद्रव हुआ ।

पाद-टिप्पणी :

६५४. (१) वसुन्धरा : नानारत्ना वसुन्धरा-
खु० : ४ : ७ । पृथ्वी रत्नों से भरी है । लोगों ने
घन भूमि में गाड़ कर पृथ्वी का वसुन्धरा नाम सार्थक
कर दिया था ।

पाद-टिप्पणी :

६५५. (१) राजानक वाटिका : रानदोर
डल के दक्षिण-पूर्व एक भाग है । श्रीनगर में ही
है । वोर शब्द वाटिका के लिये कश्मीर में प्रयोग

किया जाता है । द्र० : रा०क० : १ : ३४२; ६ :
११७; ८ : ७५६, ७६८, ८९९ ।

पाद-टिप्पणी :

६५६. (१) डिण्डिम : छोटा ढोल, नगाड़ा,
डग्गी ।—इति घोषयतीव डिण्डिमः—हि० २ : ८६ ।

(२) मधुगोलक : द्र० : पाद-टिप्पणी :
४ : ६४५ ।

पाद-टिप्पणी :

६५७. (१) सुस्सल : सुस्सल द्वितीय लोहर

येनादौ सैदवैरे रणरसिकतया मोचिता बन्धनस्थाः

सिद्धादेशाधिकारी व्यधित जितरिपुः स्फूर्जितं च प्रयातः ।

प्राज्यं राज्य व्यधाद् यः फतिहनरपतेर्नाशयित्वारिचक्रं

जीयाच्छ्रीडामरेन्द्रो वरसचिवपतिः सैफमल्लेक एकः ॥ ६५८ ॥

६५८ जिसने पहले सैधियदो के सघर्ष में रण-रसिकता के कारण, बन्धन में स्थित लोगो को मुक्त कर दिया और जिम सिद्धादेश अधिकारी ने शत्रुओ को जीतकर प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसने शत्रु समुदाय का नाश करके, राजा फतह के राज्य को विस्तृत कर दिया, डामरेन्द्रश्रेष्ठ सचिवपति, वह अद्वितीय सैफ मल्लिक विजयी हो ।

इति श्रीजैनराजतरङ्गिण्या पण्डितश्रीवरविरचिताया फतिहशाहराज्यप्राप्तिर्नाम
चतुर्थं स्तरङ्ग ।

समाप्तेय श्रीवर राजतरङ्गिणी ॥

इस प्रकार पण्डित श्रीवर विरचित राजतरंगिणी में फतहशाह राज्य प्राप्ति नामक
चतुर्थं तरंग समाप्त हुआ ।

श्रीवरकृत राजतरंगिणी समाप्त हुई ।

वश का चौथा राजा काश्मीर का हुआ है । प्रथम समय वह सप्तर्षि संवत् ४१८८ वैसाख शुक्ल ३ सन १११२ ई० सप्तर्षि ४१८८ मार्गशीर्ष बदी पष्ठमी = सन् ११२० तक राजा था । भिधाचर द्वारा राज्य-च्युत होन पर दूसरी बार पुन सप्तर्षि ४१९७ ज्यष्ठ सुदी ३ = सन् ११२१ ई० तक राजा बना । सुस्मल ४ पश्चात् जयसिंह अथवा सिंहदेव राजा हुआ । जयसिंह के समय के उत्तरार्ध राज्यकाल से जान-राज ने द्वितीय राजतरंगिणी का प्रणयन किया है । सुस्मल राज्यकाल गृहयुद्धों एवं सघर्षों में भरा पड़ा

है । अत उसका पड्यन्त्र द्वारा बध कर दिया गया था (द्रष्टव्य कल्हण ८ ४९७-१३४८ ।
पाद टिप्पणी

६५८ (१) सैफ डामार तबककते अकबरी में उल्लेख है—'सैफी तथा अनकरी सर्वदा उस (सुलतान) का सम्मान करता रहा और उसकी सेवा में उपस्थित रहा (४५६) ।'

फिरिस्ता में उल्लेख है—फतहशाह ने सफी और सगराम दानो का अपना मन्त्री बनाया जा बन्दीगृह स छूटे थ (४८६) ।'

गधुनाय सिंह पुत्र बटुवनाय सिंह जन्म स्थान पचक्रोशी अन्तर्गत दरुणातीर स्थित

ग्राम खेत्रली रामेश्वर स्थान समीप निवासी मुहल्ला औरगावाद्

(घोहडा) कागी नगरी वाराणसी के उत्तर प्रदेश में

श्रीवर कृत राजतरंगिणी का अनुवाद

एव माप्य सन् १९७६ ई० में

लिखकर समाप्त किया ।

उपसंहार

‘राजतरंगिणी’ भाष्य-रचना क्रम में ‘श्रीवर’ मेरी अन्तिम रचना है। कल्हण के पश्चात् जोनराज, श्रीवर, प्राज्यभट्ट एवं शुक्र ने राजतरंगिणियों का प्रणयन किया है।

आजकल मौलिक एवं गम्भीर ग्रन्थों का प्रकाशन एक समस्या है। प्रकाशक की दृष्टि अर्थ लाभ की होती है। रचनाकार की दृष्टि सर्वथा भिन्न होती है। वह अपना विचार प्रख्यात करना चाहता है। इसलिए अनेक पाण्डुलिपियों की अज्ञात अवस्था में ही कथा शेष हो जाती है।

श्री जोनराज के मुद्रण में तीन वर्ष लग गये। श्रीवर की पाण्डुलिपी सन् १९७१ ई० में तैयार हो गयी थी। उसे छपने में पाँच वर्ष लगे हैं। शुक्र के मुद्रण में भी ६ वर्ष लगा हैं। कल्हण राजतरंगिणी भाष्य का प्रथम खण्ड भी ढाई वर्ष में छप पाया। द्वितीय खण्ड ने तीन वर्ष का समय लिया। तृतीय एक वर्ष, ६ मास में छपा है चतुर्थ खण्ड की पाण्डुलिपी वर्षों से लिखी पड़ी है। देखें वह कब छपती है। कितना लम्बा समय इस प्रकार नष्ट हुआ है ?

राज्य द्वारा संस्तुत, एवं प्रशस्य के अभाव के कारण अनेक अमूल्य ग्रन्थों का प्रकाशन नहीं हो पाता। प्रकाशन के अभाव में वे प्रकाश में नहीं आते। स्वाभिमान एवं आत्म सम्मानी रचनाकार, प्रकाशन के लिए दर-दर भटकने की अपेक्षा, अपमानित होने की अपेक्षा, संतोष के साथ, भाग्य के साथ, आशा के साथ, ग्रन्थ की गठरी सजोये रखता है।

कल्हण राजाश्रय प्राप्त कवि नहीं था। वह मुक्त चिन्तक था। अर्थ उसकी मार्गाविरोध नहीं कर सका। गीतकार की वाणी, संगीतज्ञ का स्वर, वक्ता की जिह्वा, लेखक की लेखनी, यदि अर्थ की मुखापेक्षी हो जाती है, तो प्रेरक शक्ति खो देती है, शुद्ध अनुभूति उदास हो जाती है। वह उड़ने लगती है, मुद्रा पंख पर। उसे नभस्थ मुक्त विचरणशील पक्षी का न तो पंख मिलता है और न वाणी। उसकी वाणी स्वर्ण पिंजरे में बन्द पक्षी की कृत्रिम वाणी बन जाती है। वाणी मधुर लगती है, अच्छी लगती है, किन्तु उसमें कूक नहीं होती; प्राण नहीं होता; स्फूर्ति नहीं होती। उनमें वही अन्तर होता है, जो स्वर्ण पुष्प एवं स्वर्णाभ चम्पा में। धन मुखापेक्षी वाणी, सरस, अलंकृत होने पर भी प्रेरणा प्रद नहीं होती। काव्य कृत्रिम तड़ाग में, मर्यादित सरोवर में, पुष्पित पुष्प सदृश होता है। मौलिक लेखक विकसित पद्मसर का दर्शन करना चाहता है, जो विशाल सरोवर में, प्रकृति की गोद में, निर्मल नीर में, शुद्ध मुक्त वायु में, विहसकर खिलता है। मन से झूमता है। मन से गुंजन सुनता है। मन से सुरभि दान करता है। नव-जीवन के लिए, प्रेरणा के लिए, जीवन के लिए, किसी का आश्रित नहीं होता।

जब लक्ष्मी का मुखापेक्षी रचनाकार हो जाता है, तो दर्शन करता है—लक्ष्मीवाहन का। उसे नसीब नहीं होता—उज्ज्वल हंस का दर्शन। लक्ष्मीवाहन, जीवन प्रद उषा की लाली से डरता है—भागता है। बनता है—अन्धकार का वासी। शुभ जगत त्यागकर, बनता है—रजनीचर। उसकी बोली होती है—अशुभ। किन्तु हंस निर्मल जल में, विकसित कमल दल में, निवास करता है। निशा काल में कमल के साथ, नेत्र मूँद लेता है। अन्धकार उसे उदास बना देती है। उषा काल में जागृत होता है और दर्शन करता है—अरुण रश्मि का।

अर्थदास की वाणी नियन्त्रित होती है। स्वतन्त्र विचार व्यक्त नहीं करती, आभार भार से दबी रहती है। उसकी वाणी मृजल करती है—सुन्दर, सुवर्ण पिंजर बद्ध, पक्षी की बोली। वह अच्छी लगती है, जबतक सुनी जाती है। कुछ नवीन, कुछ मौलिक नहीं होती।

अर्थदास स्वाभिमान खोता है। स्वतन्त्रता खोता है। मुक्त चिन्तन खोता है। अपने को खोता है। जोनराज, श्रीवर एव शुक राजकवि थे। उनकी राजतरंगिणियों में कल्हण राजतरंगिणी की ओजमयी भाषा, अभिव्यक्ति एव दृष्टिकोण में इन कारणों से स्पष्ट अन्तर मिलना स्वाभाविक है।

आजकल रचना व्यवसाय एवं अन्य विशेष कर्मों तुल्य घन्धा हो गयी है। किसी सिद्धहस्त सम्पादक से सम्पादित कराकर अथवा किसी सुयोग्य अर्थदास लेखक से परिष्कृत भाषा में लिखवा कर, अपने नाम की मुहर लगा देना, आजकल एक प्रथा बन गयी है।

मैंने पाण्डुलिपियों को किसी सम्पादक अथवा सिद्धहस्त लेखक की दया पर नहीं छोड़ी, उस पर दूसरा रंग चढा कर गदला नहीं किया है। भाष्यों को उस तरह नहीं सजाया है, जैसे कोई नाटक-पात्र अपना मेकअप करता है। जिस प्रकार जैसे शब्द तथा भाव आते गये—लिखता गया। उसी रूप में रखा, जो उसका वास्तविक रूप है। यह रूप चाहे वेढगा है, परन्तु है, अपना न नकल है और न छाया। जो अपना है, उसे दिया है। दूसरे का श्रम, दूसरे का भाव, दूसरे का विचार, दूसरे की शैली लेकर, ग्रन्थ सौष्ठव बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है।

मेरा उद्देश्य लोक तक सुबोध राष्ट्रभाषा हिन्दी में राजतरंगिणी भाष्यों को पहुँचाना है। कल्हण के वे अतिरिक्त अन्य राजतरंगिणियों पर कुछ कार्य अथवा अनुसन्धान नहीं हुआ है। श्री स्तीन की रचना से मुझे प्रेरणा मिली है। वही मेरा आदर्श है। उसे आधार मानकर, रचना किया है। यह कार्य उस अव्यक्त शक्ति की कृपा के बिना सम्भव नहीं था, जिसकी वन्दना जोनराज करता है। अनजाने जो मार्ग प्रशस्त, सकुचित एव नियन्त्रित करता रहता है।

रचना काल में अनेक मानसिक एव आर्थिक कठिनाइयाँ आयी हैं। भूतकालीन स्मृतियाँ, सुखद थी—दुःखद भी थी। राजनीति उत्कर्ष से ढलते समय भयावनी लगती है। प्रायः राजनीतिज्ञ इस विषय परिस्थिति में सन्तुलन खो बैठते हैं।

चारों राजतरंगिणी पाँच सहस्र वर्षों की इतिहास है, एक प्रदेश तथा जाति के उत्कर्ष एव अपकर्ष की गाथा है, महान् व्यक्तियों के जीवन के उतार-चढाव है, उत्थान-पतन का ज्ञप्तावत है। आता है, तो सब कुछ साथ उडाता लाता है। जाता है, तो सब कुछ लेता जाता है। शान्त होता है, तो जहाँ पड़ा रहता है, वही पड़ा रह जाता है।

राजतरंगिणी इन ज्ञप्तावतों की कहानी है। महाभारत काल से सन् १५३८ ई० तक की घटनाओं को प्रपित करती है। पड़कर उत्साह-विराग, सुख-दुःख, आनन्द एव विषाद होता है। दुर्बल मन सन्तुलन खाता है। सबल मन, स्वाभिमानी मन, इन परिस्थितियों में अपने विचारों पर, सत्त्वों पर, निश्चयों पर दृढ़ रहता है। अनादर अपमान, माधियों की आँखें फिरने पर, निराश नहीं होता। समझ लेता है—राजभगुर ससार, चञ्चल ससार, अस्थिर ससार का यह भी एक रूप है।

विपन्ना वस्या में साथ त्याग देना आश्चर्य नहीं है। उपकार भूल जाना आश्चर्य नहीं है। उपेक्षा करना आश्चर्य नहीं है। विपद हो जाना आश्चर्य नहीं है। तथापि इस अवस्था में भी मन उस समय भर

उठता है, जब किसी अपरिचित से, किसी अज्ञात से, किसी निरपेक्ष से, किञ्चित् मात्र आदर मिलता है। मन स्मृति सागर में गोता लगाता है, मन्यन करता है, पूछता है। यह क्यों होता है? मनुष्य क्यों बदल जाता है? क्यों झुज्ज्म होता है? क्यों आखें फिर जाती हैं? राजतरंगिणि सन्तुलित भाषा में इनका उत्तर उपस्थित करती है।

मानव में भी सुर एवं असुर दोनों प्रकृतियाँ कार्य करती हैं। असुर माया है। माया मीठी लगती है। गुणों को तिलांजलि देती है। विछलती चलती है। संश्रुप नहीं करती। परिस्थितियों से नहीं लड़ती। प्रवाह में बहती जाती है, चलती जाती है। वैभवों के चकाचौंध में, यात्रा अकस्मात् यदि कहीं विगड़ी, तो विगड़ती जाती है। विगड़ते-विगड़ते विगलित हो जाती है, रह जाती है, स्मृति मात्र।

महान् सम्राटों के स्मारक, स्मारकों की खिसकती ईंटें, उनमें वसेरा लेते चमगादड़ों का समूह, उनमें कबूतर के बीट की दुर्गन्धि, कहती है—अहमन्यता, अहंकार, क्रूरता, विडम्बना, वाडन्वर एवं ऐश्वर्य की निस्सारता। जयशेष से प्रसन्न, पुष्पवर्षा से प्रसन्न, आरती ज्योति से मुदित क्या कभी सोचता है? वे दिन भी आ सकते हैं, जब एक पुष्प के लिये, एक मुसकान के लिये, किञ्चित् सहानुभूति के लिये, तरसता बैठा रहेगा? क्रामबेल की कन्न से निकालकर फ्राँसी पर लटकाना, नेपोलियन का सेण्ट हेलेना में दुःखान्त अन्त, किसे नहीं बला देगा? विस्मार्क का अपमान, मुसोलिनी के मृत्यु पश्चात् मृत शव की दुर्गति, हिटलर का विषाक्त शव दाह, स्मारकों द्वारा जीवित रहने की उत्कट कामना वाले स्टालिन की हटती तस्वीरें, गिरती पाषाण प्रतिमायें, आधुनिक जगत के सम्मुख विचित्र दर्शन उपस्थित करती हैं। उस दर्शन का दर्शन राज-तरंगिणी के पदों में झलकता है। परन्तु चंचल मानव, स्वार्थरत मानव, दुराग्रही मानव, भूल जाता है,—उन्हें स्मृतिमान वैराग्य के समान।

दो महत्वाकांक्षी एक आसन पर नहीं बैठ सकते। एक सुल्तान के दो पुत्र विद्याल साम्राज्य में नहीं रह सकते। परन्तु दस फकीर, दस गरीब, एक साथ एक टाट पर सुख की नींद सो लेते हैं।

राजनीति में उठकर, गिरता, भगवान किसी को न दिखाये। वह दुःखद मरने से भी बुरा है। इस दुःख का पात्र वहीं होता है, जो हवा में तिनके की तरह ऊँचा उड़ता रहता है, सोचता है—कभी गिरेगा नहीं। परन्तु जब गिरता है, तो पता नहीं चलता, कहाँ उड़कर चला गया।

राज मद सुरा से भी मादक है। सुरा शरीर को कष्ट पहुँचाती है। सुरा का शिकार सुरा सेवी स्वयं होता है। राज मद का शिकार दूसरा बनता है, जनता बनती है, देश बनता है, न पीने वाला बनता है, मित्र बनते हैं, साथी बनते हैं। वे चाहे अपना नाश न करे, परन्तु दूसरों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करने में कुछ उठा नहीं रखते।

राज मद का न पान करने वाला, देश नायक है, राष्ट्र-नायक है, निर्माणिकर्ता है। राजयंत्र योजित करता है। यन्त्र चलता है। यन्त्राद्वियों चलता रहता है और बन जाता है—दैनिक जीवन का अंग। अमेरिका में वॉशिंगटन ने, अन्नाहम लिंकन ने, भारत में चाणक्य ने, गान्धी ने, जापान में ईतों ने, जर्मनी में विस्मार्क ने, चीन में माओ तुसंग ने, रूस में लेनिन ने, यूनाइटेड में पेरोक्लीज ने, वही किया, जिसे काश्मीर में, जलौक ने, मेघवाहन ने, ललितादित्य ने, जयार्पाड ने, जैनूल आवधीन ने किया था।

विलासी, भोगी भोगते हैं,—भोग। भोग के नमस्कार कर्ता की विरदावलियाँ, यन्त्राद्वियाँ गाती नहीं थकती। प्रशस्ति सृजन करती है, वातुओं में, पत्थरों में, यन्त्रों में नहीं, लोगों के मन में। मूक नहीं होती, लोप नहीं होती, बनती है—अमर।

कुछ नीव पत्थर है, कुछ मेखला के पत्थर है, कुछ खण्ड के पत्थर हैं, कुछ शिखर के पत्थर है, कुछ कलश के पत्थर हैं। मिलकर करते हैं—मन्दिर रचना। शिखरस्थ भासुर कलश मुस्कराता है—अपनी ऊँचायी देखकर। भूकम्प आता है। पहले कलश लुढ़कता है, शिखर गिरता है, खण्ड खसकता है, मेखला विखरती है, वन जाते हैं—ध्वसावशेष। वन जाते हैं—खडहर वन जाते हैं—कथा शेष।

लेकिन मन्दिर भार वाहक नीव की इटों, नीव के पत्थर, सहस्रों वर्ष, लाखों वर्ष, अज्ञात शान्त, पड़े रहते हैं। वे वताते हैं। वे स्मरण दिलाते हैं। मन्दिर कभी भव्य था। उत्तुंग था। इतिहास से, स्मृति में जुड़ी थी। यह तपस्या है। उन ईंटों की, जो प्रशस्ति नहीं सुनती। जिन पर पुष्प नहीं चढ़ते। जो दिखायी नहीं देती।

उत्तुंग कलश भार वहन नहीं करता, स्वयं भार बनता है। तूफान आता है। भूकम्प आता है। पहले वही लडखड़ाता है। सीधा गिरता है। लुण्ठित होता है। कहीं रुकता नहीं। कोई सहारा नहीं देता। धराशायी होने पर, उठता नहीं। ढोका बनना है। जीवन श्री खोता है। गिट्टी बनता है। रोडा बनता है। घूल बनता है। उड़ता है। अस्तित्व खोकर पैरे तले दबता, रोककर उठता है। उसे पैरो पर भी शरण नहीं मिलती। वस्त्र से उसे लोग फटकारते हैं। उड़ता है। गिरता है। न छूटने पर घुलता है। जल प्रवाह होता है। कीचड़ में मिलकर बनता है पक्विल।

कुछ राजा नीव की ईंट बने। कुछ मेखला बने। कुछ खण्ड बने। कुछ शिखर बने। कुछ बने कलश। राजतरंगिणी में, इस राज कथा में, इस राजावली पिटक में, उनकी कहानी गुम्फित है।

राज प्रकृति मनुष्य के क्रूर-करुण, सदय-निर्दय, परमार्थ-स्वार्थ एवं मित्र-अमित्र प्रकृति से परे नहीं है। जड़ नहीं है। राष्ट्र की वीमात्मा नागरिकों की आत्मा है। शरीर भौगोलिक सीमाएँ हैं, पर आत्मा जब गिरती है, राष्ट्र गिरता है। उठती है, राष्ट्र उठता है। अतएव राष्ट्र में गति है। जीवन है। विकास है। ह्रास है। उत्कण्ठ है—अपकर्ण है, विवेक है—मूढता है। अहिंसा है। प्रतिहिंसा है। क्षमा है। क्रोध है। सकीर्णता है। उदारता है।

मनुष्य राष्ट्र निर्माण करता है। उसे चलाता है। गति देता है। उत्थान की ओर ले जाता है। पतन की ओर खींचता है। शक्ति देता है। अशक्ति देता है। केन्द्र विन्दु मानव है।

मानव का विचार, राष्ट्र नायकों का विचार, राजा का विचार है, राष्ट्र का विचार। उनका आचरण है, राष्ट्र का आचरण। उनका अनुशासन है। राष्ट्र का अनुशासन। दर्शन इस विचार का प्रेरक है। प्रवृत्तियों का नियन्त्रक है। मानवता से परे चल्ता है, तो स्वार्थ पर आच्छ होता है, राष्ट्र की सुन्दर स्थिति दुःख हो जाती है। धिनोनी हो जाती है। राज भवन, जब त्याग के स्थान पर, व्यसन का केन्द्र बन जाता है तो उममें लिप्सा, लोभ मात्सर्य, छल-कपट के, विपले कीटाणु लग जाते हैं। राज्य पंजर गलाने लगता है। बाहर से राष्ट्र किवा राज्य शरीर स्वस्थ दिखायी देता है। सुन्दर दिखायी देता है। किन्तु कीटाणु भीतर ही भीतर, उसे चाल डालते हैं। शरीर उपचार से परे हो जाता है।

भारतीय दर्शन एवं शामी या सेमेटिक दर्शन में, उनके विचाराधारा में, आचरण में, जितना अन्तर है, उतना ही अन्तर दोनों की राज महिमा में है। यदि मुसलमान ने जिहाद का नारा बुलन्द किया है और करता है तो, इगार्ड क्रुसेड, यूसी अपनी मानु-भूमि, भगवान् द्वारा प्रतिश्रुत देश की दुहाई देता है। इसमें उनका दोष नहीं है। मनुष्य जब जन्मजात दर्शन का दास बन जाता है, तो उसकी बुद्धि उसका साथ

नहीं देती। वह हो जाता है—अन्धविश्वासी। दूसरे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उनका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, भूल जाता है, मोहित हो जाता है। संस्कार एवं कुसंस्कार का बन जाता है, दास। झण्डा उठाता है, दर्शन विशेष का। प्रवर्तक बनता है, चलता है, केवल एक दिशा की ओर। अन्य दिशाओं से आंखें बन्द कर। बिना दूसरे की अपेक्षा किये। बिना दूसरे की चिन्ता किये। सम्मुख जो आता है, जो टकराता है, उसे नष्ट करने में भगवान् का कार्य मानता है। विश्वास करता है। उसका मार्ग ठीक दूसरों का गलत है। दूसरे पथ भ्रष्ट हैं। वह सुपथ गामी है। दूसरे नरकगामी हैं। वह स्वर्गगामी है। नरकगामियों को दण्ड देना कर्तव्य है।

उन्हें उनके दर्शन से हटाकर, अपने दर्शन में सम्मिलित कर, ईश्वर के आदेश का पालन करना है। उसके प्रति पावन कर्तव्य है। दूसरों को जवर्दस्ती बल से, छल से, कपट से, भय से, लोभ से, अपना पथ-गामी बनाने में ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति है। दूसरों को पाप से, ईश्वर के कोप से, दोषाल की भयंकर आग से बचाना है। यह अन्ध विश्वास धार्मिक क्रान्तियों की जननी है। रक्तपात हुआ है। आत्मोत्सर्ग कर्ता, सन्त, महात्मा, दरवेश, सूफी तथा फकीरों की लम्बी पंक्ति बन गयी है।

मनुष्य विवेक त्याग कर, जब केवल कर्म काण्ड का साधन मात्र रह जाता है, तो कर्मकाण्ड साधन न होकर, साध्य बन जाता है। भूल जाता है। मनुष्य साध्य है। धर्म मनुष्य के लिये है, मनुष्य धर्म के लिये नहीं है। एक ही मनुष्य आज हिन्दू कल मुसलमान, परसों बौद्ध और चौथे दिन इसाई बनता है। एक ही मनुष्य अनेक धर्म, वस्त्रों के समान, ग्रहण करता और त्यागता है। धर्म मनुष्य का निदेशक है। मार्ग दर्शक है। अनिवार्य नहीं है। बिना धर्म माने मनुष्य जीवित रहता है। बिना धर्म माने पशु-पक्षी, प्राणी जीवित रहते हैं। मनुष्य स्वयं साध्य है। इस विवेक के ह्रास के कारण भयंकर रक्तपात तथा क्रूर गाथाओं का सृजन हुआ है।

सिकन्दर बृत्त शिकन मुल्तान काश्मीर में ईमान और तलवार का विकल्प काश्मीरियों के सम्मुख रखा। जीवन भय से अनेक कायरों ने, लोभियों ने, पद लोलुपों ने इस्लाम ग्रहण किया। पुण्यार्जन हेतु खंगधार पर इस्लाम ग्रहण कराया। अनेकशः इस विकल्प से बचने के लिये, आत्म हत्या कर लिये। कुछ ने देश त्याग दिये। हिन्दू धर्म उनकी रक्षा नहीं कर सका। कोई देवी-देवता, उनकी रक्षा नहीं कर सका। कोई जन्त्र-तन्त्र-मन्त्र उन्हें बचा नहीं सका। वे लोप होते गये, मरते गये। कश्मीर हो गया हिन्दू से मुसलमान। योगियों का योग, ईश्वर के माध्यम मनुष्यों की शक्ति, जहाँ-की-तहाँ पड़ी रह गयी।

जगत् का कोई धर्म किसी साधु, सन्त, महात्मा, नवी, पैगम्बर, योगी एवं अवतार ने काल से अपनी रक्षा नहीं कर सका है और न करा सका है। धर्म स्वतः किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ है। इस्लाम की तलवार की शक्ति के सम्मुख मोरक्को से लाहौर तक के विशाल भू-भाग ने घुटना टेक दिया। यदि कहीं किसी ने उनकी रक्षा की तो स्वयं उनके कर्म ने, उनके साहस, उत्साह एवं उत्सर्ग ने। जिनकी वे उपासना करते रहे। जिनका नाम रटते-रटते जन्म विता दिये थे। वे भूलकर भी अपने उपासकों की रक्षा करने नहीं आये।

किसी दिन के काश्मीरी हिन्दू हो गये मुसलमान। नाम बदल गया। काश्मीर की हवा नहीं बदली। पानी नहीं बदला। छुपि वही थी। भूल वही थी। प्यास वही थी। माता वही थी। पिता वही थे। सब कुछ वही था। केवल, जो मुख काश्मीर के मन्दिरों की ओर, गृह देवता की ओर, तुपार लिंगों की ओर, हरित वन श्रीयुक्त, तीर्थों की ओर कलकल बहते उज्ज्वल जल-मग्न नागों की ओर घूमता

वे बातें जो भारत में भात शताब्दियों तक गलत थीं । वे आज कैसे ठीक हो गयीं । सन् १९४७ ई० के पूर्व भूपाल आदि भारत स्थित मुसलिम रियासतों में हिन्दू नवीन मन्दिर निर्माण नहीं कर सकते थे । वही स्थिति आज पाकिस्तान में है । अन्य मुसलिम देवाधिराज तन्त्रों में है । ईश्वर इन सबका मूक द्रष्टा है सन्तानों को परस्पर एक दूसरे पर दमन करने से रोका नहीं । पिता कहे जाने वाले ईश्वर की विचित्र दशा है । उनकी सन्तानों परस्पर लड़ते हैं । मरती हैं । वह सर्व सत्ता सम्पन्न होते, जैसे अपने पुत्रों का वध देखता है । उनका बहता रक्त देखकर, उस कारुणिक को करुणा नहीं आयी । ऐसा है, तो निःसन्देह वह पिता क्रूर है । नृशम है । वह पिता नहीं है, जो अपनी सन्तानों का वध कराता है । मन्दिर, मठ, विहार, गिरजा, मस्जिद पवित्र स्थान अपनी सन्तानों से निर्माण कराकर, उन्हीं से उन्हें नष्ट कराता है । एक बार एक को उठाता है । दूसरों को दूसरी बार, यह है, पिता ईश्वर की निरपेक्ष दृष्टि ?

जापान में हीरोशिमा एव नागासाकी नगर एटम बम्ब से नष्ट हो गये । अधोष शिशु, जिन्होंने पाप जाना ही नहीं था, नष्ट हो गये । केवल इमलिये नष्ट हुए कि वे वहाँ जन्म लिये थे । ईश्वर की इच्छा से वहाँ जन्म लिये थे । स्वयं जन्म लने व लिये स्वतन्त्र नहीं थे । उनकी मातायें मरी, वे निस्वार्थ भाव से सन्तानों को कोख में लिये थी । अपने घरों में ईश्वर की प्रार्थना कर सोयी थी । परन्तु वे नष्ट हुयी । नगर नष्ट हुये । पद्म, पक्षी नष्ट हुए । जो निर्दोष थे । किम अपराध के कारण वे नष्ट हुये ? क्या कोई धर्मगुरु, ईश्वर और मनुष्य व बीच माध्यम बननेवाला कोई अपने ईश्वर से पूछकर, बता सकेगा ?

द्वितीय विश्व युद्ध में पाँच करोड़ व्यक्ति हताहत हुये । यह सब हुआ, सर्वज्ञ ईश्वर की जानकारी में । ईश्वर के सब विशेषण, जैसे मिथ्या प्रमाणित हुये ।

विचित्र स्थिति है । मानव की हत्या कर मानव रक्षा की कल्पना करता है । ईश्वर की पूजाकर, प्रार्थना कर बलि देकर, मन्नत मानकर, नरसंहार करता है । मारता है । ईश्वर का नाम लेकर । मरता है, ईश्वर का नाम लेकर । दोनों कहते हैं—ईश्वर की इच्छा ।

मुसलमानों का भारत में प्रवेश हुआ । वे अल्पसंख्यक थे । उन्हें भय था । बहुसंख्यक हिन्दू उन्हें आत्ममात कर जायेंगे । उनका नवविजित राज्य समाप्त कर देंगे । अपनी सत्तनत मजबूत करने के लिये, अपनी आवादी बढ़ाकर, स्थिति सुरक्षित करने के लिये, ईश्वर के नाम का आश्रय लिया । धर्म का आश्रय लिया । धर्म किंवा दर्शन बन गया, उनका साधन । उनके राजनीतिक ध्येयपूर्ति का एक मार्ग ।

दारा शिकोह दार्शनिक था । धर्मनिरपेक्ष था । औरंगजेब उसके स्थान पर राज्य चाहता था । उसने ईश्वर के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर, दारा शिकोह के नास्तिकवाद से सत्तनत की रक्षा के नाम पर, कट्टर पन्थियों का गमर्पण प्राप्त किया । कट्टरता उग्र होती गयी । दारा की हत्या की गयी, धर्म के नाम पर । शाहजहाँ धर्म के नाम पर बन्दो बनाया गया । भाइयों की हत्या, भतीजों की हत्या धर्म के नाम पर हुई । आगरा के किला में दस वर्ष बन्दो बना शाहजहाँ आँसू लेता मर गया । पिता एव भाई की मृत्यु पर औरंगजेब के कट्टर पन्थियों अनुयायियों ने हर्ष मनाया ।

फ़िरोज शुगलक ने भारत को मुस्लिम बनाने की कल्पना किया । क्योंकि उसमें स्वयं एक जाट का रक्त था । मूल मुसलिमों से भी ऊँचा उठना चाहता था । स्थिति सदृष्ट करने के लिए । कट्टर पन्थी वर्ग का गमर्पण प्राप्त किया । कट्टरता की बलि वेदों पर लाखों हिन्दू बलिदान हो गये । मन्दिरों के शिगर, उनसे बलश, मानवीय बला, मानवीय श्रद्धा के प्रतीक, घोर निनाद करते गिरे । परन्तु उनकी आवाज ईश्वर के कानों तक नहीं पहुँची । लेकिन अज्ञात की आवाज कानों तक पहुँचती है । जैसे उसे दो कान थे ।

एक से सुनता था, केवल अपने एक वर्ग की, और दूसरा कान रखता था वन्द । यह है, विचित्र एकेस्वरवाद ?

मुगल किसी दिन के वौद्ध थे । अपनी सत्ता, अपनी स्थिति, अपना राज्य सुदृढ़ करने के लिये, मुसलमान बन गये । राज्य की जनता मुसलमान थी । विना जन समर्थन उनका राज्य, सुदृढ़ नहीं रह सकता था ।

पाकिस्तान भारत से निकलकर बना । हिन्दू मुसलमान के नाम पर बना । इस कल्पना पर बना कि दो धर्मानुयायी एक साथ नहीं रह सकते । उनका अलग अल्लाह है । अलग इबादत का तरीका है । अलग आचार-विचार है । अतएव अलग राज्य होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिये, भाषा होनी चाहिए । बात थी राजनीतिक । उस पर चढ़ाया गया, साम्प्रदायिक रंग । बना दिया दो जातियों को पागल । धर्म का नारा, सम्प्रदाय का नारा, पाकिस्तान को एक सूत्र में पिरोकर नहीं रख सका । पाकिस्तान विखर गया । बंगला देश में, मुसलिम जाति ने, मुसलिम जाति के एक वर्ग ने, दस लाख से ऊपर व्यक्तियों को मार डाला । दोनों पाकिस्तान ईकाइयाँ थी मुसलिम । दोनों मिलकर बनाये थे, पाकिस्तान । किन्तु उन्हें धर्म एक साथ नहीं रख सका । भाषा का प्रश्न उठा, वित्त का प्रश्न उठा, स्वायत्त शासन का प्रश्न उठा, शोषण का प्रश्न उठा, शोषित-शोषक का प्रश्न उठा । रक्त रंजित क्रान्ति हुयी । बन गया, बंगला देश—पाकिस्तान से अलग ।

यह सब हुआ । होता रहेगा । जब कभी धर्म साधन बनेगा, माध्यम बनेगा, तो देश किवां राष्ट्र रक्त की लाली से लाल हो उठेगा । विदेशी शत्रु भगाया जा सकता है । परन्तु यह शत्रु देश शरीर को दूषित कर देता है, गला देता है, क्षीण कर देता है । यूरोप में शताब्दियों चलता रोमन कैथोलिकों तथा प्रेस्टिस्टेण्टों का संघर्ष इसका ज्वलन्त उदाहरण है ।

मुसलिम जगत का इतिहास साक्षी है । जिन्हें सहावा कहते हैं । हज़रत अबूबकर, उमर, उसमान तथा अली चारों खलीफा शहीद किये गये । वे पैगम्बर के साथ कार्य किये थे । इस्लाम का प्रचार किये थे । वे ही एक के पश्चात दूसरे शहीद होते रहे । इस रक्त-पात की पूर्ण आहुति, जैसे पैगम्बर के नाती इमाम हुसैन की शहादत में हुई थी ।

यूनान तथा रोम मूर्ति पूजक थे, इसाई धर्म के विरोधी नहीं थे, निरपेक्ष थे । मूर्ति के विरुद्ध जेहाद बोला गया, मूर्तियाँ खण्डित की गयीं, कुछ समुद्र में फेंक दी गयीं, कुछ गाड़ दी गयीं । कालान्तर में पुनः पुरातन यूनानी धर्म के स्थान पर, नवीन धर्म का उदय हुआ । जिसने देश को, जगत को, एक नवीन दिशा दिया । आज उसने पुराने समय से अधिक, मूर्ति पूजकों से अधिक, मूर्तियों का निर्माण किया है । प्रत्येक ग्रामों के चर्चों में, प्रभु ईशा की क्रास पर, माता मरियम की गोद में, त्राइविल सम्बन्धी गाथाओं, सन्तों के उत्सवों की मूर्तिकला, भित्तियों पर, स्तम्भों पर, लगी है । उनकी मूर्तियाँ सार्वजनिक स्थानों पर, महत्त्वपूर्ण स्थानों पर, लगायी जाने लगी । इसाई जगत के साधु सन्तों, देवियों के वलिदानों को स्मरण कराती, प्रस्तरों, घातुओं में अगणित छोटी-बड़ी मूर्तियों की शृंखलाएँ बन गयी । धर्म था मूर्ति विरोधी परन्तु बन गया मूर्ति समर्थक । मूर्तियों ने मूर्तियों का स्थान लिया, केवल नाम बदल कर ।

उन मुसलमानों, उन ईसाइयों, उन मनुष्यों को कैसे दोष दिया जा सकता है ? वे एक विश्वास, एक दर्शन की निष्ठा पर उठते थे । यदि यह दर्शन, यह मूढ़ता, यह कुसंस्कार, मानव को असुर बनाता है, पशु बनाता है, प्रतिहिंसक बनाता है, तो वह दर्शन कैसे जगत में शान्ति स्थापित कर सकेगा ? यही है, भेद का कारण, यही है विषमता का कारण । इसका धर्म से सम्बन्ध नहीं है । इसका धर्म प्रवर्तकों से

सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध है, उन लोगों में जिन्होंने धर्म को अपनी महत्वाकांक्षा का साधन बना लिया है। बुरी परम्परा की बेल, स्वार्थ दृष्टि से लगायी गयी है। लिप्सा से सिंचित हुयी है। वासना से पल्लवित हुयी है। प्रमाद से पुष्पित हुयी है और लद गयी है, उन्माद विष फल से।

इस परम्परा, इस दर्शन का शिकार बन गया, दुर्बल मनुष्य। विपमताओं में पिस गया, कुसकारों में धिम गया, शोषणों में लुट गया। अपनी रक्षा, सुख कामना, भविष्य की आशा, मृत्युपरान्त स्वर्ग की आशा में, कान्पनिक जगन के झूले में झूलता रहा। इस दर्शन प्रवाह में, इस कुसंस्कार में, इस मोह में, बहता रहा। उम धारा में बहता गया, जहाँ से लौटना कठिन था। वह वहाँ में चला था, किसालये चला था, भूल गया। प्रवाह उसका दर्शन बन गया। इस प्रवाह से निकलना चाहा। गति निश्चित करना चाहा। लौटना चाहा। किन्तु उसकी वह दिशा, दूरियों को पान्द नहीं आयी। अतएव एक नवीन दर्शन बना। जो विरोध करेगा, मत से बाहर जाना चाहेगा, उमकी सजा होगी मौत—समाज उसे दण्ड देगा। राज्य उसे दण्ड देगा। उमे शक्ति के सम्मुख, भय के सम्मुख, झुकना पड़ेगा।

अपनी ही बनायी बड़ी मानव के पैरो में पड गयी। वह बाध्य हो गया। दास हो गया। बन गया। एक बड़ी मशीन का पुरजा। जो चलता ही रहता है, रुकता नहीं। नियन्त्रित होता है, अपने ही कुसकारों से, कठोर परम्पराओं से।

दुर्बल मानव भयभीत हुआ, मृत्यु से। मृत्यु के भय में, कातर बन गया। उमका यह भय, उमकी यह कातरता, किसी अव्यक्त शक्ति पर, विश्वास करने के लिये, प्रेरित करती है। उसने मृत्यु का भयकर रूप देखा। शरीर का जड होना देखा। स्तब्ध होना देखा। यह मोच कर—उसकी वही दशा एक दिन होगी। इस स्थिति में बचना चाहता है। दूर भागना चाहता है। उसका मन अपनी विवशता पर, कातर हो जाता है। उस अव्यक्त शक्ति से भयभीत होता है, जिसके कारण मृत्यु होती है।

वह शरीर से, जीवित अवस्था में, उतना भयभीत नहीं होता, जितना मरने पर। सोचते ही काप उठता है। मृतक होगा। हिल डोल न सकेगा। मिट्टी में गाड दिया जायगा। राख बन कर उड जायगा। उम अव्यक्त शक्ति के सम्मुख होगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुयी है। इस दु खद परिस्थिति से, बचने का विश्वास दिलाने वाले, आश्वासन देने वाले, मृत्यु को भगाने वाले उतातिपियों इन्द्रजात्रिकों पर विश्वास कर बैठे। इस विचित्र दर्शन की ओर अनायास आकर्षित हो गया। उन पर उमी प्रकार विश्वास किया, जिम प्रकार एक सरल चित्त व्यक्ति, ज्योतिषी या इन्द्रजालिक पर विश्वास कर बैठता है।

चिन्तन होता है। आत्म शरीर त्याग कर, कहाँ गयी? आत्मा है या नहीं? इसकी खोज मानव कर रहा है। इस यात्रा में वह, कही का कही पहुँच जाता है। जत्र उसे कोई मार्ग नहीं मिलता, कोई अन्त नहीं मिलता, दु ख, व्याधि, जन्म, जरा, मृत्यु का कोई कारण नहीं मिलता, वह किसी अव्यक्त शक्ति पर, अपनी बुद्धि व स्थान पर, विवेक के स्थान पर, विश्वास के लिये, आशा के लिये, सन्तोष के लिये, कहीं न कहीं विवश हा जाता है। उमकी विवशता का लाभ उठाकर, दुर्बलता का लाभ उठाकर, भय का लाभ उठाकर, समाज उसमें वह सब कार्य कराता है, जो स्वतन्त्र होने पर, मुक्त विचारक होने पर, न करता। इस प्रकार, एक प्रकार से कार्य करने की, एक प्रकार से मोचने की, परम्परा का क्रम चूड हो जाता है। कल्याण की, चिन्तन की, कर्म की, सोभा सञ्चुचित हा जाती है। वह स्वनिर्मित वातावरण का बन्दी बन जाता है। बाहर झोकना पाप समझता है, अपनी धीमा में पँस जाता है। विवेक जागृत होने पर, तडपता है। सद्बुद्धि उदय होने पर, घबडाता है। बाहर निकलना चाहता है। किन्तु कठोर सोभा बन्धन

से निकल नहीं पाता। अचेतन मन पर, प्रतिक्रिया होती है। बन जाता है। अपनी सीमा, अपने वातावरण का संकुचित, अनुदार प्राणी।

जोनराज ने अपनी आँखों से मन्दिर टूटना देखा। कलशों का गिरना देखा। भग्न प्रतिमाओं का रथ्य पर बसाटना देखा। ग्रन्थों की जल समाधि देखा। पुस्तकों की होली देखा। काश्मीर का हिन्दू से मुसलमान होना देखा। उसने देखा पुरातन का मृत स्वरूप एवं नये काश्मीर का उदय। देखते-देखते आँखों के समझ एक परम्परा लुप्त हुई, दूसरी उठी, आरती बुती, चिराग जले।

तथापि जोनराज सिकन्दर वृत्तचिक्न को दोष नहीं देता, अलीग्राह को दोष नहीं देता, सूहभट्ट को दोष नहीं देता। वह दोष देता है—उस दर्शन को, जिसकी प्रेरणा पर मानव बदल जाता है। वह महात्मा गांधी के उस दर्शन में विश्वास करता है, जो मानव की मानवता में विश्वास करता है। महात्मा जी भारत की आजादी के लिए संघर्ष किये। परन्तु अंग्रेज जाति के विरुद्ध नहीं थे। जो दर्शन मानव को दास बनाने में विश्वास करता था, साम्राज्यवाद में विश्वास करता था, उपनिवेशवाद में विश्वास करता था, शोषण में विश्वास करता था, उसके परिवर्तन होते ही, अंग्रेज बन गये—भारत के मित्र। आजादी देकर चले गये, अपने घर। आज वे हैं, उन्हीं भारतीयों के मित्र, जिनके कारण, उनका साम्राज्य टूटा था। जिनके कारण, उनका आर्थिक ढाँचा टूटा था। इसीलिये जोनराज दर्शन को दोष देता है, न कि किसी मुल्तान को, अथवा किसी व्यक्ति को।

प्रकृति क्रुद्ध होती है। तुषारपात होता है। वूफान आता है। जलप्लावन होता है। तुषारपात तुषार को नष्ट नहीं करता। वे आते हैं। अपने गोत्र में मिल जाते हैं।

परन्तु क्रुद्ध होने पर मनुष्य मारता है, मनुष्य को। मारता है, अपने गोत्र को। मारता है, अपनी जाति को। मारता है, राष्ट्र को। मनुष्य से अच्छे पशु हैं, पक्षी हैं।

पक्षी अपने गोत्र का नाम नहीं करते, उनमें मिल जाते हैं। साय उड़ते हैं—एक साय चारा चुगते हैं। साय कलरव करते हैं। साय बसेरा लेते हैं। पशु समूह बन में रहते हैं। साय बरते हैं, साय जलवाय जाते हैं, साय लौटते हैं, साय विश्राम करते हैं।

वर्षोन्माव में देव जला है। जाति जली है। पुराना समाज टूटा है, नया समाज बना है। नया दर्शन स्वीकार तथा पुराना भूला गया है। यदि नवीन दर्शन ग्रहण कर्ता को समाज वहिष्कृत, जातिच्युत करता है, विधर्मी करार देता है, उपेक्षा करता है, तों वह पुराने समाज को नष्ट कर, नवीन सँघे में समाज को ढालना चाहता है। इसलिये कि कोई समाजच्युत, जाति वहिष्कृत, अजाती, विधर्मी, कहने वाला न रह जाय।

सूह (सिंह) भट्ट ब्राह्मण था। उसने अपने बहन का विवाह विदेशी मुसलमान मीर अली हमदानी से किया। धर्म परिवर्तन किया। सत्ता लोलुप था। उनके दल में मिला, जो सत्तावारी थे। मन्त्रित्व पद उभे शिष्ट था। मुसलिम सत्ताधारियों से भी श्रेष्ठ मुसलिम, अपने को प्रमाणित करना चाहता। उसके साथ जो ब्राह्मण नहीं आये, उन्हें तलवार की नोक पर, मुसलिम समाज में मिलाया। जबरदस्ती मुसलमान बनाया। जिन देवताओं की पूजा करता था, उन्हें पाषाण खण्ड मात्र समझ कर, मंग किया। उसे मूर्ति मंग, मन्दिर मंग, जाति मंग में रस मिलने लगा। नवीन दर्शन के उद्गाह में उभने दर्शन किया, उस दर्शन का, जो कान्दहार को केवल एक ही दर्शन में ढालना चाहता था। किन्तु वह दर्शन नहीं था।

वह था, दर्शन का विकृत रूप। खट्टे दूध की तरह था। अमृत नहीं था, विष था। इस दर्शनविष ने सर्वस्व नाश किया, जो उसका अपना था, काश्मीर का था।

काश्मीर एवं अन्य देशों के धार्मिक उन्माद की प्रक्रियाओं में अन्तर है। दूसरे देश में, दूसरे देश के लोग, दूसरी जाति के लोग विजय करते हैं, तो वे उस देश में अपना समर्थक, अपना सहायक, अपना साथी खोजते हैं। एक दल बनाते हैं। एक गोल बनाते हैं। यह दल, यह गोल लोकतन्त्रीय सार्च में नहीं ढला होता, जो देश को शक्ति देता है, जो लोक को सन्तुलित रखता है। उसका ढाँचा देवाधिराज तन्त्रीय सदृश निरकुश होता है। पूर्व काल में राजा का धर्म राष्ट्र का धर्म बन जाता था। जहाँ धर्म लादा नहीं जा सकता था, वहाँ राजकीय साधनों का प्रयोग होता था। अधिक से अधिक लोगों को अपने मत में लाना गौरव की बात थी। व्यक्ति के समान राष्ट्र का एक धर्म बन जाता था। दूसरे धर्म के विकास अथवा रक्षा की गुजाइश कम हो जाती थी। राजधर्म देश का धर्म बन जाता था। जनता पुरातन धर्म त्याग कर, शासकों के धर्म का अनुकरण करती थी।

ईशाइयों ने यही किया। जहाँ राज्य का झण्डा गया, वहाँ उनका धर्म गया। मुसलमानों ने इस प्रक्रिया को अपरिष्कृत रूप में और ईशाइयों ने सुसंस्कृत रूप में किया। परिणाम दोनों का एक ही था— धर्म प्रवर्तन। मुसलमान जहाँ गये, वहाँ उनका धर्म राज्य प्रथम में, भस्त्र छाया में, प्रशासन छाया में, परलवित हुआ। इस प्रक्रिया से हिन्दू, यहूदी, पारसी दूर रहे। उनका दर्शन प्रवर्तक नहीं था। वे प्रवर्तक वादी नहीं थे। सख्या में विश्वास नहीं करते थे। सीमा विस्तार में विश्वास नहीं करते थे।

प्रवर्तक दर्शनवादी अन्ध-विश्वास करते हैं। विश्वास से कार्य करते हैं। समझते हैं। उनका ही एकमात्र विश्वास है। जिस पर विश्वास किया जा सकता है। वही सच्चा है। वही ईमान है। उसे जो मानता है, मित्र है। जो अस्वीकार करता है, पापी है। गुनहगार है। ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस दर्शन ने इस विश्वास ने सख्या बढ़ाने में होड़ लगा दी।

उसने प्रत्येक व्यक्ति को मिललत का, चर्च का, सघ का अंग मान लिया। इस मिललत से, इस चर्च से, इस सघ से जो अलग था, उसकी स्थिति शून्यवत थी। उन्हें अस्तित्व का अधिकार नहीं था। उनका स्थान दोअख था, जहन्नुम था। हेला था। जहाँ वे अनन्तकाल तक यातना भोगते रहेंगे, जलते रहेंगे।

इस जगत में पशु, पक्षी, जीव-जन्तु रह सकते थे, परन्तु मनुष्य नहीं रह सकते थे, जो उसके समर्थक नहीं थे। इस दर्शन ने मानव की स्थिति, पशु, पक्षी एवं जन्तुओं से भी ह्य बना दी।

हिन्दू किमी को अपने धर्म में स्वीकार नहीं करते। मिलाते नहीं, अपना मत लादते नहीं, अपना विश्वास दूसरे पर थोपते नहीं, अपनी सख्या बढ़ाने की चिन्ता नहीं करते। तथापि उन्हें रहने देना, उनका अस्तित्व किसी प्रकार रहने देना, दण्डनीय माना गया। उनसे भी भय किया गया। यह भय भविष्य का था। भविष्य में जो सन्तानें होंगी, उनसे वर्ग विशेष की सख्या बढ़ेगी। अतएव उन्हें समूल नष्ट करना, उचित समझा गया। भविष्य की सन्तानों का भाग्य उन पर, भविष्य पर, न छोड़कर, तात्कालिक निर्णय ले लिया गया। उन्हें किमी एक दर्शन में भविष्य की अगणित शताब्दियों तक के लिये बन्धक रख दिया।

गैर मुसलिमों को हारने का मूल्य जजिया से चुकाना पड़ता था। हिन्दू अपवित्र माना जाता था। काफिर माना जाता था। यदि वह धर्म परिवर्तन कर, अपना नाम बदलकर, कहने के लिये विश्वास कर, लेंता था, तो पवित्र था। जीने का अधिकारी था। मरने पर उसकी तरफ से ईश्वर के समीप, कोई बवालत कर सकता था। उसके गुनाह माफ करा सकता था।

यह विचित्र दर्शन था। उसे तर्क की तुला पर तौलना कठिन था। विश्वास की बात थी। विश्वास, तर्क एवं दिवैक की दिशाये भिन्न होती हैं। आजन्म पुण्यकर्मा, आजन्म सत्यवादी, आजन्म त्यागी, आजन्म उपकारी, कर्मशील व्यक्ति होने पर भी, उसे उस समय तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी, जब तक वह विश्वास नहीं लाता था। इस दर्शन का विश्वासी, परधर्मी को, चाहे अत्याचार कर, चाहे दमन कर, चाहे प्रलोभित कर, चाहे फुसलाकर, चाहे जबरदस्ती कर, अपने दर्शन में सम्मिलित करता है, तो वह ईमानदारी से विश्वास करता है। एक कुपय गामी, एक नास्तिक, एक काफिर, एक गुमराह को ईमान पर लाया है। धर्म पर लाया है, सुपथ पर लाया है, उसके गुनाहों को माफ कराया है। स्वर्ग का द्वार खुलवाया है। उपकार किया है। नरकाग्नि से रक्षा किया है। लोक-परलोक दोनों बनाया है। इस विश्वास के कारण, परधर्मी की पुकार, चीत्कार, कल्प क्रन्दन, विधवाओं की सिसकियाँ, अलमेलों की कातरता का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या इसमें मनुष्य का दोष है? अथवा उसका दोष है, जो उसके दिमाग में इस तरह की बातें भर दी हैं?

धर्म को आर्थिक लाभ का साधन बनाने वाले अधम हैं। आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुतों ने ईसाई एवं मुसलिम धर्म स्वीकार किया है। लाभ उठाया है। ऐश्वर्य प्राप्त किया है। आज भी अनेक कारखानों चायवागानों, तथा केरल में मुसलिम या ईसाई होने पर कारखानों एवं सेवा में स्थान मिल जाता है। काशी में बुनकरों के यहाँ प्रायः यह होता रहता है। छोटे गरीब लड़के काम पर रख लिये जाते हैं, बड़े होने पर विवाहादि कर, उन्हें मुसलमान बना लिया जाता है। उन्हें अपने ही घर में रख लेते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को खरीदकर, अथवा गुलाम बनाकर, अथवा विवाह कर, मुसलिम किवां ईसाई बनाने की प्रथा प्रारम्भ से ही प्रचलित रही है। महिलायें इस प्रक्रिया की सबसे अधिक शिकार हुयी हैं। उन्हें बेचना, उनसे हरम भर देना, उनसे बाँदी का काम लेना, साधारण बातें थी। सम्पूर्ण मुसलिम जगत में, पूर्वकालीन ईसाई जगत में, दास प्रथा प्रचलित थी। भारत तथा विश्व के अनेक सुल्तान किसी समय के गुलाम थे।

गुलामों की स्थिति दयनीय थी। गुलाम जब किसी प्रकार शक्ति में आये, तो प्रतिकार की दृष्टि से, प्रतिहिंसा की दृष्टि से, अपने नवीन धर्म, स्वामी के प्रति, पूर्ण निष्ठा, प्रकट करने के लिये, विजातियों पर अत्याचार किये हैं। उसी प्रकार या उससे बढ़कर अत्याचार किये हैं, जैसा अत्याचार, उनके कुल, जाति पर कभी किया गया था।

उन्होंने देखा था, स्त्रियों का अपहरण, उन्होंने देखा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। उन्होंने देखा था, लूट-पाट। उन्होंने देखा था, मूर्ति भंग। उन पर वही संस्कार पड़ा था। शक्ति में आते ही, अवसर पाते ही, अदन्य उत्साह के साथ, उन्होंने उन्हीं पर उसका प्रयोग किया, जिनके वे कभी अंग थे। वे ईर्ष्या करने लगे, अपनी जाति-बन्धुओं से, जो कठिनाइयों के बावजूद अपनी जाति में थे, उन्हें उनकी यह स्थिति पसन्द न आयी। वे उन सभी साधनों को स्वीकार किये, जो उन्हें उनके धर्म से विरत कर, नवीन समाज में सम्मिलित करने में सहायक थे।

कुछ इस प्रकार की बातें काश्मीर में हुईं। विदेशी मुसलमान, अपने देशों से उत्पाटित, उद्वासित होकर, काश्मीर में शरण लिये थे। स्थिति सुदृढ़, एवं सुखद होते ही, वे वही अत्याचार काश्मीरियों पर करने लगे, जिनके वे शिकार बन चुके थे। सैन्यदों के अत्याचार का, उनकी क्रूरता का, आँखों देखा जो वर्णन जोनराज एवं श्रीवर करता है, उन्हें पढ़कर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

काश्मीर के मुसलिम हो जाने पर, स्थिति सुधारने के स्थान पर, विगड़ गयी। आशा की गयी

थी। एक मित्तलत में हो जाने पर, पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या तथा सघर्ष बन्द हो जायगे। परन्तु बात उलटी हुयी। काश्मीर में जब तक हिन्दू थे, सुल्तानों की निरकुशता पर, स्वेच्छाचारिता पर, अकुश था। वे हिन्दुओं का आदर करते थे। उनका सहयोग प्राप्त करते थे।

तथापि उन्हें भय था। हिन्दू उठ सकते थे। राज्य उलट सकता था। यह भय व्याप्त था, विदेशी मुसलिम प्रशासकीय अधिकारियों में। जिनकी परम्परा गैर काश्मीरी थी। जिनकी सस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास काश्मीरी नहीं था। अतएव सबको मुसलमान बनाने का कार्य मुयोजित रूप से किया गया। इसी प्रकार योजनाबद्ध प्रयाम तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, फारस तथा अरब देशों में हो चुका था। इण्डोनेशिया में पूर्णतया तथा मलेशिया में आंशिक रूप से हुआ था।

सबके मुसलिम धर्म में दीक्षित होने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। स्थिति बिगडती गयी। शाहमीर वंशज सुल्तानों का हाथ अपने वंशजों एवं बन्धुओं के रक्तों से रजित हुआ है। उनमें वह सघर्ष हुआ, वह रक्तपात हुआ, वह नृशस हत्यायें हुई, क्रूरता की वे सीमार्ये पार की गयीं, जो काश्मीर के लिये नवीन थीं। जिन्हें न किसी ने सुना था और न देखा। एक ही दर्शन के अनुयायी बनने पर भी समस्यायें उलझती गयीं। जो अत्याचार, अन्याय, क्रूरता एवं कठोर व्यवहार हिन्दुओं के साथ किया गया था, वही मुसलमान सत्ताधारी दूसरे मुसलमानों पर करने लगे।

एक ही दर्शन में अनेक शाखायें, उपशाखायें निकलीं। वे परस्पर विरोधी थीं। जो गति ईसाई जाति को यूरोप में हुयी, वही एशिया एवं अफ्रीका में मुसलमानों की हुयी। मुसलमान सुल्तान अपने ही महधर्मों सुल्तान एवं शासकों से लड़ने लगे। पैगम्बर ने एक मुसलिम जगत की कल्पना की थी। परन्तु उन्हीं के अनुयायी मुसलिम वर्गों में बट गये। सल्तनत के लिये, शक्ति के लिये, पिता ने पुत्र की, पुत्र ने पिता की, भाई ने भाई की हत्या की। आँख फोडा। अंग-भंग किया और क्या नृशस कर्म नहीं किये, यह याद करना होगा।

मुसलिम देशों में लोकतन्त्र का अभाव, आये दिन होते रक्त-पात, प्रासादीय विप्लव, साधारण बातें हो गयी हैं। यही भूतकाल में हुआ था। गजनी, गोरी, गुलाम, खिलजी, सैय्यद, तुगलक, लोदी, पठान, मुगल वंशों का लोप हो गया। उनके गोत्र का लोप हो गया। एक वंश से सत्ता प्राप्त करने के साथ ही दूसरे का वंशवृज लोप कर देता था। कतिपय मुगलवंशीय एवं नवाब वंशीय आज इसलिये बिखरे दिखायी देते हैं कि मुगलों तथा नवाबों के पश्चात् सत्ता अग्नेजों के हाथों में आयी। अग्नेजों को मुगलों और नवाबों से भय नहीं था। उन्हें पेन्शन या जागीर देकर, उनकी शक्ति समाप्त कर दी गयी। अग्नेजों की परम्परा लोकतन्त्रीय थी। उन्होंने सहारक नीति का आश्रय नहीं लिया।

आश्चर्य है। इन हत्याजों, इन अन्यायों, इन रक्तपातों को देखती हुयी, जनता निरपेक्ष शताब्दियों तक बँठी रही। उसने कभी हत्याजों के विरुद्ध, विप्लव के विरुद्ध, आवाज नहीं उठायी। कारण स्पष्ट था। उनके करने वाले एक दर्शन का आड लेते थे। पश्चिम पाकिस्तान में चालीस प्रतिशत हिन्दू थे, इस समय वहाँ दो प्रतिशत हिन्दू कठिनाई से रह गये। बहुमह्यक मुस्लिम जनता ने कभी आवाज नहीं उठायी। अल्पसंख्यकों पर क्यों अत्याचार किया जा रहा था? उन्हें निर्मूल करने की नीति क्यों राज्य ने स्वीकार किया था?

मुझे स्मरण है। पाकिस्तान बनते ही, मरने या मुसलिम धर्म स्वीकार करने का विकल्प हिन्दुओं के गमश रखा गया। मैं शरणार्थी शिविर काशी का सयोजक था। काश्मीर के हजारों शरणार्थी काशी तथा काशी व समीप चुनार के प्रसिद्ध किले में रहे गये थे। मैं वहाँ प्रायः जाया करता था। उनसे बातें करता

था। मुझे वहाँ छपे फार्म तवलीग के मिले। उस पर लिखा था। अमुक व्यक्ति का हिन्दू नाम अमुक था और मुसलिम मजहब स्वीकार करने पर अमुक नाम रखा गया है। उसमें हिदायत छपी थी। सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति मुसलिम हो गया है, इसलिये उसके जान माल की हिफाजत करना, हर मुसलमान का फर्ज था। हर तरह की मदद दी जाय। किन्तु भारत में यही बात मुसलमानों के साथ नहीं की गयी। हिन्दू धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। भारत में आवास, रक्षा, सहायता का आश्वासन सबको दिया गया था। यही कारण है कि भारत में मुसलमान नौ करोड़ रह गये। परन्तु पश्चिमी पाकिस्तान में समाप्त हो गये। बंगला देश में करोड़ों से घटकर कुछ लाख रह गये। वे भी प्रायः समाप्त के कगार पर हैं।

पाकिस्तान में जवर्दस्तां धर्म परिवर्तन के विरुद्ध आवाज न उठने का कारण था। मुसलिम जनता ने सोचा। उसके जमाअत की संख्या बढ़ी। इसलिए उसने अत्याचार नहीं माना। किसी स्त्री को जवर्दस्ती मुसलमान बना कर, उसके साथ विवाह कर लिया गया, तो उसे मान्यता दे दी गयी। ईमान यदि जवर्दस्ती भी मनवाया जाय, तो ईश्वर के मम्मूख ठीक है। पाप नहीं पुण्य है। भारत तथा पाकिस्तान में इस प्रकार अपहृत महिलाओं की खोज के लिये, उन्हें उनके घर पहुँचाने के लिये, समिति बनी। भारत से मुसलिम महिलायें तो पाकिस्तान खोजकर भेजी गयीं परन्तु पाकिस्तान में कुछ प्रगति नहीं हुई। समिति तोड़ दी गयी।

प्रतिरोध के अभाव का एक कारण और है। जो कुछ होता है। किसी अव्यक्त शक्ति के संकेत से होता है। एक सुल्तान या एक शासक किसी को मारकर, सत्ता हस्तगत करता है, तो उसे उसी शक्ति की इच्छा समझी जाती है। जिसके संकेत पर जगत चलता है। एक सुल्तान की हत्या होती है। दूसरा गद्दी पर बैठता है। उसकी हत्या होती है। तीसरा बैठता है। यह सब पूर्व निश्चित मान लिया गया है। किस्मत है। इस दृढ़ विश्वास के कारण रक्तपात, उत्तराधिकार, हत्याओं के विरुद्ध आवाज नहीं उठाया, विप्लव नहीं किया। यह काम समझ लिया गया, एक वर्ग का। जिसका पेशा शासन था। वे ही परस्पर लड़ते थे, झगड़ते थे, उलझते थे। जनता निरपेक्ष उनका तमाशा देखती थी। काश्मीर के सन्दर्भ में यह अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है। किन्तु इस निरपेक्ष नीति के कारण, सबसे अधिक किसी ने कष्ट उठाया है तो वह जनता है। वही उजड़ती थी। वही भस्म होती थी। वही लुटती थी। शोषण होता था। विकसित नहीं होती थी। मुसलिम देशों में भयंकर गरीबी का यह एक कारण है। वहाँ या तो बहुत अमीर हैं या अत्यन्त गरीब। मध्यम वर्ग नगण्य है। जहाँ मध्यम वर्ग नहीं होता, वहाँ लोकतन्त्र पनपता नहीं।

काश्मीर में अन्तिम हिन्दू रानी एवं शासिका कोटा रानी की निर्मम हत्या हुयी। जनता निरपेक्ष वैठी रही। परिणाम हुआ। वही उजड़ी। वही नष्ट हुयी। पुरातन काश्मीर नष्ट हुवा। हिन्दुओं के लिये यदि यह दुःखान्त घटना थी, तो शाहमीर एवं मुसलिम जगत के लिये मंगल दिन था। शुभ घड़ी थी। हर्षोल्लास मय, उत्साह मय, उमंग मय अवसर था। दारुल हरव से दारुल इस्लाम बनते, काश्मीर का नव-जीवन था। कुरु का अन्त था। ईमान का उदय था।

सिकन्दर वृत्तशिकन, अलीशाह एवं नव मुसलिम मूढ़ भट्ट के जुल्मों के खिलाफ जनता उठी नहीं। बलिदान नहीं की। उसे कीमत भयंकर अत्याचारों के सहन से अदा करनी पड़ी। इस अत्याचार के विरोध में तत्कालीन सीमान्त देश अथवा भारत के किसी राज्य से आवाज नहीं उठी। जनता जवर्दस्ती मुसलिम धर्म में दीक्षित की जा रही थी। पुण्य कार्य था। ईश्वर का कार्य था। सत्राव का कार्य था। दीन का कार्य था। इसी दर्शन में भारत विभाजन के समय हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के एक वर्ग को धर्मोन्मादी बना

दिया था । अत्याचार हुआ । लूट पाट हुई । पडोसी बेगाने बने । शरणाधिकियों का वह कारवाँ चला, जिसकी कल्पना विश्व में नहीं किया था ।

जनता में प्रतिरोध की शक्ति क्षीण होने पर, जनता नत मस्तक होकर, अन्याय एव अत्याचार सह लेती है, चुप रहती है, वह सब कुछ स्वीकार कर लेती है, जो उससे मनवाया जाता है । मेवाड तथा राजस्थान में जनता सघर्ष करती रही । सस्कृति एव सभ्यता की रक्षा अपने घर बार के साथ करती रही । काश्मीर में शाहमीर का शासन घापित हुआ । जनता ने प्रतिरोध नहीं किया । मूक बन गयी । दबती गयी । दमन सहती गयी । उठने का नाम नहीं लिया । राज्य अपना दर्शन उस पर लादने लगा । धीरे-धीरे आवादी का अनुपात उलट गया । काश्मीर उपत्यका में मुसलमान ९० और हिन्दू १० प्रतिशत रह गये ।

अन्याय एव दमन की अभ्यस्त जनता घास की तरह कटती है । उसके प्रति कोई सहानुभूति प्रकट नहीं करता । उसके लिये कोई आवाज नहीं उठाता । क्योंकि उसकी आवाज स्वयं बन्द हो जाती है, उस पर एक के पश्चात् दूसरे शासक आते हैं । सबका शासन वह नत मस्तक स्वीकार करती है ।

काश्मीर में हिन्दू राज, चार हजार चार सौ पन्द्रह वर्षों तक स्थित रहा । परन्तु पाँच शताब्दियों में शाहमीर, चक, मुगल, अफगान, सिख तथा डोगरा वशो ने अपना अध्याय खोला और बन्द किया । जनता निरपेक्ष बैठी रही । उसने समझ लिया । शासन करना कुछ लोगों का पेशा था । उनका व्यवसाय था, जो तलवार उठाते थे । तलवार पर भरोसा करते थे । तलवार का उत्तर तलवार से जनता जब नहीं देती, अन्याय के विरुद्ध तलवार नहीं उठाती, तो दूसरे ही तलवार का उत्तर तलवार से देने लगते हैं । काश्मीर में एक पेशेवर शासक तलवार झुकाता जाता था । दूसरा नगी तलवार लिये आता था । तलवारों की खनखनाहट में जनता तिलमिला कर रह गयी । कुछ कर न सकी ।

भारत में यही हुआ । मुसलिम शासन स्थापित होने पर, दिल्ली की गद्दी के लिये, मुसलमान परस्पर लड़ते रहे । गजनी, गोरी, गुलाम, सैय्यद, तुगलक, लोदी, पठान, मुगल सब मुसलमान थे । सबने एक दूसरे के खून से हाथ रगा था । उनका धर्म, उनका कर्म, उनका दर्शन उन्हें युद्ध से, रक्तपात से, विरत नहीं कर सका । वे हिंसक पशु सद्दा, आततायी सद्दा, प्रतिशोध एव प्रतिहिंसा की मूर्ति बनकर, परस्पर जूयते रहे । सुन्नानो ने जिन सूबेदारों को नियुक्त किया । वे उनके विरुद्ध तलवार खींचते थे । सुद मुत्तार बनते थे ।

आन्तरिक एव बाह्य युद्धों में शताब्दियों तक भारत झुलसता रहा । जो दर्शन काफ़िरो, जिम्मियो गुमराहों और गैर मुसलिमों के खिलाफ हथियार उठाने की इजाजत देता था, वही परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाने की इजाजत देने लगा । फतह पर तख्त, हारने पर मिलता था तख्या । इस दर्शन की कठोरता ने, प्रतिहिंसक प्रवृत्ति ने, मनुष्य को कठोर बना दिया । उसके जो अनुकूल था, वह क्षम्य था । जो प्रतिकूल था, विरोधी था, उसे अस्तित्व का भी अधिकार नहीं था ।

इस दर्शन ने विवेक पर परदा डाल दिया । विश्वास सीमित कर दिया । निष्ठा को सकुचित बना दिया । बुद्धि की सीमा बना दी । सीमा सकुचित होते होते स्व पर केन्द्रित हो गयी । इस स्वार्थ परता ने मानव की नैतिकता का हरण किया । उसके मधुख रह गया—वह और उसका स्वार्थ । इस स्वार्थ से जो भी टकराया, उस चकनाचूर करने का सकल्प कर लिया ।

जैनुल आमदीन आदर्श मुल्तान था । मानव था । परन्तु उसके पुत्र, उसके खून के प्यासे थे । ममता का तिलाजलि, राज्यपद प्राप्ति लाभ में द दिये थे । एक गरीब अपने पिता के लिये अपने प्राण की

वाजी लगाता है, सर्वस्व वलिदान करता है। परन्तु भारत में अनेक सुल्तानों एवं बादशाहों के शाहजादों ने अपने पिता को, भाइयों को, पुत्रों को, शान्ति पूर्वक जीने नहीं दिया है। जीवन के अन्तिम चरण में सुल्तान जैनुल आबदीन देश से, जाति से, स्वयं अपने से, जीवन से, खिन्न हो गया, विरक्त हो गया। विवेकशील हिन्दू, उदार मुसलमान, उसकी प्रशंसा करते थे। परन्तु रक्त सम्बन्ध से सम्बन्धित, सैय्यद उसके विरुद्ध पडयंत्र करते थे।

सैय्यद और काश्मीरी दोनों दल मुसलमान थे। सैय्यद कट्टर मुसलमान थे। मुसलिम काश्मीरी भी कट्टर मुसलमान थे। उनकी धार्मिक कट्टरता, उन्हें संघर्ष से नहीं बचा सकी। हिन्दुओं के निरपेक्ष होने पर, शक्तिहीन होने पर, राजनीति में स्थान न होने पर, सैय्यद दल काश्मीरी मुसलमानों से लड़ने लगा, उनकी रही-सही ताकत भी खतम करने पर तुल गया।

वात और आगे बढ़ी। काश्मीरी मुसलिम समाज में शिया हो गये, नूरवस्त्री हो गये, उनमें अनेक मत-मतान्तर हो गये। वे परस्पर मिल न सके, संघर्ष हुआ, खून बहा। दुनियाँ की कोई ताकत उन्हें साम्प्रदायिक खूरेजी से रोक न सकी। शिया चकों ने सुन्नी शाहमीर वंश से राज्य प्राप्त किया। काश्मीर में चक वंश स्थापित हुआ। शिया चकों से राजसत्ता सुन्नी मुगलों ने लिया। औरंगजेब ने शिया सम्प्रदाय के विरुद्ध आवाज बुलन्द किया। यह अशुभ आवाज समस्त भारत में गूँज उठी। जनता आवाज सुनती रही। चुप रही। शियों का, गैर सुन्नियों का, दमन होता रहा।

अफगानों का आगमन हुआ। इन्होंने काश्मीर को खूब लूटा। मुसलमान होने पर भी उन्हें काश्मीरी मुसलमानों पर दया नहीं आयी। उनका धर्म, सधर्मियों को लूटने से विरत नहीं कर सका। उनका उत्पीड़न उनका दमन, नहीं रोक सका। उत्पीड़क एवं उत्पीड़ित सधर्मी थे। परन्तु उनका दर्शन उनमें ममता, सौहार्द, भ्रातृत्व उत्पन्न नहीं कर सका।

मिल्लत का भाई चारा का, एक सम्प्रदाय का, नारा गैर मुसलिमों के उत्पीड़न तक सीमित रह गया, मसजिद और नमाजों तक सीमित रह गया। राजनीति में, सयासत में, प्रवेश नहीं किया। एक मिल्लत ने, उनमें परस्पर करुण एवं स्नेह सृजन नहीं किया। स्वार्थों के टक्कर में, भौतिक लाभों में, राज लिप्सा में, वह केवल आदर्श मात्र बनकर रह गया। उन्हें क्रूरता से लोग विरत नहीं कर सके।

जनता के क्षोभ से बचने के लिये, मुसलिम शासकों ने सर्वदा जनता का ध्यान एक ओर से हटाकर दूसरी ओर मोड़ा है। मुसलिम देशों में असन्तोष बढ़ता है, तो अल्प संख्यकों तथा गैर मुसलमानों के दमन, जिहाद, खतरे का नारा बुलन्द कर, वास्तविकता पर परदा डाला जाता है। जनता की भावनाओं का फायदा उठाकर, स्थिति सुदृढ़ की जाती है। कट्टर पन्थी खुलकर उठते हैं। गैर मुसलिमों को परेशान करते हैं। जनता खामोश रहती है। वह धर्म के, दर्शन के, आशाप्रद नारे में, विवेक त्याग देती है।

यूरोप विकसित है। प्रगतिशील है। महाद्वीप है। इस अणु युग में, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्, चन्द्रलोक पहुँचने के पश्चात्, जर्मनी इटली, फ्रान्स आदि देशों में क्रिश्चियन नाम पर, राजनीतिक दल बने हैं। जर्मनी में क्रिश्चियन डिमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता है। यहीं अवस्था इटली तथा अन्य देशों की है। धर्म के नाम पर दल बने हैं। उनके नाम पर मत माँगा गया है। समर्थन प्राप्त किया गया है। लोक-तन्त्र में धर्म घसीटा गया है। अल्प संख्यकों की स्थिति दुःखद बना दी गयी है। रूस जैसे कम्युनिस्ट देश से भी यहूदियों को भागना पड़ा है। जहाँ धर्म का राजनीति में, सामाजिक जीवन में, कोई स्थान नहीं है।

अल्पसंख्यक यहूदी यूरोप से भागकर, फिलिस्तीन में आवाद हुये। फिलिस्तीन उदीयमान राष्ट्र

वन गया। यहूदी जिनका कोई देश नहीं था। उन्हें एक देश मिला। धर्म के नाम पर राष्ट्र बना। लोक-तन्त्रीय राज्य न होकर, देवाधि तन्त्र बना। अरब राज्यों तथा इसराइल में सर्वदा सघर्ष की स्थिति बनी रहती है। एक दूसरे को नष्ट करने की योजना बनाते रहते हैं।

राजनीति एव धर्म का जब एकाकार होता है, तो उसका परिणाम उदार न होकर होता है—सकीर्ण। वह इतना सकीर्ण होता है कि स्व वेन्द्रित हो जाता है। उसमें सहिष्णुता का स्थान नहीं रहता। राज्य केवल एक सम्प्रदाय के अनुशासन से अनुशासित होता है। राष्ट्र का एक धर्म बन जाता है। दुनियाँ के ९९ प्रतिशत मुसलिम देशों ने अपने राष्ट्र को इस्लामी राज्य घोषित किया है। जब दूसरा देश उनका अनुकरण कर, अपने राष्ट्र को बौद्ध, यहूदी या ईसाई घोषित करता है, तो मुसलमानों को बुरा लगता है, वे विरोध करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र धर्म विशेष को वरीयता देता है, उसमें दूसरे धर्मों की स्थिति सहयोगी की नहीं रहती।

मुसलिम देवाधिराज के प्रतिमान पर, ईसाइयों ने यूरोप में कुछ उदार नीति चलायी। परिणाम हुआ। यूरोप से यहूदी निष्कामित किये गये। मुसलिम राष्ट्र यूरोप से समाप्त किये गये। केवल तुर्की में मुसलिम राष्ट्र, एक कोने में बच गया। ईसाइयों में भी सम्प्रदाय बनते गये। रोमन कैथोलिक, ग्रीक अथवा डाकम चर्च तथा प्रोटेस्टेण्ट में ईसाई जगत बढ गया। प्रोटेस्टेण्ट भी अनेक उप वर्गों में विभाजित होते गये। प्रोटेस्टेण्ट तथा अन्य रोमन कैथोलिकों में भयकर सघर्ष हुआ। उन सघर्षों में राज्य ने सक्रिय भाग लिया। विभिन्न सम्प्रदायों में भयकर सघर्ष हुआ। ब्रिटेन में कानून बन गया। राष्ट्र का राजा या रानी केवल प्रोटेस्टेण्ट होगी। अमेरिका उपनिवेश बनने का कारण है। प्रोटेस्टेण्ट मतानुयायी यूरोप में सघर्ष बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने मत के लिए, स्वतन्त्र जीवन निर्वाह के लिए, अमेरिका को उपनिवेश बना लिया।

आयरलैण्ड का ही एक भूभाग अलस्टर है। आयरलैण्ड के निवासी रोमन कैथोलिक तथा अलस्टर के प्रोटेस्टेण्ट है। दोनों एक ही भूखण्ड के भाग हैं। दोनों की प्राकृतिक सीमा, एक है। एक ही द्वीप निवासी है। एक राष्ट्र नहीं बन सके। अलस्टर में प्रोटेस्टेण्ट तथा आयरलैण्ड में रोमन कैथोलिकों का बहुमत है। उनमें सर्वदा सघर्ष एव तनाव की स्थिति बनी रहती है। साम्प्रदायिकता बढती गयी। परिस्थिति यहाँ तक विगडी कि फ्रान्स, आस्ट्रेलिया आदि राज्यों ने कानून बना दिया कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षा धम निरपेक्ष किवा लौकिक होगी।

शिया सम्प्रदाय में बोहरा, खोजा, इस्माइली, आगाखानी आदि अनेक सम्प्रदाय बने। उनमें भी धर्म के नाम पर फातिमी, किरमानी, अलामुत, इमामो का विद्रोह हुआ। सुन्नियो में बहावी, अल हदीस, हनीफी सम्प्रदाय विचार विभिन्नता के आधार पर बने। स्थानों के नाम पर भी सम्प्रदाय ब्रैलवी, देवनन्दी आदि बन गये। सूफी सम्प्रदाय की शाखाएँ-उपशाखाएँ निकली। उन्हें अनेक स्थानों पर नास्तिक मान लिया गया। उनका दमन किया गया। वात और आगे बढी। शिया में इमाम हुये। पीरी मुरीदा चल निकली। सूफी, फकीर, दरवेशों का शिष्य वर्ग बनता गया। वे विशाल मुसलिम समुद्र में वे बून्द मात्र थे। किन्तु बून्दों की ही लोग समुद्र समझने लगे। बन गये बूप मण्डूक। एकाकी दर्शन ने, सकुचित भावना ने, सीमित विचारों ने, उन्हें विष्णुखलित कर दिया।

मानव बढता गया, आगे चलता गया। भूल गया। वह एक ही आदम की सन्तान है। उसका एक ही गोत्र है, एक ही वर्ग है, एक ही जाति है। विशाल जगत का एक प्राणी है। मानव समुद्र का एक बिन्दु है। मानव ने मुकन जन्म लिया था। परन्तु प्रौढ मानव को वेडियों ने जकड लिया। जितना ही बयस्क होता गया, उतना ही उसकी सीमा सकीर्ण होती गयी। दास बन गया। एक सकीर्ण दर्शन का।

और छोर हीन भूमण्डल का प्राणी, मानव बन गया, अन्धेरी कोठरी का निवासी । इस कोठरी का द्वार बन्द होने लगा । मुक्त प्रकाश, मुक्त जल वायु, से वह ही गया, रहित । प्रकाश में रहना पसन्द नहीं किया—कोठरी के अन्दरे में दम घुटने लगा । इस दम घुटने को उसने सनाझा सुन्न । उसमें ही देखा, अपना त्राण । उसे लगने लगा, अपने ही जैसों से भय । उसमें अतिक्रम भयभीत हो गया भूतकों से । जित्त भूत, प्रेत से डरता, मजार पूजने लगा । वृक्ष पूजने लगा । पशु-पक्षी पूजने लगा ।

एक वर्ग और बन गया । ईश्वर और मनुष्य के बीच माध्यम । उठाने लगा, मानवीय दुर्बलता का लान । पुरोहित वर्ग, पादरी वर्ग, रत्नी वर्ग, मूला वर्ग ने ईश्वर की कृपा, ईश्वर को आशीर्वाद की आशा दिलाकर, मनुष्य की स्थिति सुखद बनाने का विश्वास दिलाया । दुर्बल मनुष्य कामना पूर्ति के लिये, स्वार्थ सिद्धि के लिये, लगा उनका भरने पेट । दुर्बल मनुष्य लगा बनाने उनका आवास । वे भी पूजा-पाठ में, इवाकत में, प्रार्थना में, लग गये, उसकी ओर से । विश्व के अन्त्य व्यवसायों की भाँति यह भी एक व्यवसाय चल निकला । होने लगा दुर्बल जनता का शोषण, परलोक दिलाने की आशा में मुक्ति दिलाने की आशा में, विपत्तियों से बचाने की आशा में ।

विज्ञान अहंकार करता है । रासायनिकों, वैद्यों, हकीमों और डाक्टरों पर । उनका भी अहंकार टूटा । बर्म के नाम पर, एक वर्ग पैदा हो गया : वह झाड़-फूक, जादू-टोना करता था । कवच, जन्तर, गंडा, ताबीजों से मनुष्य का शरीर जकड़ दिया । दवा का रूप ले लिया । मन्त्रों की अलौकिक शक्ति पर मनुष्यों का विश्वास जमा दिया । दुर्बल मनुष्य ने, कातर मनुष्य ने, जहाँ भी कहीं आशा दिखायी दी, वहीं आश्रय लिया । एक बड़ी जमावत पैदा हो गयी । मजारों पर, जियारतों पर, समाधियों पर, पूजा करने और कराने वालों की । काश्मीर का सुल्तान हसनशाह, इन कुसंकारों के चक्कर में मर गया । उसकी दवा भी न हो सकी ।

इससे भी समस्या हल नहीं हुयी । ईश्वर तक किसी को पहुँचना था, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना था, उसकी कृपा दिलाना था, मनुष्य इस माध्यम के लिये सर्वोत्तम थे । परन्तु स्वयं मर कर, ईश्वर के पास पहुँचने के लिये तैयार नहीं थे ।

इसके माध्यम अन्य प्राणी बने । पशु, पक्षियों की बलि होने लगी । उनकी आत्मा ईश्वर तक जजमान का सन्देश लेकर पहुँची या नहीं, नहीं कहा जा सकता । क्योंकि बलि प्राणी लौटकर, आया नहीं । लेकिन बलि चड़े पशु-पक्षी के मांस भक्षण से मोटा होने लगा—एक वर्ग और ग्रहण करने लगा, महाप्रसाद देवता के नाम पर, देवी के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ।

पुरोहितों का रक्त अतिक्रम पवित्र था । वे ईश्वर के अधिक समीप थे । परन्तु स्वयं भगवान तक न पहुँचकर, उन पशु एवं पक्षियों को सन्देश वाहक बनाया, जो बलि कर्ता किवाँ बलिदाता की भाषा नहीं समझते थे । स्वयं ईश्वर को बनाया प्राणी था । सन्तान था । पिता पुत्र की बलि पाकर, प्रसन्न नहीं होता । परन्तु ईश्वर के सन्तानों की बलि देकर, पिता को प्रसन्न करने का प्रयास जगत के आदि काल से किया गया है ।

लोग कहते हैं । बलि प्रदत्त पशु, पक्षी, प्राणी स्वर्ग जाता है । यदि यह विश्वास सत्य है, तो मनुष्य ही, पुरोहित ही, स्वयं बलि चढ़कर, इतने आसानी से मिलने वाले स्वर्ग में क्यों नहीं पहुँच जाते ? क्यों नहीं बर्म के उकेदार, स्वयं अपनी कुर्बानी कर, अपने मुरीदों, अपने शिष्यों का सन्देश, उनकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचाने का कष्ट उठाते ? वे यदि विश्वास करते हैं, इस दर्शन में तो अपने विश्वास के अनुसार स्वयं

उसे क्यों नहीं करते ? वे स्वयं मानव एवं ईश्वर के बीच माध्यम न बनकर पशु-पक्षी को क्यों बनाते हैं ? पशु-पक्षी की अपेक्षा पुरोहित धर्म गुरु ईश्वर तक पहुँच कर, अपने शिष्यों, साथियों की बात अच्छी तरह ईश्वर के सम्मुख उनकी ही भाषा में रख सकता है, समझा सकता है ।

कितनी मूढ़ता है ! अज्ञ पशु-पक्षी, मनुष्य एवं ईश्वर के बीच माध्यम बन गया, न कि दर्शन पट्ट, विज्ञान विद्, धर्म प्राण पुरोहित आदि ? क्या बलिकर्त्ता एवं बलि दाता बलि होते पशु की भाषा समझता है ? क्या बलि मानव वाणी समझता है ? ईश्वर की वाणी समझता है ? वह वाणी समझता है ? जिसे धर्म गुरु ईश्वर की, देव वाणी कहते हैं ? संस्कृत वाणी कहते हैं । इब्रानी वाणी कहते हैं । अरबी वाणी कहते हैं । यदि यह विश्वास सत्य है, तो मानव के समान पशु-पक्षी भी बहुभाषी होंगे । अन्यथा वे कैसे बलि कर्त्ता की, बलिदाता की, वाणी समझकर, ईश्वर को समझा सकेंगे ?

यदि अपने सुख के लिये मनुष्य की हत्या मनुष्य करे करें तो इसमें क्या आश्चर्य है ? यदि एक जाति दूसरी जाति, यदि एक देश दूसरे देश, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायवादियों की हत्या, अपने कल्पित किंवा वास्तविक स्वार्थ के लिये करें, तो इसमें क्या आश्चर्य है ? हूँश पशु अपनी भूख के लिये मनुष्य की हत्या करें, तो इसमें क्या आश्चर्य है ? इस हत्या ने, राष्ट्र स्वार्थ, जाति स्वार्थ, वर्ग स्वार्थ, धर्म स्वार्थ का रूप ले लिया है । हत्या न होकर, हो गया है युद्ध, हो गया है सघर्ष । वही जब सम्प्रदाय एवं धर्म के स्वार्थ का रूप ले लिया, तो हो गया धर्म के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर, होने वाला बलिदान । उसका नाम दे दिया गया, धर्म युद्ध-जेहाद । इस हत्या का रूप सिकन्दर बुतशिकन, अलीशाह एवं सूहभट्ट द्वारा किये गये, भयकर नर संहार में मिलेगा, जो उनके विश्वास पर, ईमान पर, स्वयं नहीं आते थे, वे शैतान थे । ईश्वर विरोधी थे । वे बन गये, ईश्वर के अल्लम बरदार । उसके एकमात्र हिमायती । वे एक क्षण के लिये नहीं विचार किये । जो सर्व शक्तिमान है । सर्वसत्ता सम्पन्न है । सर्वज्ञ है । उसी पर इस कार्य का भार क्यों न छोड़ दिया जाय ?

परलोक में पुण्यार्जन से सुख मिलेगा । स्वर्ग मिलेगा । इस विश्वास के कारण, विधर्मी की हत्या, नर हत्या, उसी प्रकार पुण्य माना गया, जिस प्रकार पशु की बलि देकर, पक्षी की बलि देकर, कुर्बानी देकर, मनुष्य पुण्यार्ज, की कल्पना करता है । यह कुसंस्कार था, मानवीय दुर्बलता थी, यह एक दर्शन का पाखण्ड था । यह था—स्वार्थ के प्रति अत्यधिक निष्ठा । यह था—दर्शन का आड लेकर घोर जघन्य क्रूर कर्म । उन्हें मानव सामान्य स्थिति में कभी करने की कल्पना नहीं कर सकता था । प्रदर्शन है, केवल शक्ति का, केवल कल्पित पुण्यार्जन की प्रवृत्ति का ।

सिंह को कोई बलि चढ़ाने की कल्पना नहीं करता । सब भेडा-भेडी, वकरा-वकरो, आदि मासूम प्राणियों, शाकाहारी पशु-पक्षियों की बलि करते हैं । सबल उन्हें बलि देकर मारकर, अपनी क्षुधा तृप्ति के साथ, परलोक सुख की कामना करता है । सिंह शक्तिशाली है । उसका दर्शन शक्ति है । दुनियाँ के न्याय की गुहार, उसके सम्मुख बेकार होगी । न्याय दुर्बलों की रक्षा करता है, शक्तिमान तथा शक्तिहीन को एक तुला पर तोलता है, यह सिद्धान्त सिंह के सम्मुख गलत ठहरेगा ।

दिल्ली के लाल किला में, मुगलों की राजधानी में, मुगल साम्राज्य का राजचिह्न तलवार की नोक पर तुला पत्थर में खुदा है । लेकिन शाहजहाँ, औरंगजेब आदि गैर मुसलमानों को उसी तुला पर नहीं तोल सके । उनकी तुला मुसलमानों के लिये एक और गैर मुसलमानों के दूसरी थी । एक अपने दर्शन में रहने की कीमत जजिया से अदा करता था । द्वितीय श्रेणी का नागरिक था, गुलाम था, दूसरा शासक

होने का दावा करता था, बड़ा होने का दावा करता था, स्वामी होने का दावा करता था । यदि शक्ति ही दर्शन है, तो दुनियाँ में उसी का धर्म, उसी का दर्शन, उसी का अस्तित्व वांछित है, जो अपनी बात दूसरों से मनवा सके ।

आज से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, सीमान्त प्रदेश, पंजाब, बंगाल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की जनता हिन्दू थी, गौ रक्षक थी, वे ही ईसाई हुये, मुसलमान हुये । धर्म परिवर्तन पश्चात वही धर्म, वही दर्शन, जिसमें उनके पूर्वज सहज वर्षों से थे, जिनका उन्हें गर्व था, वही बन गये शत्रु, वही बन गये वेगाने, बन गये गौ भक्षक ।

यह कटु सत्य है । हम हिन्दू, ईसाई, मुसलमान केवल इसलिये हैं कि हम उन कुलों में जन्म लिये हैं । हमारा लालन-पालन धर्म विशेष प्रभावित वातावरण में हुआ है । एक दर्शन का, एक धर्म का, रंग चढ़ाया गया है, जिसके हम अम्यस्त थे और हो गये हैं । इसी अम्यास का परिणाम हमारा धर्म है ? जीवन संहिता है । एक प्रकार के साँचे में ढाल दिये गये हैं । एक प्रकार के रीति-रिवाज, खान-पान, आचार-विचार, अम्यास के कारण, उनका त्यागना कठिन हो गया है ।

अच्छा या बुरा होने पर भी संस्कार पकड़ लेते हैं । जड़ जमा लेते हैं । उनका त्यागना होता है कठिन, त्याग की बात सुनते ही, उत्पन्न होती है, झिझक । सड़े जल, परनाले के कीटाणु की तरह स्थिति हो जाता है । यदि कीटाणु को निकाल कर अलग रखा जाय, शुद्ध जल में रखा जाय, तो भी वे गन्दे जल की ओर भागते हैं । ईसाई, मुसलमान आदि का अनाय शिशु यदि कोई हिन्दू पालता है, तो वह हिन्दू कुटुम्ब के संस्कार के कारण हिन्दू हो जाता है । वह अपने माता-पिता अथवा पूर्व कुल को नहीं जानता । अभिभावक को पिता मानता है । अवोष शिशु जिस वातावरण में, जिस धर्म में, जिस दर्शन में पलता है, उसी दर्शन, धर्म, सम्प्रदाय का हो जाता है । उसका जीवन, उसका धर्म, उसका आचरण, उसकी परिस्थितियों का परिणाम होता है । एक क्रिया, एक व्यवहार, एक ही परिस्थितियों का अम्यस्त व्यक्ति अपनी स्थिति, अपने अम्यास के कारण श्रेष्ठ समझता है, ग्राह्य समझता है, दूसरा उसे बुरा लगता है । उसी प्रकार जैसे एक शाकाहारी किसी मांसाहारी को मांस खाते देखकर, बुरा मानता है, मांस की बात से ही, उसे शिक्षक होता है ।

व्यवहार एवं परिस्थिति विशेष का अम्यस्त व्यक्ति, अपनी सीमा बनाता है, कुण्ठित हो जाता है, अपना व्यवहार, अपना रहन-सहन दूसरे से अच्छा समझता है । उसमें अहमन्यता आ जाती है । अपना कल्पित जगत बना लेता है । उस कल्पना के अन्दर जो है, वह ग्राह्य और बाहर अग्राह्य था, त्याज्य मान लेता है । निषेधात्मक कर्मों की संहिता बना लेता है । इस संहिता, इस दर्शन के विरुद्ध जब कुछ होता देखता है, तो क्रुद्ध हो जाता है । प्रमादी हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है । विनाश की ओर बढ़ता है । अपने ही सृजन का दास बना, दुनियाँ को अपने अनुरूप बनाना चाहता है । अपने साँचे में ढालना चाहता है ।

जिस प्रकार एक पिता अपने सन्तानों की संख्या बढ़ाकर, उन्हें कौटुम्बिक साँचे में ढालकर, अपने कुल का प्रतीक बनाना चाहता है, उसी प्रकार मूढ़ग्राही अपने, वर्ग, अपने समाज, अपने दर्शन, अपने व्यवहार, अपने संस्कार में दूसरों को अपनी जनसंख्या बढ़ाकर, अपना गौत्र, अपना समाज, अपनी जाति, विस्तृत करना चाहता है । यह है, रहस्य दर्शन प्रवर्तकों का, यह है रहस्य—मत मतान्तरों के विस्तार का । और यह है रहस्य—उनके पारस्परिक स्पर्धा जनित संघर्षों का ।

अपनी इस अन्तर्दशा के कारण मनुष्य अनायाम हो जाता है विरोधी, उन सबका, जो उसके अनुकूल नहीं होते। वह ऋद्ध वादी हो जाता है। उसका मूढाग्रह, उसे मूढता की ओर घसीटता है। सिसिकता विवेक, प्रसटता विवेक, उसका साथ छोड़कर, उदास हो जाता है।

मूढाग्रह त्यागी जत्र व्यक्ति मुक्त वातावरण में विचरण करता है, खुले दिमाग से सोचता है, समझता है, तो उसकी विवेक दृष्टि उदार होती है, आँखें खुलती हैं। अम्यस्त समाज के प्रति, क्रूरतियों के प्रति, जागरूक होता है। समाज उसे विद्रोही समझता है। परम्परा विरोधी, धर्म विरोधी, ईश्वर विरोधी मानता है। दण्ड देता है। समय बीतता है। समाज जिसे दण्ड देता है, उसे सुधारक मान बैठता है। सन्त मान बैठता है। ईश्वर दूत मान बैठता है। आचार्य मान बैठता है। उसकी पूजा करने लगता है।

ईसाभसीह को क्रॉस पर चढाने वाले, एक ऐसे दर्शन में विश्वास करने थे, जिन्होंने ईसा को अपराधी माना था। शूली चढाया था। वे समझते थे। वही धर्म था। सकीण मनावृत्ति, परम्परा विशेष के अम्यस्त, ईसा को क्रॉस पर चढाकर, सन्तोष किये। उन्हें दृढ विश्वास था। उन्होंने भगवान का कार्य किया। पुण्य किया। यहूदी इस अपराध के कारण, ईसाई जगत द्वारा अपने पूर्व पुत्रों के अपराध के कारण, घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। सनातनी ईसाइयों द्वारा अपराधी समझे जाते हैं। एक दिन के अपराधी, क्रॉस पर चढने वाले की, विश्व आज पूजा करता है। वन्दना करता है। उसका जीवन लेकर, उसी में जीवन भिक्षा चाहता है।

अपने विचारों के लिये, अपने मत के लिये, तात्कालीन अति विकसित यूनानी समाज ने सुकरात को मृत्यु दण्ड दिया। समझा समाज की रक्षा हो गयी। परन्तु वही सुकरात बन गये, मानव के आदर्श। प्रवर्तक। मुक्त विचार धारा के प्रतीक।

महात्मा गान्धी को गोली लगी। मारने वाले ने समझा, हिन्दू धर्म बचा लिया। जाति बचा लिया, देश बचा लिया। आज क्या हिन्दू जाति, उस हत्यारे के लिये लज्जित नहीं है? क्या मानवता इस क्रूर हत्या के कारण, रो नहीं उठी है? विचित्र विडम्बना है। हम जिसे, उसके मत के कारण, उसके विश्वास के कारण, उसके धर्म के कारण, उसके दर्शन के कारण, आज मारते हैं, कल उसी की पूजा करते हैं।

काश्मीर का इतिहास इन दर्शनों के परिप्रेक्ष में समझना होगा। राजतरंगिणी लगभग साढ़े चार मह्य्र वर्षों का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करती है। इस इतिहास में हिन्दू, बौद्ध, शैव, वैष्णव, आर्य, पिशाच, नाग, गुह्यक, भोट्ट, मुसलमान, शिया, सुन्नी, संध्यद, चक, मुगल, पठान, सिख, डोगरा, ईसाई एवं काश्मीरी जनता का अद्भुत योगदान है। सभी दर्शनों से प्रभावित, शासन पद्धतियों द्वारा, काश्मीर का शासन हुआ है। परस्पर विरोधी तन्त्रों, परस्पर विरोधी दर्शनों, परस्पर विरोधी मत-मतान्तरों के विश्लेषण-णात्मक अध्ययन के लिये काश्मीर एक पूर्ण सज्जित प्रयोगशाला है।

सुल्तान पूर्ववर्ती काश्मीर एक ऐसे दर्शन में विश्वास करता था, जो साम्यवादी था। मानव की उदार भावनाओं का आदर किया था। मनुष्य को साध्य माना था। आधरण एवं अनुशासन पर जोर दिया था। अनेक मत-मतान्तरों का उदय हुआ। विचारधाराओं का उदय हुआ। तन्त्र-मन्त्र प्रकट हुये। दर्शनों की कल्पना की गयी। किन्तु काश्मीरियों की कभी विरोधी दृष्टि नहीं हुई। किसी को अनादर की दृष्टि से नहीं देखा। सत्र में गुण देखा। उमके चिन्तन में गुण देखा। गुण उसका दर्शन बन गया। विश्वास किया, कर्म में। विश्वास किया, मानव में बैठे भगवान में। मानव में बैठे शैतान को नहीं जगाया। आसुरी प्रवृत्ति में आस्था नहीं दिखायी। गिरने या गिराने की कल्पना नहीं की।

अधोक एवं कनिष्क जैसे महान विद्वानों का कारकीर्ण ने दर्शन किया है। कारकीर्ण ने उन्हें प्रभावित किया है। उनकी विचारधाराओं ने मोड़ दिया है। मानव बनने की ओर प्रवृत्त किया। उन्हें सम्राट की अपेक्षा, मानव रूप में देखा।

दोनों सम्राट धार्मिक थे। राजनीतिज्ञ थे। कुछ शासक थे। धर्म एवं राजनीति को अलग रखे। दोनों की दो विद्याएँ नाना। एक का सम्बन्ध मनुष्य के अस्थित्त और दूसरे का उसके भौतिक जीवन से नाना। धर्म एवं राजनीति को एक में मिलाकर उलझन नहीं पैदा की। तबीन समझाएँ नहीं ढूँढ़ी किया। उनके दर्शन की विद्या पुरातन धारा से विपरीत नहीं थी। वह पूर्वधारा के माय गतिशील हुई। उसी में मिल गयीं। सम्राटन धारा से विपरीत नहीं रही। उससे पृथक नहीं हुयी।

बौद्ध एवं पौराणिक दर्शनों में जो उत्तम था, जो उपयोगी था, कारकीर्ण ने उसे ग्रहण किया। उनके द्वारा मानव चरित्र, मानव जीवन, उद्योग का प्रथम किया। उदार प्रवृत्ति, सहिष्णुता, एवं लौकिक सिद्धांतों से विरत नहीं हुआ। उनके नाथ्यन से ही आगे बढ़ा।

कलौक ने, निहिरकुल ने, आचरन पर, अनुचासन पर, जोर दिया, उन्होंने स्वयं आचरन, चरित्र एवं अनुचासन को जीवन में उतारा। उन्हें जीवन दर्शन बनाया। निहिर कुल ने पुराचारियों को देख दिया। आजाताइयों का दमन किया। चरित्र उद्योग के लिये शक्ति का प्रयोग किया। समय आने पर अपने धरार पर भी दया नहीं किया। उसकी क्रूरता सर्वोत्थान के लिये थी। उसने अपने को भी अपवाद नहीं माना।

वह इस सीमा तक गया। उसका धरार, उनका माय नहीं देने लगा, उसके अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने लगा, उसने उस निरर्थक धरार को स्वतः अग्निपात कर धरार से छुट्टी ली। निहिर कुल के क्रूरता की कहानी कहस्य कहता है। किन्तु निहिर कुल ने किसी धर्म विशेष, दर्शन विशेष, मत विशेष को किसी पर थोपा नहीं। इस विद्या में वह सहिष्णु था। उदार था। उसके धर्म, उसके दर्शन का सम्बन्ध व्यक्तिगत जीवन से था।

नेत्र वाहन जैसे महान दिग्विजयी सम्राट का उदय हुआ। भगवान् बृद्ध की कहना से प्रभावित था। प्राणहिंसा पाप समझता था। अहिंसा प्रचार का व्रत लिया। उसकी वाहिनी इसी उद्देश्य से कारकीर्ण के बाहर निकली। देशों, प्रदेशों को विजय किया। विजितों का राज्य वापस किया, केवल एक घट पर, प्राणि हिंसा उनके अंत्र में बन्द रहेगी। वह कारकीर्ण लौटा। उपनिवेश बनाकर, साम्राज्य बनाकर, नहीं। प्राणियों को मुक्त जीवन का अभयदान देकर-दिलाकर। तथापि अपने हिंसा मत्त के आचार पर नहीं रोका। उसने अपने विचार का प्रचार किया। वह कोई नास भरी उसके सम्मुख आया, वह कोई बलि-कर्ता उसके सम्मुख आया, तो उसने अपना धरार अमित किया। स्वयं बलि होने के लिये तत्पर हो गया। यह थी महान भावना। यह था आदर्श। जिसने कारकीर्ण ऊपर उठाया।

कारकीर्ण के राजा भारत के अन्तिम दिग्विजयी राजा थे। उन्होंने दिग्विजय परम्परा जारी रखी थी, वह शेष भारत मूल गया था। किन्तु दिग्विजय कर्ताओं ने साम्राज्य नहीं स्थापित किया। साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं किया। शोषण में विश्वास नहीं किया।

ललितादित्य अथक परिश्रमी था। कर्मों था। वह एक अन जीवन आलस्य में नहीं व्यतीत करना चाहता था। उसने राज शक्ति का उपयोग, धन का व्यय विलास के लिये नहीं किया। वह मर्दाना अपनी नेत्रा के साथ अभियान करता रहा। कारकीर्ण विजय पताका विदेशों में फहराता रहा। उसने दिग्विजय

करते करते काश्मीर के बाहर विदेश में प्राण त्याग किया । वह सुखमय, विलासमय, जीवन व्यतीत करने के लिये काश्मीरियों के बुलाने, प्रार्थना करने पर, भी नहीं लौटा ।

काश्मीर में जात-पात का बन्धन कठोर नहीं था, लचीला था, उदार था । वहाँ के राजा क्षत्री हुये । ब्राह्मण हुये, कन्यपाल हुये । उनकी राज महिषियाँ वणिक कन्या हुयी, डोम कन्या हुयी । समाज ने इसे बुरा नहीं माना ।

धर्म एव दर्शन प्रगतिशील था । धर्म केवल कर्म काण्ड एवं सस्कार मात्र नहीं था । जड नहीं था । उममें ग्रहण करने एव देने की शक्ति थी । उसकी शक्ति बनी रही । सीमान्त स्थित होने पर भी, विदेशी विजेताओं, दर्शनों एव शक्तियों का सफलतापूर्वक सामना करता रहा ।

काश्मीर में यूनान के दार्शनिकों, इटली के सम्राटों तुल्य महान विभूतियों का दर्शन मिलता है । उनका चरित्र, उनकी गाथा, अद्भुत है । दुःख है । जगत उन्हें जानता नहीं ।

काश्मीर के सम्राट, कवि हुये हैं । काव्यकार हुये हैं । गीतकार हुये हैं । गायक हुये हैं । अभिनेता हुये हैं । बक्ता हुये हैं । जयापीड यदि दिग्विजयी राजा था, तो सफल कवि भी था । हर्ष राजा था तो महान गीतकार था । सगीतज्ञ था । नाट्यकार था । काश्मीर के अनेक सुल्तान कवि थे । लेखक थे । गीतकार थे । वादक थे । गायक थे । स्वयं संगीतशास्त्र की शिक्षा देते थे ।

काश्मीर के राजाओं ने विलास हेतु राजप्रासादों का निर्माण नहीं किया । हरम नहीं बनाया । जनता का धन जनता के मानसिक, आध्यात्मिक एव भौतिक विकास में लगाया । जनता का आर्थिक स्तर उठाने में लगाया । काश्मीर में मन्दिरों, मठों, शालाओं, विहारों, देवस्थानों के भग्नावशेष, प्रत्येक ग्रामों में मिलेंगे । परन्तु राजप्रासादों, राजभवनों के ध्वसावशेष कहीं नहीं मिलते ।

सम्राट एव राजा अन्य नागरिकों के समान श्रौनगर में निवास करते थे । उनका राजभवन सामान्य भवनों से कुछ अच्छा था । सामाजिक, जीवन, उत्सव ज्ञान विज्ञान चर्चा आदि का केन्द्र होता था ।

काश्मीर धार्मिक था । उसमें धार्मिक कुरीतियों का अभाव मिलता है । देवदासी प्रथा तथा दास प्रथा का विकृत रूप काश्मीर में नहीं मिलता । उत्तर कालीन काश्मीर में दासों का कुछ वर्णन मिलता है । परन्तु वह विदेशी जगत, विदेशी जातियों की देन थी । मुसलमान दास प्रथा को मान्यता देते थे ।

काश्मीरी मानव को माधन, स्वार्थ मिद्धि का माध्यम, बनाने का कभी प्रयास नहीं किये । मानव मूल्य गिरने नहीं दिये । उठाते ही रहे । दासता शासन तत्र एव समाज के परे की बात थी । काश्मीर ने मानव को पवित्र समझा । मानव को अर्थदास, विलास दास, ऐश्वर्य दास, मास, मज्जा एव अस्थि का सग्रह मात्र नहीं समझा । उसने मनुष्य को मनुष्य माना । प्रत्येक प्राणी को ईश्वर कृत माना । अर्थ आधिपत्य, राज सत्ता, वश, कुल मनुष्य को अन्य मनुष्यों से भिन्न नहीं मान सका ।

जात-पात, ऊँच-नीच, स्पर्शा-वृश्य की जो विभोषिका भारत में थी, जिमने हिन्दू समाज को खोखला बना दिया था, आन्तरिक ढाँचा शिथिल कर दिया था, उनका दर्शन काश्मीरी समाज में नहीं होता । काश्मीरी ऋद्धिवादी नहीं बने । वे मूढ़ाग्रही नहीं बने । कुमस्कार पाशा में फँसकर जड नहीं बने । जो ब्राह्मण या ग्रहण किया, अप्राह्मण की ओर फिरकर देखा नहीं ।

भारतीय राजाओं के समान काश्मीर के राजाओं की दृष्टि सकीर्ण नहीं थी । वे परस्पर, हृदय पशुओं के समान लठे नहीं । महसों वर्षों में विरल गोत्रवध नहीं हुआ है । कुलों को उत्पाटित न कर उनकी

रक्षा किया राज्य के लिये उन्हें उपयोगी बनाया । उत्तराधिकार के लिये हुये थे । अन्य देशों के इतिहासों को देखते हुए कहना पड़ेगा कि यह अपवाद मात्र है । मुसलिम काल में स्थिति बदल गयी । प्रत्येक सुल्तान को अपने उत्तराधिकार के लिये संघर्ष करना पड़ा है ।

राजाओं ने अपने विलास घर घन अपव्यय नहीं किया । शोषण नहीं किया । अपने सुख के लिये जनता के सुख का अपहरण नहीं किया । जनता से अपनी स्थिति भिन्न नहीं मानी । जनता का सुख उनका सुख एवं दुःख उनका दुःख था । राजा तुर्जोम एवं रानी वाकपुष्पा का संवाद इस प्रसंग में विश्व इतिहास में अतुलनीय है । राजाओं ने प्रजा को सर्वदा सन्तान माना है । उनके साथ सन्तानवत् व्यवहार किया है । कुछ अपवाद मिलते हैं । परन्तु वे नगण्य हैं ।

राजाओं ने, जनता ने, काश्मीर को सती देश माना है । काश्मीर मण्डल को कष्ट पहुँचाना भगवती सती को कष्ट पहुँचाना था । यह इतना प्रभावशाली नैतिक अंकुश था । जिसने राज प्रथा का मर्यादित रखा । प्रजा का अराजक एवं राजा को निरंकुश नहीं होने दिया । इस दर्शन के कारण देश के सुख को, अपने सुख पर, राजा एवं प्रजा दोनों ने प्राथमिकता दिया है ।

काश्मीर ने आध्यात्म एवं भौतिकता का समन्वय देश एवं मानव विकास के लिये किया था । उन्होंने दैहिक एवं दैविक गुणों का समन्वय किया था । उन्होंने कला को विकास, मनोविनोद की सामग्री न समझकर, उसे देवापित किया था । दैवी गुण समझा था ।

देव स्थान उनके दैनिक जीवन का केन्द्र था । अध्ययन, अध्यापन, नाटक, नृत्य एवं गान का केन्द्र था । सब कुछ उस देव को अर्पित था, जो व्यापक था । सबका था । संकीर्ण नहीं था । वह देव नहीं था, जिसने कुछ मनुष्यों को ही अपनी चुनी जाति, कुछ धर्मों को अपना धर्म बनाया था । वह देव उदार था । सहिष्णु था । मानव में किसी सम्प्रदाय, किसी, मत अथवा धर्म के कारण भेद नहीं माना था । किसी एक दर्शन को, किसी एक भाषा को, किसी एक वर्ग को, किसी एक मत को, अपना अन्तिम एक मात्र नहीं घोषित किया था । वह देव भय कारक नहीं था । उससे प्रेम किया जा सकता था । उसका सान्निध्य प्राप्त किया जा सकता था । वह देव प्रतिहिंसा से दूर, भक्त वत्सल था ।

देव प्रतिमाओं को लोग सुसज्जित करते हैं । उसकी पूजा करते हैं । उसे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं । काश्मीर के राजा सतीस्वरूप सती देश को समृद्ध करने, सुन्दर बनाने का भरसक प्रयास करते थे । विलास एवं भोगों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गयी । सती देश में पशु-पक्षियों की स्थिति सुखद थी । उन्हें अपने प्राणों का भय नहीं था । देश की दुखावस्था का कारण, किसी दुर्भिक्ष का कारण, तुपार पात का कारण, तूफान का कारण, राजा एवं प्रजा अपने किसी पाप का, किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल मानती थी ।

राजाओं का राज्य न्यायिक था । राज सत्ता विधि में, स्मृतियों में निहित थी । राजा की शक्ति एवं अधिकार मर्यादित थे । सदाचार से, स्मृतियों से, धर्म संहिताओं से तथा अर्थशास्त्र से, नियन्त्रित थे ।

विप्लव एवं राज्य क्रान्तियों का अभाव हिन्दू कालीन काश्मीर में मिलता है । जनता विप्लव एवं राज्य क्रान्ति में विश्वास नहीं करती थी । उनके करने की कभी समस्या नहीं उपस्थित हुई । राज्य क्रान्ति एवं विप्लव यूरोप की देन है । जहाँ राज्य की शक्ति अनियन्त्रित थी । बन्धन हीन थी । अनियन्त्रित थी । निरंकुश थी । परन्तु काश्मीर में बात ऐसी नहीं थी । आध्यात्मिक नियन्त्रण था । नैतिक नियन्त्रण था ।

राजा नीति, शास्त्रों द्वारा अनुशासित था। विधियाँ उसका कार्य निर्धारण करती थी। राजा का कार्य विधि मर्यादित था। मनमाने ढंग से उनमें सशोधन, परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था।

राजा के पथ भ्रष्ट होते ही, अनियन्त्रित होते ही, द्विज प्रायवेशन करते थे। वैसे ही करते थे, जैसे महात्मा गान्धी अन्याय के विरुद्ध अनशन कर, न्याय पाने की अपेक्षा करते थे। राजा पर नैतिक प्रभाव डालते थे। शक्ति एवं शस्त्र का आश्रय लेकर राजा का सुधार करते थे। सुधारने का अवसर देते थे। आध्यात्म तथा नीति के प्रति यह आदर, नीति शास्त्र के प्रति निष्ठा, राजा को अनुशासित रखता था।

राजा के ऊपर द्विज परिपद थी। पुरोहित परिपद थी। परिपदें महाभारत काल से कोटारानी के समय तक प्रभावकारी सक्रिय सस्यायें थी। वे विश्व को सबसे प्राचीन जीवित सक्रिय संस्यायें थी। राजा परिपदों के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। उपेक्षा नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा दर्शन था। जिसके कारण महाभारत काल से तेरहवीं शताब्दी तक वे अक्षुण्ण बनी रही। काश्मीर समृद्धि शाली राष्ट्र बना रहा। प्रजा अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक थी। ब्राह्मण अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे। प्रजा एवं राजा दोनों नैतिक बन्धनों से नियन्त्रित थे। इस नियन्त्रण के पीछे, राज्य की शस्त्र शक्ति नहीं थी। इस नियन्त्रण को राजा एवं प्रजा दोनों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया था। नैतिक राज्य एवं नैतिक विधि के कारण ऐसी व्यवस्था काश्मीर में स्थापित हुई, जिसने मनुष्यों में भेद नहीं किया। विचारों के कारण दमन नहीं किया।

काश्मीर में विदेशी एवं काश्मीरियों के भेद एवं प्रतिभेद नहीं था। राजाओं ने विदेशियों को आश्रय दिया है। वित्त दिया है। आदर किया है। वे अपने धर्म के साथ, कर्म के साथ फलते रहे। किसी सम्प्रदाय के प्रति द्वेष नहीं था। वैर नहीं था। दुख नहीं था। उनके व्यवहारों के कारण घृणा नहीं थी। विधर्मी होने के कारण, विपरीत आचरण होने के कारण, रहन-सहन भिन्न होने के कारण, उनसे विरोध नहीं था। अनादर नहीं था। काश्मीर में बौद्ध एवं हिन्दू धर्म चौदहवीं शताब्दी तक एक साथ थे, मान्यता प्राप्त करते चले आ रहे थे। उनमें परस्पर कभी विरोध नहीं हुआ। संघर्ष नहीं हुआ। बौद्ध संघ ने काश्मीर की राज व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। पड़्यन्त्र नहीं किया।

विदेशी मुसलमान बहुत बड़ी सख्या में काश्मीर में प्रवेश किये। उनका विरोध नहीं हुआ। वे सेना में, प्रशासन में, स्थान पाये। व्यापार करने लगे। काश्मीर में आवाद हो गये। उनका स्थान-स्थान पर, उपनिवेश बन गया। किन्तु उनका दर्शन वह नहीं था, जो बौद्धों का था। हिन्दुओं का था। उनका दर्शन उनकी सीमा के अन्दर था। उस सीमा में एक बार प्रवेश करने पर, बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं थी। उसके अन्दर जो पहुँचा, वह वही का हो गया। अन्य धर्म के प्रति आदर, स्वतन्त्र विचार, धर्म निरपेक्ष एवं सर्वधर्म सम भाव में विश्वास कर्ता, वहाँ स्थान नहीं पा सकता था। वह केवल एक ही फूलों की बगारी थी। एक ही फल फलते थे। वह उपवन नहीं था, बन नहीं था, उद्यान नहीं था, वाटिका नहीं थी। वहाँ विविध पुष्प, विविध सुरभि, विविध फलों, विविध रंगों, विविध रसों का स्थान नहीं था।

हिन्दू जगत इस प्रकार के दर्शन से अनभिज्ञ था। उसने अपने जैसा दूसरे धर्मों को समझा। सबको ईश्वर की सन्तान माना। उसने कल्पना नहीं की। एक ही ईश्वर अपनी सन्तानों में दुराव करेगा, भेद करेगा, एक को दूसरे का शत्रु घोषित करेगा, एक को अपनी चुनी सन्तान कहकर, दूसरे का निरादर करेगा। उसने सब धर्मों का एक ही ध्येय माना। अनेकता में एक ईश्वर की कल्पना की। अनेक नामों को एक ही नाम का पर्याय माना। बहुदेव वाद में एक ही शक्ति का प्रकाश देखा। नाम उसके लिये गौण था। सब

बनों के मन्त्रों, नदियों, पैगम्बरों को नहासना माना । उनका आदर किया, उनके विचारों का आदर किया ।

विद्वेषियों द्वारा जो धर्म काश्मीर में अंकुरित हो रहा था, एकांगी था । बनों का केन्द्र विन्दु एक ही ईश्वर को नहीं माना । अन्य बनों के मन्त्रों, अद्वैतों, नदियों, पैगम्बरों को नहासना नहीं माना । अपने केवल अपने ईश्वर में, अपने धर्म में, विश्वास किया ; शेष विश्वास के पात्र नहीं थे । उनका समय बीत चुका था । सगवान ने नदीन धर्म, नदीन पैगाम नैजा था । पुराने पाठ्य थे । ईश्वर हृद नहीं थे । कुल थे । दूसरे धर्मों, धर्मों की मत्ता स्वीकार करना, उनके ईश्वर की मत्ता में अविश्वास था । उनके ईश्वर की शोषण के प्रति विद्रोह था, अनादर था । इस अविश्वास, इस अनादर, इस विद्रोह का दण्ड स्वयं ईश्वर प्रकट होकर दे नहीं सकता था । उसे दण्डित करने का मार उठाया, मनुष्यों ने । वे बन गये, ईश्वर की सेना । धर्म युद्ध के सैनिक, मुजाहिद ।

इस नदीन धर्म के अनुयायी, एक गोत्र में विश्वास करते थे । ईश्वर के साथ किसी अन्य दैविक शक्ति का होना, उनके अस्तित्व की कल्पना, वे कर नहीं सकते थे ! यह था—ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, यह था ईश्वर के प्रति विश्वास । अतएव उनके धर्म का अविश्वासी दण्ड का पात्र था । उसे दण्ड देना कर्तव्य था । संहार करना पृथ्वी था ।

इस वर्ग में, इस गोत्र में, जो नहीं था, वह था, उसका विरोधी । वह था, उसका शत्रु । उनका संघर्ष उस समय तक जारी रहना स्वीकार किया गया, जब तक दूसरों का अस्तित्व समाप्त होकर, सबका एक मिल्लत में एकाकार न हो जाये । सब पर एक नुहुर न लग जाये । सबका मुख एक दिशा की ओर न फिर जाये । सब एक तरह की बोली न बोलने लग जाये । आचरण एक तरह का न हो जाये । और सब तक सब एक संहिता द्वारा अनुशासित न हो जाये ।

काश्मीरियों ने इस धर्म को नहीं समझा । उसके रहस्य को नहीं समझा । उन्होंने विश्वास किया—मनुष्य की मानवता पर, उसकी सामाजिक शक्ति, सैत्तिकता पर । कल्पना नहीं कर सकते थे । शरणागती, वित्त नौगी, राज सेवक, चाहनीर जिसे राजा ने आश्रय दिया था, आदर किया था, पद दिया था, उसी के बंध को मनाप्त कर, उसकी रानी क्रोधा से विवाह का प्रस्ताव रहेगा । न मानने पर उसी की हत्याकर, स्वयं काश्मीर का राजा बन जायगा । उसके निर्दोष पृथ्वी की हत्या कर देगा, जिनका वह अभिनायक था । जिन्हें पृथ्वत पाला था ।

काश्मीरियों ने सब यह घटना सुनी, देखी, जो स्वप्न हो गये । किर्तव्य विमूढ़ हो गये । कुछ निश्चय न कर सके । इस अनिश्चित स्थिति का लाभ उठाकर, काश्मीर की लाल पताका उत्तरी, हरी पताका उठी । बड़ी, बटे बन्द हुये । मूलजिन की आवाज बूलन्द हुयी । वेद ध्वनि शान्त हुयी । यज्ञ वेदियाँ बृझी । गिखर गिरे, कंगूरे उठे ।

हिन्दुओं के लिए, यह अन्याय था । विश्वासघात था । अनैतिकता थी । मुसलियों के लिए ईश्वरीय न्याय था । क्रूर का गड़ बहना था । दूतवानों का गिरना था । उस धर्म का फैलाना था, जिसके लिए चिन्तनी पायी थी । जो फर्ज था । यह थी, उसके ईश्वर की, उसके धर्म की, उसके धर्म की विद्रोह । चाहनीर बन गया, अपनी जाति का नेता, मुसलिन राज्य का संस्थापक । शरक हरब बन गया, शरक इस्लाम । ईश्वर की अनैतिक कार्य सम्पन्न हुआ ! पृथ्वी हुआ । लाकों-लाकों प्राणी दोषरत की लाग से बचा लिए गये । मैंने आज तक एक मुसलिन लेखक नहीं पाया, जिसने चाहनीर के विश्वासघात की मर्त्तना प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से किया है ।

शाहमीर को कोटारानी, उसके पुत्रों की हत्या के लिए, विश्वासघात के लिए ग्लानि नहीं हुई। पश्चाताप नहीं हुआ। उसने वही किया, जो उसके गोत्र से अपेक्षित था। चाहे हिन्दुओं की दृष्टि से उसने पाप किया, विश्वासघात किया, हत्या किया। परन्तु अपनी दृष्टि में पुण्यार्जन किया। ईश्वर को धोपणा का पालन किया। ईमान न लाने वालों को, ईमान पर, लाने का शुभारम्भ किया।

नैतिकता, पाप के आधार पर किया गया पुण्य, नष्ट करता है, पुण्य के मूल को। विस्तृत करता है, पाप क्षेत्र को। कोटारानी तथा उसके पुत्रों की हत्या का परिणाम शाहमीर के वसजों को अपने रक्तों से चुकाना पड़ा। उसकी मन्तानें परस्पर लड़ती रही। मरती रही। वज्र वृक्ष रक्त वर्षा से सिंचित होता रहा। आँख फोड़ना, अंग भग करना, बिना न्याय कारागार में ठूस देना, लूट पाट करना, दरिद्र बना देना, हा गयी, साधारण घटनायें। हिन्दुओं ने अपनी उदारता, सहिष्णुता, रूढवादिता की महँगी कीमत अदा की। अपने देवस्थानों को नष्ट कराकर और स्वयं नष्ट होकर।

नैतिकता सहिष्णुता, उदारता, लौकिकता एवं न्याय का, आदर वह करता है, जो उनके मूल्य को समझता है। हीरा का वही कदर करता है, जो हीरा का पारखी है। दूसरे के लिए वह चमकता काँच है। गांधी जी के सिद्धन्तों का, उनके आन्दोलन का महत्त्व लोकतन्त्रवादी अग्रज जानते थे अतएव उन्होंने महारमा जी का आदर किया। किन्तु कायदे आजम जिन्ना तथा पाकिस्तान बनाने वाले, उसका मूल्यांकन नहीं कर सके। गांधी जी का दर्शन, उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। गांधीजी वे अर्ध शताब्दी के प्रयामों के पश्चात भी सर्वधर्म समभाव का सिद्धान्त मुसलमानों को प्रभावित नहीं कर सका। वे एक ऐसी मजबूत दीवाल के अन्दर बैठे थे, जहाँ आवाज टक्कर मारकर लौट आती थी। गांधी एवं जिन्ना एक भाषाभाषी थे। एक प्रदेश के निवासी थे। वे मिल नहीं सके। उनके बीच बाधक था, एक प्रति निर्विष्ट दर्शन। जिसकी अपनी सकीर्णता थी। सीमा थी।

यह प्रक्रिया काश्मीर में हुई। हिन्दू या तो मुसलमान हुए, या भाग गये, या दबकर, अपने धर्म मानने की कीमत जज्जिया से देने लगे।

जहाँ भी इस सकीर्ण दर्शन का अनुकरण किया गया है, वहाँ क्षणिक शान्ति, स्मशान शान्ति दिखाई पड़ी है। कालान्तर में उस सकीर्णता ने शान्ति का नाश किया है। जैनुल आबदीन ने इस दर्शन से हटकर, इस सकीर्णता से हटकर, अपना राज्य अर्ध शताब्दी शान्ति पूर्वक चलाने में समर्थ रहा। जनता साथ देती रही। अकबर ने इस नीति का अनुकरण कर, अर्ध शताब्दी तक शासन किया था। उत्तराधि-कारियों के लिए अनुशासित साम्राज्य की नींव रखा। सकीर्ण औरगजेव ने भी अर्ध शताब्दी शासन किया था। किन्तु औरगजेव के शासन की शान्ति स्थायी नहीं थी। उसके शान्त होते ही, साम्राज्य शान्त हो गया।

व्यष्टिवादी एवं समष्टिवादी दर्शनों की दिशाएँ भिन्न होती हैं। उनके चिन्तन का प्रकार भिन्न होता है। उनका दृष्टिकोण भिन्न होता है। इसे बिना समझे, इतिहास एवं राजनीति समझना कठिन है।

व्यष्टिवादी, व्यष्टि किंवा मनुष्य के विकास, उसकी उदात्त सद्वृत्तियों को विकसित करने का प्रयास करता है। मानव को साधन नहीं, माध्य मानता है। किन्तु समष्टिवादी दर्शन के सम्मुख मूल्य होता है, समष्टि का, एक वर्ग का। एक गोल का। एक गोत्र का। एक जाति का।

समष्टिवाद एक साचा है। एक ठप्पा है। उसमें एक ही प्रकार का रूप ढलता है। एक ही प्रकार का आकार टकित होता है। व्यष्टिवाद का प्रत्येक साँचा भिन्न है। प्रत्येक टक भिन्न है। प्रत्येक व्यष्टि

विद्येयता रखता है। उसका अन्त कृष्ण होता है। स्वावलम्बी एवं पूर्ण होने का प्रयास करता है। किन्तु समष्टिवादी, एक ही ठप्पे, एक ही सँचे का प्रति रूप है। प्रतिष्ठित है। उसमें मौलिकता नहीं होती। उसकी मौलिकता समष्टि में विघ्न हो जाती है। समष्टि हेतु मानव बलिदान कर दिया जाता है।

अष्टिवादी कहीं भी रह सकता है। किसी में मिल सकता है। किसी भी परिस्थिति में बंध सकता है। समष्टिवादी समष्टि में बन्ध होते हैं, उद्घिन हो जाता है। वह अष्टिवादी के आत्म-विघ्नान एवं स्थिरता के सम्मुख ठहर नहीं सकता। किन्तु संघटित मौलिक समष्टिवादी मार्ग के सम्मुख अष्टिवादी भी ठहर नहीं सकता है। समष्टिवाद बर्ण जात है। वह उर्ध्व जाता है। बाढ़ जाता है। तनी के कण्ठ गिर जाते हैं। शान्तावलिता दृष्टकर गिर पड़ती है। प्राणी वह जाता है। परन्तु अष्टिवाद कीर्त-कार्योन्, शीन्कार्योन् कीर्तल संग्राहक है।

प्रवर्तक वर्म, प्रवर्तक वर्मन्, समष्टिवादी है। निवर्तक वर्म अष्टिवादी है। प्रवर्तक मंत्र्या पर, विम्पान पर, जोर देता है। निवर्तक अष्टि के गुण पर, विकास पर, चरित पर एवं पूर्णता पर जोर देता है।

बौद्ध वर्म समष्टिवादी है, प्रवर्तक वर्म है। प्रवर्तक वर्म होने पर भी, बौद्ध एवं हिन्दू, एक साथ रह सके हैं। बौद्धों के प्रवर्तक वर्मन् एवं ईसाई और मुसलमानों के प्रवर्तक वर्मन् में अन्तर है। ईसाई एवं मुसलमानों का ग्रन्थ एकेश्वर वादी है। किताबिया हैं। परन्तु बौद्ध वर्म अतीश्वर वादी है। निर्ग्रन्थ है। बुद्धि को प्राथमिकता देता है। कर्म में विश्वास करता है। संकीर्ण नहीं है। उदार है। बुद्धिवादी है। परन्तु ईसाई एवं मुसलिम वर्म विश्वास वादी है। उनमें स्वतंत्र विश्वास, विवेक का स्थान नहीं होता। तर्क का स्थान नहीं होता। वह पूर्ण आत्म-समर्पण चाहता है।

बौद्ध वर्मन् इस आत्म-समर्पण में विश्वास नहीं करता। भक्ति में विश्वास नहीं करता। बौद्ध वर्म समष्टिवादी एवं प्रवर्तक वर्म होने पर भी, कट्टरता, संकीर्णता, सूझता एवं जड़ता के साथ गुँथ नहीं सका। मन्त्र के आधार पर, राजाध्वज के आधार पर, वर्म प्रवर्तन की कल्पना नहीं कर सका।

वही कारण है, किसी समष्टिवादी वर्मन् वेग में, ईसाई या मुसलिम वर्म पदम नहीं सके। इसी प्रकार ईसाई जात में, मुसलिम जात में, अन्य सन्प्रवाय फँस नहीं सके। जहाँ हिन्दू थे, जहाँ बहूनी थे, जहाँ पारसी थे, वहाँ वे पदम सके। इन्डोनेशिया, मलेेशिया, हिन्दुस्तान, अफगानिस्तान, काश्मीर आदि हिन्दू वेग थे। वहाँ मुसलिम वर्म फँस सका। श्री लंका, बर्मा, थाइलैन्ड, कम्बोडिया, वीतनाम, लाओस, चीन एवं जापान में पैर नहीं जना सका। वे वेग प्रवर्तक वर्म के अनुयायी थे। समष्टिवादी थे। किन्तु थे कर्मवादी। कर्मवाद उन्हें मूढ, अज्ञ एवं असहिष्णु नहीं बना सका। उन्हें दिया प्राप्ति। वे जीवित है। उर्ध्व भक्ति के कारण।

मान्य में मुसलिम वर्म ने पैर जनाया। मुसलिम मान्य स्थापित हुआ। परन्तु उनसे भारत की अफगानिस्तान एवं काश्मीर के समान मुसलिम वर्म में अक्षित नहीं कर सका। कारण, मौलिक स्थिति है। मान्य वारों और हिमालय के अक्षिणिक युवा है। काश्मीर की स्थिति भिन्न है। वह वारों और पर्वत मालाओं से दुर्ग के प्रकार मध्यम विरा है। उसकी स्थिति, उन कोठरी में बन्ध अक्षि के समान थी, जो ताड़ित किया जाता है। चिन्मता है। रोता है। आह देता है। परन्तु आवाज बाहर नहीं जा सकती। कोई सुन नहीं सकता। कोई सहृदय कर नहीं सकता। यही अवस्था अफगानिस्तान एवं मीमान्य प्रवेग की थी। भारत युवा मैदान था। उर्ध्वहिन्दू एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते थे। उनकी

रक्षा के लिए उत्तर म पर्वतीय क्षेत्र था, दक्षिण में पहाड़ियों की शृंखला थी। पश्चिम में रेगिस्तान था। मध्य में अरण्य था। वे कहीं भी जाकर रह सकते थे। कहीं से सहायता प्राप्त कर सकते थे। उनकी रक्षा सम्भव थी।

भारत में मुसलमान इतने सघर्ष रत थे। उनकी शक्ति एवं समय स्वरक्षा चिन्तन में ही व्यतीत हो जाता था। उनके शत्रु उनके ही भाई मुसलिम थे। भारत पर बाहर से आक्रमण करने वाले मुसलिम थे। मुसलिम धर्म भारत में मुगल काल में खूब फैला। मुगल काल में शान्ति थी। आर्थिक दशा ठीक थी। विदेशी आक्रमणों का भय नहीं था। हिन्दुओं को प्रताड़ित कर, विपन्न कर, उन्हें सघर्ष शील, जागरूक बनाने की अपेक्षा निर्जीव शान्त नागरिक बनाने का प्रयास किया गया। उन्हें मिलाकर, राजपद, राज सम्मान दकर, उनका मुख धन्द कर दिया गया। औरगजेब ने इसके विपरीत नीति का वरण किया, तो भारत भभक उठा।

प्रवर्तक वादी मुल्तानों ने धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। नव मुसलिमों को राजसेवा, प्रथम, वित्त एवं अर्थलाभ का लोभ दिया। जिज्जिया लगाकर, दुर्बलों गरीबों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। युद्ध में पराजितों, विजितों को दास बनाकर, उन्हें मुसलमान बनाया गया। हिन्दू सामन्त कौटुम्बिक सघर्ष में, उत्तराधिकार सघर्ष में, पारस्परिक सघर्ष में, अपना पक्ष प्रबल करने के लिए, मुसलिम धर्म स्वीकार कर, शत्रुओं पर विजय पाते थे। विरोधियों को पद दलित करते थे। उच्च वर्ण के अत्याचार एवं शोषण से बचने के लिए, सामाजिक विषमता के कारण, कठोर जाति बन्धन के कारण, ऐश्वर्य, अर्थ-लाभ अथवा स्त्री रस के कारण, दरबार में प्रतिष्ठा मिलने के कारण, एक कुछ निम्न कार्य, धर्म परिवर्तन कर लिए।

मुसलिम राज्य विभाजित होते गये। तुर्की साम्राज्य टूटा। अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, साइप्रस, और मिश्र तुर्कों से अलग हो गये। त्रिपोली को तुर्कों से अलग कर, इटली ने अधिकार कर लिया। क्रोमिया तथा जार्जिया रूस ने लिया। सर्विया, बल्गेरिया, यूनान तथा रूमानिया तुर्क प्रभाव से निकलकर, स्वतन्त्र हो गये।

तुर्की साम्राज्य टूटने पर, ईराक, जार्डन, लेबनान, सीरिया, सौदी अरबिया का राज्य बना। सेखों के अनेक लघु राज्य फारस की खाड़ी के तटों पर बने। फिलिस्तीन बँट गया। मिश्र बँट गया, सूडान अलग हो गया।

यमन, अदन की भी यही कहानी है। किन्तु इन सबमें एक साम्य था। वे परस्पर लड़ते थे, कटते थे, मरते थे। क्रूरता की सीमा पार करते थे। किन्तु गंर मुसलिम शक्ति के सम्मुख लोहू दीवाल बन जाते थे।

इसराइल के प्रश्न पर, सब मुसलिम राष्ट्रों की एक आवाज है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों में मुसलिम देशों की एक आवाज थी। किसी ने भारत का समर्थन नहीं किया। मुसलिम प्रश्न उपस्थित होने पर, न्याय एवं अन्याय पर, वे विचार नहीं करते। वे देखते हैं—अपना गोत्र। वे देखते हैं—अपना दर्शन, धर्म एवं व्यवहार संहिता। उस समय वे राष्ट्रों का किया उपकार, व्यक्तियों का किया उपकार, भूल जाते हैं। मिश्र की भारत ने घात्रादि द्वारा सहायता की। रक्षा की। परन्तु वह भी भारत के साथ हुए, पाकिस्तान युद्ध में भारत का समर्थन नहीं कर सका।

यह मनोवृत्ति हल्दीघाटी के युद्ध में स्पष्ट रूपेण प्रकट हुई थी। मानसिंह और महाराणा प्रताप दोनों की सेना में राजपूत थे। दोनों की वेशभूषा समान थी। उन्हें पहचानना कठिन था। मानसिंह की

सेना अकबर के पत्र में लड़ रही थी। मुसलिम सिपहसालार से पूछा गया। इस परिस्थिति में क्या किया जाय ? उत्तर मिला, सब पर बाण वर्षा की जाय। मरेगा काफिर, वह चाहे स्वपत्नी हो या विपत्नी।

राजरस एवं स्त्री रस दोनों घातक हैं। स्त्री रस प्रवाह में मनुष्य अपना नैतिक एवं शारीरिक सम्बल खो देता है। उसका प्रभाव उसके कुल तथा शरीर तक सीमित रहता है। राजरस में मनुष्य नैतिक, शारीरिक शक्ति के साथ विवेक भी खो बैठता है। राजरस द्वारा प्रभावित व्यक्ति का प्रभाव, समस्त समाज, समस्त राष्ट्र एवं समस्त जनता पर पड़कर उसे दूषित बना देता है।

राज रस समष्टिवादी एवं स्त्री रस व्यष्टिवादी है। इन दोनों रसों का समावेश, जिस राजा अथवा राजपुरुष में होता है, वह अपने राज को ले डूबता है। किन्तु जब स्त्री रस भी समष्टि का रूप धारण करता है, तो देश का नैतिक स्तर गिरने लगता है। हिन्दू राजा बहु विवाह करते थे। परन्तु विवाह विधि द्वारा नियन्त्रित था। सुल्तानों के समय हरम का उदय हुआ। हरम बनने लगे। देश की सुन्दर से सुन्दर स्त्रियाँ सुल्तानों की सम्पत्ति बननी जाने लगीं। नव युवतियाँ सुल्तानों को भेंट दी जाती थी। भारत से नव युवतियाँ तथा सुन्दर स्त्रियाँ फारस, अफगानिस्तान आदि मुसलिम देशों में भेंट रूप में भेजी जाती थी। स्त्रियों की इस स्थिति के कारण देश का विवेक, नैतिक एवं सामाजिक स्तर गिरने लगा। दासी प्रथा प्रचलित हो गयी। सुल्तान तथा कुलीन मुस्लिम वर्ग दान्दियाँ रखने लगा। वे भोग्य सामग्री थी। उनके बच्चे धृष्टि से, त्याज्य दृष्टि से, नहीं देखे जाते थे। उनकी सन्ताने जारज नहीं मानी जाती थी।

युद्ध में पराजित पुरुष वर्ग दास तथा स्त्रियाँ दासी बना ली जाती थी। उनका धर्म स्वामी का धर्म होता था। स्त्रियाँ तथा दास सार्वजनिक रूप से बेचे और खरीदे जाते थे। सुन्दर कन्यायें नीलाम की जाती थी। उनसे उत्पन्न सन्ताने अद्वेष नहीं मानी जाती थी। वे एक मिल्लत के अंग बन जाते थे। इस प्रकार की सन्तानों से, जो गृह विहीन थे, उनका घर बसा। मुस्लिम संख्या बढ़ने लगी। उन्हें हिन्दू लेने के लिये तैयार नहीं थे। समाज में अपना स्तर ऊँचा बनाये रखने के लिये, वे सत्तारूढ़ मुस्लिम समाज में मिल गये।

बाबर के साथ आने वाले सभी मुगल सैनिक मुसलमान नहीं थे। हिन्दू उन्हें स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं थे। वे मुस्लिम धर्म स्वीकार कर, नव मुसलिम कन्याओं से विवाह कर, उनमें मिल गये। उनके समाज में मिल गये। वे हिन्दुओं के कट्टर विरोधी हो गये। हिन्दुओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। मुसलमानों ने उन्हें अपनाया था। इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। नव मुस्लिम, मूल मुस्लिमों की अपेक्षा अधिक कट्टर हो गये। मुस्लिम समाज में ही, नव मुस्लिम तथा मुस्लिमों के दो वर्ग बन गये। नव मुसलिम वर्ग, अपना गोत्र, अपना समाज बढ़ाकर, शक्तिशाली होने का प्रयास करता था। नव मुसलिम नव उत्साह के साथ, मुसलिम धर्म का प्रचारक हो गया। यह वर्ग कालान्तर में दिल्ली के सुल्तानों के लिये समस्या बन गया। इसका प्रभाव राज्य तथा राज्य प्रासादों में पड़ा। वहाँ सन्तानों की वृद्धि के साथ ही साथ प्रासादीय पद्धत्यन्त्र बढ़ने लगे। रक्तपात एवं हत्याएँ साधारण बातें हो गयीं।

काश्मीर में इस प्रकार के समाज का उदय हुआ। रिचन बौद्ध था। काश्मीर का प्रथम विदेशी नौदंड राजा था। उसने काश्मीर विजय किया। हिन्दू होना चाहता था। परन्तु तत्कालीन हिन्दू समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्या है। उसे मुसलमानों ने स्वीकार किया। उसे मुसलिम अल्प संख्यकों का मनर्षन प्राप्त हुआ। हिन्दुओं को सूद ग्राहिता के कारण, काश्मीर में विदेशी, गैर काश्मीरी शासन स्थापित होने की भूमिका बनने लगी।

गोत्र वृद्धि के इस दर्शन से हिन्दू समाज अनभिज्ञ था। इसके रहस्य से अनभिज्ञ था। हिन्दुओं की सख्या धीण होने लगी। विरोधी दर्शनावलम्बियों की सख्या बढ़ने लगी। हिन्दू जाति उस दिवालिये बैंक के समान हो गयी, जिनमें कुछ जमा नहीं होता था। निकलता ही जात था। यह प्रक्रिया मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण काल में आरम्भ हो गयी थी। इस पर अकुश लगा एक हजार वर्ष पश्चात्। आर्य समाज एव ब्रह्म समाज के उदय के साथ। आर्य समाज के शुद्धि आन्दोलन का मुसलिम जनता विरोध करने लगी। शुद्धि तथा तत्वलीग ने राजनीतिक आन्दोलनों का रूप पकड़ लिया। बहुसख्यक हिन्दू अल्पसख्यक मुसलिमों को आत्ममात कर जायेंगे। यह भ्रान्ति फैल गयी। भारत विभाजन की नींव पड़ने लगी।

काश्मीर मुसलिम बहुल प्रदेश था। वहाँ प्रजा परिपद अथवा कांग्रेस का सघटन नहीं हो सका। काश्मीर में डोगरा हिन्दू राज था। मुसलिम कान्फरेन्स की स्थापना हुई। मुसलिम कान्फरेन्स ने डोगरा राज के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। हिन्दू अल्प सख्यक थे। काश्मीर उपत्यका में कठिनता से दश प्रतिशत थे। उनमें मुसलिम जनता को भय नहीं था। ग्रामों में, पर्वतों में, जहाँ कुछ हिन्दू थे, वे भी मुसलिमान बना लिये गये। काश्मीर में आजादी का आन्दोलन मुसलिम कान्फरेन्स द्वारा आरम्भ किया गया। उसने कालान्तर में नेशनल कान्फरेन्स का रूप ले लिया। भारत से काश्मीर की अलग स्थिति है। यह आन्दोलन मुस्लिम सम्प्रदायवादियों ने आरम्भ किया। वे काश्मीर में मुस्लिम दर्शन समर्थित राज्य चाहते थे। एक वग पाकिस्तान द्वारा प्रेरित पाकिस्तान समर्थक था, दूसरा सम्प्रदाय काश्मीर की स्थिति बगला दश जैसी करना चाहता था। वह काश्मीर को स्वित्जरलैण्ड बनाना चाहता था। इस प्रकार के पक्ष, विपक्ष मुस्लिम काश्मीरी जनता में हो गये। उन्हें भारतीय तन्त्रीय शासन से अरुचि थी। उनके उस दर्शन के विरुद्ध पड़ता था, जिसमें दूसरे मत का स्थान होता था।

यह दशान दश की सीमा में विश्वास नहीं करता था। राष्ट्रवादी नहीं था। मिल्लत इस्लाम का अविभाज्य अंग था। वह एक था। उसके खुदा और इस्लाम के बीच कोई माध्यम नहीं था। वह खुदा उसका था। खुदा की मेहरबानी, बरकत, क्षमा, उसे, प्राप्त थी। देश भक्ति खुदा की भक्ति में हिस्सेदार होती, अतएव दश के लिये त्याग की भावना का उदय मुसलिम जगत में नहीं हुआ। उसकी निष्ठा केवल मिल्लत के प्रति थी। उस निष्ठा को किसी प्रकार विभाजित नहीं करना चाहता था।

देश की सीमा बनती है, विगडती है। अफगानिस्तान, ईराक सीरिया, लेबनान, जार्डन कभी एक राष्ट्र बनकर, विकसित नहीं हो सके। ईरान की भाषा भिन्न थी, सम्प्रदाय भिन्न था, ईरानी शिया थे, उनके चारों ओर सुन्नी थे। इस सम्प्रदाय एव भाषा वैभिन्य के कारण उसका व्यवितत्व भिन्न रहा। एक देश बना रहा। देश की इकाई का आधार राष्ट्रीयता नहीं थी। सम्प्रदाय एव भाषा थी। इतिहास एव परम्परा थी। उसका अपना दर्शन था। सुन्नियों के विरोध के कारण, रक्षा भावना के कारण सघटित था। उनमें भावात्मक एक थी।

तुर्किस्तान के तुर्कों में भी राष्ट्रीयता आ नहीं सकी। राष्ट्रीयता के लिये पुराने परम्परा एव इतिहास की पीठिया हाना आवश्यक है। उनके कारण भावात्मक एकता होती है। मुसलिम बनने के पश्चात् पुरातन अध्याय बन्द होता है। मर जाता है। नवीन अध्याय खुलता है। पुरातन के प्रति निष्ठा एव स्नेह का अभाव होता है। सीरिया, अफगानिस्तान, ईराक आदि के सम्बन्ध में भी यही बात कही जायगी। उनमें राष्ट्रीयता का उदय नहीं हुआ। इस समय जो राष्ट्रीयता की छाया दिखायी देती है। वह पश्चिमी देशों का प्रभाव है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राष्ट्रीयता गौण एव मिल्लत प्रधान थी। इस मिल्लत की

केन्द्र मानकर मुस्लिम जगत की समस्त प्रक्रियायें चक्कर मारती रहती थीं। उसके परे उनके लिये कुछ नहीं था।

अटलांटिक महासागर से रावीतट का विस्तृत भूखण्ड, विशाल जन समुदाय का प्रेरणा स्रोत पवित्र कावा था, कार्यक्षेत्र मिल्लत था, विचारक्षेत्र कुरान शरीफ था। उनके अतिरिक्त और किसी का महत्व नहीं था। वे एक अन्तर्राष्ट्रीय मुस्लिम जगत के प्राणी थे। उनकी जाति एक थी, धर्म एक था, दर्शन एक था, ईश्वर एक था, देवस्थान एक था। इस एकत्व की कठोर सीमा में, द्वैत का, दूसरे का, स्थान नहीं था। अतएव एक देश की कल्पना नहीं उठ सकी। मुस्लिम देशों में देशभक्ति के आधार पर संघर्ष नहीं हुआ है। संघर्ष होता था, सुल्तानों में, शासकों में, राज्य के लिये। संघर्ष हुआ, एक कबीला का दूसरे कबीला के साथ। एक वंश का दूसरे वंश के साथ। एक शासक का दूसरे शासक के साथ। जिनका आधार पारस्परिक स्वार्थ एवं स्पर्धा थी।

दूसरी अप्रैल सन् १९७२ ई० को वार्शिंगटन में जार्डन के सुल्तान हुसेन के वक्तव्य से इसका दर्शन होता है—'मैं विश्वास करता हूँ कि जरुशलम, महात्मन इब्राहीम, ईसा तथा मुहम्मद का है। सेमेटिक लोगों का है। एक ही परम्परा के मानने वालों का है। अतएव वह यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की एकता का केन्द्र हो सकता है।' यहाँ भी अपील की गयी है। एक दर्शन के नामपर न कि देश एवं जाति के नाम पर।

देश क्वां राष्ट्र की आत्मा संस्कृति है। वह एक सूत्र में बाँधकर राष्ट्र का रूप देती है। उसे सांस्कृतिक राज्य कह सकते हैं। मुस्लिम दर्शन में देश की इस संस्कृति का कोई स्थान नहीं है। उनकी एक ही संस्कृति थी। वह थी आधारित, उनके दर्शन पर। भारत के मुसलमान भारतीय जाति एवं भारतीय रक्त वंशज होते हुए भी भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं कर सके। उनके लिये भारतीय संस्कृति मर चुकी थी। इन दो विचारों के कारण दो नेशन सिद्धान्त का प्रतिपादन जिन्ना ने, मुसलिम लोगों ने किया। उन्होंने निश्चय किया। हिन्दू एवं मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। वे दो भिन्न हैं। अतएव दो भिन्न देश पाकिस्तान एवं हिन्दुस्तान बन गये। यह कृत्रिम राष्ट्रीयता थी। यह राष्ट्रीयता पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को एक साथ नहीं रख सकी। भाषा के नाम पर, सिन्ध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान का नारा बुलन्द होने लगा। देशभक्ति की भावना जड़ नहीं जमा सकी। वह उनकी प्रकृति के विरुद्ध पड़ता था।

ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का सिद्धान्त आर्यों में मान्य था। मुस्लिम दर्शन में इसका कोई स्थान नहीं था। उनका दर्शन विभाजन में विश्वास करता था। सम्पति के उत्तराधिकार में उसका भाग निश्चित था। मृतक की सम्पति बँट जाना चाहिये। पूँजीवाद एवं शोषण की समाप्ति का एक उपाय निकाल लिया गया था। संग्रह नहीं, विभाजन आदर्श था। एक के पास विशाल भूखण्ड, विशाल राज्य नहीं रहना चाहिये। वह सब मिल्लत का है। उसका विभाजन अपेक्षित है। किन्तु यह दर्शन मानव प्रकृति एवं व्यवहार के विरुद्ध था। सम्पति वचाने के लिये मुसलमानों में परस्पर, एक ही गोत्र, एक ही कुल में विवाह सम्बन्ध होने लगे। सुल्तान अपनी कन्याओं का विवाह कर, बाहरी तत्वों को अपने कुल में प्रवेश यथा-सम्भव नहीं करने दिये। मानव प्रकृति संग्रही होती है। वह अपने कुल, वंश, गोत्र एवं जाति का वृद्धि चाहती है। अपनी परम्परा स्थिर रखना चाहती है। मुख एवं सुरक्षा की दृष्टि से मंचय करना चाहती है। असंग्रही एवं संग्रही दोनों प्रकृतियों में द्वन्द्व होता रहा है।

इस द्बन्द का रक्तरजित इतिहास उत्तराधिकार के लिये होन वाले रक्तरजित एव सघर्ष में है। उत्तराधिकार हेतु अगणित सघर्ष हुए हैं। वह इतिहास इतना रक्तरजित है, क्रूर है कि उसने पढ़ने की, उसके जानने की, इच्छा नहीं होती, मन विरक्त होता है।

राज्य की शक्ति उसकी एकता में है। विशालता में है। यदि उत्तराधिकार सिद्धान्त के अनुसार राज्य भी पुत्रों किंवा हिस्सेदारों में विभाजित किया जाय, तो राज्य की इकाई टूट जायगी। राज्य विभाजित हो जायगा। सुल्तानों ने धर्मदेश के विरुद्ध सर्वदा एक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में मुसलिम तथा हिन्दू ताल्लुकदारों ने उत्तराधिकार ताल्लुकेदारी कानून के अनुसार मानते हैं। ज्येष्ठ पुत्र को ही ताल्लुक किंवा रियासत दी जाने लगी।

साम्य सिद्धान्त मुस्लिम दर्शन का केन्द्रबिन्दु है। सबका अधिकार समान है। इसलिये खलीफा का प्रारम्भ में निर्वाचन होता था। वहाँ दास या स्वतन्त्र कोई भी खलीफा हो सकता है। कोई भी सुल्तान चुना जा सकता था। परन्तु यह निर्वाचन प्रथा चल नहीं सकी। परिणाम हुआ है। वशगत पड़्यन्त्रों, सैनिक कूपों, वशीय कूपों, दलगत कूपों, गोत्रीय कूपों द्वारा मुसलिम जगत त्रस्त हो गया है।

राष्ट्रीयता होने पर, मनुष्य राष्ट्र के लिये मरता है। उसकी निष्ठा राष्ट्र एव राष्ट्र नेता के साथ होती है। राष्ट्रजनों के साथ होती है। वह उन सब के लिये मरता है, जो उसके नागरिक हैं। उसका स्वार्थ समष्टिवादी होता है। स्वार्थ एकाकी न होकर उदार होता है। स्वार्थ-व्यक्ति, कबीला, कुटुम्ब, गोत्र से हटकर, समष्टि में निहित होता है। वह स्वार्थ, राष्ट्र का स्वार्थ, राष्ट्रहित का प्रतीक होता है। किन्तु मुस्लिम जगत में प्रतीक है मिललत। उनके दर्शन का प्रतीक है, उनकी अन्तर्राष्ट्रीयता। वे मरते हैं, धर्म, दर्शन, सम्प्रदाय, गोत्र तथा कुटुम्ब के लिये। वे दूसरी जाति, दूसरे धर्म, दूसरे मत, दूसरे सम्प्रदाय, दूसरे दर्शन के लिये उत्सर्ग करना नहीं सोखें। उनके लिये वे महत्वहीन होते थे।

मुस्लिम राजशास्त्र राज्यों का केवल तीन वर्गीकरण करता है। दाहल इस्लाम, (मुस्लिम देश), दाहल हर्व (विधर्मियों) का देश तथा दाहल सुलह या अमन। दाहल हर्व को दाहल इस्लाम में परिणत करना मुस्लिम राजशास्त्र का केन्द्रबिन्दु है। देवाधि राजतन्त्र मानने के लिये वाध्य हो जाता है। वह विश्वास करता है कि दाहल इस्लाम एव दाहल हर्व में उस समय तक सघर्ष जारी रहेगा, जब तक सब दाहल हर्व दाहल इस्लाम में परिणत नहीं हो जाते। यह पुण्य कार्य ईश्वर का कार्य माना जाता है। अतएव उन मुसलमानों, उन सुल्तानों, उन शासकों को कैसे दोष दे सकते हैं, जिन्होंने गैर मुसलिम देशों को अपने मिललत, अपने सम्प्रदाय में एन-वेन-प्रकारेण सम्मिलित करने का प्रयास किया था ?

मुस्लिम राजशास्त्र जजिया अदा करने के लिये एक और वर्गीकरण करता है। दाहल इस्लाम, दाहल हर्व तथा दाहल सुलह के साथ एक वर्गीकरण किताबियों और गैर किताबियों का है। यहूदी एव ईसाई किताबियों हैं। गैर किताबियों के लिये इस्लाम और मौत के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रखा गया है। परन्तु किताबियों को जीने का अधिकार जजिया (जिज्य) देने के पश्चात होता है। उनके देशों पर विजय पश्चात, धर्मकों से जजिया वसूल पूर्वकाल में किया जाता था। यह धर्मकर था। भारत में तीन से बारह रुपया प्रतिवर्ष गैर मुसलिम धर्मकों से लिया जाता था। विजित देशों में किताबियों को रहने के लिये यह धर्मकर देना पड़ता था। मिस्र में जजिया देने पर, गले में सीसा की एक मुहर लटकाना पड़ता था। इस बात का प्रमाण होता था कि, व्यक्ति ने जजिया दे दिया है और गैर मुसलिम है। उसे सतनत में रहने का सीमित अधिकार है।

फारग में जजिया कर था। यह कर केवल ऐसे व्यक्तियों से लिया जाता था जो २० से २५ वर्ष

की आयु के थे। बीस वर्ष से कम तथा २५ वर्ष से ऊपर की आयु से कर नहीं लिया जाता था। इसका तीन वर्गों में वर्गीकरण किया गया था। सबसे श्रेष्ठ वर्ग से १८ दिरहम, मध्यम वर्ग से आठ या ६ दिरहम तथा निम्न वर्ग से चार दिरहम लिया जाता था। कर राजकीय कोष में प्रति तीसरे मास जमा किया जाता था। धनी, सैनिक, पुजारी, काश्चित्, राजकीय कर्मचारी आदि इस कर से मुक्त थे। मुसलिम शासन में धार्मिक कर रूप में गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। भारत जैसे विशाल देश को तत्काल दारुल इस्लाम में परिणत करना सम्भव नहीं था। उन्हें मौत की घाट उतारना कठिन था। कालान्तर में हिन्दुओं को कित्ताविया मानकर, उनपर जजिया लगा दिया गया। प्रारम्भ में जजिया से ईसाई पादरी तथा यहूदी रबी मुक्त थे। परन्तु बाद में उनपर लगा दिया गया। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया लगाया था। उसके पूर्व जजियः से ब्राह्मण मुक्त थे। काश्मीर में ब्राह्मणों पर जजियः लगाया गया, तो राजतरंगिणी-कारों ने उसकी खुलकर निन्दा की।

इस प्रकार एक ही राज्य में दो प्रकार के नागरिक, दो प्रकार की विधि, कानून एवं राज्य व्यवस्था हो गयी। एक मुसलमानों के लिए तथा दूसरा गैर मुसलिमों के लिए थी। मूर्तिपूजक एवं मूर्ति-विष्वंसक का मार्ग अलग था। उनकी दिशा अलग थी। उनका परिधान अलग था। काश्मीर में सिकन्दर बुतशिकन, अलीशाह सुल्तानों के समय हिन्दू, मुसलमानों के समान कपड़ा नहीं पहन सकते थे, घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते थे, और न हथियार रख सकते थे।

दारुल सुलह की संख्या निश्चित कर दी गयी थी। वह बढ़ायी और घटायी नहीं जा सकती थी। ये सब मान्यतायें सर्वसाधारण मुसलमानों में धर कर गयी थीं और उनके जीवन-दर्शन की अंग थीं।

धर्म के लिए विरोधियों से युद्ध करना जिहाद था। जिहाद का नारा, जब एक मुसलिम देश किसी गैर मुसलिम देश से संघर्ष करता है, तो बुलन्द हो उठता है। अरब देशों का फिलस्तीन के विरुद्ध, पाकिस्तान का हिन्दुस्तान के विरुद्ध, जिहाद का नारा बुलन्द करना फ़ैशन हो गया है। जिहाद प्रत्येक व्यक्ति, सुल्तान एवं शासक का फर्ज माना गया है। यदि कोई मुसलिम देश या वहाँ का शासक, जिहाद का नारा बुलन्द करता है, अथवा नारे के आह्वान पर कार्य करता है, तो इस दर्शन के अनुसार, उसे कैसे दोष दिया जा सकता है ?

मुसलमानों के लिए कलमा, जकात, रोजा, नमाज तथा हज पाँच फर्ज माने गये हैं। जिहाद की गणना पाँच फर्जों में नहीं है। किन्तु उसकी मान्यता मुसलिम जगत में छठवें फर्ज से दी गयी है। उसे फर्ज अलकिफाय कहते हैं। यह सभी वयस्क पुरुषों का फर्ज है। जिहाद का उद्देश्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। दारुल इस्लाम मुसलिमों का निवासस्थान, शान्ति का देश, तथा दारुल हर्ब संघर्ष एवं युद्ध का स्थान है। यदि मुसलिम देश दारुल हर्ब हो जाय तो मुसलिमों का कर्तव्य है कि वे उसका त्याग कर दें। जो स्त्रियाँ इस परिस्थिति में साय नहीं जा सकती थी, उनको तलाक़ देना आवश्यक माना है। दारुल सुलह केवल नादिरान तथा नुबिया है। मुसलिम देशों की सुलह इन्हीं दोनों देशों से हो सकती है।

सिद्धान्त एवं दर्शन परिस्थितियों के मुखापेक्षी है। जिहाद का नारा उस समय सफल हुआ या होता है, जब तलवार के जोर से अपनी इच्छा या बात दूसरों पर लादी जा सकती है। इसराइल के खिलाफ, अरब देशों तथा पाकिस्तान का जिहाद का नारा भारत के खिलाफ इसलिये बेकार हुआ कि उनकी सैनिक शक्ति असफल हो गयी थी। यह नारा आधुनिक जगत में आकर्षणहीन हो गया है। मुसलिम जगत और गैर मुसलिम जगत से युद्ध की स्थिति, संघर्ष की स्थिति समाप्त हो चुकी थी।

पुरानी मान्यतायें आधुनिक वैज्ञानिक युग में आक्षेपण खा चुकी हैं। ईसाई जगत किताबिया है। मुसलिम जगत किताबिया है। यहूदी जगत किताबिया है। मुसलमान किताबियों के देश में निवास कर सकते हैं, यह केवल किताबी दर्शन होकर रह गया है। कोई मुसलमान आज इसराइल में जाकर रहने के लिये तैयार नहीं है। भारत से कट्टरपन्थी विभाजनवादी सब मुसलमान पाकिस्तान में जाकर आवाद नहीं हो सके। अर्थ का स्थान भी राजनीति में होता है। आर्थिक समस्यायें आज राजनीति को धर्म एव सम्प्रदाय में अधिक प्रभावित करती हैं। वर्तमान जगत सातवीं और आठवीं शताब्दी का नहीं रह गया है और न रह गया है, मध्ययुग का।

भारत विभाजन के पश्चात् भारत में जम्मईत इस्लामी आदि कट्टरपन्थी दल बने। भारत के बाहर आर्थिक कठिनाइयों के कारण आवाद होना कठिन था। हकूमते इलाही का नारा बुलन्द किया। भारतीय राज्य की निष्ठा में उनका विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि राशन का अनाज भी वे इसलिये नहीं खरीदते थे कि वह दुकान सरकारी थी। यदि उनकी चलती तो दारुल हर्ब हिन्दुस्तान को दारुल इस्लाम में परिणत कर देते। इस लोकतन्त्रीय काल में सामन्तवादी, सम्प्रदायवादी, उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, देवाधितन्त्रवादी विचारधारायें चल नहीं सकती और लदी नहीं जा सकती। पूर्वी पाकिस्तान अलग बंगलादेश बना। विहारो मुसलमानों को बंगलादेश लेने के लिये तैयार नहीं है। उनकी मुसलिम एकता का नारा, निरर्थक प्रमाणित हुआ है। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा इस्लाम के नाम पर इस्लाम मानने वाले दस लाख से ऊपर मुसलमान बंगलादेश में मारे गये। महिलाओं पर अत्याचार किया गया। परन्तु पाकिस्तानी जगत की मुसलिम जनता, अन्ध बनी, इन अत्याचारों की मूकद्रष्टा थी। उसे पाकिस्तान का विघटन इसलिये अच्छा नहीं लग रहा था कि मुसलिम प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ क्षीण होती और दारुल हर्ब हिन्दुस्तान की शक्ति बढ़ेगी।

काश्मीर मुसलिम-बहुल प्रदेश है। वहाँ धार्मिक, जेहाद, स्वतन्त्र काश्मीर, आत्म-निर्णय आदि के साम्प्रदायिक सुहावने नारे बहुत लगते हैं। काश्मीर में विभाजन के पश्चात् जेहाद के नारे पर, काश्मीर में प्रवेश कर, पाकिस्तान की सेना ने मुसलिम जनता पर अत्याचार किया था। मुसलमानों को लूटा था। मुसलमान स्त्रियों की इज्जत लूटी थी। मुसलमानों का घर फूँका गया था। मारे गये हम-जातीय। साम्प्रदायिकता का नारा, मिलते इसलाम का नारा, आक्रमकों, आततायियों को सन्तुलित नहीं रख सका। इसलिये जब कभी साम्प्रदायिक दर्शन पर, आधारित देवाधिराज, अलौकिक राज्य की स्थापना होगी, रक्तपात होगा, उलझने पैदा होंगी, अराजकता फैलेगी, विकास एव प्रगति कुण्ठित हो जायेगी। यदि बौद्ध, ईसाई एव हिन्दू जगत में इस दर्शन का अनुकरण किया जाय, तो वहाँ के निवासी मुसलमानों की क्या अवस्था होगी ?

यह बातें केवल मुस्लिम दर्शन पर लागू नहीं होती। ईसाई तथा यहूदी भी इस वर्ग में आते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् फिलिस्तीन राष्ट्र का निर्माण हुआ है। वहाँ शतप्रतिशत उन यहूदियों की आवादी है, जो विदेशों से आकर आवाद हुये हैं। निसन्देह पूर्वकाल में यह यहूदियों का देश था। वहाँ से वे महम्मदो वर्ष पूर्व उद्वाहित किये गये थे। उनका मन्दिर एव देवस्थान नष्ट किया गया था। वे विद्व में विरार गये। पुन एकत्रित हुये। एक राष्ट्र बने। उन्हें अपना देश मिला। वे एक दर्शन, एक धर्म, एक जाति के नारा पर मिले। इसराइल राष्ट्र की नींव जातीयता पर रखी गयी। इसराइल में गैर यहूदी अथवा अन्य धर्मावलम्बी पनप नहीं सकता। राष्ट्र का ढाँचा एकांगी दर्शन पर आधारित है। लौकिक बिना धर्मनिरपेक्ष राज्य का विकास वहाँ हो नहीं सकता। जिस दर्शन के कारण यहूदियों को उनके मूल-

जन्म-स्थान से भाग कर, अथवा ईसाई एवं मुसलमानों से उद्वासित होकर, विश्व के कोने-कोने में आवाद होना पड़ा है, उन्हीं कारणों से दूसरे दर्शन वाले, इसराइल में आज आवाद नहीं हो सकते। वहाँ के मूल-निवासी अरबों की वही दशा हुई, जो पश्चिमी पाकिस्तान में, वहाँ के मूल-निवासी हिन्दुओं की हुई है। इसराइल अरबों अथवा अन्य वर्मावलम्बी को अपने देवाविराज में फोड़े की तरह नहीं पालना चाहता, जो किसी दिन फूट सकता था। जैसा काश्मीर में, शाहमीर के समय, यह फोड़ा फूटकर, समस्त काश्मीर का रूप बदल दिया।

हिटलर को यहूदियों की निष्ठा पर अविश्वास था। स्पष्ट घोषित करता था। यहूदी जिस देश में रहते हैं, उसे अपना राष्ट्र नहीं मानते। धर्म एवं राष्ट्र समय पड़ने पर किसे वरीयता दी जाय, वह समस्या उपस्थित होने पर, वे राष्ट्र की निष्ठा त्याग कर, धर्म की निष्ठा का निर्वाह करते हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय जाति के रूप में सर्वत्र, निवास एवं व्यापार करते हैं। हिटलर तर्क देता है, जो अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास करता है, वह राष्ट्रीयता में कैसे विश्वास कर सकता है? उसका विश्वास, उसकी निष्ठा दो स्थानों पर नहीं हो सकती। हिटलर की निष्ठा जर्मनी के प्रति थी। राष्ट्र के प्रति थी। वह आर्यजाति का प्रभुत्व चाहता था। वह आर्य रक्त एवं नील नेत्र का समर्थक था। उसने ईसाई होते भी राज्य का प्रतीक आर्यों का चिह्न स्वस्तिक रखा। आर्य विरोधी परम्परा एवं सेमेटिक जाति का विरोधी था। उसने यहूदियों को जर्मनी से उद्वासित किया। जो नहीं जा सके, उनकी जीवन-लीला समाप्त की गयी। अनुमान लगाया गया है। आठ लाख यहूदी हिटलर द्वारा नष्ट किये गये। अपना देश, अपना राष्ट्र बनने पर, यहूदी गैर यहूदियों के साथ यही करने लगे, उनके ऊपर जो वीती थी, उसे दूसरे पर विताने लगे।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मानव, चन्द्रमा एवं मंगल पर पहुँच रहा है, क्षितिज की सीमा पार कर रहा है, उस समय भी इस जगत में इस दर्शन की सीमा से बाहर निकल कर, मुक्त विचार का प्रयास नहीं किया गया है। यदि काश्मीर में आज से पाँच शताब्दी पूर्व इस तरह की बातें की गयीं तो क्या आश्चर्य है? इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने से नहीं चूकता।

अपने प्रारम्भिक काल में ईसाई जगत इसी प्रकार के दर्शन से प्रभावित था। ईसाइयों ने चार चरणों की कल्पना की थी। प्रथम चरण में आदम का पतन हुआ। आदम के पाप, उसके पतन का प्रायश्चित्त, अभी तक उसकी सन्तानें कर रही हैं। इस प्रायश्चित्त का काल कब समाप्त होगा कहना कठिन है।

दूसरा चरण इस जगत को ईसाई धर्म में दीक्षित करना है। बिना ईसा पर, वाइविल पर, ईमान लाये, मुक्ति असम्भव है। ईश्वर की कृपा किंवा आशीर्वाद पाना असम्भव है। जब तक समस्त जगत ईसा एवं उनके दर्शन पर विश्वास नहीं करता, तब तक जगत का कल्याण असम्भव है। तीसरा चरण मानव के कल्याणार्थ ईसा का क्रॉस पर चढ़ना एवं उनका आत्मोसर्ग है। मानव के लिये क्रॉस पर चढ़ने के कारण क्रॉस वलिदान का प्रतीक हो गया है। ईसाई जगत का प्रतीक हो गया है। प्रत्येक ईसाई के कण्ठ में क्रॉस झूलता है। अथवा शरीर पर क्रॉस का चिह्न बना दिया जाता है। ताकि मृत्यु के पश्चात् भी, क्रॉस उनके शरीर के साथ लगा रहे।

चौथा तथा अन्तिम चरण-पुनरुत्थान है। ईसा के कारण इस जगत का कल्याण होगा। इसी दर्शन के कारण ईसाई प्रवर्तक धर्म हो गया। उसने भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की। जिस देश में ईसाई थे, वहाँ के लिये ईसा ने स्पष्ट कहा, जो सीजर अर्थात् राजा का अंश है, उसे राजा को दिया जाय। ईसाइयों ने

जन्मभूमि की, राष्ट्र की, कल्पना नहीं की। यूनान तथा रोमन साम्राज्य में जब ईसाइयों के सम्मुख देश एव धर्म में चुनने का प्रश्न उठा। उन्होंने धर्म को चुना। धर्म के प्रति निष्ठा प्रकट की। इस प्रकार एक ही देश में दो प्रकार की निष्ठायें थीं। प्राथमिकता धार्मिक निष्ठा को मिली। धर्म की निष्ठा, देश, राजा, शासन को प्रभावित करने लगी।

धर्म के प्रति निष्ठा भी स्थायी नहीं रह सकी। उसका भी विभाजन हुआ। यह निष्ठा रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेण्ट, इस्टर्न, सिरीयन तथा ग्रीक अर्थोडॉक्स चर्च में विभाजित हो गयी। धर्मनिष्ठा क्षीण होती गयी। राष्ट्र के प्रति निष्ठा बढ़ती गयी। देश के प्रति निष्ठा सुदृढ़ हो गयी। समस्त यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया के ईसाई हो जाने के पश्चात् धर्म परिवर्तन का प्रश्न नहीं रह गया था। प्रश्न हो गया, किस चर्च का कौन अनुयायी है? विज्ञान की प्रगति, ग्रीक स्वतन्त्र विचारकों के दर्शनों का अध्ययन, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के कारण, यह निष्ठा अधिकाधिक राष्ट्र में केन्द्रित होने लगी। भाषा ने उसमें योगदान दिया।

नूतन बाइबिल इवरानी भाषा में नहीं लिखी गयी थी। प्रभु ईसा मसीह की कथित भाषा में नहीं लिखी गयी थी। ईसाई जगत के लिये कोई एक भाषा पवित्र एव धार्मिक नहीं थी।

बाइबिल ग्रीक और लैटिन में लिपिबद्ध की गयी थी। प्रयास हो रहा है। नवीन बाइबिल का अनुवाद मूल इवरानी भाषा में कर दिया जाय। मुसलमानों ने अरबी तथा यहूदियों ने इवरानी भाषा को पवित्र मान लिया है। उनका ग्रन्थ तूरात इवरानी तथा कुरान शरीफ अरबी में लिखी गयी है। भाषा की यह एकता यहूदी तथा मुसलमानों को एक साथ रखने में सफल हुई है।

ईसाइयों के लिये बात भिन्न थी। लैटिन भाषा यूरोप की भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा देश एव जाति को एक सूत्र में बाँध रखने में सहायक होती है। यूरोप में अनेक भाषायें, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी, आयरिश, इंग्लिश, गाथिक, कैन्ट, अवेस्ता, लिथुयानी, जर्मन, साल्व, अल्बानी आदि हैं। भाषा के कारण प्रत्येक भाषाभाषी देश में एक भावात्मक एकता का उदय हुआ है। रहन-सहन एव प्राकृतिक वातावरण के कारण वे एक हो गये हैं। प्रकृति का प्रभाव उन्हें एक बना दिया है, उनकी संस्कृति, उनकी परम्परा तथा उनकी सम्यता को जन्म दिया है। उनके साहित्य में स्थानीय प्रकृति वर्णन, स्थानीय गाथा एव स्थानीय गीतों का प्राचुर्य होने लगा। वे अपने देश, अपने प्राकृतिक वातावरण में रहकर सहस्रों मील दूर स्थित, किसी परम्परा, किसी गाथा, किसी इतिहास अथवा किसी वंश-परम्परा से सम्बन्ध स्थापित कर, अपने साहित्य पर विदेशी रंग चढाना पसन्द नहीं किये। उनकी प्रवृत्ति के यह अनुकूल नहीं था।

भारत के मुसलमानों ने फारसी लिपि में लिखना, फारसी में बोलना तथा फारसी में रचना का प्रयास किया। काश्मीर में पीर हुसैन ने सन् १८६० में काश्मीर का इतिहास फारसी में लिखा किन्तु वह साहित्यिक कृति नहीं हो सकी। आज कौन फारसी भाषा जानता और लिखता है? विदेशी भाषा में कवि अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाता, उसमें मौलिकता नहीं आती। भाषा भी जैसे किसी दर्शन की सम्पत्ति हो गयी। उर्दू को मुसलमान अपनी भाषा और हिन्दी को हिन्दू राष्ट्रभाषा मानने लगे।

इन कट्टरपन्थी दर्शनो से जरा हटकर, जिसने विचार किया, वह स्वतन्त्रता की सास लेने लगा। बंगलादेश में यही प्रक्रिया हुई। उनका साहित्य, उनका इतिहास, बंगला में था। उर्दू जबदस्ती उन पर लादी गयी थी। समय आते ही उन्होंने उर्दू को उठाकर, फेंक दिया।

फारसी में फारसी राजमाग बनायी गयी। मुल्तानों का राज्य समाप्त हुआ। फारसी लोप हो गयी। भाषा लाने का यह कृत्रिम प्रयास था। राज-वक्ति द्वारा लाया गया था। मुगलों ने तीन अताबिकों तक भारत में फारसी को राजमाग मानकर प्रत्यय दिया। उनके साम्राज्य लोप के माय, फारसी का भी लोप हो गया। उसके स्थान पर अंग्रेजों ने अंग्रेजी चलाई।

मैंने बकायत आरम्भ किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि स्थानों पर अदालतों में उर्दू चली थी। वस्तावेज, अर्जों-बादा, बयान तहरीरी उर्दू में लिखे जाते थे। उत्तर प्रदेश की अस्सी प्रतिशत जनता उर्दू नहीं जानती थी। कामों में ९८ प्रतिशत व्यक्ति न तो उर्दू पढ़ सकते थे और न लिख। हम पर सन् १९४७ ई० तक उर्दू लगी थी। हम लोग दो मुहूर्तिर रखते थे। एक का काम उर्दू से नागरी लिपि में कागजों का लिखना था। जनता, मुस्लिम, कर्मचारी, बकील आदि हिन्दू अधिक थे। परन्तु ऐसी भाषा में हम कार्य करते थे। जिसे कोई समझता नहीं था।

अंग्रेज आजादी के पूर्व मुस्लिमों को प्रसन्न करने की नीति का अनुकरण करते थे। आजादी आन्दोलन के कारण अंग्रेज हिन्दू विरोधी हो गये थे। आजादी मिलते ही बात बदल गयी। सब काम हिन्दी में होने लगा। जनता, बज, बकील सबको सरलता हो गयी। उर्दू जैसे चीने युग की भाषा विहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमांचल तथा हरियाणा में ही गयी।

अंग्रेजी की भी यही गति हुई। अंग्रेजी तथा हिन्दी को आज समान स्तर दिया गया है। स्कूलों एवं कॉलेजों में स्थानीय भाषाओं के शिक्षा का माध्यम होने के कारण अंग्रेजी लोप हो रही है। कृत्रिम प्रभाव, व्यक्ति किंवा राज्य के बल पर, जब बर्मे के समान भाषा लायी जाती है, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान में उर्दू के विरुद्ध सिन्धी, ब्रूची आदि भाषाओं का आन्दोलन आरम्भ हो गया है।

यूरोप में सभी ईसाई थे। किन्तु भाषा एवं भौगोलिक एकता के कारण भिन्नता आती गयी। ईसाई होने हुए भी वे भाषा, मुगल एवं ऐतिहासिक परम्पराओं के कारण एक दूसरे से भिन्न हो गये। एक वर्ग का स्वार्थ दूसरे वर्ग से टकराया। संघर्ष हुआ। संघर्षों के कारण इतिहास की नवीन परम्परायें बनने लगीं। नवीन गायकों, न्यायीय, प्रादेशिक एवं वैदिक ब्रह्मणों को लेकर बनने लगीं। संघर्ष ईसाई एवं ईसाई के बीच था। ईसाई वर्ग संघर्षों में उन्हें बचा नहीं सका। परिणाम हुआ-वर्गों के प्रति निष्ठा कम होकर, राष्ट्र किंवा वेग के प्रति बढ़ती गयी। वेग एवं राज्य सुरक्षा, विकास एवं न्यायिक प्रशासन का विस्तार होता था। वर्गों इस दिशा में असफल थे। मानव का मौखिक उपकार नहीं कर सका। उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय नहीं दिया सका।

वेग एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठा बढ़ती गयी। संकीर्ण राष्ट्रीयता का उदय हुआ। इस निष्ठा के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में लड़ने लगे। संघर्ष करने लगे। यद्यपि सभी वेग ईसाई वर्गविलम्बी थे। मरने और मारनेवाले दोनों ईसाई थे। तद्यपि वर्गों युद्धों को, संघर्षों को रोक नहीं सका। धार्मिक स्थापित नहीं कर सका। वर्म संकीर्णता का बन्धन स्वतः मिथिल हो गया। व्यक्ति मुक्त विचार करने लगा। चर्च तथा मन्दिर में जानेवालों की संख्या कम हो गयी।

अमेरिका, कनाडा, फ्रान्स तथा इटली आदि देशों के ईसाई वर्म प्रचारक गैर ईसाई देशों में फैलने लगे। कदावत प्रसिद्ध हो गयी। राज-भताका के पीछे वर्म चला है। ईसाई देशों ने जहाँ उपनिवेश बनाया, वहाँ चर्चों की गृहलायें खड़ी कीं। वर्म प्रचार, मत परिवर्तन के, हथकण्डे अनाये जाने लगे। मिशनरियों के मजाल, स्कूल, वैयक्तिक संस्थायें, अनायालय, वर्म प्रचार के केन्द्र बन गये।

यूरोपीय साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जिन देशों में गया वहाँ की जनता ईसाई नहीं थी। वहाँ शासन स्थापित कर, विराधी वर्ग से, शोषित वर्ग से, वेतनभोगी वर्ग से, अपने समर्थकों की सख्या बढ़ाने लगे। इसका माध्यम धर्म परिवर्तन हुआ। इस धर्म परिवर्तन के कारण, राज धर्म ग्रहण करने के कारण, प्रत्येक उपनिवेश एव राज्य में समर्थक वर्ग पैदा हो गया।

भारत में आग्ल भारतीय एव ईसाइयों को राजप्रश्रय मिल गया। राज-सेवायें सरलता से सुलभ हो गयी। पदोन्नति में वरीयता दी जाने लगी। इस नीति के कारण प्रत्येक प्रदेश में समर्थक एव विरोधी दल स्वतः वित्त दासत्व में जकड़ गये। साम्राज्यवाद एव उपनिवेशवाद को मजबूत करने के लिये, धर्म परिवर्तन पर जोर दिया जाने लगा। आज भी केरल के मुस्लिम एव ईसाई चाय वागानों के मालिक उन्हें सेवा में तुरन्त रख लेते हैं, जो उनके धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। मुसलिमों की धर्म-परिवर्तन प्रक्रिया पुरानी तथा असंस्कृत थी। ईसाइयों ने धर्म-परिवर्तन किया, सुसंस्कृत, सुधार एवं आर्थिक विकास के साधनों को सम्मुख रखकर, शक्ति से नहीं, अनुनय, विनय, शिष्टता एव शिक्षा के द्वारा।

ईसाई स्वतन्त्र राष्ट्रों में मिशनरी सेवा के माध्यम से प्रवेश किये। चीन, जापान तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में चर्च, अस्पताल, स्कूल, शैक्षणिक एव तकनीकी संस्थाओं के नाम पर पहुँचे। विकास एव लोकतन्त्र का सुनहरा नाम धर्म का साधन बन गया। चीन में राज्यक्रान्ति हुई। सत्ता रोमन कैथोलिक डाक्टर सनयात सेन, तत्पश्चात् रोमन कैथोलिक चाग कार्ड शेक के हाथों में आयी। पुरातन चीनी सभ्यता, संस्कृति के स्थान पर विदेशी सभ्यता, संस्कृति एव धर्म का प्रचार जोर पकड़ने लगा। राज्यपद ईसाइयों को मिलने लगा। ईसाई होने का अर्थ चाग कार्ड शेक का कृपापात्र होना था। चाग कार्ड शेक तथा डाक्टर सनयात सेन के सहयोगी ईसाई अधिक थे, अमेरिकी प्रसारवादियों ने उन्हें सहायता दी। समय बीता। जनता जागी। चाग कार्ड शेक को ताइवान भागना पड़ा। मैं ताइवान अथवा फार्मोसा गया हूँ। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। जनता ९० प्रतिशत गैर-ईसाई थी। परन्तु चाग कार्ड शेक के मन्त्रिमण्डल में ९० प्रतिशत ईसाई थे। मन्त्रिमण्डल में एक भी मन्त्रिमण्डल स्तरीय गैर-ईसाई मन्त्री नहीं था। कुछ कन्फ्यूसम या बौद्ध उपमन्त्री किंवा राज्यमन्त्री थे। उनकी गणना द्वितीय श्रेणी के नागरिकों तुल्य थी। बड़े पैमाने पर ईसाइयत का प्रचार किया जा रहा था। राजसेवा में, राजप्रतिष्ठानों एव कार्य-पालिकाओं में ईसाइयों को प्राथमिकता दी जाती थी। ईसाई होना योग्यता तथा गुण माना जाता था। नवधर्म परिवर्तित ईसाई गर्व से अपने ईसाई होने का घोष करते थे।

मैं वहाँ की सरकार के निमन्त्रण पर ताइवान गया था। वहाँ उपनिवेश उपमन्त्री श्री सैम्पसन सी सेन ने काशी विश्वविद्यालय में पी०-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की थी। कन्फ्यूसस थे। उन्होंने मुझे भोजन के लिये आमन्त्रित किया। चीनी प्रथा के अनुसार एक गोल टेबुल के चारों तरफ कुछ लोग भोजन करने बैठे। टेबुल पर ही एक धूमते दूसरे टेबुल पर खाना सजा था। उसे घुमा देने पर पकवान सामने आ जाता था। इस प्रकार परोसने तथा मागने की समस्या का निराकरण हो गया था। मेरे वामपार्श्व में एक चीनी महिला बैठी थी। बात-बात में वह कह उठती थी। रोमन कैथोलिक थी। ईसाई थी। इसका उन्हें बड़ा गर्व था। वह चारों ओर अभिमान से देखती थी। अपनी ईसाइयतका ढिंढोरा पीट रही थी। मैंने पूछा—आपकी माता क्या थी? वे बोली बौद्ध थी। कहते-कहते उनका मुख लज्जा से जैसे उदास हो गया। मुझे उन पर दया आयी। उन्हें गम्भीरतापूर्वक देखते हुये मैंने कहा—मैं हिन्दू हूँ। हिन्दू रहना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म भी हिन्दू धर्म है। दो बौद्ध भी खाने पर बैठे थे। उनका मुख खिल उठा। वे अपना भाव छिपाने की चेष्टा करने लगे। महिला को धक्का लगा। उसने अपने मुख के पास लगे हुये चम्मच को

नीचा करते हुये मेरी तरफ तेज निगाहों से देखा। मैं नुसकुरा उठा। पुनः खाने लगा। महिला की तरफ देखा नहीं। सभी लोग इस सन्वाद से जैसे विरक्त हो गये थे। वहाँ उपस्थित सभी के पूर्व पुरुष कर्मी बाँध थे। उनमें से कुछ ने इस जीवन में ईसाई धर्म स्वीकार कर, राज-सन्मान एवं पद प्राप्त किया था।

वाइमान से लौटकर भारत आया। श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्रधान मन्त्री से वहाँ की बातें बतायीं। उन्होंने स्मरण कर कहा—जाग जाई मेक भारत आये थे, तो बार-बार पिता जी (पं० जवाहर लाल नेहरू) से वही पूछते थे। भारत में ईसाई कितने हैं? उनकी क्या स्थिति है?

वाइमान (बन्ना) उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में बँट गया। कारण धर्म का विच्छेद रूप था। दक्षिण वाइमान में १० प्रतिशत बाँध थे। अमेरिका नियन्त्रित वहाँ के मन्चिनप्लेड में ९० प्रतिशत ईसाई मन्त्री थे। प्रतिक्रिया हुई। बाँध निम्न ईसाइयों के अत्याचार से उद्वेगित, स्वयं अपने शरीरों में आग लगा कर, मरने लगे। मरकर पृष्ठ हुआ। लाखों लोग मरे। अन्त में दोनों वाइमान एक हुए।

समाजवादी विचारधारा इस प्रकार के दर्शन में विश्वास नहीं करती। उस में सोवियत तन्त्र के उदय के पश्चात् ईसाई जगत लोकतन्त्रात्मक तथा कन्स्युमिष्ट गुटों में बँट गया है। कन्स्युमिष्ट दर्शन, धर्म में, ईश्वर में, विश्वास नहीं करता। वहाँ मान्यनाइक विचारधारा स्थान नहीं पा सकी। वहाँ के ईसाई भी संकीर्ण सन्तदायवाद की सीमा लौट गये हैं। मानव जगत के अंग हो गये हैं। धर्म एवं दर्शन शोषकों, पूर्वाग्रहियों तथा प्रतिक्रियावादियों के स्वार्थ सिद्धि का साधन मान लिया गया है। एशियाई सोवियत संघ में अनेक बहुसंख्यक मुसलमान राज्य हैं। धर्म का नारा जोर नहीं पकड़ सका। धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म का नारा महत्वहीन था। वे बचे रह गये।

उप यहुदी कन्स्युमिष्ट देशों में नहीं रह सके। वे अपनी नातुभूमि त्याग कर इसराइल में आवास हो गये। उन्हें नास्तिकों के देशों में रहना पसन्द नहीं आया। यद्यपि कन्स्युमिष्ट का प्रवर्तक स्वयं नास्तिक भी यहुदी था।

मुसलमान उन देशों से भागे नहीं। उनकी नीति है। जहाँ वे बहुसंख्यक होते हैं, वहाँ वे देवाधि-तन्त्र और वहाँ अल्पसंख्यक होते हैं, वहाँ धर्म निरपेक्षवाद का नारा बलवत् करते हैं। हकूमत के विच्छेद आवाज नहीं उठाते। उनसे मिल जाते हैं। वक्ते हकूमत को अपना दावदाह किया नासक नाम लेते हैं।

बंगला देश इसका अपवाद है। वह चारों ओर गैर मुस्लिम आवादी से घिरा है। उसकी राजनीति को गैर-मुस्लिम प्रभावित कर सकते हैं, न कि हजाराँ मील दूर स्थित पाकिस्तान अथवा इण्डोनेशिया एवं मलेशिया के मुसलमान। यही कारण है कि जगत के मुस्लिम राष्ट्रों ने अपना आदर्श इस्लामिक राज्य घोषित किया है। वे सब इस्लामी राज्य एवं इस्लामी राज दर्शन में विश्वास करते हैं। बंगला देश ने धर्मनिरपेक्ष राज्य अपना आदर्श घोषित किया है। यह विशेष परिस्थितियों का परिणाम है। उनकी भाषा अलग है। उनका रहन-सहन अलग है। उन पर घोर अत्याचार स्वयं उप कट्टर पन्थी मुसलमानों ने किया है।

इसी प्रकार काश्मीर में जब तक हिन्दू राजा तथा राज्य था, तब तक वह कुफ्र का गढ़ था। जब काश्मीर मुसलमान हो गया, दादल हर्ष से, दादल इस्लाम हुआ, तो पवित्र बन गया। इसी प्रकार होली रोमन साम्राज्य की कल्पना की गयी। जैसे दलीफा मुसलमानों का सर्व सत्ता सम्पन्न व्यक्ति था, उसी प्रकार पोप बन गया। मुस्लिम जगत के खलीफाओं के समान, ईसाई राजागण रोम के पोप से, मान्यता लेने लगे। धर्म एवं राजनीति एक में मिल गयी। राजाओं तथा अन्तर्गत में पोप के निरंकुश व्यवहार की प्रतिक्रिया

होने लगी । प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय का उदय हुआ । ईसाई समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया । दोनों वर्गों के भयंकर सघर्षों का इतिहास अति रक्त रजित है ।

प्रारम्भिक युग के ईसाई लोग में जब धर्म एव राष्ट्र विवाद खड़ा होता था, निष्ठा का प्रश्न उपस्थित होता था तो वे धर्म को चुनते थे । उसी के प्रति निष्ठा प्रकट करते थे । धार्मिक नेताओं का आदेश पालन करते थे । यह स्थिति उस समय तक रही, जब तक समस्त यूरोप ईसाई नहीं हो गया । यही अवस्था काश्मीर की हुयी । हिन्दू राज्य में मुसलमान निवास करते थे । किन्तु उनकी निष्ठा राज्य के प्रति न होकर, धर्म के प्रति थी । कोटा रानी की हत्या एव शाहमीर के सत्ता मिलने पर, मुस्लिम जगत ने सुख की नीद ली थी । वे अपने धर्मावलम्बी के अन्तर्गत आ गये थे । उनकी निष्ठा सुल्तानों में निहित हो गयी ।

लाहौर से मोरक्को तक का विशाल भूखण्ड फारसी भाषा, फारसी लिपि, तत्पश्चात् अरबी भाषा एव अरबी लिपि से प्रभावित है । उनमें तथा ईसाई और हिन्दुओं में कुछ साम्य नहीं है । इस विशाल भूखण्ड के नागरिक वैज्ञानिक उन्नति नहीं कर सके । विकासशील नहीं हो सके । प्रगतिशील नहीं हो सके । उनमें राष्ट्रीयता का उदय नहीं हुआ । परन्तु पश्चिमी देशों की राष्ट्रीयता का प्रभाव उन पर पड़ने लगा । उनमें भी राष्ट्रीयता अकुरित तथा कुण्ठित होने लगी है । उनका अधिक झुकाव अपने दर्शन की ओर रहता है । राष्ट्र उनके लिये गौण हो जाता है । वे जहाँ जाते थे, अपने समाज, अपने दर्शन के कारण, अपने धर्मावलम्बियों में मिल जाते थे । इसलिये उनमें राष्ट्रीयता का उदय नहीं हुआ । वे मिल्लत की भावना से ओत-प्रोत है । उनकी जीवनचर्या, नीति एव व्यवहार मिल्लत के चारों ओर घूमती है ।

ईसाई एव मुस्लिम दर्शनों का अन्तर, उनके धर्म प्रवर्तक महात्मा ईसा मसीह तथा पैगम्बर साहब के जीवन चरित्र के अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा । ईसा महात्मा थे । ब्रह्मचारी थे । असग्रही थे । अपने लिये घर नहीं बनाया, कुटुम्ब नहीं बनाया, गृहस्थी नहीं बनाया । बिगड़े समाज को देखा । धर्म के नाम पर चलते व्यवसाय और उनके करने वाले वर्ग को देखा । धर्म के कथित ठीकेदारों को देखा । उन्होंने सुधार के लिये आवाज उठायी । भक्ति मार्ग का वरण किया । किसी के ऊपर अपने विचार, अपने मत को लादने का प्रयास नहीं किया । किसी के उपासना स्थान, देव स्थान को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया । उसके लिये प्रेरणा दिया । मत परिवर्तन के लिये न सघर्ष किया और न करने का सलाह दिया । उन्होंने किसी को मारने, किसी को कष्ट देने की कल्पना नहीं किया । उनका मत अहिंसक है, उसमें प्राणियों के वलिदान का स्थान नहीं है । उसमें करुणा है । वह दूसरों के मत का परिवर्तन उत्सर्ग, वलिदान, आचरण एव नैतिक प्रभाव के कारण करना चाहा । वे स्वयं क्रूस को अपने कंधों पर ढो कर लाये और उस पर चढ़े । उन्होंने सूली चढ़ाने वाले को, दण्ड दाता को, शाप नहीं दिया । ईश्वर से प्रेम करने की बात कही, न कि भय । मानव में बँठी मानवता में विश्वास किया, उसे जगाया । उन्होंने मानव सेवा द्वारा, मानव प्रेम द्वारा, भगवान तक पहुँचने की कल्पना की । कालान्तर में उनके अनुयाइयों ने धर्म को प्रवर्तक रूप दे दिया । एक नवीन प्रवर्तक दर्शन का आश्रय लिया । वह दर्शन था अपनी सख्या अपना गोत्र बढ़ाने वाला ।

सन्त आगस्टाइन (सन् ३२४-४३० ई०) ने दो जगत की कल्पना किया—लौकिक तथा अलौकिक, धर्म निरपेक्ष एव सापेक्ष जगत की । उसमें रोम को राक्षस नगर एव यरूशालम को देव नगर की सजा दी गयी । यरूशालम में ईसाई थे अतएव वह देव और रोम में गैर ईसाई थे अतएव उसे राक्षस नगर कहा गया । ईसाई कामन वेल्थ की कल्पना की गयी । रोम का धर्म ईसाई तथा राजा ईसाई हो गया, तो उसे पवित्र नगर मान लिया गया ।

यहूदी, ईसाई एवं मुसलिम शाही परम्परा के देश, लौकिक सिद्धान्त वाली देश, ग्रीस, मिथ्र, वेवलोन

एवं रोम सांसाज्य के पड़ोसी थे । तथापि उनका दृष्टिकोण अलौकिक बना रहा । यहूदी भगवान की चुनी जात बन गये । उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का दावा किया । आज भी करते हैं । इस श्रेष्ठता के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई । उन्हीं से निकले ईसाई तथा मुसलमान उनसे अलग हो गये । उनसे संघर्ष करना पड़ा । पहले धर्म एवं राज्य को सम स्तर पर रखने का प्रयास किया गया । परन्तु समभाव उत्पन्न होते ही, धर्म की राज्य पर मान्यता ईसाई तथा मुसलिम देशों में दे दी गयी ।

इनके विरुद्ध आर्य एवं मंगोलीय जाति लौकिक सिद्धान्त में विश्वास करती थी । आर्य भूमि यूरोप के ईसाई होते ही, स्थिति बदल गयी । परन्तु भारत एवं चीन लौकिक सिद्धान्तों पर अडिग रहा ।

पैगम्बर साहब का ग्राहस्थ जीवन था । वे विरागी नहीं थे । विरक्त नहीं थे । घर गृहस्थी से नहीं भागे थे । दुनियाँ से विरक्त नहीं हुए थे । उन्हें अपने ही गोत्रीय एवं अरबों से लड़ना पड़ा । हथियार उठाना पड़ा । विवाह करना पड़ा । घर गृहस्थी जमाना पड़ा । अपने लिए स्थान बनाना पड़ा । स्नेही पिता हुए, पति हुए, अपने विश्वास एवं विचार के पक्के हुए । उन्हें मध्य मार्ग पसन्द नहीं था । वह प्रत्येक मुसलमान से ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण की आकांक्षा रखते थे । पूर्ण विश्वास की आकांक्षा करते थे । सिद्धान्तों एवं आदर्शों के समझौते में, साझे में, विश्वास नहीं करते थे । प्रतिमा पूजन के कट्टर विरोधी थे । ईश्वर एवं मनुष्य के मध्य किसी पुरोहित वर्ग की कल्पना नहीं की थी । कावा से मूर्तियाँ उनके समय हटायी गयी थी । प्रतिमायें उनके सामने भंग हुई थी । तायफ स्थित लात की मूर्ति उनके आदेश से भंग की गयी थी । मनात की मूर्ति तोड़ी गयी । इसी प्रकार अन्य मूर्तियाँ टुकड़े-टुकड़े कर दी गयी । एक वार उनके धर्म में प्रवेश पाने के पश्चात्, निकलने की गुंजाइश नहीं थी । उसका दण्ड मृत्यु था । शिक की सजा मौत थी । उनके धर्म में गुलाम-स्वामी, गरीब-अमीर राजा एवं प्रजा सब समान थे । सब अल्लाह के वन्दे थे । आर्थिक एवं सामाजिक विषमतायें, उनमें भेद उत्पन्न नहीं कर सकती थी । मसजिद में सब एक साथ, एक कतार में अल्लाह की इबादत करते थे ।

यही कारण है कि मुसलमान अपने मत का प्रचार तलवार की नोक पर करने में नहीं संकोच करता था । उन सभी साधनों को माध्यम बनाने की कल्पना करते थे, जिससे अधिक से अधिक लोग ईमान लाने वाले बने । वह संख्या इतनी बढ़ जाय कि समस्त जगत में केवल एक इस दर्शन के अनुयायी रह जाय । किन्तु यह सब पुरानी बातें थी । पुरानी मान्यतायें हैं । उनका समय बीत चुका है । लौट कर पीछे देखने की अपेक्षा आगे देखना उचित है ।

ईसाई प्रवर्तक धर्म होकर भी उग्र नहीं हो सका । शस्त्र के स्थान पर धर्म प्रचार का माध्यम सेवा बनाया । ईसाई पादरी गण जन-जीवन में प्रवेश किये । जनता में हिल-मिल गये । उनके सुख-दुःख में काम आये । परन्तु इस्लाम ने विजय एवं शक्ति का आश्रय लिया था । जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, उसके लिए स्थान नहीं था । सहिष्णुता की जगह नहीं थी ।

परिस्थितियों से बाध्य होकर, मुसलिम बहुसंख्यक देश में, मुसलिम राज्य में, जहाँ भी कहीं हिन्दू थे, अपने घरों में पूजा करते थे । काबुल में मैंने घरों के अन्दर देवस्थान बने देखा है । काबुल शहर में हिन्दू तथा सिखों के कई गुरु द्वारे हैं । परन्तु वे मकानों के अन्दर हैं । मैंने इस प्रकार के ठाकुर तथा गुरुद्वारों की यात्रा की है । मुझे स्मरण है कि काबुल में आठ या दस देवस्थान सिखों तथा हिन्दुओं के थे । वहाँ रागभोग लगता था । पूजा होती थी ।

मुझे अच्छी तरह स्मरण है । आजादी के पूर्व मसजिदों के सामने बाजा बजाना कठिन था । सार्व-

जनिक रूप से गाय की कुर्बानी की जाती थी। उनके कारण हिन्दू-मुसलमानों के दंगे हुये थे। भारत की आजादी के पश्चात् वाजा की समस्या समाप्त हो गयी। गौहत्या समस्त भारत में वर्जित कर दी गयी। किन्तु आज भी मुसलमान जिन स्थानों पर बहुसंख्यक हैं, वहाँ अपनी बात मनवाते हैं। सन् १९७२ ई० में एक चुनाव सभा में मैं भाषण करने गया। नमाज का वक्त हो गया। मुझे कहा गया। नमाज के पश्चात् ही लाउडस्पीकर से भाषण हो सकेगा। चुनाव में हमारे पक्ष का उम्मीदवार भी मुसलमान था। मुझे बात पसन्द नहीं आयी। मैंने भाषण नहीं किया। वहाँ से दूसरी आयोजित सभा में चला गया।

आजादी पूर्व साम्राज्यवादी अंग्रेजों तथा उनके गुर्गों के कारण यह सब होता था। राज प्रथम समाप्त होते ही गाय की कुर्बानी समाप्त हो गयी। मसजिदों के सामने वाजा बजने लगा। लोग एक दूसरे, के धर्म भावना का आदर करने लगे। इतिहास पढ़ने लगे। कुछ आततायी अत्यन्त उग्र थे। हकूमते इलाही में विश्वास करते थे। भारतीय गणतन्त्र में विश्वास नहीं करते थे। उन पर अकुश लगा। राज-शक्ति के सम्मुख वे चाहकर भी उठ नहीं सके। बाध्य होकर, लोक कल्याणकारी, उदार लौकिक राज्य के स्तित्व को मानना पड़ा। अन्यथा दर्शन ने दोनों के मध्य गहरी खायी खोद दी थी, जिमका पटना कठिन हो गया था।

यह दर्शन चाहे झगडालू रेगिस्तान अरबों को नियन्त्रित करने में, चाहे अनेक सुधार करने में सफल रहा है परन्तु जा रहन-महन रेगिस्तान के लिए उपयोगी हो सकता है, वह हिमालय में नहीं हो सकता। यह दर्शन उन क्षेत्रों में शीघ्रतापूर्वक फैला, जो रेगिस्तान थे, उजाड़ थे, जहाँ घुमन्तू जातिर्या थी। सामाजिक ढाँचे की इकाइयाँ कबीला होते थे। जहाँ कारवाँ लूटे जाते थे। कबीले लडते थे। लूट-पाट होती थी। इमलाम उन देशों में व्यापक नहीं हो सका, जहाँ समाज सुसंस्कृत था। सम्य था। कला-कौशल विकसित थी। जहाँ का जीवन आनन्दमय था, सुखमय था। उल्लासमय था।

जिन देशों की ऐतिहासिक परम्परा थी। जहाँ देशभक्ति प्रौढ थी। वहाँ इसलाम प्रगति नहीं कर सका। उसे पश्चिम में रोमन तथा यूनानी सम्यता से सामना करना पड़ा। उनकी वाढ रुक गयी। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी एवं रूस में वे नहीं बढ सके। इसी प्रकार पूर्व में भारत तथा चीन पहुँच कर, उनकी वाढ रुक गयी। इस दर्शन का प्रभाव उसके आरम्भ से दो शताब्दियों पश्चात् जहाँ था, वही तक सकुचित रह गया। उत्तरी अफ्रीका, तुर्की, तुर्किस्तान, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान तक पहुँचा था, वही सीमित रह गया। भारत में इस दर्शन को निरन्तर सघर्ष करना पड़ा। चीन में विकसित नहीं हो सका। प्रश्न उपस्थित होता है। मलेशिया तथा इण्डोनेशिया में इस दर्शन का कैसे प्रसार हुआ। इसका उत्तर मैंने अपनी पुस्तक 'दक्षिण पूर्व एशिया' में दिया है।

ईसाई, बौद्ध एवं हिन्दू जगत जागरूक हुआ, तो अरब के रेगिस्तान से उठी, आवाज आप से आप शान्त हो गयी। यह भूखण्ड आज विश्व का सबसे पिछडा भाग है। वहाँ न तो लोकतन्त्र है और न जन-हित, न जीवन सम्बन्धी कार्य विस्तार। प्राचीन काल के समान एक सुल्तान या एक नेता दूसरे को हटाकर सत्ता प्राप्त कर लेता है। सैनिक कूपों द्वारा सत्ता उलटी जाती है। बात वही है। प्रवृत्ति वही है। वस्तु-स्थिति के परिवर्तन के कारण उनके प्रकार में, उनकी प्रक्रिया में, केवल अन्तर हो गया है।

सुमसृष्ट, पुरातन, विकसित सम्यता ईरान के सम्पर्क में अरब आये। ईरानियों ने उन्हें अपने साँचे में ढाल लिया। वे तलवार का सामना करने में असमर्थ थे। मुसलमान होने पर भी, शिया सम्प्रदाय ग्रहण कर, शेष मुसलिम जगत से अपनी स्थिति भिन्न बना ली। ईरान की पुरानी दार्शनिक परम्परा सूफी मत में प्रवाहित हो गयी।

इण्डोनेशिया में महाभारत, रामायण तथा पुरानी परम्परायें पूर्ववत् चलती रही। भाषा नहीं बदली। दक्षिण पूर्व एशिया तथा तुर्की में अरबी तथा फारसी लिपि का प्रचार क्रिया गया। उन पर लादा गया। परन्तु समय आया। रोमन लिपि प्रचलित हो गयी। जिस देश का अपना साहित्य था, अपनी परम्परा एवं इतिहास था, वहाँ भी मुसलिम वृद्धि रुक गयी। अपनी क्रूर सैनिक शक्ति के आघार पर इसने अपना पैर अवश्य जमा लिया। परन्तु जहाँ भी साहित्य, भाषा एवं समाज विकसित था, वहाँ लोग मुसलिम धर्मावलम्बी होते हुए भी, इस दर्शन के मुख्यापेक्षी नहीं हुए। अन्ध अनुकरण नहीं कर सके। उन्होंने दोनों का समन्वय किया। उन्हें अपने देश-प्रदेश के अनुरूप बनाया। इसका ज्वलन्त उदाहरण बँगला देश है। वहाँ उर्दू भाषा एवं लिपि के स्थान पर बँगला भाषा एवं लिपि पूर्ववत् कायम रही। इस्लामिक राज्य के स्थान पर धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया।

काश्मीर का अपना संस्कृत साहित्य था। पुरातन परम्परा से ओत-प्रोत था। मुसलिम शासन के पश्चात् काश्मीरी भाषा केवल बोल-चाल की भाषा रह गयी। उनका साहित्य विकसित नहीं हो सका। विदेशी फारसी भाषा साहित्यिक भाषा बनायी गयी। परिणाम हुआ। मौलिकता नष्ट हो गयी। उनका अपनापन नष्ट हो गया। नकल मात्र रह गये। इसलिए छः शताब्दियों तक काश्मीर उठ नहीं सका। वह झुकता ही गया। शाहमीर वंश के पश्चात्, चक, मुगल, पठान, सिख, डोगरा एक के पश्चात् दूसरे आते रहे। शासन करते रहे। काश्मीर सहन करता रहा। आज भी वह जिस आजादी का भोग कर रहा है, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। वह भारतीय स्वातन्त्र्य विस्तार का एक रूप है।

भारतीय तथा विश्व के अन्य धर्मों में सबसे बड़ा अन्तर कर्म सिद्धान्त का है। पश्चिम में कर्म सिद्धान्त के स्थान पर भाग्य तथा विश्वास ने स्थान प्राप्त किया। हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि भारतीय धर्म कर्म में विश्वास करते हैं। वे मुक्ति, ईश्वर के आशीर्वाद, कृपा, अनुग्रह स्वर्ग प्राप्ति, पाप से निवृत्ति का कारण, किसी अव्यक्त शक्ति को नहीं मानते। भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म मानव के लोक एवं परलोक दोनों को नियन्त्रित करता है। वे विश्वास करते हैं। कोई फल किसी कर्म का ही परिणाम होता है।

मृत्यु नहीं होती। काया परिवर्तित होती है। वे जो कुछ हैं, या होंगे, वह सब कर्म का परिणाम है। इस जीवन की सीमा केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है। वह एक चक्र है, चलता रहता है, कभी शिथिल नहीं होता। किसी पर दया नहीं करता, अनुग्रह नहीं करता, कर्मानुसार प्राणी स्वयं फल पाता है।

ईसाई, यहूदी एवं मुसलिम विश्वास करते हैं—उनका जन्म एवं मृत्यु अन्तिम है। मृत्युपरान्त कयामत के दिन, ईश्वरीय न्याय के दिन उठेंगे। तब तक वे चिर निद्रा में, लाखों-लाखों वर्ष सुप्तावस्था में पड़े रहेंगे। उनका पुनरुत्थान ईश्वर की कृपा पर है। इस विचार के कारण ईसाई एवं मुसलिम दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। वे अपनी सीमा बना लेते हैं। किन्तु कर्मवादी आत्मा के अमरत्व में विश्वास करते हैं। वे विश्वास करते हैं। उनका कर्म, उनका संस्कार, उनका साथ नहीं त्याग सकेगा। उनका जन्म एवं मृत्यु अन्तिम नहीं हैं। अनेक जन्म-जन्मान्तरों एवं योनियों की शृंखला में एक कड़ी मात्र है। वे जहाँ तक पहुँच गये हैं, उसके पश्चात्, पुनर्जन्म के पश्चात् और आगे बढ़ते जायेंगे। वे उस समय तक बढ़ते जायेंगे, जब तक उन्हें निर्वाण या मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती। अतएव भोग की, धर्म की सीमा इस जन्म तक सीमित नहीं है। मुसलिम दर्शन विश्वास करता है—मानव का केवल एक बार जन्म एवं मृत्यु होती है। पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण, इस दर्शन के मतानुयायी इस सांसारिक जीवन में सब-

कुछ भोग लेना चाहते हैं। मृत्यु पश्चात् उनका दर्शन विश्वास दिलाता है। स्वर्गीय सुख प्रसाधन केवल ईमान लाने वाले तक सीमित है।

भोग लीप्सा की सीमा नहीं रहती। भोग प्रवृत्ति के कारण हरम बढ़ता है। भौतिक प्रसाधन बढ़ने है। सुख के लिये वह किसी गैर मुसलिम को लूटता-पाटता है, उनसे धर्म के नाम पर युद्ध करता है, उनका दमन करता है, तो इस विश्वास के साथ करता है कि कोई पाप नहीं कर रहा है। ईमान लाने के कारण उसका स्वर्ग सुरक्षित है, अतएव इस जीवन में निरकुश हो जाता है। प्रगतिशील नहीं होता। वह अन्ध-विश्वास करता है, अपने धर्म पर। अपनी बुद्धि एव अपने कर्म पर, विश्वास नहीं करता। वह बंधे जल के समान हो जाता है, स्थिर जल के समान हो जाता है, उसमें गति नहीं होती। कर्मवादी आत्म-विश्वास करता है, अपने विवेक पर विश्वास करता है। अतएव वह गतिशील जल तुल्य सर्वदा जीवन-प्रद नवीन बना रहता है।

कर्मवादी स्वतन्त्र विचार करता है। भाग्यवादी स्थिर होता है। सब कुछ भाग्य पर छोड़कर, बैठा रहता है, गतिहीन हो जाता है। गतिहीन जल, बन्धा जल, निश्चल जल, जीवन शक्ति खो देता है। कर्मवादी सरिता जल तुल्य है। वह जल स्वत आता है, बहता है, नदियों में मिलता है, महानदी में मिलता है। बहते-बहते और छोर हीन, विशाल समुद्र में मिल जाता है।

कर्मवादी अपनी बुद्धि अपने विवेक से काम लेता है। विश्वास में भी तर्क ढूँढता है। परिस्थितियों के अनुसार ढलता चलता है। कोई भी मत, कोई भी सम्प्रदाय अपने समय का सुधारवादी आन्दोलन होता है। जडता, रूढ़वादिता, कुसस्कार एव परम्परा बद्ध व्यक्तियों को, मुक्त करता है। तत्कालीन कुरीतियों, विकृत दशनों, पथभ्रष्ट धर्मों से हटाकर, व्यक्ति को समाजोपयोगी, देशोपयोगी बनाने का प्रयास करता है। मूल धर्म, मौलिक धर्म, जब विकृत हो जाता है, तो जनता का उपकार नहीं कर पाता। परिणाम होता है कि धर्म के अन्तर्गत अनेक मत-मतान्तर एव सम्प्रदायों का उदय होता है। धर्म उपयोगिता खोकर केवल कर्मकाण्ड रह जाता है। कुसस्कार उस पर अपना रंग चढ़ा देता है—जडता उसे लेकर बैठ जाती है।

धर्मों में स्वर्ग, जन्नत एव विहिस्त की कल्पना की गयी है। परलोक में ससार के ही समान बल्कि उससे कुछ अधिक भौतिक सुख मिलते हैं। यह भी दर्शनों की सकीर्णता में योगदान करता है। भारतीय दर्शनों का लक्ष्य निर्वाण है। वेद में स्वर्ग-नर्क की कल्पना नहीं की गयी है। स्वर्ग-नर्क की कल्पना पौराणिक युगों की देन है।

मुस्लिम दर्शन जन्नत की कल्पना करता है। जहन्नुम की कल्पना करता है, दोजख की कल्पना करता है। ईसाई जगत हीवेन अर्थात् स्वर्ग की कल्पना करता है। ईसाई विश्वास करते हैं, महात्मान ईसा स्वर्ग से आये थे, वही गये। भगवान् की उपस्थिति में अपने अनुयाइयों की ओर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में उन पर विश्वास करने वाले जायेंगे। प्रभु ईसा मसीह उनके विषय में भगवान से सस्तुति करेंगे। बाइबिल में, कुरान शरीफ के समान स्वर्गीय सुखों की कल्पना नहीं की गयी है। उसमें पैरेडाइज शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ कुलों का उद्यान होता है। यह मूलत फारसी शब्द है।

ईसाइयों ने नर्क अर्थात् हेल की कल्पना की है। उसका आधार यहूदी शब्द शियोल है। मृत्यों-परान्त पाप का दण्ड दिया जाता है। चरम दुःख का स्थान है। दैत्यों तथा उनके गण वहाँ रहते हैं। निरन्तर भयंकर अग्नि जलती रहती है। स्वर्णनेवियन दर्शों में विश्वास है कि हेल में मर्त्य, पापियों को

काटते रहते हैं। पुरातन बाइबल में नर्क की कल्पना नहीं की गयी है। पुरातन फारसी जगत में अहिरमन नर्क की कल्पना की गयी थी। यूनानी नर्क को तरतास कहते थे।

मुस्लिम जगत स्वर्ग एवं नर्क की कल्पना करता है—‘पवित्र मुसलमानों को अल्लाह ने जन्नत का सुख बख्शा है। वहाँ वे सरितायें होंगी जो कभी दूषित नहीं होती, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, जिनका स्वाद कर्मा बदलता नहीं। वहाँ सुरा सरिता बहती हैं, जिसे पीकर प्राणी प्रसन्न होता है। शुद्ध मधु की नदी भी होती है, वहाँ सब प्रकार के फल होते हैं। पाप क्षमा किया जाता है। स्वर्ग आगत व्यक्ति, सुखद आसन एवं नय्या पर आराम करेगा। अन्नत योनि वालाएँ होंगी। उनका न तो मानव में और न दैवी जीवों ने स्पर्श किया होगा। स्वर्ग में चिरयुवा होंगे। वे स्वर्ग स्थित व्यक्तियों को सुरा पिलायेंगे। वहाँ लोगों को उनकी रचि के अनुसार फल मिलेगा। पशुओं तथा पक्षियों का मन चाहा नांस मिलेगा। वृक्षों की शीतल छाया होगी।’ रेगिस्तान के रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए, इससे सुन्दर भौतिक सुख की और क्या कल्पना हो सकती है ?

नर्क अर्थात् जहन्नुम की कल्पना की गयी है। ईश्वर, जब दुष्टों को दण्ड देना चाहता है, तो जहन्नुम को बुलाता है। वह चार पैरों पर आता है। प्रत्येक पैर में ७०,००० मुद्रिकायें होती हैं। प्रत्येक मुद्रिका में ७०,००० दैत्य होते हैं। वे इतने ताकतवर होते हैं कि पहाड़ को धूल कर सकते हैं। जब जहन्नुम आता है, तो भयंकर गर्जन होता है, भयंकर आर्तनाद होता है, भयंकर वज्रण होता है, भीषण आवाज होती है, जहन्नुम से घुर्मा तथा ज्वालाएँ निकलती हैं। क्षितिज अन्वकार पूर्ण हो जाता है।

जहन्नुम के सात दरवाजे होते हैं। पापी प्रज्वलित अग्नि में झोंक दिये जायेंगे। वे तब तक जलते रहेंगे, जब तक पृथ्वी तथा आकाश का अस्तित्व रहेगा। ईश्वर की कृपा से ही, वे उस अग्नि, उस जहन्नुम से निकल सकेंगे।

बाल्यकाल से जहन्नुम का भय, जन्नत का सुख याद करता, दुर्बल प्रकृति मानव, मृत्योपरान्त की कल्पना, व्याकुल हो उठता है। भयभीत मन विश्वास करने लगता है। जो कुछ जहन्नुम और जन्नत के विषय में कहा गया है, उसके विषय में इस दर्शन तथा धर्म के कारण में किंचित मात्र सन्देह नहीं करता। वह जानता है। सन्देह का फल पाप होगा। जहन्नुम की आग में झोंक दिया जायगा। यदि वह विश्वास करता है। निर्दोषित फर्जों की अदायगी, ग्रन्थों में वर्णित पुण्य कर्मों का यदि सम्पादन करता रहेगा, तो उसे स्वर्ग, जन्नत मिलेगा। जीवन सुखमय होगा। स्वर्ग एवं नर्क की कल्पना, आशा एवं निराशा की भावना, मानव को उसके दर्शन का दास, अन्ध भक्त, बना देती है। वह जन्नत के लोभ और जहन्नुम के भय से, सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। अन्य दर्शन तर्क, विवेक, न्याय, नैतिकता को एक तरफ रखकर, वह करता है, जिसका आदेश धर्मग्रन्थों में दिया गया है। दुर्बल मनुष्य, भयभीत प्राणी, अपने ऊपर, अपने कर्म पर, विश्वास खो बैठता है। विश्वास करता है, जो कहा गया है, जो लिखा गया है।

मानव की यह मानसिक गुलामी, मानव से, वह सब कुछ दास की तरह कराने लगती है, जिसे वह साधारण अवस्था में करने के लिए उद्यत नहीं होता। वह समझता है। काफिर का नष्ट होना या ईमान लाना पुण्य है। यदि मानव काफिर मरता है या अपने कुफ्र के कारण मारा जाता है, तो पाप नहीं है। पुण्य है। स्वर्ग की कल्पना मनुष्यों को आशा, सुख का स्वप्न दिखाता है। जन्नत में भौतिक सुख मिलता है। जिसके लिए इस लोक में व्यक्ति निरन्तर प्रयास करता रहता है। यदि उसे यह सुख इस जीवन में किसी कारण से न भी मिल सका, तो परलोक में ईश्वर के आदेशों का पालन करने के कारण मिलेगा। वहाँ उसका सुख रक्षित है। वह अपने ईमान के कारण उसे प्राप्त कर लेगा।

इस दर्शन से प्रभावित व्यक्ति, इस जीवन में इन सुखों को यथा साध्य भोग कर, पुन उन्हें स्वर्ग में प्राप्त करना चाहता है। उसका आदर्श भौतिक सुख होता है। वह इसी सुख की कामना करता है। अतएव जगत को इन सुखों द्वारा विहिस्त के अनुरूप बनाना चाहता है। आगरे तथा दिल्ली के लाल किला निर्माण में जन्नत की कल्पना की गयी है। वहाँ नहरें बनायी गयी हैं। उनमें निर्मल जल भरा जाता था। सुल्तान तथा उसके सामन्त वहाँ भोग-विलास करते थे। यही कारण है कि सुरा, कामिनी, बालक का सग्रह सुख कामना से की गयी थी।

भारतीय दर्शन इसके विपरीत है। वह भौतिक सुखों को क्षणिक मानता है, माया मानता है। यह सत्र उसी समय तक मिलते हैं, जब तक शरीर साथ देता है। भारतीय दर्शन ने त्याग में सुख माना है। त्याग शरीर के साथ नहीं, मन के साथ चलता है। वह न कभी युवा होता है न वृद्ध। उसका सम्बन्ध आत्मा से है। आत्मा में जब संकल्प एवं कल्पना का उदय होता है, तो उसकी सजा मन से दी जाती है। स्वर्ग एव मृत्युलोक हाड-मास की काया सर्वदा एक-सी नहीं होगी। किन्तु आत्मा शाश्वत है। उसका स्वरूप, भाव नहीं बदलता।

कश्मीरी शैव दर्शन एक कदम और आगे जाता है। शंकराचार्य अग्नि आचार्यों ने आत्मा को निष्क्रिय माना है। वह निरपेक्ष रहती है। शरीर माया प्रेरित कर्म करता है। माया के नाश से मुक्ति मिलती है। काश्मीरी प्रतिभा दर्शन आत्मा को सक्रिय मानता है। वह मूक, बधिर, निर्विकार, जडवत नहीं है, जो कुछ न लेती है न देती।

बौद्ध दर्शन कहता है—प्रिय से मिलन दुःख है। क्योंकि वियोग होता है। दुःख भी मिलता है। मृत्यु भी दुःख है। त्याग में सुख है। भौतिक सुख अर्थ का, शक्ति, सुखापेक्षी है। शक्तिहीन होते ही, अर्थहीन होते ही, सुख त्याग देता है। भौतिक सुख अस्थायी है। सुख लिप्सा का अन्त नहीं है। भारतीय दर्शन ने, त्याग उत्सर्ग, वलिदान, जगत से दूर, दुनिया से दूर, एकान्त वन में, गिरि कन्दरा में, असप्रही, विदेह ब्रह्मचारी बन कर, रतिमुख, राजसुख से दूर, भोग, वासना, लिप्सा से विरत, सासारिक बन्धनों के तोड़ने में सुख माना है। भारतीय दर्शन ने इसीलिये चार आश्रमों की कल्पना की है। सुख का काल ग्राह्य जीवन है। श्राणप्रस्थ में त्याग क्रिया आरम्भ होती है। सन्यासाश्रम में मानव जगत का पूर्ण त्याग किया जाता है। उसकी सामाजिक मृत्यु हो जाती है, वह सस्कार विहीन हो जाता है। धातु एव अग्नि स्पर्श नहीं करता। उसके कर-पल्लव भोजन-यात्र बनते हैं। प्रवृत्ति पश्चात् निवृत्ति मार्ग का अनुकरण करता, मुक्त होता है। वह कल्पना नहीं करता। मनुष्य जन्म से मृत्युकाल और मृत्यु के पश्चात् भौतिक सुखों में आसक्त हागा। आदर्श सुख नहीं है। आत्म दर्शन है। परमात्मा का सान्निध्य है, निर्वाण है। जन्म-मरण सुख-दुःख से छुट्टी है।

ईसाई दर्शन ने लोक एव परलोक दोनों में सुख की कल्पना की। भारतीय दर्शन इस लोक को तपो भूमि, योग भूमि, त्याग भूमि एवं कर्म भूमि मानता है। एक ने सुन्दर वस्त्रों, भव्य आवासों, सुस्वादु पदार्थों में सुख देखा। दूसरे ने दिग्म्बर जीवन, केवल जीवित रहने के लिए, शरीर चलाने के लिए, भोजन की कल्पना की। भारतीय दर्शन का आदर्श भौतिक सुख नहीं है। अध्यात्म है। मानव विकास है। इन दोनों दर्शनों की कल्पनाओं ने मानव दृष्टिकोणों में अन्तर कर दिया है। एक तरफ जहाँ हिन्दू राजा का आदेश स्वतः राज त्यागकर, वनगमन करना होता था, वही दूसरी तरफ सुल्तान अन्तिम दम तक राजलिप्सा एव राजमुख में पड़े रहते थे। सुख के लिए सघर्ष करते थे। वासना का त्याग नहीं कर पाते थे। विषय-वामना में उन्हें सुख मिलता था।

राजा विश्वास करता था। त्याग का, कर्म का, फल कर्मानुसार अवश्य मिलेगा। वासना, स्वार्थ एवं राग भोग के त्याग से, आत्मिक विकास होगा। उत्थान होगा। अतएव ब्रह्मचर्य, असंग्रह, त्याग की भावना उसकी पाशविक प्रवृत्तियों पर, उसमें बैठे असुर पर, हावी हो जाती थी। मानव से अमानव बनना उसके लिए असम्भव कर देती थी।

दूसरी तरफ सुन्दरी स्त्रियों से हरम भरना, ऐश्वर्यमय जीवन बिताना, स्वादिष्ट भोजन करना, उत्तम कीमती परिधान पहनना, आदर्श माना गया। मसजिद में, गिरजा में, परिधान में सजकर, उपस्थित होना अच्छा माना गया। भारतीय धर्मावलम्बियों की दिशा इससे भिन्न है। वह अधिक से अधिक त्याग-कर, नग्न पाद, केवल उत्तरीय एवं धौती में भगवान की प्रतिमा के सम्मुख पुष्प, अक्षत, नैवेद्य के साथ उपस्थित होता है। वह परमात्मा से भयभीत नहीं होता है। उसके सान्निध्य में बैठता है। पाठ करता है। विश्व कल्याण, मानव कल्याण एवं प्राणीमात्र के सुख की कल्पना करता है।

इन दृष्टि कोणों ने राजनीति को, राजनीति शास्त्र को, समाज को, प्रभावित किया है। कर्मवाद सरिता का कुल्या में प्रवाहित नियन्त्रित जल है। वह खेतों को सींचता है। पुष्पों को सुरभित करता है। मंजरियों में पराग भरता है। हरियाली का सृजन करता है। आतप हरता है। शीतल बनाता है। धन-धान्य से देश को पूर्ण करता है। अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। वह नदी में, सरिता में, अनियन्त्रित रूप से बहते-बहते खारे समुद्र में मिलकर स्वयं खारा नहीं हो जाता। वह बहते-बहते, खेतों को हरित करता धनधान्य पूर्ण, फलप्रद पूर्ण करता, उद्यानों की क्यारियों में प्रसन्न होता, प्रसन्न करता, विलीन हो जाता है।

भारतीय धर्म ने अपनी सीमा नहीं बनायी है। भारतीय धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। वह किसी महान पुरुष का आदेश नहीं है। लोकतन्त्रीय है, सनातन है, युगों-युगों का विकास है, जीवन-दर्शन है। उसका यह दर्शन, उसकी यह उदारता, उसकी यह सहिष्णुता, उसकी यह ग्राहिणी शक्ति, उसे जीवित रखने में समर्थ हुई है। उसमें ईश्वरवादी-अनीश्वरवादी, शैव-वैष्णव, बौद्ध-जैन, द्वैत-अद्वैत, बहु-देववादी-एकेश्वरवादी, शाक्त-भक्त, तन्त्र-मन्त्र सबके लिए स्थान है। किसी भी विचार-धारा, किसी भी दर्शन का व्यक्ति इस प्रवाह में गतिशील हो सकता है। उसे न तो अपने से, न पराये से, और न मरने से भय होता है। अमरत्व का प्रतिपादन करता है। विश्व धर्म के मौलिक सिद्धान्तों तुल्य है। परिवर्तन एवं अन्तर केवल आचरण का मानता है। यह दर्शन सीमित नहीं है। संकीर्ण नहीं है। इसमें सब कुछ समा सकता है। वह रत्नाकार है। क्षार को अपने पास रखकर, सुस्वादु मधुर जल से, सरोवर, कूप, कुल्या, सरिता, महानद, वह सबको आदर के साथ पूर्ण करता है।

परिस्थितियों के अनुसार, जनता एवं समाज के लिये, उपयोगी बनता है। जीता रहा है, अन्य को जीने देता है। इस दर्शन के विरुद्ध, जहाँ भी जिसने चलने का प्रयास किया है, तो देश, जाति एवं समाज के लिये समस्या उत्पन्न कर दिया है, उलझन पैदा कर दिया है, अशान्ति पैदा कर दिया है। उनसे मानव क्षुब्ध होता है, जलने लगता है। कश्मीर ने यह सब देखा है।

पारसी धर्म प्रवर्तक धर्म नहीं है। धर्म परिवर्तन द्वारा संख्या बढ़ाने में विश्वास नहीं करता। उसने मुक्त विचार एवं कर्म पर विश्वास किया है। शुद्ध आचरण एवं कर्म पर विश्वास किया है। मानव को प्रलोभित नहीं किया है। विश्वास लाने पर स्वर्ग मिलेगा। सुहावना प्रलोभन का नक्शा नहीं खींचा है। ईसाई तथा मुस्लिम धर्म ने ईमान लाने वालों को विहिस्त, स्वर्ग, हीवेन किंवा परेडाइज का प्रलोभन दिया

है। ईश्वर को कृपा में मानव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस अनुग्रह के बदले में उस पर ईमान लाने की, विश्वास करने की, आवश्यकता है।

भारतीय धर्म ने भुक्ति को कय-विक्रय की सामग्री नहीं समझा। उसका मूल्य विद्वानों के स्थान पर कर्म माना। कर्म एवं आचार पर जोर दिया। हिन्दू, पारसी, यहूदी आदि प्रवर्तक धर्म न बनकर, सख्या बढ़ाने पर जोर न देकर, सख्या के स्थान पर, गुण को प्राथमिकता दिये हैं।

प्रवर्तक धर्मों को हिन्दू, यहूदी तथा पारसी धर्मों का विरोधी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अन्य धर्मावलम्बियों को वे अपने धर्म में दीक्षित नहीं करते बल्कि विरोध करते हैं। दूसरे भी अपने-अपने धर्म के अनुसार अपने विश्वास के अनुसार विकसित होंगे। उनके लिये विश्व एक ही शक्ति का प्रतीक है। समस्त शक्तियों के उदय एवं अस्त का केन्द्र एक ही है। किसी का किसी धर्म में रहना, उनके लिये उसी प्रकार महत्वहीन है, जैसे अनेक लोगों का अनेक घरों में निवास करना। अपने मत-पान पर आरुढ़ होकर स्वतः गन्तव्य स्थान पर उसी प्रकार पहुँच सकता है, जिस प्रकार कोई भी पहुँचने में विश्वास करता है। उन्होंने इच्छा होने पर भी लोगों को अपने धर्म में दीक्षित नहीं किया। अपने धर्म, अपने शुद्ध आचरण एवं व्यवहार द्वारा निश्चयश की सिद्धि हो सकती है। यह एक ऐसा अदृष्ट सिद्धान्त था, विश्वास था, जो दार्शनिक एवं धार्मिक विवादों को एक तरफ हटाता था, विकास-मार्ग प्रस्तुत करता था।

ईसाइयों एवं मुसलमानों को हिन्दुओं से भय नहीं होना चाहिये था। उनके वे विरोधी नहीं थे। उन्हें अपना ही जैसा समझा। राजा रणवीर सिंह के समय काश्मीर के मुसलमानों ने प्रस्ताव किया। वे हिन्दू धर्म में, अपने पुराने धर्म में, स्वीकार कर लिये जाय। काशी के पण्डितों से राजा ने व्यवस्था माँगी और पण्डितों ने स्पष्ट शब्दों में व्यवस्था दी कि विजातीय हिन्दू धर्म में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द ने शूद्रों का आन्दोलन आरम्भ किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हुये, राजपूतों ने इच्छा प्रकट की कि यदि उनका खान-पान विवाह सम्बन्धादि राजपूत स्वीकार करे, तो वे एक समूह में पुनः शुद्ध होकर, अपने पुरातन धर्म में लौट आ सकते थे। परन्तु हिन्दुओं ने उनकी माँगे ठुकरा दी, धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया।

किन्तु ईसाई तथा मुसलमानों का दृष्टिकोण इसके सर्वथा भिन्न होता है। वे हिन्दुओं को धर्म विरोधी समझते थे। ईश्वर विरोधी समझते थे। उन्हें अपने धर्म में दीक्षित कर, उन्हें पवित्र एवं ईश्वर के समीप पहुँचने योग्य बनाना चाहते हैं। उन्हें अपने भक्ति-समाज का अंग बनाना चाहते हैं। इसके लिये प्रलोभन, शक्ति सघर्ष सबका आश्रय ग्राह्य है, उचित है। यही कारण है कि पारस में मुसलमानों ने जब अपना धर्म शक्ति द्वारा बढ़ाना चाहा तो पारसी स्वदेश त्याकर भारत में चले आये। ईसाई तथा यहूदी अपने स्थानों से उद्वासित किये गये। यूरोप में शरण लेने के लिये बाध्य हो गये। यूरोप में यहूदियों तथा भारत में पारसियों के आगमन का कारण धर्म प्रचार के नाम पर होना दमन था।

हिन्दुओं ने भारत में आगत सभी धर्मावलम्बियों का स्वागत किया। उन्हें सुख एवं शान्तिपूर्वक अपने ही जैसी सुविधा दी। वे दूसरों से भी इसी की अपेक्षा करते थे। इस उदार नीति के कारण, इस सहिष्णुता के कारण, इस मुक्त विचार एवं कर्म पर विश्वास के कारण, उनमें कट्टरता का उदय नहीं हुआ। किन्तु प्रवर्तक धर्म इस दर्शन में विश्वास नहीं करते थे। वे बाहर आँख उठाकर, साँकना भी पाप एवं ईश्वर के प्रति अविश्वास मानते थे।

मुस्लिम स्वयं अपने संकीर्ण विचार के कारण आपत्ति में पड़ गये। मुस्लिम देशों से स्वयं मुसलमान

उद्वासित होने लगे। उन्हें भी अपने आवास स्थानों से भागना पड़ा। तैमूर लंग के भ्रम से जीवन रक्षा हेतु सैय्यद वर्ग काश्मीर आये। सीमान्त स्थिति कबीलों तथा शिया-सुन्नी एवं ताड़ित मुसलिम मतानुयायी स्वरक्षार्थ अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान त्याग कर काश्मीर तथा भारत में शरण लिये। काश्मीर ने उन्हें शरण दिया। आदर किया। वित्त दिया। उन्हें अपने धर्म में सम्मिलित नहीं किया। इस प्रकार विदेशियों का एक समाज, एक गोत्र, काश्मीर में बनता रहा, पनपता रहा। जब किसी का उसके समाज में आदर नहीं होता, तो वह समाज से विद्रोह करता है। समाज को अपने अनुरूप बनाने अथवा नष्ट करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया काश्मीर में बड़े पैमाने पर हुयी।

काश्मीर के मन्दिर एवं देवस्थान, नृत्य, संगीत, नाटक, कथा-वार्ता, विद्यानुराग, अध्ययन-अध्यापन एवं पठन-पाठन के केन्द्र थे। सामाजिक जीवन के केन्द्र थे। उल्लास, मय, आनन्दमय, कला मय जीवन के केन्द्र थे। वहाँ राजनीति के लिये स्थान नहीं था। राजनीति का स्थान राज सभा थी। हिन्दू समाज में राजनीति एवं धर्म के क्षेत्र अलग-अलग थे। राजनीति सर्वदा धर्म निरपेक्ष थी। लौकिक थी।

धर्म निरपेक्ष किवा सेकुलर शब्द से अर्थ प्रकट नहीं होता। रिलीजन के लिये हिन्दी भाषा में कोई पर्याय नहीं है। मैंने सेकुलर शब्द के लिये लौकिक शब्द का प्रयोग किया है। पश्चिम में सेकुलरिज्म आधुनिक विचार है। परन्तु भारत के लिये वह नया नहीं है।

भारत धर्म निरपेक्ष शब्द से अनभिज्ञ था। अतएव धर्म निरपेक्ष, के विपरीत आचरण के लिये कोई संज्ञा नहीं बनी थी। आचरण एवं समाज पर बन्धन था। वर्णाश्रम का अंकुश था। भारत में सेकुलर किवा लौकिक राज्य सर्वदा से था। भारत में आवाद विदेशी अन्य धर्मावलम्बी अपने विधि, परंपरा एवं व्यवहार का अनुकरण करते थे। राज्य कभी हस्तक्षेप नहीं करता था। भारत में किसी जाति को किसी सम्प्रदाय को, उसके मत एवं जाति के कारण राज सेवा से वंचित नहीं रखा गया है। कौन किस पथ का अनुगामी है, किसकी उपासना करता है, यह पूछने किवा जाने का रिवाज नहीं था। प्रत्येक कुल में गृह देवता, प्रत्येक ग्राम में ग्राम देवता थे। उसी प्रकार विजातियों का यदि अपना कोई धर्म था, देवता था, तो उसका स्थान, उसके अनुयाइयों के गृह में, ग्राम में था। उनके कारण हिन्दू धर्म, व्यवहार, परम्परा एवं सदाचार में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। धर्म, दर्शन एवं मत का सम्बन्ध मानव के व्यक्तिगत जीवन से था।

धर्म निरपेक्ष किवा लौकिक राज्य का केन्द्र विन्दु दूसरे धर्म के प्रति आदर है। समत्व है। सहनशीलता है। उदारता है। भारत में राजा राजनीति एवं धर्म दोनों का नियन्त्रण नहीं करता था। दोनों का स्रोत नहीं था। राजा से ऊपर एक साधारण विप्र का स्थान था। सन्त का स्थान था। साधू का स्थान था। विप्र के आते ही राजा खड़ा हो जाता था। नमन करता था। आदर करता था। विप्रगण राजनीति से अलग थे। उनका कर्म पठन पाठन था। धर्म की वागडौर पुराहितों के हाथों में नहीं थी। धर्माचार्यों के हाथों में नहीं थी। राजा के हाथों में राजनीति थी। शासन था। राजा न्याय करता था। ब्राह्मणों को न्याय करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण शस्त्र नहीं धारण कर सकता था। दण्ड नहीं दे सकता था। असंग्रही था। उसका स्थान आश्रम था। गुरुकुल था। देव स्थान था। काश्मीरी ब्राह्मण इस परम्परा में पला था। उसने कल्पना नहीं किया था। राजा धर्म में हस्तक्षेप करेगा, धर्म का नियन्त्रण करेगा !

यदि धर्म या सम्प्रदाय के आधार पर राष्ट्रीयता मान ली जाय तो, हिन्दू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध पारसी आदि नाम की राष्ट्रीयता होगी। धर्म एवं सम्प्रदाय आधारित राष्ट्रीयता मानने का अर्थ होगा कि

राष्ट्र का एक विशेष धर्म है। उसमें अन्य धर्मावलम्बियों के लिये स्थान नहीं है। राष्ट्र धर्म के अनुसार कर्म विधि तथा व्यवहार का संचालन होगा। व्यक्तिगत विधियों का स्थान नहीं होगा। इस सिद्धान्त को मानना मध्ययुगीय जगत की ओर लौटना है। सकीर्णता की ओर मुख मोड़ना है। ब्रिटेन जैसा प्रगतिशील राष्ट्र भी इस सकीर्णता का त्याग नहीं कर सका। वहाँ के संविधान के अनुसार ब्रिटेन का राजा या रानी केवल प्रोटेस्टेण्ट मतानुयायी हो सकते हैं। रोमन कैथोलिक, ग्रीक अर्थोडॉक्स चर्च तथा अन्य सम्प्रदाय किंवा मत वादी नहीं हो सकते। मानव जीवन को जिनसे सकीर्णता प्राप्त होती है, वे अच्छे नहीं होते। भारत में धर्म शब्द अत्यन्त व्यापक था। आचार, विचार, विधि-व्यवहार, रीति-रिवाज सबका समावेश धर्म में हो जाता था।

मुस्लिम परम्परा इसके सर्वथा विपरीत थी। खलीफा राज्य एवं सम्प्रदाय दोनों शक्तियों का स्रोत था। वह न्याय कर्ता था, हर्ता था, दण्ड दाता था। मुस्लिम समाज में धर्म एवं राजनीति मिश्री और पानी की तरह घुलकर एक हो गये थे। इमाम एवं खलीफा लौकिक एवं अलौकिक शक्तियों का निदेशक था, प्रतीक था। अतएव उसके प्रभाव क्षेत्र में मत, मतान्तर एवं सम्प्रदाय स्वतन्त्रतापूर्वक विकसित नहीं हो सकते थे। खलीफा का आदेश मुस्लिम जगत के लिये मान्य था। उसकी कही अपील नहीं थी, वह निरकुश था, सबेँ सर्वा था।

हिन्दू एवं मुस्लिम दर्शनों के उपासना पद्धति में इन दृष्टिकोणों के कारण मौलिक अन्तर हो गया। देव स्थान हिन्दूओं के लिये उपासना, दर्शन, एवं उत्सव का केन्द्र था। राजनीति से अलग था। मसजिद में केवल एक ही मतावलम्बी का प्रवेश था। मसजिद का कार्य सीमित था। वह केवल नमाज पढ़ने, अल्लाह के सामने खड़े होकर, सिजदा करने का स्थान था। मुअज्जिन की आवाज पर केवल मुसलमान ही एकत्रित हो सकते थे। मसजिद में, खुदा के दरवार में विनम्रता पूर्वक खड़े होते थे। उसके बन्दों के रूप में सिजदा करते थे। मुख कावा की तरफ होता था। एक तरफ होता था। प्रार्थना की एक भाषा होती थी। नमाज का एक प्रकार होता था। अल्लाह का सन्देश अरबी भाषा में पैगम्बर पर नाजिल हुआ था। अतएव अरबी ईश्वरीय भाषा समझी गयी। यह बात इसाइयों के सम्बन्ध में नहीं कही जायगी। क्योंकि ईश्वरीय सन्देश प्रभु ईसा मसीह की भाषा में वाईविल में लिपि बद्ध नहीं है।

अरबी भाषा, काबा की दिशा में मुख कर सामूहिक नमाज, मुस्लिम जगत को एक सूत्र में बांध रखे हैं। मसजिद में खड़ा हुआ व्यक्ति किसी देश एवं जाति का व्यक्ति न होकर, एक अन्तर्राष्ट्रीय मुस्लिम जगत का, मिल्लत का अविभाज्य अंग बन जाता है। नमाज अल्लाह के प्रति विश्वास एवं भक्ति प्रकट करने का एक प्रकार है। उपस्थित होने का एक माध्यम है। वह मुसलमानों में दृढता एकता एवं धैर्यता का अभ्यास डालता है।

दिन में पाँच बार, फजर, जुहूर, अस्, मगरिब तथा ईशा की नमाज पढ़ी जाती है। पाँच बार नमाज पढ़ने वाला स्मरण करता है। वह मिल्लत का अंग है। अल्लाह का उपासक है। पैगम्बर मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा के साथ दिन में पाँच बार एक ही विचार के लोग मिलते हैं। ईद तथा वकरीद की नमाज में समस्त नगर के लोग मिलते हैं। हज में समस्त विश्व। इस प्रकार एक गोत्र, एक जाति के लोग, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह मिलते हैं। धार्मिक चर्चा होती है। राजनीतिक चर्चा होती है। साथ ही सुल्तान, खलीफा, बादशाह तथा शासक के नामों का खुतबा मसजिदों में पढ़ा जाता है, उनके प्रति निष्ठा प्रकट की जाती है।

खुतबा अरबी शब्द है। शाब्दिक अर्थ धार्मिक व्याख्यान है। जुमा के नमाज में प्रति सप्ताह तथा ईद और वकरीद की नमाज में पढ़ा जाता है। उसमें मुस्लिम समाज, धार्मिक एवं राजनीतिक विषयों पर

खातिव भाषण देता है। खुतवा पहले अरबी भाषा में दिया जाता था। परन्तु सुवारवादी आन्दोलन के फलस्वरूप तुर्की भाषा में दिया जाने लगा। पूर्वकाल में खुतवा द्वारा वक्ते सुल्तान के लिये दुआ माँगी जाती थी। उसमें नाम देना आवश्यक नहीं था। सन्देह दूर करने के लिये खातिव मध्ययुग से सुल्तानों किंवा शासकों का नाम लेना आरम्भ कर दिये। इसने परम्परा का रूप ले लिया है। खुतवा में शासक के नाम का पढ़ा जाना, उसकी प्रभु शक्ति की परिचायक है। वह इस बात का परिचायक है कि मुस्लिम समाज किसी को सुल्तान या शासक स्वीकार कर, उसके लिये दुआ माँगता है। उसे अपने शासक रूप में मान्यता देता है। काश्मीर में मुसलमान लोग हिन्दू, सिक्ख तथा राजाओं के नाम का खुतवा नहीं पढ़ते थे। क्योंकि वे मुसलमान नहीं थे। भारत के राष्ट्रपति के नाम का भी खुतवा नहीं पढ़ा जाता। भारत तथा विश्व में जहाँ कहीं भी राजा मुसलमान होता था या है—वहाँ उसके नाम का खुतवा पढ़ा जाता है। भारत में खुतवा ऊर्दू में पढ़ा जाता है, ताकि सब लोग समझ सकें। दिल्ली के प्रसिद्ध सन्तशाह फखरुद्दीन (सन् १७८४ ई०) ने खुतवा हिन्दीवी में पढ़ने का समर्थन किया परन्तु वह सफल न हो सका।

नमाज में केवल मुसलमानों का आह्वान किया जाता है। रसूल पर विश्वास करने वालों को बुलाया जाता है। चर्च में गैर ईसाई भी जा सकता है। प्रार्थना में सम्मिलित हो सकता है। हिन्दू मन्दिरों में भी गैर हिन्दू जा सकते हैं। कुछ मन्दिरों में गैर हिन्दुओं का प्रवेश इस समय वर्जित है। मुस्लिम तथा ईसाई स्वतः किसी मन्दिर में जाना पसन्द नहीं करते। यह वृत्त परस्ती का समर्थन माना जाता है। बौद्ध विहार तथा मन्दिरों का प्रवेश कभी भी वर्जित नहीं था। मन्दिरों में आरती के समय, चर्च में प्रार्थना के समय घण्टा बजता है। किसी वर्ग विशेष का नाम लेकर आमन्त्रित नहीं किया जाता।

नमाज पाँच वक्त होती है जिसमें ४२ रकअत नमाज पढ़ी जाती है। एक रकअत एक वार खड़े होने से बैठने तक होती है। उसमें दो सिजदे और एक रकूअ होता है।

नमाज एक दर्शन का प्रतीक है। मुखज्जन आवाज देता है—अल्लाहो अकबर, अल्लाहो अकबर, अशहदो अल्लाह इलाहा इल्लिलाह, अशहदो अन्ना मुहम्मद रसूल लूलाह, हय्या अलफलाह, हय्या अलफलाह, अल्लाहो अकबर, अल्लाहो अकबर। फजिल की नमाज में 'असलातो खैरम्मिन, नौम' और पढ़ा जाता है। नमाज का अर्थ होता है—'अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि केवल अल्लाह ही मावूद है, उसके सिवाय कोई दूसरा मावूद नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। (दाहिने तरफ मुँह कर कहा जाता है) आओ नमाज की तरफ (बायें तरफ मुँह करके कहा जाता है) आओ वेहवूदी की तरफ। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है।' फजिल की नमाज में कावा की तरफ मुँह कर पढ़ा जाता है—'नमाज बेहतर है सोने से।' जमाअत मसजिद में पश्चिम की ओर कावा की तरफ मुख कर खड़ी होती है। खड़ा होने वाला समझता है वह खुदा के सम्मुख खड़ा है और खुदा उसे देख रहा है। नमाजे जनाजा भी पढ़ी जाती है। मृतक का जनाजा मसजिद के पास ले जाते हैं। इमाम जनाजा के पीछे खड़ा हो जाता है। उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले पंक्ति बद्ध खड़े होते हैं। इस नमाज में न कोई झुकता है और न सिजदा करता है। केवल हाँथ बाँध कर खड़ा रहकर दुआ मागते हैं। ईद की नमाज केवल दो रकअत की होती है। ग्रहण के समय भी नमाजे कुसूफ और खुसूफ पढ़ी जाती है। नमाजे इस्तस्का अकाल के दिनों में वर्षा के लिये पढ़ी जाती है। नमाज का महत्व समष्टिवादी है।

यह एक ऐसा रूप है, जिससे प्रति सप्ताह मुस्लिम जनता को स्मरण दिलाया जाता है। उसकी शक्ति समष्टि में है। उसका शासक कौन है? उसका ईश्वर कौन है? उसका रसूल कौन है? उसका देव-स्थान कौन है? मुसलमानों में इस दर्शन ने समष्टि तथा भाईचारा का भाव कूट-कूट कर भर दिया। उसके

लिये मसजिद राजनीति और धर्म दोनों का केन्द्र है। जहाँ केवल एक ही जाति, एक ही विचार के लोगो का प्रवेश होता है। यह जाति सघटित है। नित्य के नमाज के कारण उसका सघटन शिथिल नहीं होता है। अन्य धर्मों में इम कठोर अनुशासन का न तो भाव उत्पन्न हुआ और न अभ्यास। भावात्मक एकता के साथ एक साथ उठने-बैठने, मिजदा करने, पढ़ने से लाखों व्यक्ति एक समष्टि में एक आवाज में कार्य करने के अम्पस्त हो जाते हैं। उन्हें सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अनुशासन के लिये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती।

मसजिद सूचना देने का, गुप्त मन्त्रणा का, गुप्त कार्य करने का, सबसे सरल माध्यम है। मसजिद में जो निश्चय होता है। उसे मान्यता दी जाती है। हिन्दू यदि कोई कार्य, कोई निश्चय करना चाहता है तो उसे समाज को एकत्रित करना पड़ता है। सूचना देनी पड़ती है। बात सुल जाती है। गोपनीयता नष्ट हो जाती है। परन्तु मसजिद में प्रति दिन लोभ एकत्रित होते हैं। वहाँ किसी निश्चय, किसी कार्य करने की सूचना देते ही, अविलम्ब, रुपचाप सब तक बात पहुँच जाती है। समस्त मुस्लिम समाज एक प्रश्न पर, एक साथ कार्य करने के लिये तत्पर, हो जाता है।

मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। मुसलिम मतदाता चुनाव के एक दिन पहले ईशा की नमाज के समय अपना मत निश्चय करता है। उसकी सूचना रातों रात सब तक पहुँच जाती है। प्रातःकाल निश्चय कार्यान्वित हो जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती है।

काश्मीर के राजा, वहाँ की हिन्दू जनता, इस दर्शन से अनभिज्ञ थी। शाहमीर के पूर्वकाल से ही विदेशी मुसलिम मसजिदों में एकत्रित होते थे। मन्त्रणा करते थे। अपना उपनिवेश बना चुके थे। हिन्दू राज्य उलटने की बात होती थी। यह सब होना था, धर्म स्थान में धर्म के नाम पर।

यदि मनुष्य उन्माद की अवस्था में हत्या करता है, अपराध करता है, तो न्यायालय उस पर दया करती है, उसे क्षमा करती है। वह फाँसी के तख्ते पर नहीं झूलता। इसी प्रकार धर्मोन्माद में कोई अपराध करता है, तो उसे भी क्षम्य मानना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मोन्माद में हत्या करता है, नैतिकता का ध्यान नहीं करता, वही सामान्य स्थिति में, करुणाद्र होकर, सब कुछ त्याग करने के लिये सन्नद्ध हो जाता है। पशु-पक्षी पर दया करता है। प्राणियों के उपकार के लिये कटिबद्ध हो जाता है। जान पर खेल कर, दूसरे की जान बचाता है।

हम हिन्दू मुसलमान किंवा ईसाई इसीलिये हैं कि हमारे माता पिता, हिन्दू, ईसाई या मुसलमान थे। शिशु नहीं जानता कि कौन हिन्दू और कौन मुसलमान है? वह नहीं जानता स्पृश्यापृश्य क्या बला है? वह नहीं जानता—गायत्री और कलमा क्या है? अबोध शिशु सबके लिये प्रिय होता है। उससे सर्प, हंस पशु भी स्नेह करते हैं, दया करते हैं। उसपर किसी दर्शन का रग नहीं होता। छल-कपट रहित होता है। किन्तु ज्यों-ज्यों बुर के, वातावरण के, सस्कार के, दर्शन के, कुसस्कारों में रग जाता है, त्यों-त्यों वह सकोर्ण होता है, सीमित होना जाता है। अपनी सीमा की सुदृढ़ स्थिति बना लेता है। उम घेरे के अन्दर निवास करने का अभ्यस्त हो जाता है। अपनी सीमा उसे अच्छी लगती है। दूसरे की सीमा, दूसरे का घेरा उसे बुरा लगता है। यह स्वाभाविक है। अपनी टूटी शोपड़ी, टपकती कुटिया, खडहर बनते मकान में जिग मुग का अनुभव होता है, वह पराये भव्य भवन में अप्राप्य है।

चिटिया उषठे वृक्ष, टूटे पेड़, कटीली झाड़ी में, अपने बनाये घोपले में, जिस मुग का अनुभव करती है, वह नवपल्लवित सुरभिन पादप की शीलन छाया में नहीं मिलती। उचुंग वृक्षों की उपेक्षा कर, बसेरा लेने

आती है, उच्चुंग वृक्षों की उपेक्षा कर वृष, वर्षा, गीत से ठिठुरते तिनकों के नीड़ों में, स्वर्ण पिंजड़ों, प्रामादों के मुन्दर वातायनों, झरोखों से अधिक, उन्हें मुख मिलता है, वृष से जलते घोंपलों में ।

किन्तु पक्षियों की उपेक्षा के कारण हरित पादप, सुरभित पादप्यावली, फले वृक्ष, फूले कुंज, मंजरी युक्त क्यारिया, मुन्दर भवन वृक्ष नहीं हो जाते । अच्छी और बुरी होती है—भावना, अपनी प्रवृत्ति, अपनी दृष्टि । यदि व्यक्ति उज्ज्वल चरमे से देखता है, तो विश्व उज्ज्वल और काले से देखता है, तो काला दिखायी पड़ता है । रंगीन चरमा के हटने पर शुद्ध स्वरूप, वास्तविक रूप का दर्शन होता है । इसी प्रकार किम दर्शन की दृष्टि से जगत को देखा जाता है उसका वही रूप दिखायी देता है । दृष्टि भ्रम को वास्तविक समझ लेते हैं । कुत्संस्कार एवं सापेक्षवादी दर्शन का चरमा उतरने पर, जगत का वास्तविक दर्शन होता है । तथ्य का दर्शन होता है—शुद्ध विवेक, शुद्ध तर्क एवं शुद्ध चेतन के जागृत होने पर, शुद्ध चेतना मानव को देवता एवं अशुद्ध चेतना पशु बना देती है । मानव प्राणी पशु भी बनता है, मनुष्य भी । उदारता एवं महिष्युता, निरपेक्ष दृष्टि जागृत करता है—मानव की । यदि लौकिक दृष्टि स्वीकार की जाती है, तो जगत बड़ता है, समृद्ध की ओर । स्वर्ग जगत बनता है, अन्यथा बन जाता है नर्क ।

अपनी परिस्थितियों से मानव हो जाता है उद्विग्न । वेदन हो जाता है । उसकी वैचैनी रक्तपात, विप्लव, पड्यन्त्र, विश्वासघात, मिथ्याचरण, क्रूरता, हिंसा एवं हत्याओं में प्रकट होती है । उसे अपनी छाया से भी भय लगता है । वह अविश्वास के वातावरण में विश्वास के लिये व्याकुल हो जाता है । वह घबड़ाकर, आकुल होकर, मूढ़ मदुग आचरण करता है । मूढ़ता उसे भुपय से कुपय की ओर ले जाती है । मन्निपात ग्रस्त व्यक्ति तुल्य वह पथ्य को कुपथ्य और कुपथ्य को पथ्य मान बैठता है । क्षीण होता जाता है । कुछ नोता जाता है । अन्त में को बैठता है, अपना सब कुछ, जिसे मानवता कहते हैं, जिसे जीवन कहते हैं । वह मुक्त मानव न होकर अपनी परिस्थितियों का दास बन जाता है । उसके पास से निकल नहीं पाता । अपने ही कुत्संस्कारों में, अपने ही कर्मों में, फँस जाता है । उस मकड़ी की तरह, जो स्वयं जाला बनाती है । स्वयं अपने जाले में फँसती है, और अपने ही बनाये जाले में फँस कर मर जाती है ।

इम दर्शन की झलक मध्य युग के प्रारम्भिक काल से मिलती है । आज भी मिल रही है । सम्प्रदायवादी पाकिस्तान भारत के युद्ध को साम्प्रदायिकता का रंग देता है । उसे हिन्दू मुसलमान का संवर्ष बनाता है । बंगला देग निर्माण को दूसरी दृष्टि से देखता है ।

हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का विभाजन कृत्रिम है । मानव कृत है । भारत वर्ष की एक भौगोलिक सीमा है । प्रकृति ने उसे एक बनाया है । प्रकृति के कार्यों में मनुष्य दखल देता है । प्रकृति विरुद्ध कार्य करता है परन्तु समय आते ही प्रकृति अपना पूर्व रूप ले लेती है ।

इंग्लैण्ड की प्राकृतिक सीमा एक है । आयरलैण्ड की प्राकृतिक सीमा एक है । आयरलैण्ड का विभाजन कर, अलस्टर एक पाकेट राज्य बना दिया गया है । क्योंकि आयरलैण्ड के निवासी रोमन कैथोलिक और अलस्टर के प्रोटेस्टेण्ट हैं । दोनों एक साथ नहीं रह सकते । यह कृत्रिम विश्वास है, कृत्रिम दर्शन है । जर्मनी की सीमा एक है । उसका कितनी ही बार विभाजन हुआ है, एकीकरण हुआ है । यही बात इटली तथा फ्रान्स के विषय में कही जायगी । काश्मीर का विभाजन भी कृत्रिम है । भगवान ने, प्रकृति ने उसे एक भौगोलिक सीमा दी है, वह रहेगी ।

दर्शन, धर्म एवं राजनीति के कारण जो भी विभाजन किया जाता है, वह स्थायी नहीं रहता । दर्शन, धर्म, सम्प्रदाय एवं राजनीति स्वयं स्थायी नहीं होती । यूनान कभी आर्य बर्मविलन्वी था, तत्पश्चात्

ईसाई मतावलम्बी और ईसाई मत में भी ग्रीक अर्थोडॉक्स चर्च सम्प्रदाय वादी हो गया। वहाँ प्रारम्भ में सामन्तवाद था तत्पश्चात् लोकतन्त्र, रोम साम्राज्यन्तर्गत अन्त में मुसलिमों द्वारा विजय किया गया। पुन स्वतन्त्र होकर, लोकतन्त्र स्थापित हुआ, लोकतन्त्र के पश्चात् राजतन्त्र, पुन लोकतन्त्र एक अधिनायक तन्त्र स्थापित हुआ है। इन सब परिस्थितियों में यूनान की भौगोलिक एव प्राकृतिक सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ। भूकम्प न तो उसके सीमान्त पर्वत को नष्ट और न समुद्र डुबा सका। इटली, जर्मनी, फ्रान्स के सन्दर्भ में भी यही बात कही जायगी।

पाकिस्तान युद्ध के समय प्रचार किया गया कि चन्द्रगुप्त मौर्य के पश्चात्, प्रथम वार भारतीय सेना विदेशों में जाकर युद्ध की है। बगाल, पंजाब, सिन्ध, काश्मीर को जैसे विदेश मान लिया था। बाबर, हुमायूँ, अकबर शाहजहाँ, और गजेब के समय अफगानिस्तान भारत के अन्तर्गत था। बल्लभ तक भारतीय सेना पहुँच गयी थी। मुगल तुर्किस्तान भी विजय करना चाहते थे। हिन्दू इस विजय को एक सम्प्रदाय, एक जाति का काय मानते हैं। वे नहीं सोचते। विजय में हिन्दू-मुसलमान दोनों का सहयोग था। दोनों का बलिदान था। राजपूत सेना ने अफगानिस्तान विजय की थी। मानसिंह, जयसिंह आदि अफगानिस्तान के राज्यपाल थे। हिन्दू इस विजय को भारत की विजय न मानकर, मुसलमानों की विजय मानते हैं। मुसलमानों की भावना को ठेस लगती है। वह समझता है। भारत में रहने पर, उसकी स्थिति विदेशी जैसी है।

गजनी, गौरी, गुलाम, पठान, सैय्यद, खिलजी, तुगलक, लोदी, एव मुगल भारत के बाहर से आये थे। भारत में आबाद हो गये थे। उन्होंने इसे अपना देश बना लिया। भारत के सीमान्तवर्ती, पठानों, तुर्कों ने मुगलों की सेना से लड़कर, भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा की थी। तैमूर लग, नादिरशाह, अहमदशाह अब्दाली का सामना मुसलिम सुल्तानों ने किया था। बाबर का युद्ध लोदियों से हुआ था। शेरशाह सूरी का युद्ध मुगलों से हुआ था। इसी प्रकार मुसलिम सुल्तानों ने भारत में कायम हुए अनेक मुसलिम सुल्तानों और नवाबों से युद्ध किये थे। बगाल, अवध, वदर्यौँ, जौनपुर, बीदर, गोलकुण्डा, मालवा, गुजरात के सुल्तान एव नवाब परस्पर युद्ध करते थे। साथ ही साथ दिल्ली के सुल्तानों से युद्ध करते थे। इसी प्रकार हिन्दू राजा परस्पर युद्ध करते थे, साथ ही साथ दिल्ली के सुल्तानों से भी लड़ते थे।

मुसलमानों ने भारत की दौलत भारत के बाहर नहीं भेजी। उन्होंने भारत को अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान अथवा अरब का उपनिवेश नहीं बनाया। बाहर की सम्पत्ति से भारत का भण्डार भर गया। भारत की कीर्ति विदेशों में फैलायी थी। किन्तु हिन्दू विभाग उन्हें अपना, भारत का, सात सौ वर्षों से भारत में रहने के बावजूद नहीं मान सका। आय, शक, हूण, पल्हव, भौट्ट आदि भारत के बाहर से आये थे। भारत में राज्य स्थापित किये। यहाँ वे रह गये। भारतीय समाज में मिल गये। भारतीय परम्परा, भारतीय इतिहास, भारतीय धर्म, इनका धर्म हो गया था। भारतीय इतिहास को गौरवशाली बनाया। भारतीय उनके निष्पत्ति के लिये गर्व का अनुभव करता है। उन्हें आत्मसात कर गया। उनका दर्शन, उनके माग में बाधक नहीं था। मुसलमान भारतीय समाज में मिल नहीं सके। इस देश के इतिहास को, इस देश की संस्कृति को, स्वीकार नहीं कर सके। उनका मुख सर्वदा पश्चिम की ओर उठता था। हिन्दुओं का दर्शन भी समन्वय प्रक्रिया में बाधक था। शको, हूणों के समान विदेशी मुसलमानों को मिलाकर समाज की रचना नहीं कर सके। मुसलिम इकाई उनके दर्शन की कट्टरता के कारण कायम रही।

मनुष्य को धर्म एक विचार दे सकता है। एक जीवन संहिता दे सकता है। किन्तु मनुष्य कुछ चाहता है। उसके माथ उसका पेट है। काम है। वह दाम्पत्य जीवन चाहता है। सन्तान चाहता है। धर-चार चाहता है। खेती-बारी चाहता है। बाबर की सेना में बौद्ध मुगल थे। हिन्दुओं ने मुगलों को अपने

समाज में सम्मिलित नहीं किया। परिणाम हुआ। मुसलमानों ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उनसे विवाह सम्भव किया। उनकी संख्या बढ़ी।

काश्मीर के मुसलमान होने का भी यही कारण है। रिचन बौद्ध को हिन्दुओं ने शैवधर्म में सम्मिलित नहीं किया। क्या है रिचन मुसलमान हो गया। कोटारानी से विवाह किया। काश्मीर में पहली मसजिद बनी। रिचन प्रथम सुल्तान बना।

मनुष्यों का इसमें क्या दोष। यह दोष है, उन दर्शनों का है, जो अपना पृथक् क्षेत्र बना लेते हैं। धर्म-परिवर्तन पर दन्धन लगा देते हैं। जात-पात की ऊँची दीवार अपने चारों ओर खड़ी कर लेते हैं। यहीं से भारत विभाजन की, दो राष्ट्र की, बुनियाद पड़ी। यदि हमारे पूर्व पुरुषों ने कोई गलती की है, तो उसके लिये हमें, हमारी भविष्य की सन्तानों को, भूत के लिये, वर्तमान को, भविष्य को, दण्ड देना नहीं चाहिये।

राजाओं की सेना में मुसलमान तथा सुल्तानों की सेना में हिन्दू सैनिक होते थे। काश्मीर में ललित्ता दित्य के समय से ही यवन सैनिक काश्मीरी सेना में भरती होने लगे थे। सुल्तानों की सेना में खज, राजपूत एवं ठाकुर काम करते थे। वे पेशेवर थे। वेतन भोगी थे। जहाँ वेतन मिलता था। काम करते थे। कुछ चाँदी के टुकड़ों के लिए, कन्धों पर बन्दूक रखकर, लड़ते थे, कटते थे, काटते थे, मरते थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान थे। औरंगजेब की सेना में राजपूत थे। औरंगजेब के कुशल सेनापति यसदन्त एवं जयसिंह ने राजसिंह और शिवाजी का सामना किया था। आजकल भी सेना में वेतन भोगी सैनिक सभी वर्गों, जातियों एवं धर्म के हैं। मध्ययुग में भारत तथा काश्मीर में भी सामन्त, जागीरदार, नवाब होते थे। वे हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों राज्यों में होते थे। वे सेना रखते थे। समय आने पर स्वामी के पक्ष से युद्ध में भाग लेते थे। उनकी निष्ठा किसी देश अथवा जाति के साथ न होकर, अपने स्वामी तक सीमित रहती थी। उसमें दर्शन बाधक नहीं होता था। मुगलों के सेनापति हिन्दू राजा हुए हैं। भारत से बाहर जाकर मुगलों के साम्राज्य की सीमा विस्तृत की थी। स्वामी की नीति का अनुकरण, आधीनस्थ सामन्त, जागीरदार, सूबेदार, नवाब आदि करते थे।

यदि प्रवर्तक धर्मवादी मुस्लिम दर्शन का अनुकरण भारत में हिन्दू अथवा यूरोप में ईसाई करते, तो क्या मुसलमान भारत अथवा यूरोप में पैर जमा सकते थे? रह सकते थे?

मुस्लिम देशों में वतन की अपील हृदय तक नहीं पहुँचती। धर्म की अपील सीधे घर कर लेती है। वतन की मूहव्रत मुसलमानों के लिए नवीन दर्शन है। यह विचार विकसित नहीं हुआ है। मुस्लिम जाति एक है, उनका अल्लाह एक है, उनका रसूल एक है, उनकी किताब एक है, उनका विश्व एक है, जाति एक है, इस एकत्व की भावना के कारण, वे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सके। बहुदेववाद के समान, बहु राष्ट्रवाद, मुस्लिम दर्शन की सनातनी विचारों, भावनाओं के, प्रतिकूल है।

मुसलमानों का वतन समस्त मुस्लिम जगत है। मुस्लिम जगत राष्ट्रों में विभाजित हो जाय, तो उसके एकत्व दर्शन को ठेस लगेगी। एकता को ठेस लगेगी। हज के समय विश्व के सभी मुसलमान, एक मिल्लत, एक कुल, एक धर्म एवं दर्शन के अनुयायी रूप में, एक परिवान में, एकत्रित होते हैं। एक साथ लव्वक कहते हैं। वहाँ वतन की, राष्ट्र की, देश की, प्रदेश की सीमाएँ टूटती हैं। उनका कोई महत्व नहीं रहता। उनके लिये राष्ट्र की सीमाएँ कृत्रिम हैं, मानव कृत हैं। किन्तु मिल्लत, विश्व मुस्लिम राष्ट्र ओर छोरहीन है। राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों जीवनो का स्रोत एक ही है। एकेश्वरवाद के समान एक मिल्लत का नारा है। वह नारा राष्ट्रों की सीमा नहीं जानता।